

॥ राजविद्या ॥

श्रीशंकरोक्ता

प्रकाशकः—

रावराजा श्री गुलाबसिंहः ।

(ज्येष्ठपुत्र रावराजा श्री बड़े तेजसिंहजी साहब)

धन्वेशकः—

स्वामीलालपुरी शिवपुरी ।

संस्कृत पद्यरचयिता भाषानुवादकश्च—

प्रासस्वर्णपदक आशुकावि कविराज पं० रविदत्त
शास्त्री आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरिः

प्रबन्धको मुद्रकश्च ।

भट्टारक राजवैद्योपाध्याय पं० उदयचन्द्रः

उदयशार्द मुद्रणालयाध्यक्षः

योधपुरम् ।

प्रथमा वृत्तिः] विक्रम संवत् १९८९ { मूल्य ७) रु.
सजिल्द ८) रु.

* ॐ तत् सत् *

* धर्म-विज्ञान *

आवश्यक सूचना ।

श्रीभगवान्की अपार कृपासे 'धर्म-विज्ञान' नामक यह बृहत् ग्रन्थ समाप्त हुआ । जिस देशकालमें मैंने श्रीधर्मकल्पद्रुमको लिखा था उससे वर्त्तमान देश-कालकी गति सम्पूर्ण भिन्नरूप होनेके कारण मुझे यह नवीन पुस्तक लिखनी पड़ी है । इसमें धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, नैतिक आदि समस्त विषयोंपर धर्मकी पूर्ण मर्यादाको रखते हुए वर्त्तमान देशकालपात्रानुसार यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । इस ग्रन्थमें धर्मकल्पद्रुमके समस्त विषयोंका सारसंग्रह तो है ही, इसके अतिरिक्त पश्चिमी सायन्सके अनुसार इसमें समग्र विषयोंका विचार किया गया है, जिससे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जिज्ञासुओंके लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपकार साधन करेगा इसमें अशुभाश्रय सन्देह नहीं है । इसमें स्थान स्थान पर पश्चिमी विद्वानोंके विचार उद्धृत करके समस्त विषयोंकी पुष्टि की गई है और प्रत्येक विषय पर प्राच्य प्रतीच्य तुलनात्मक विचार द्वारा धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकारके विषय विवेचनको सर्वाङ्ग सुन्दर बना दिया गया है । धर्मकल्पद्रुमकी भाषा अनेक कारणोंसे कुछ कठिन तथा जटिल होगई थी, इस दोषका भी निराकरण करके 'धर्म-विज्ञान' की भाषाको सरल, मधुर तथा हृद्यग्राही बनानेका प्रयत्न किया गया है । आजकल जीवन संग्रामके विशेष बलवान् हो जानेके कारण हिन्दु प्रजामें अर्थ ज्ञेश बहुत कुछ बढ़ गया है । इसी कारण 'धर्म-विज्ञान' में धर्मकल्पद्रुमके प्रायः सभी विषयोंका सन्निवेश रहने पर भी इसका मूल्य बहुत ही कम रक्खा गया है । इत्यादि कारणोंसे क्या स्कूल, कालेज, महाविद्यालय, पाठशाला और क्या धर्मप्रेमी हिन्दुजनता सभीकी धर्म-पिपासाकी पूर्ण निवृत्ति धर्म-विज्ञानके द्वारा हो सकेगी यही आशा की जाती है । मैंने श्रीभगवान् नन्दनन्दनको स्मरण करके इस ज्ञानयज्ञका प्रारम्भ किया था, अतः उन्हींके राजीव चरणोंमें इसका फलाफल समर्पित है ।

ग्रन्थ छपनेके समय मेरे बाहर भ्रमणमें रहनेके कारण ग्रन्थमें कुछ अशुद्धियां रह गई हैं जिनका सशोधन आगामी संस्करणमें कर दिया जायगा ।

ग्रन्थकर्ता ।

धर्म-विज्ञान ।



विषय-सूची ।

विषय	पृष्ठ
आधुनिक विज्ञान और सनातनधर्म—	१-१८
विज्ञानका लक्षण	१
सायन्सकी पहुँच कहां तक है	२
सनातनधर्म विज्ञानविरुद्ध नहीं है	४
रिलिजन और धर्ममें प्रभेद	७
धर्मका व्यापक लक्षण	८
धर्मकी आवश्यकता	१२
देशसेवा और सनातनधर्म—	१८-३७
तीन प्रकारके देश और सेवारहस्य	१८
सनातनधर्म देशसेवाविरोधी नहीं है	२२
देशसेवामें सनातनधर्मका सर्वोच्च स्थान	२६
धर्महीन भौतिक विज्ञानसे देशकी हानि	३१
देशसेवामें धर्मकी नितान्त आवश्यकता ...	३५
स्वराज्य और सनातनधर्म—	३७-५६
स्वराज्यका नैसर्गिक अधिकार	३७
पूर्ण स्वराज्यका लक्षण	३६
स्वराज्य नाशके कारण	४५
संसारमें प्रजातन्त्र स्थापनके हेतु ...	४६
प्राचीन आर्यप्रजातन्त्रका दिग्दर्शन	५३
भविष्यद्वाराणी	५५
आचारमें वैज्ञानिक चमत्कार—	५७-९०
सायन्सके विषयमें पश्चिमी मत	५७
सदाचार महिमा	५८
प्रातःकालके आचारोंकी वैज्ञानिक भित्ति	६१
मध्याह्निककालके आचार	७०
अन्नके प्रभाव पर वैज्ञानिक विचार...	७५
भोजनमें स्पर्शदोष और दृष्टिदोष	७८
भोजनकी रीति	८१
मध्याह्निक विचार	८३
अपराह्न तथा रात्रिकृत्य	८७

विषय	पृष्ठ
नित्यकर्म—	१०-११८
नित्यकर्मकी वैज्ञानिक भित्ति .. .	६०
सन्ध्या रहस्य	६२
पञ्चमहायज्ञ वर्णन	६८
गायत्री महिमा	१०५
प्रणव महिमा	११०
श्राद्ध तर्पण—	११८-१४६
श्राद्धके व्यापक लक्षण .. .	११८
परलोकगत आत्माके आवाहन पर प्राच्यप्रतीच्य मत ...	१२१
श्राद्धका अलौकिक गूढ़रहस्य वर्णन	१२५
श्राद्धका सार्वभौम भाव	१३६
तर्पण विधि वर्णन	१४१
षोडश संस्कार—	१४६-१८८
संस्कारोंके सोलह अङ्ग तथा महिमा वर्णन .. .	१४६
गर्भाधानादि प्रत्येक संस्कारका वैज्ञानिकरहस्य वर्णन	१५१
चूड़ाकरणमें शिखारहस्य पर विचार	१५६
उपनयनरहस्य वर्णन	१६६
ब्रह्ममत और वेदमत संस्कार महिमा वर्णन .. .	१७१
आर्यविवाहसंस्कारकी विशेषता	१७७
अग्न्याधानादि अन्तिम चार संस्कार	१८५
शक्तिसञ्चय और आश्रमधर्म—	१८८-२२८
आश्रम चतुष्टयमें शक्ति सञ्चय विधि .. .	१८८
ब्रह्मचर्याश्रमके कर्त्तव्य	२००
विवाह और गृहस्थाश्रम	२१२
वानप्रस्थ और संन्यास	२२४
सतीधर्मरहस्य—	२२८-२९४
पातिव्रत्यके विषयमें प्राच्यप्रतीच्यमत .. .	२२८
स्त्रीप्रकृति और पुरुषप्रकृतिमें भेदनिर्णय ..	२३१
सतीत्वकी आवश्यकता	२३७
सतीधर्मरक्षाके उपाय	२४८
वैधव्य जीवनमें पवित्रता	२६०
स्त्रियोंका वैदिक संस्कार	२६८
अवरोध प्रथा	२७३
नियोग पर शंका समाधान	२८०
विधवा विवाह पर शंका समाधान	२८७

विषय	पृष्ठ
विवाहकाल निर्णय—	...
विवाहके पाँच उद्देश्य वर्णन	२१५—२३५
विवाहकाल पर विशेष विवेचन	२६५
बालविवाहसे स्त्रीपुरुषोंका 'हानिलाभ	३१३
ऋतुकाल तथा अधिकाउमरमें विवाहके विषयमें प्राच्यप्रतीच्यमत	३१८
वर्णविज्ञान और स्पृश्यास्पृश्यविचार—	३३५—४०७
जाति और 'अरा' का प्राकृतिक सम्बन्ध	३३५
वर्णविज्ञानकी व्यापकता	३४१
वर्णनाशसे जातीय हानि	३५४
वर्णविज्ञान पर पश्चिमी मतवाद	३५७
कलियुगमें वर्णविपर्यय	३६५
शुका समाधान	३७२
स्पृश्यास्पृश्य विवेक	३८२
आपत्कालमें वर्ण विचार	३६०
उपासनातत्त्व और मन्त्रशास्त्र—	४०७—४७७
आर्यशास्त्रमें उपासनाकी व्यापकता	४०७
देवताओंका स्वरूप	४१३
सगुण निर्गुण उपासना विवेचन	४२८
मूर्ति और प्राणप्रतिष्ठाके रहस्य	४३२
इष्टदेवदर्शनके उपाय	४३७
शुका समाधान	४४७
मन्दिरप्रवेशके विषयमें विधिनिषेध	४५३
वलिदान रहस्य	४६१
मन्त्रमहिमा	४६३
मूर्ति तथा मन्त्रके विषयमें वैदिक प्रमाण	४७३
भक्ति और योग—	४७७—५४६
भक्तिके लक्षण और महिमा	४७७
अष्टाङ्गयोगलक्षण	४६७
मन्त्रयोग	४६६
हृदयोग	५१०
लययोग	५१६
राजयोग	५२६
योगशक्तिके विषयमें प्राच्यप्रतीच्यमत	५४१
अवतार मीमांसा—	५४७—५८१
जीवजगत्में भगवत्कला विचार	५४७

विषय	पृष्ठ
वेदशास्त्रानुसार अवताररहस्य विवेचन ...	५५२
अवतार वर्णन ...	५५७
रामावतारके विषयमें शङ्का समाधान .	५६२
कृष्णावतारके विषयमें शङ्का समाधान ...	५७०
विशेष-अविशेष-नित्य अवतार ...	५७६
श्रीकृष्णचरित्ररहस्य— ...	५८१—६३५
प्रकट होनेके कारण ...	५८१
गोपियां कौन थी ...	५८७
महाभारत और भागवतके कृष्ण ..	५९०
कृष्णभगवान्की कर्मलीला ...	५९३
उपासनालीला ...	५९७
ज्ञानलीला .	६०१
कृष्णचरित्रपर शङ्का समाधान ...	६०६
गोपीचरित्र ...	६२६
ब्रह्म-ईश्वर-जीव-भायातत्त्व— ...	६३५—६६२
आत्मज्ञानकी आवश्यकता और आत्मविचार ...	६३५
निर्गुण ब्रह्मसत्ता निरूपण ...	६४५
ईश्वरसत्ता निरूपण .	६४८
जीवतत्त्व निरूपण ...	६५४
सृष्टि-स्थिति-प्रलयतत्त्व— ...	६६२—६९४
सृष्टि क्यों होती है ...	६६२
सृष्टिके विषयमें पश्चिमी मत ...	६६४
सृष्टिके विषयमें आर्यशास्त्रीय विचार ...	६७०
ज्योतिःशास्त्रानुसार ब्रह्माण्डवर्णन ...	६७५
मनुष्यादि सृष्टिवर्णन ...	६८०
प्रलयभेद वर्णन ...	६८६
परलोक और जन्मान्तरतत्त्व— ...	६९४—७३७
परलोकके अस्तित्वके विषयमें प्राच्यप्रतीच्यमत ...	६९४
जन्मान्तरकी सत्य घटना ...	७१२
प्रेतादि लोक तथा प्रेतजीवन वर्णन ...	७१४
नरकलोक और पितृलोक वर्णन ..	७२५
स्वर्गलोक वर्णन .	७३१
भूत प्रेतादि विषयक वैदिक प्रमाण ...	७३५
वेद-वेदान्त और दर्शनशास्त्र— ..	७३८—७८९
वेदाधिर्भाव तथा वेदकी पूर्णता वर्णन ...	७३८

विषय	पृष्ठ
वेदकी शाखाएँ तथा ब्राह्मणभाग पर विचार	७४६
वेदाङ्ग वर्णनमें ज्योतिष पर शङ्का समाधान	७५०
न्यायवैशेषिकादि सप्तदर्शनोका संक्षिप्तवर्णन	७५५
ज्ञानभूमिके अनुसार सप्तदर्शनसमन्वय	७८२
पौराणिक शङ्का समाधान—	७८९—८४२
पुराणकी उपकारिता तथा वैदिकत्व निरूपण	७८६
पौराणिक वर्णनोंके साथ भूगोलका सामञ्जस्य	७६२
पुराणोक्त विविध वर्ष तथा लोकोंका रहस्य	७६५
पुराणपर अश्लीलतादोष निराकरण	८०१
पुराणमें भाषा तथा भावकी विचित्रता	८०६
पुराण तथा इतिहासमें आर्यजातिका आदिवासस्थान निर्णय	८१७
पुराणमें व्रतोत्सव तथा तीर्थ वर्णन	८२८
गोमहिमा—	८४२—८५६
आर्यशास्त्रमें गोजातिका उच्चस्थान	८४२
गोमहिमाका हेतुनिर्णय	८४७
नवीन सायन्समें गोजातिका उपकारिता	८५२
गोवंशनाशके कारण	८५४
विज्ञानजगत्में नवीन चमत्कार—	८५६—८८३
गङ्गाजलके विषयमें चमत्कार	८५६
योनिपरिवर्तनके विषयमें चमत्कार	८६०
मृत सखीवनीके विषयमें चमत्कार	८६३
जड़में चेतनताके विषयमें चमत्कार	८६६
सामुद्रिकादिशास्त्रमें चमत्कार	८७२
रङ्ग और रोशनीके चमत्कार	८७७
उपवासमें चमत्कार	८८१
शिक्षाविषयों पर तुलनात्मक विचार—	८८४—९०१
शिक्षाका लक्ष्य और लक्षण	८८४
अपरा और परा विद्या	८८६
शिक्षाजगत्में शोचनीय परिवर्तन	८८८
आदर्शशिक्षाके चार भेद	८९३
धर्मशिक्षाका प्रयोजन	८९६
व्याख्यान-कला-कुशलता—	९०२—९१५
प्रचारकी प्राचीन रीति	९०२
वक्तृताका प्रयोजन और वक्ताके पाँच गुण	९०३
वक्ताके लिये आवश्यक बातें	९०६

❀ ॐ तत् सत् ❀

धर्म-विज्ञान ।

मङ्गलाचरण ।

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म
एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेना-
ऽहोरात्रान् संदधाम्यृचं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारम् ।

ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

आधुनिक विज्ञान और सनातनधर्म ।

आर्यशास्त्र तथा अन्य शास्त्रोंमें 'विज्ञान' शब्दके अनेक प्रकार लक्षण
ओर अर्थ बताये गये हैं । कोषकार अमरसिंहने "मोक्षे धीर्ज्ञानमित्याहुर्विज्ञान
शिल्पशास्त्रयोः" ऐसा कह कर वर्तमान शिल्पशास्त्रज्ञान तथा पश्चिमी सायन्सके
ज्ञानका ही 'विज्ञान' नाम दिया है । किन्तु उपनिषदादि शास्त्रोंमें अनुभवगम्य
विद्या तथा पराविद्याके अर्थमें 'विज्ञान' शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । यथा—

'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' बृहदारण्यक उ० ।

'विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः' कठोपनिषत् ।

'विज्ञानं प्रज्ञानम्' ऐतरेय आरण्यक ।

'विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति' छान्दोग्य उ० ।

'अज्ञानेनादृतं लोकं विज्ञानं तेन मुह्यति' ।

'विज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययम्' । कूर्म पु० २५ अध्याय ।

इन सब प्रमाणोंके द्वारा 'विज्ञान' शब्दका आत्मोपलब्धिमूलक ज्ञान, प्रपञ्चसे अतीत शुद्ध निर्विकल्प जान यही अर्थ प्रतिपादन किया गया है। 'ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वन्याभ्यशेषतः' (गीता ७।२) ऐसा कह कर श्रीभगवान्ने गीतामें अनुभवात्मक ज्ञानको ही 'विज्ञान' कहा है। अतः स्थूल सूक्ष्म दोनों अर्थोंमें ही 'विज्ञान' शब्दका प्रयोग होना है यह निश्चय हुआ। तथापि 'आधुनिक विज्ञान' कहनेसे आजकल लोग प्रायः अमरकोपके लक्षणानुसार आधिभौतिक सायन्स, पश्चिमी सायन्स, स्थूल शिल्प चमत्कार इत्यादि भावसे ही इस शब्दका ग्रहण करते हैं। अतः इस ग्रन्थमें भी 'विज्ञान' शब्दका प्रयोग स्थूल अर्थमें ही किया जायगा। इस प्रकार आधुनिक विज्ञानका धर्मक साथ क्या सम्बन्ध या भेदभाव है, इसीका तत्त्वनिर्णय करना वर्तमान प्रबन्धका आलोच्य विषय है।

चिन्ताशील पश्चिमी विद्वान् हर्वर्ट स्पेन्सरने विज्ञान शास्त्र और दर्शन शास्त्रका भेद निर्णय करते समय कहा है—

Science is partially unified knowledge and philosophy is completely unified knowledge अर्थात् वस्तुका समभावयुक्त केवल आंशिक, असम्पूर्ण ज्ञान सायन्सके द्वारा होता है, किन्तु उसका पूर्णज्ञान करानेवाला दर्शन शास्त्र ही है। सायन्सकी वास्तविक गति वस्तुज्ञानके विषयमें कितनी है इस विषयमें वैज्ञानिक परिडन डिन्ड्याल साहचने कहा है - Science understands much of the intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product, but science knows nothing of the origin or destiny of nature Who or what made the sun and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered (Fragments of Science Vol II) अर्थात् प्रकृतिराज्यके बीचके कुछ व्यापारोंको सायन्स प्रकट कर सकता है, किन्तु उसके आदि-अन्तका कुछ भी पता सायन्स नहीं लगा सकता है। सूर्यका उत्पत्तिकर्ता कौन है या कैसे सूर्य उत्पन्न हुआ? सूर्यकिरणोंको असीम शक्ति

किसने दी है ? अणु परमाणुओंको किसने बनाया और उन्हें अद्भुत, असीम कार्यकारिणी शक्ति किसने दी - इन विषयोंका कुछ भी रहस्यज्ञान सायन्सको नहीं है, उसने इस ओर हाथ तो बढ़ाया था, किन्तु असमर्थ ही रह गया । इसी प्रकार हर्वर्ट स्पेन्सर साहबने भी धर्म और सायन्सका समना वतानके प्रसङ्गमें कहा है—

If religion and science are to be reconciled, the basis of reconciliation must be this deepest, widest and certain of all facts—that the power which the universe manifests to us is utterly inscrutable (*First Principles*) अर्थात् धर्म और सायन्स इन दोनोंको यदि एकता करनी हो तो एकताकी यह निश्चित भित्ति होनी चाहिये कि समस्त विश्व में गूढ़ रूपसे निहित और समस्त विश्वमें प्रकाशमान समस्त विश्वके हेतुभूत कारणशक्तिको हम जान ही नहीं सकते । अर्थात् इस शक्तिको जानना सायन्सकी गानकौटिके बाहर है, अतः इसके छोड़े बिना, धर्म और सायन्सकी एकता नहीं हो सकती । इसी विषयका प्रतिपादन अन्य ग्रन्थमें भी किया गया है यथा—

“In the matter of evidence in psychological question, the sense perceptions, with which science naturally deals, are only second rate criteria and ought to be received with caution” “The closing of the external channels of sensation is usually the signal for the opening of the psychic and from all the evidence it would seem that the psychic sense is more extensive, acuter and in every way more dependable than the physical.”

Second Sight P 12 and 13 Sephantal

वस्तुनिर्णयमें ऐन्द्रियिक अनुभूति जो कि सायन्सका विषय है, कंचल असम्पूर्ण प्रमाण मात्र है और ऐसे प्रमाणों पर विशेष भरोसा भी नहीं करना चाहिये । वहिरिन्द्रियका पथ बन्द कर देने पर ही अन्तरिन्द्रियका मार्ग खुलता है और समस्त विचार द्वारा यही प्रतिपन्न हुआ है कि अतीन्द्रिय-सूक्ष्म-अनुभव,

ऐन्द्रियिक स्थूल अनुभवकी अपेक्षा अधिक व्यापक, तीव्र तथा निर्भर करने योग्य है । इन सब प्रमाणांके द्वारा तत्त्वनिर्णयराज्यमे आधुनिक विज्ञान की पहुँच कहाँ तक है सो स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है ।

आज दिन समस्त ससारमें सायन्सकी भरमार है । प्रकृतिका अनेक चमत्कार सायन्सके द्वारा प्रकाशित होनेसे सायन्सका आदर आजकल बहुत कुछ बढ़ गया है । किन्तु सायन्स 'कैसे' (how) के सिवाय 'क्यों' (why) को नहीं बता सकती है । प्रकृतिके नियम (Law of nature) विश्वससारमें उत्ताप, आलोक, सौदामिनीरूपसे या कठिन-तरल वायवीय वस्तु आदिके भेदसे 'कैसे' काम करते हैं इसीका चमत्कार बताना सायन्सका काम है । ऐसे चमत्कार 'क्यों' होते हैं, कौन अदृश्य, अलौकिक शक्ति कारणरूपसे सबके भीतर निहित रह कर प्रकृतिमाताकी ऐसी मनोहारिणी मूर्तिको जगज्जनोंकी नयन-रञ्जनी रूपसे प्रकट करती है, इसका पता सायन्सको अबतक नहीं लग सका है । इसका पता अध्यात्मशास्त्र (Philosophy) को प्राप्त है । स्थूल सूक्ष्म प्रकृतिकी लोलाको सायन्स और कारण प्रकृतिके अलौकिक रहस्यको अध्यात्म-विद्या प्रकट करती है । पश्चिम देशमें अब तक सायन्सका ही बहुत प्रचार हुआ है, अध्यात्मविद्याका नहीं । प्राचीन महर्षियोने सायन्स तथा अध्यात्म-विद्या दोनोंसे काम लिया था और इसी कारण आर्यशास्त्रमे लौकिक प्रकृतिराज्य तथा अलौकिक ब्रह्मराज्य दोनोंका तत्त्वनिरूपण उत्तम तथा पूर्ण रीतिसे किया जा सका है । वास्तवमे सनातनधर्म ही पूर्ण विज्ञानानुकूल (Scientific) धर्म है । क्योंकि यह कोई दस-बीस नियमोंसे जकड़ा हुआ 'मजहब' नहीं है । इसके अनन्त नियम हैं । जीव जगतमे जन्म लेकर परमात्मामे लय होने तक क्रमोन्नतिके पथमे चलनेके लिये अनेक जन्मोंमे स्वभावतः जिन नियमोंका आश्रय करता है, उन सभीकी समष्टि सनातनधर्ममे है । ये नियम प्रकृतिके निरन्तरमें कुछ और होते हैं, मध्यस्तरमे कुछ और होते हैं और उच्च, उच्चतर, उच्चतम स्तरोंमे कुछ विशेष ही होते हैं । ये सब प्रकृतिक नियम हैं और सायन्स भी प्रकृतिके नियमको (Law of nature) ही व्यक्त करती है । अतः सनातनधर्म सायन्स अनु-मोदित धर्म है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज दिन सायन्सजगत्मे जितनी उन्नति हो रही है और नव नव आविष्कार हो रहे हैं, उतने ही सनातन-धर्यान्तर्गत विषयोंकी सत्यता प्रमाणित हो रही है । आत्मा तथा पाण मनुष्यतर

जडजगत् तकमें व्याप्त है इसको विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र वसुने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है, असवर्ण विवाहसे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं इसको अमेरिकाके विज्ञानवित् परिषदोंने यन्त्र द्वारा रक्तपरीक्षा करके पूर्णरूपसे दिखा दिया है, मनुष्यकी तरह वृद्ध भी किस प्रकार सोते-जागते देखते-सुनते हैं इसका भी भूरि भूरि प्रमाण वसु महाशयने संसारके सामने प्रकट कर दिया है, गङ्गाजलमें किस प्रकार विषनाशिनी तथा रोगकीटाणुनाशिनी अद्भुत शक्ति है इसको इञ्जिनियर हैंकिन्स साहबने यन्त्रोंकी सहायतासे सबको दिखा दिया है, एक स्त्रीके अनेक विवाह होनेसे किस प्रकार उपदंश आदि दुरारोग्य रोग वशमें फैल जाते हैं इसको पूर्ण रूपसे हैम्ब्लक साहबने प्रमाणित कर दिया है। इत्यादि इत्यादि सनातनधर्मके सभी गूढ तत्त्व जिन्हें पूज्यपाद सत्यदर्शी, अनीन्द्रियदर्शी महर्षियोंने योगदृष्टि द्वारा प्रकट किये थे, उनकी सत्यता तथा चमत्कारिता आज सायन्सकी उन्नतिके साथ साथ निखिल विश्वमें परिख्यात हो रही है। इन सब विषयोंका प्रचुर वर्णन क्रमशः किया जायगा।

इन सब वर्णनोसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सायन्स सनातनधर्मसे भिन्न या विपरीत वस्तु नहीं है, किन्तु उसके एक अंशका प्रकाशक मात्र है। प्रकृतिके स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय ये चार विभाग होते हैं। इनमेंसे स्थूल विभागका और सूक्ष्मके कुछ अंशका प्रकाशन सायन्सके द्वारा होता है। बाकी सूक्ष्म, कारण, तुरीय इन तीनोंका प्रकाश करनेवाला अध्यात्म शास्त्र है। जहां पर प्रकृति पुरुषमें विलीन है और पुरुषसे उसकी भिन्नता प्रतीत नहीं होती है, उसका नाम तुरीय दशा है। जहां पर प्रकृति पुरुषकी शक्तिको पाकर ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र क्रमसे अनन्तविश्वकी जननी बनती है वह उसकी कारण दशा है। सूक्ष्मदशामें विविध दैवीशक्ति, विद्युत्शक्ति आदि रूपसे प्रकृतिका कार्य देखनेमें आता है, उनमेंसे विद्युत् शक्ति आदिके कार्यका पता सायन्सको लगा है अर्थात् सोदामिनी कैसे कैसे कार्य करती है सो सायन्स बता सकती है, किन्तु किस अचिन्त्य मौलिक शक्तिके प्रभावसे, क्यों इस प्रकारसे कार्य करती है, उसका पता सायन्सको अभी तक नहीं लग सका है। यही आधुनिक विज्ञान तथा अध्यात्म विद्यामें पार्थक्य है। इसी कारण कहा जाता है कि सनातनधर्म आधुनिक विज्ञानसे विपरीत वस्तु नहीं है। आधुनिक विज्ञान उसके एक अंशका प्रतिपादक है, बाकी वह अश तथा प्रकृतिके अन्य तीन अंश

और पद्यनिके परपारमें विराजमान सत्-चित्-आनन्दरूप परमात्मा सभीका प्रतिपादक, पथप्रदर्शक श्रोसनातनधर्म है । इसी प्रकारसे आधुनिक विज्ञान और सनातनधर्मका चिरन्तन सम्बन्ध सिद्ध किया गया है और इस तथ्यका पश्चिम देशके कतिपय विद्वानोंने स्वीकार भी किया है यथा—

“Religion and science are necessary correlatives They stand respectively for those two antithetical modes of consciousness which cannot exist asunder” *Spencer*.

Science is a part of religion. ‘Both astronomy and medicine’ says Weber ‘received their first impulse from the exigencies of religious worship’ The laws of phonetics were investigated because the wrath of the gods followed the wrong pronunciation of a single letter of the sacrificial formulas, grammar and etymology had the task of securing the right understanding of the holy texts Geometry was developed in India from the rules for the construction of alters All the astronomical knowledge of the Babylonians had as its ends the regulation of religious worship In Egypt the majority of the books relating to Science are sacred works, composed and revealed by the gods themselves

Spencer's Principles of Sociology Vol III

अर्थात् धर्म और सायन्सके भीतर आवश्यक सम्बन्ध विद्यमान है । वे यथाक्रम ऐसी दो अनुभूतिके उपायरूपसे रहते हैं जिनको पृथक् करना असम्भव है । सायन्स धर्मके एक अंशका प्रतिपादक है । वेबेर साहबका कहना है कि ज्योतिःशास्त्र और चिकित्साशास्त्र रूपी दोनो सायन्सका उत्पत्ति निदान धार्मिक पूजा व्यापार ही है । ध्वनिविज्ञानकी उत्पत्तिका कारण ही यह है कि वैदिकयज्ञमें वेदमन्त्रका दुष्ट उच्चारण होगया था । व्याकरण आदि शब्दशास्त्र धार्मिक पुस्तकोंके यथार्थ परिज्ञान करानेके लिये ही विरचित किये गये हैं । यज्ञवेदी निर्माणके नियमोंके आधार पर ही ज्यामिति नामक विज्ञान शास्त्रकी उन्नति हुई है । धार्मिक उपासनाकी व्यवस्थाके लक्ष्यसे ही वेविलोनियन

जातिने ज्योतिषका ज्ञान लाभ किया था । मिश्रदेशमें सायन्सविषयक जितनी पुस्तकें हैं उनमेंसे प्रायः सभी देवनाओंके कहे हुए पवित्र ग्रन्थ नामसे प्रसिद्ध हैं । इस प्रकारसे पश्चिमी तथा एनदेशीय विद्वानोंने धर्म, सायन्स और अध्यात्मशास्त्रका पृथक् पृथक् स्थान निर्देश करके इन दोनोंका परस्पर अभिन्न सम्बन्ध बता दिया है । अब धर्म क्या वस्तु है इसीका तत्त्वनिर्णय किया जायगा ।

पश्चिम देशके लोग धर्मको रिलिजन (religion) कहते हैं । किन्तु रिलिजन शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थसे आर्यशास्त्र वर्णित 'धर्म' की पूर्ण लक्षण चरितार्थ नहीं होता है । रिलिजन शब्द re-back, ligo-to bind, that which binds one back from doing wrong अर्थात् जो शक्ति मनुष्यको पाप करनेसे बचावे इसी भावका द्योतक है । नैतिक जीवनको उत्तम बनाना-पश्चिमी रिलिजन शब्दसे यही अर्थ निकलता है । किन्तु आर्यशास्त्रवर्णित 'धर्म' शब्दका तात्पर्य इससे बहुत व्यापक है । धर्म शब्द 'धृ' धातुसे बनता है जिसका अर्थ यह होता है कि 'जो शक्ति चराचर समस्त विश्वको धारण करे उसीका नाम धर्म है' । धर्मकी सर्वतोव्याप्त शक्ति जड़ चेतनात्मक समस्त विश्वकी रक्षा करती है । 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा' यह तैत्तिरीय आरण्यकका मन्त्र है । अर्थात् समस्त विश्वकी स्थिति धर्मके द्वारा ही होती है । आर्यशास्त्रमें ब्रह्माण्डके रक्षक विष्णुकी मूर्ति धर्ममूर्ति कही गई है । 'यज्ञो वै विष्णुः' 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' इत्यादि श्रुति इसी अर्थका बोधक है । श्रीभगवान् धर्ममूर्ति विष्णु धर्मकी रक्षाके लिये समस्त विश्वमें व्याप्त रहते हैं । यथा ऋग्वेदसहिता १।१।२२।१८ "त्रोणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्" । अनन्तशक्तिधारी विश्वरक्षक विष्णु धर्मकी रक्षाके लिये तीन चरणसे तीनों लोक व्याप्त किये हुए रहते हैं । धर्मकी मूर्ति विष्णुमूर्ति है इस लिये उन के चार हाथ होते हैं । उनका चक्रयुक्त हाथ धर्मका, गदायुक्त हाथ अर्थका, कमलयुक्त हाथ काम (शिल्पकला) का और शखयुक्त हाथ मोक्षका देनेवाला है । क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण इन चार वर्णोंके साथ यथाक्रम उन चार हाथोंका सम्बन्ध है । इसी कारण आर्यशास्त्रमें धर्मसे बाहर कोई वस्तु नहीं है । पश्चिम देशमें लड़ना, शत्रुओंको मारना युद्धविद्या है, किन्तु आर्यशास्त्रमें यह क्षत्रिय धर्म है । वहां की राजनीति यहां का राजधर्म है । वहांका वाणिज्य, व्यापार, अर्थसमूह आदि यहांका वैश्यधर्म है । वहांकी कारीगरी

शिल्प कलाकौशल यहाँका शूद्रधर्म है । इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें धर्म और अधर्मके सिवाय कोई तीसरो वस्तु नहीं बताई गई है । यही धर्मको व्यापकताका लक्षण है । धर्महीन पश्चिमो शिक्षाके फलमे आजकल हम धर्मक इस व्यापक लक्षणका भूलकर उसे अनिसकीर्ण 'रिलिजन' या मजहब समझ बैठे हैं यह हमारी बड़ी भारी भूल है ।

अब भगवान् श्रीकृष्ण तथा महर्षि कणाद कथित धर्मलक्षणके विषयमें बनाया जाता है । महाभारतके कर्णपर्वमे श्रीभगवानने कहा है—

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः ।
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥

धारण करता है इसलिये धर्मको धर्म कहा गया है, धर्म प्रजाओंको धारण करता है, जो धारण करनेको योग्यता रखता है वही धर्म है ।

ईश्वरको जो अलौकिक शक्ति सम्पूर्ण ससारकी रक्षा करनी है, उसीका नाम धर्म है । जो शक्ति पृथिवीके भीतर व्यापक रहकर पृथिवीमें पृथिवीपन बनाये रखती है, जो शक्ति जलमे रहकर जलका जलत्व और उसकी तरलता सम्पादन करती है, जो शक्ति तेजमें रहकर उसकी उष्णताकी रक्षा करती है, जिस शक्तिके न रहनेसे पृथिवी, जल या तेज रूपमें पलट जाती अथवा तेज कठिन और वजनदार हो जाता, आज पृथिवी रूपमें है कल वह आकाश रूपमें या आकाश ही पृथिवीके समान स्थूल दिखाई देता, जो शक्ति इस पञ्चभूतको एवं मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और ग्रह नक्षत्र आदि पाञ्चभौतिक पदार्थोंको अपने अपने स्वरूपमे स्थित रखे, उसी शक्तिको धर्म कहते हैं ।

इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रत्येक वस्तुमें तथा प्रत्येक अणु परमाणुके भीतर आकर्षण और विकर्षण नामकी दो शक्तियाँ हैं । इन दोनोंकी समानताके कारण ही इस असीम शून्य महाकाशमें वर्तमान अनन्त ब्रह्माण्डोंमें अनन्त सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षामें घूमते हुए कभी कोई अपनी कक्षासे गिरकर दूसरे ग्रहादिके साथ टकर नहीं खाते हैं, जलमय चन्द्रलोक तेजोमय सूर्यलोकमें प्रवेश करके नष्ट नहीं होता है अथवा बड़ा ग्रह छोटे ग्रहको अपने भीतर खींचकर नष्ट नहीं करता है । जो ईश्वरकी शक्ति इस प्रकारसे आकर्षण

और विकर्षण दोनोंकी समानता रखकर सृष्टिके सब पदार्थोंकी रक्षा करती है, वही धर्म है ।

संसारमें धर्मकी इस धार्मिक शक्तिका प्रभाव दो रूपोंमें दिखाई देता है, एक, एक पदार्थको दूसरे पदार्थसे पृथक् रखकर उसको ठीक अपनी अवस्थामें रखना और दूसरा, क्रमशः उन्नति कराकर पदार्थको पूर्णताकी ओर ले जाना ।

क्रमाभिव्यक्ति (क्रमशः प्रकट होना) के नियमसे जीवभावका विकास उद्भिज्जसे आरम्भ होता है और क्रमशः स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज पशु आदि योनियोंको पारकर मनुष्ययोनिमें पूर्ण हो जाता है । प्रत्येक जीवमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय, ये ही पांच कोष या पांच विभाग हैं । इन पञ्चकोषोंके विकासके तारतम्यसे ही वृद्ध और मनुष्यमें इतना भेद है । उद्भिज्जमें केवल अन्नमय कोषके विकाससे ही ऐसी शक्ति देखनेमें आती है कि केवल शाखा (डांड) रोपनेसे वृद्ध बन जाता है । स्वेदजमें अन्नमय और प्राणमय कोषोंका विकास है । प्राणमय कोषका विकास होनेसे ही स्वेदज कीट आदिमें अनेक प्राणक्रियाएँ देखनेमें आती हैं । जैसा कि रोगके कीटसे शरीरमें रोग उत्पन्न होकर देशभरमें महामारीका फैल जाना और रुधिरमें शुक्लकीटकी प्रवलनासे रोगका विनाश होना इत्यादि । अण्डजमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोषोंका विकास है, मनोमय कोषके विकास होनेसे ही साधारण पक्षियोंमें अपने बच्चोंके साथ स्नेह करना अथवा कबूतर एवं चक्रवाक (चक्रवा) आदि विशेष पक्षियोंमें वाग्मत्यप्रेम आदि देखनेमें आते हैं जो मनोवृत्तिके स्पष्ट लक्षण हैं । जरायुज पशु आदिमें विज्ञानमय कोषका विकास होनेसे ही घोड़ा, हाथी और कुत्ते आदिमें स्वामीकी भक्ति आदि बुद्धिकी अनेक वृत्तियोंका परिचय मिलता है । मनुष्यमें पाँचों कोषोंका विकास है । आनन्दमय कोषका विकास होनेसे ही मनुष्य हंस कर अपने मनका आनन्द प्रकट कर सकता है । और और जीवोंमें आनन्दमयकोषके रहने पर भी उनमें उसका विकास नहीं है इसलिये वे हंस नहीं सकते । जीव कोष-विकासके अनुसार उद्भिज्जसे स्वेदज, स्वेदजसे अण्डज, अण्डजसे जरायुज पशु आदि, और पशु आदिसे मनुष्य योनिमें आता है । वहाँ भी क्रमशः असभ्यसे अनाथ्य, अनाथ्यसे आर्य्य शूद्र, शूद्रसे वैश्य, वैश्यसे क्षत्रिय, क्षत्रियसे ब्राह्मण, ब्राह्मणमें भी मूर्ख जातिमात्रोपजीवी ब्राह्मण,

उससे कर्मी ब्राह्मण, उससे विद्वान् ब्राह्मण, विद्वान्से तत्त्वज्ञ, तत्त्वज्ञसे आत्मज्ञ ब्राह्मण होकर पञ्चकोषोंके विकाशकी पूर्णताको लाभ करता है, उसके बाद आत्मज्ञानको प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाता है । जीवकी यह क्रमोद्ध्वगति या जीवभावका क्रमविकाश धर्मका ही कार्य्य है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जिस शक्तिने जीवको जड़से पृथक् कर रक्खा है और जो प्रत्येक विभिन्न-जीवकी स्वतन्त्र सत्ताकी रक्षा कर रही है एवं जो शक्ति वृक्ष आदि स्थावरसे लेकर जीवको क्रमशः उन्नत करती हुई अन्तमें मोक्षप्राप्त करा देती है, उसी एकमात्र व्यापक शक्तिका नाम धर्म है । इसलिये वैशेषिक दर्शनके कर्ता महर्षि कणादने कहा है कि—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

जिससे ऐहिक तथा पारलौकिक अभ्युदय और मोक्ष प्राप्त हो, वही धर्म है ।

अज्ञान और बुद्धिका विकाश न होनेके कारण उद्भिज्ज आदि मनुष्यसे नीचेके सब जीव प्राकृतिक नियमके आधीन रहकर क्रमशः उन्नत होते हैं । किन्तु मनुष्ययोनिमें आकर जीव स्वाधीन हो जाता है और प्रकृति पर आधिपत्य जमाकर उसके नियमोंको तोड़ने लगता है । पशु आदि जीव, आहार निद्रा भय और मैथुन विषयमें प्राकृतिक नियमके सर्वथा आधीन होकर चलते हैं । वे कभी भी समयके नियमका उल्लङ्घन नहीं करते हैं । मनुष्य स्वतन्त्र होनेसे उस नियमको तोड़ देता है और इस प्रकारकी स्वाधीनताके कारण ही प्राकृतिक नियमभङ्ग होनेसे प्रकृतिका जो क्रमोन्नतिकारी प्रवाह है, जिसने जीवको उद्भिज्जसे लेकर क्रमशः उन्नत करता हुआ मनुष्ययोनितक पहुँचा दिया था, वह प्रवाह मनुष्ययोनिमें आकर बाधाको प्राप्त होता हुआ फिर नीचेकी ओर लौटने लगता है । जिस शक्तिके द्वारा निम्नगति बन्द होकर क्रमशः प्रवाह वे रोक टोक ऊपरकी ओर बहता रहे और जिसका अवलम्बन करके जीव मनुष्ययोनिमें प्राप्य मुक्तिपदको पा सके, वही धर्म है । जीव मनुष्ययोनिमें धर्मके आश्रयसे प्रकृतिके अनुकूल चलकर प्रकृतिकी क्रमोन्नतिशील धारामें अपनेको अनायास छोड़ देता हुआ धीरे धीरे शूद्रसे वैश्य, वैश्यसे क्षत्रिय, क्षत्रियसे ब्राह्मण, ब्राह्मणमें भी विद्वान्, कर्मी, तत्त्वज्ञ एवं आत्मज्ञ होकर अन्तमें

मोक्षको प्राप्त होता है । यही चेतन जगत्में अभ्युदय और निःश्रेयस देनेवाला प्रकृतिके अनुकूल धर्मका अनुशासन है । इसी प्रकारसे धराधारिका धर्मशक्तिके द्वारा जड़चेतनसम्बन्धी विशेष धारण क्रिया सम्पन्न होती है ।

विश्वको धारण करनेवाली यह शक्ति नित्य है, इसी कारण धर्मका नाम सनातनधर्म है । यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, ज्ञान आदि इसके अनेक अङ्ग होते हैं । सनातनधर्मके अङ्गों और उपाङ्गोंके विस्तार पर जब विज्ञानवित् पुरुषगण ध्यान देते हैं तो उनको प्रमाणित होता है कि सनातनधर्मके किसी न किसी अङ्गोपाङ्गकी सहायतासे पृथिवी भरके सब उपधर्म, पन्थ और सम्प्रदायों को धर्मसाधनोंकी सहायता प्राप्त हुई है । इसी मूल धर्मके आधार पर शाखा प्रशाखा या इसकी छायारूपसे ससारके सभी 'मजहब' बने हैं । जङ्गली कोल भील आदि जातियोंकी भूतप्रेत-उपासना भी इसके भीतर है, जापानियोंकी पितृ पूजा भी इसी धर्मके भीतर है, प्राचीन रोमन कैथोलिककी एञ्जेल (Angel) उपासनारूपसे देवोपासना तथा पारसियोंके जोरोस्तार (Zoroastrian) धर्मान्तर्गत समुद्र अग्नि आदि त्रिभूतिउपासनारूपसे देवोपासना भी इसीके भीतर है । महम्मदीय और ईसामसीय भक्तिप्रधान उपासना भी इसीकी छायामें बनी हुई है । बौद्धों तथा जैनोकी बुद्धदेवपूजा, ऋषभदेवपूजा आदि तथा तीर्थङ्करपूजा अवतारोपासनारूपसे इसीके भीतर है । शाक्त, शैव, वैष्णव आदि साम्प्रदायिकजनोंकी पञ्चदेवोपासना भी इसीके भीतर है । सिख आदि नानक-पथियोंकी गुरुपूजा भी विभूतिपूजा तथा अवतारोपासनारूपसे इसीके भीतर है और राजयोगपरायण वैराग्यवान् साधककी निर्गुण निराकार अन्तिम ब्रह्मपूजा भी इसीके भीतर है । अतः जब सभी 'मजहब' इसीके भीतर आये तो सनातनधर्मको छोड़कर अन्य मजहबोंमें फंसना और फसकर सनातनधर्मकी ही निन्दा करना अब्रहानमात्र है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । मनुष्य इसी मूलधर्मकी शरणमें रहकर अपने अपने अधिकारके अनुसार सभी प्रकार उन्नति इसीके द्वारा कर सकता है । पूर्ण भवरोगवैद्य महर्षियोंने इस धर्मके भीतर किसी भी रोगका इलाज याकी नहीं छोड़ा है । केवल उनपर विश्वास रखनेसे सभी अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सकते हैं ।

अब धर्मकी आवश्यकताके विषयमें कुछ बताया जाता है । बृहदारण्यकोपनिषद् चतुर्थ ब्राह्मणमें इस विषयमें एक सुन्दर मन्त्र मिलता है, यथा—

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूवेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च । स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्म तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्दर्मस्तस्माद्दर्मात्परं नास्त्यथ अवलीयान् वलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वै स धर्मः ।”

प्रथम सृष्टिके समय सब ब्राह्मण थे, अन्य वर्ण नहीं थे । उससे काम नहीं चला । इसलिये परमात्माने पालनादि कार्यके लिये क्षत्रिय-वर्णकी उत्पत्ति की, जो पृथिवीमें क्षत्रिय नामसे कहे गये और दैवजगत्मे इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान इत्यादि नामसे अभिहित हुए । फिर भी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्णसे भी काम पूरा न चला, क्योंकि, रक्षार्थ अर्थोपार्जनकी आवश्यकता हुई । इसलिये परमात्माने वैश्य-वर्णकी उत्पत्ति की, जो मनुष्यलोकमें वैश्य कहलाते हैं और दैवजगत्मे 'गण' नाम प्राप्त करते हैं । देवताओंमें वैश्य यथाः—अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, त्रयोदश विश्वेदेवा और उनचास मरुत्गण । तदनन्तर उससे भी सब काम नहीं चला । तब सेवाके लिये परमात्माने शूद्र-वर्णकी उत्पत्ति की, दैवलोकमें पोषणकारिणी पृथिवी इस वर्णके अन्तर्गत है और मनुष्यलोकमें शूद्रजाति है । इस प्रकारसे चार वर्णोंकी सृष्टि करने पर भी व्यवस्था नहीं चली । यथेष्ट वृत्ति सबमें बनी रही, कोई किसीका सञ्चालक नहीं रहा । क्षत्रिय प्रबल होकर दुर्बल अन्य जातिको पीड़ित करने लगे । अन्य जातियोंमें भी यथेच्छान्चार फैलने लगा । तब परमात्माने चार वर्णके ही सञ्चालक-रूपसे धर्मरूपी महाशक्तिकी उत्पत्ति की, जिसकी अधीनतामें रहकर चारों वर्णों ठीक ठीक अपना अपना कर्म करने लगे और संसारकी सब व्यवस्था ठीक ठीक हो गई । इस प्रकारसे श्रुतिने विश्वके चालकरूपसे धर्मकी ही महिमा वर्णन की है ।

आर्यशास्त्रमें मनुष्यजीवनके समस्त पुरुषार्थके चार लक्ष्य बताये गये हैं, यथा—काम, मर्थ, धर्म और मोक्ष । वास्तवमें मनुष्य संसारमें उत्पन्न

होकर जो कुछ करता है सभीका लक्ष्य इन चारोंमेसे कोई न कोई होता है। इसी कारण आर्यशास्त्रमे साधनाके सभी अधिकारानुसार ये ही चार लक्ष्य बताये गये हैं। कोई साधक धर्मलक्ष्य करके भगवान्की उपासना करता है, कोई अर्थ प्राप्तिके लिये उनकी पूजा करता है, कोई कामना सिद्धिके लिये भगवद्भक्त बनता है और कोई मोक्ष प्राप्तिके अर्थ परमात्माकी आराधनामें रत रहता है। भगवान् अपने चारों हाथोंसे अधिकारानुसार अपने आर्त्त, अर्थार्थी आदि सभी प्रकारके भक्तोंको चतुर्वर्ग प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चतुर्वर्ग प्रदानके लिये ही उनके चार हाथ हैं। उनका चक्रयुक्त हस्त धर्मका देनेवाला है, शङ्खयुक्त हस्त मोक्ष प्रदाता है, गदायुक्त हस्त अर्थको देता है और सकमल हस्त कामद है। इसी प्रकार शिवरूपमे भी 'परशुमुगवराभीति' हस्तोंसे भगवान् चतुर्वर्ग ही देते हैं। परशुधारी हस्त अर्थप्रद है, मृगयुक्त हस्त काम प्रदाता है, वर मुद्रायुक्त हस्त वरणीय धर्मका देनेवाला है और अभयमुद्रायुक्त हस्तसे भवभयनाशकारी मोक्षको प्राप्ति होती है। अतः सिद्ध हुआ कि जगत्मे चतुर्वर्ग ही सकल जीवोंके सकल पुरुषार्थका लक्ष्य होता है। कर्म तथा अधिकारके तारतम्यानुसार लक्ष्यमे भी तारतम्य होता है। इसी कारण कोई व्यक्ति या जाति अर्थ या कामको लक्ष्य करके पुरुषार्थ करती है और कोई व्यक्ति या जाति धर्म मोक्षको लक्ष्य करके पुरुषार्थ करती है। उपनिषद्में लिखा है "यदा वै करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति नासुखं लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति" अर्थात् सुखहीको लक्ष्य करके जीवकी सकल चेष्टा होती है। दुःखके लिये किसीकी भी कोई चेष्टा नहीं होती है। अतः धर्मार्थकाममोक्षमेसे किसी वर्गमें भी प्रवृत्ति सुखके लिये ही होती है। अर्थकामलक्ष्यपरायण जाति अर्थ काममे ही परमसुख मानकर उसीके लिये पुरुषार्थ करती है। धर्ममोक्षलक्ष्यपरायण जाति धर्म मोक्षमें ही आत्यन्तिक सुख जानकर उसीके लिये पुरुषार्थमे प्रवृत्त हो जाती है। लक्ष्य सुखलाम करना सभीका है केवल अधिकार तथा विचार तारतम्यानुसार ही पुरुषार्थ प्रवृत्तिमे तारतम्य दृष्टिगोचर होता है।

पूज्यपाद दूरदर्शी प्राचीन आर्य्यमहर्षियोंने अनेक विचार करके अर्थ कामकी अपेक्षा धर्ममोक्षको ही श्रेष्ठतर लक्ष्यरूपसे निर्णय किया है और इसी लिये आर्य्यजातिके आत्यन्तिक सुख साधन तथा जातीय लक्ष्यरूपसे धर्ममोक्षको ही बताया है। उन्होंने अर्थकामके प्रति आर्य्यजातिको उपेक्षा करनेका उपदेश

नहीं दिया है। वेदके सहिता तथा ब्राह्मणभागमें अर्थकामप्रधान प्रवृत्तिमार्गका ही इसलिये वर्णन है। महर्षियोंने केवल अर्थकामके लिये ही अर्थकामकी सेवा न करके धर्मात्कूल अर्थकामकी सेवा करनेको कहा है ताकि धर्मरहित अर्थकामका जो दुःखमय परिणाम है सो जीवको प्राप्त न होकर धर्मात्कूल अर्थकामके द्वारा अन्तमें आनन्दमय मोक्षपदमें जीवकी प्रतिष्ठा हो। यही उनके इस प्रकार उपदेश करनेका तात्पर्य है और यह तात्पर्य कितना गंभीर, दूरदर्शिता तथा सत्यदर्शितासे पूर्ण है सो अर्थकामलक्ष्यके विषयमें धीर होकर थोड़ा विचार करनेसे ही पता लग जायगा। अर्थकाम जीवके चित्तमें विषयवासनाको उत्पन्न करता है। जीव अर्थकामका दास होकर इन्द्रियसुखके लिये उन्मत्त हो जाता है। विषयवासनाका स्वरूप यह है कि—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

(मनुसंहिता २ अ०)

विषयभोगके द्वारा विषयवासना निवृत्त नहीं होती है, किंतु घृतपुष्ट अग्निकी तरह उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहती है। इसलिये जिस जातिमें अर्थकाम ही लक्ष्य है, धर्मात्कूल अर्थकाम लक्ष्य नहीं है वह जाति वासनाका दास बनकर उसीकी तृप्तिके लिये ससारमें किसी प्रकारके अधर्माचरणमें भी संकोच नहीं करती है। काञ्चनमें आसक्त जीव मिथ्या, प्रतारणा, चोरी, कपट व्यवहार, दूसरेको ठगना, नरहत्या आदि सभी पापकर्मके द्वारा अर्थसंग्रहमें रात दिन व्यग्र रहता है। काममें आसक्त जीव उससे भी अधिक पशुभावको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक तो कामसेवाके द्वारा कामाग्नि बढ़ती ही रहती है, दूसरा कामसुख मनका अभिमानमात्र होनेसे नवीन भोग्यवस्तुमें कामुक स्त्रीपुरुषको अधिक सुखकी प्रतीति हुआ करती है। इसलिये जिस जातिमें धर्महीन काम ही लक्ष्य है वहाँके स्त्रीपुरुषोंमें व्यभिचारका विस्तार होना स्वतः सिद्ध है। इसीसे विचारवान् पुरुष समझ सकते हैं कि धर्महीन अर्थकामपरायण जातिकी अन्तिम दशा क्या होगी। अर्थलोलुप बनकर सम्पत्ति संग्रहके लिये दूसरोंकी सम्पत्ति तथा दूसरोंका धन उन्हें ठगकर या उनसे लड़कर लेनेकी स्वभावतः ही इच्छा होगी। कामका दास बनकर परस्त्रीके छीननेकी या दूसरेको वञ्चना करके लेनेकी स्वतः ही इच्छा होगी। फल यह होगा कि

अर्थकामपरायण जातिके भीतर अन्तर्विवाद, परस्परमें कलह, प्रतारणा और संग्राम सदा ही बना रहेगा और यह दोष जब समस्त जातिके भीतर फैल जायगा तो ऐसी जाति दूसरी जातिका सम्पत्ति हरण अथवा बलात्कारसे युद्धादि द्वारा सम्पत्ति आत्मसात् करनेकी चेष्टा करेगी । इसीसे जातीय संग्राम या जातीय महासमर भीषणरूपसे प्रवृत्त होकर जातीय शान्ति, जातीय प्रेम सभीको प्राप्त कर लेगा । यूरोपका महासमर इसी धर्महीन अर्थकामपरायणताका ही विषमय परिणामस्वरूप था और जबतक समस्त संसारमें धर्ममूलक अर्थकाम संग्रहकी प्रवृत्ति नहीं होगी तबतक बीच बीचमें इस प्रकारका संग्राम सर्वथा अपरिहार्य है । क्रुद्धोत्रका महासमर जिसके तीव्र अनलमें चिरकालके लिये भारतीय वीरता भस्मीभूत हो गई है, वह भी कौरवोंकी धर्महीन अर्थकामपरायणताका ही चरम परिणाम था । अर्थकाम तथा राजसिक शक्तिके मदमें उन्मत्त होकर दुर्योधनने जब धर्मकी कुछ भी परवाह नहीं की और कपटता, प्रवञ्चना तथा घोर अधर्मका आश्रय लेकर धार्मिक पाण्डवोंको अनन्त दुःख दिया तभी क्रुद्धोत्रका महासमर प्रारम्भ हुआ था । इसी प्रकारसे जगत्प्रसिद्ध प्राचीन रोमन जातिका भी विनाश धर्महीन अर्थकाम सेवाके द्वारा हुआ था । यूरोपके नाना देशोंपर अधिकार विस्तार करके सम्पत्ति तथा प्रभुताके मदमें अत्यन्त उन्मत्त होकर रोमनजातिमें विषय लालसा बहुत बढ़ गई थी । अति घृणितरूपसे कामसेवा, व्यभिचार, पशु तकके साथ अप्राकृतिक इन्द्रिय ससर्ग ये सब उनके सामाजिक आचारमें परिगणित तथा निर्दोष आनन्दके उपादान माने जाने लग गये थे । प्रकाश्य थियेटर आदिमें स्त्रीपुरुष मिलकर इन सब वीभत्स नारकीय दृश्योंको करने और देखने लग गये थे । तभी पापके गुरुभारसे वसुन्धरा कांप उठी थी और भीषण भूकम्पके द्वारा इटाली देशका अधिक अंश विध्वस्त हो गया था । और पश्चात् इसी अर्थकाममूलक महापापके फलसे रोमन जाति स्वाधीनताच्युत, विदेशीय जातिके द्वारा विदलित और नष्ट भ्रष्ट हो गई थी । यही सब धर्महीन अर्थकामपरायणताका अवश्यम्भावी कुपरिणाम है । इसी कारण दूरदर्शी प्राचीन महर्षियोंने आर्य्यजातिके लिये अर्थकामको लज्य न बताकर आत्माको लज्य बताया है और धर्मानुकूल अर्थकाम सेवा द्वारा अन्तमें मोक्षपदवीपर प्रतिष्ठा हो उसी आत्माराम अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये उपदेश किया है ।

पहले ही कहा गया है कि “सुखार्थाः खलु भूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः” अर्थात् जीवकी यावतीय चेष्टा सुखलाभके लिये ही होती है । इस कारण अदूरदर्शी जीव अर्थकामकी भी सेवा सुखलाभसासे ही करता है । किन्तु ऊपर लिखित वर्णनोंसे स्पष्ट होगा कि अर्थकाम जीवको वास्तवमें सुख न देकर अन्तमें घोर दुःखानलमें ही दग्ध करता है । शास्त्रमें त्रिगुणभेदसे जो तीन प्रकारके सुख बताये गये हैं उनमें अर्थकामजन्य सुख राजसिक तामसिक है । राजसिक सुखका लक्षण यह है कि—

विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥

विषयके साथ इन्द्रियोंके संयोगसे राजसिक सुख उत्पन्न होता है, वह प्रथमतः अमृतकी तरह होनेपर भी परिणाममें विषवत् दुःखदायी तथा प्राणघातक है । पूज्यपाद महर्षियोने शास्त्रोमे भलीभांति इस बातको सिद्ध कर दिखाया है कि मोक्षको तो बात ही नहीं है, धर्मको अपने सम्मुख न रखकर केवल अर्थ और कामके लिये जो अर्थकामका सग्रह जीव करता है, उससे उपस्थित राजसिक और तामसिक सुख कुछ होनेपर भी अन्तमें वह व्यक्ति अवश्य ही घोर नरकका अधिकारी होता है इसमें कुछ भी सदेह नहीं है । विषयसुखमें दुःख क्या है इस विषयमें भगवान् पतञ्जलिने योगदर्शनमें कहा है—

“परिणामतापसहकारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ।”
विषयसुखके साथ परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख आदि अनेक प्रकारके दुःख होने से विवेकी पुरुषके निकट विषयसुख दुःखरूप है । चित्तकी शान्ति ही सुखका कारण है, किन्तु विषयसेवा द्वारा विषयस्पृहा पुनः पुनः बलवती होकर चित्तको कदापि शान्त होने नहीं देती है इसलिये भोगकालमें भी भोगीका चित्त भोगमुग्ध तथा चंचल होकर दुःखी ही रहता है । मन चंचल रहता है किन्तु इन्द्रियाँ शक्तिहीन होकर काम नहीं देती हैं, भोगान्तमें प्रतिक्रिया द्वारा समस्त शरीर तथा मन अवसन्न, क्लान्त, मृतवत् होकर अगाध दुःख तथा अतृतापके समुद्रमें डूब जाता है, वासनाकी शान्ति नहीं, किन्तु उसकी तृप्तिके पहले ही शरीर भोगपरिणाममें अवश्यम्भावी अति कठिन रोगोंके द्वारा प्रस्त

हो जाता है, जिससे अकाल मृत्यु, अति कष्टप्रद मृत्यु आदि सभी दुःख जीवको प्राप्त होते हैं—यही सब विषयसुखके साथ अवश्य भोक्तव्य परिणामदुःख है । भोगदशा में समभोगी या अधिकभोगीको देखकर ईर्ष्याद्वारा महान् तापदुःख भोगीको प्राप्त होता है । और अन्तमें भोगमें असक्त वृद्धावस्थामें भोग्यवस्तुओंका स्मरण करके सस्कारदुःख होता है । इस प्रकारसे विषयसुखके साथ परिणाम दुःख, तापदुःख तथा सस्कारदुःखका नित्य सम्बन्ध होनेसे विचारवान् पुरुषगण विषयसुखको दुःखरूप ही समझते हैं । जब राजसिक विषयसुखके साथ ही इतना है तो उसके नामसिक हो जाने पर प्रमाद, मोह आदि द्वारा विषयसुख कितना दुःखप्रद होगा इसका धारण नहीं हो सकता है । द्वितीयतः केवल इहजन्ममें ही विषयसुखसहचर दुःखकी समाप्ति नहीं होती है । उसका संस्कार कर्माश्रयमें एकत्रित होकर मृत्युके समय, मृत्युके अनन्तर प्रेतदियोनि, तथा नरकादिमें पुनः पुनः जन्म मरणमें जीवके लिये अशेष दुःखका कारण बनता है । आजीवन सेवित विषयको जीव मृत्युके समय छोड़ नहीं सकता है, किन्तु भोगसे तृप्ति होनेसे पहिले ही काल जीवनतेरुका छेदन कर देता है, अतृप्त विषयी अत्यन्त दुःखके साथ संसारको छोड़कर परलोकमें जाता है, विषयके उन्मादमें अतृष्टित अभ्रमार्चरणोंको स्मरण करके अनुतापके अनलमें दग्ध होने लगता है, वासनाके केन्द्र स्त्री पुत्रपरिवारोंको सामने विलाप करते हुए देखकर उसका प्राण फटना है और इस प्रकारसे विषयमुग्ध होकर मरनेसे निश्चय ही जीवको मरणानन्तर प्रेतयोनि प्राप्त होती है । प्रेतयोनिमें वासना-विदग्ध जीवको वारुणदुःख भोगना पड़ता है, उसको क्षणभरके लिये भी उस योनिमें शान्ति नहीं मिलती है, वासना हृदयमें बलवती रहनेपर भी उसके भोगनेमें अरुमर्थनाके कारण प्रेतके हृदयमें अशान्तिकी अग्नि सदा ही जलती रहती है, इत्यादि इत्यादि अनेक दुःख भोगके वाद अर्थकामपरायण जीवको पूर्व असत्कर्मात्सुसार नरकलोकमें भी अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं । रौरव, कुम्भीपाक, असिपत्रवन आदि नरकोंका दुःख शास्त्रमें प्रसिद्ध ही है । उनमें भीषण कष्ट पानेके वाद पुनः मातृगर्भमें प्रविष्ट होकर दस महीने तक जीवको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं । तदनन्तर गर्भसे निकलनेके समय अनेक कष्ट पाकर पूर्व मन्दकर्मात्सुसार हीन योनियोंमें जीवका जन्म होता है । अन्यायरूपसे अर्थोपार्जनकारी दरिद्रके घरमें उत्पन्न होकर आजीवन दुःख

पाते हैं । कामपरायण पापी कामसम्बन्धीय अनेक कष्टोंको भेदते हैं । इसी प्रकारसे अर्थकामवासना द्वारा नवीन नवीन संस्कार उत्पन्न होकर जीवको जन्म-मरण चक्रमें घुमाया करते हैं और सहस्र प्रकारसे जीवहृदयमें अनन्त दुःखके दारुण दाहको बढ़ाया करते हैं । क्षणभङ्गुर अर्थकाममूलक विषयसुखके साथ इतना परिणामादि दुःख सम्बन्ध होनेसे ही दूरदर्शी महर्षियोंने आर्य्य-जातिके लिये अर्थकामको जीवनका लक्ष्य न बताकर आत्माको ही जीवनका लक्ष्य बताया है और धर्मके अवलम्बनसे मोक्षमार्गमें अग्रसर होकर उसी नित्यानन्दमय आत्माकी उपलब्धिको ही आत्यन्तिक लक्ष्य करके वर्णन किया है । यही मनुष्य-जीवनमें अभ्युदयनिःश्रेयसप्रद धर्मकी आवश्यकता है, जिसका अनुभव कर लेनेपर जीव अशेषकल्याणका अधिकारी हो सकता है ।

देशसेवा और सनातनधर्म ।

आधुनिक विज्ञानके साथ सनातनधर्मका सम्बन्ध बताकर अब देशसेवाके साथ सनातनधर्मका सम्बन्ध बताया जाता है । नवशिक्षित लोगोंमेंसे कोई कोई ऐसा सन्देह करते हैं कि सनातनधर्मके साथ देशसेवाका सम्बन्ध नहीं है । परन्तु जो लोग आर्यशास्त्रके रहस्यसे परिचित हैं वे भलीभाँति जानते हैं कि आर्यजातिमें देशसेवा संस्कार बहुत ही महत्त्व तथा वैज्ञानिक रहस्यसे पूर्ण है । आर्यजातिने अपने शास्त्रमें देशको तीन भागोंमें विभक्त किया है । यथा शरीर देश, जन्मभूमि देश और समस्त विश्व देश ।

प्रथम दशामें साधक अपने शरीरको ही देश मानता है और शरीरकी सहायतासे आत्मोन्नतिमें तत्पर होकर योग्यता लाभ करता है । इस दशामें वह शरीरकी स्वास्थ्यरक्षा आदि शरीरके भोगविलासके लिये नहीं करता है, किन्तु जन्मभूमिरूपी देशकी सेवाके लिये ही शरीररूपी देशकी रक्षा करता है । दूसरी अवस्थामें मनुष्य अपनी जन्मभूमिको देश समझकर उसकी सेवासे निःस्वार्थ पुण्यकार्यकी शिक्षा द्वारा पुरुष सञ्चय करता है । इसी पुरुषका अन्तिम फल आधिभौतिक मुक्ति अर्थात् देशकी स्वतन्त्रता है । इसी पुरुषकार्यमें रुचि बढ़ानेके लिये ही शास्त्रमें लिखा है 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' । अर्थात्

माता ओर मातृभूमि स्वर्गसे भी बढ़ कर है अतः सदा सेवा करने योग्य है । तीसरी अवस्थामें सर्वोत्तम परमहंसके लिये समस्त विश्व ही स्वदेश है । इसीके विषयमें श्रीभगवान् शंकराचार्यने कहा है—

“वान्धवाः शिवभक्तारश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्”

भगवान् वेदव्यासने भी कहा है—

“उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्”

अर्थात्—समस्त भगवद्भक्त अपने मित्र और समस्त विश्व अपना देश है । किन्तु आर्यजाति अन्य जातियोंकी तरह मोह, राग या परकीय द्वेषमूलक अभिमानके द्वारा ग्रस्त होकर स्वदेशकी सेवा नहीं करती है । क्योंकि आर्य-जातिको ज्ञात है कि ये सभी वृत्तियां क्लिष्ट तथा बन्धनकारिणी हैं । राग, मोहादि द्वारा देशसेवा करनेसे उस सेवाका यह परिणाम निकलता है कि यदि कार्यमें सफलता हुई तो अहंकार और कर्त्तृत्वाभिमान बढ़ जायगा । यथा गीतामें—

“अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।

समष्टिजीवके कर्मानुसार ही फलफल होता है, किन्तु आसक्तियुक्त कर्ता यही समझता है कि मानो उसने ही देशका उद्धार कर दिया । इस प्रकार अहंकारजन्य कर्त्तृत्वाभिमान जीवका बन्धनकारक तथा अधोगतिप्रद होता है । पक्षान्तरमें यदि प्रारब्धवशात् कार्यमें विफलता हुई तो मोह, या अहुरागमें धक्का लगनेसे सकाम देशसेवक नैराश्रयके समुद्रमें डूब जायगा और कदाचित् नैराश्रयके तीव्र आघातसे भग्नहृदय होकर सेवाव्रतको त्याग भी दे सकता है । इसके सिवाय तृतीय पथ, जिसमें कि परकीय द्वेषपर स्वकीय प्रेमकी प्रतिष्ठा है अर्थात् अपने देशको उन्नतिके लिये दूसरे देशपर अत्याचार करना है, वह तो परम द्वेषमूलक होनेसे महातमोगुणमय, सप्राप्तमय, अशान्तिकर, आध्यात्मिक-अवनतिकर तथा सर्वथा परित्याज्य है क्योंकि स्थितिका लक्षण प्रेममूलक सत्त्वगुणमें है द्वेषमूलक तमोगुणमें नहीं है । तमोगुण नाशकर्ता है, इस लिये जो जाति अन्य जाति पर अत्याचार तथा द्वेषके वर्त्ताव द्वारा अपनी श्रीवृद्धि चाहती है, वह कदापि चिरकालस्थायिनी, शान्तिमयी श्रोकों नहीं प्राप्त कर सकती है । उसके स्वार्थपरतामय, अनुदार नीच आचरणोंसे अन्तर्जातीय

संग्राम तथा विषय होता है, कदापि यथार्थ उन्नति नहीं होती है। इस कारण पूज्यपाद दूरदर्शी महर्षियोने आर्यजीवनमे मोह-राग-अभिमानहीन गीतोक्त कर्मयोगके सिद्धान्तानुसार स्वदेशसेवाका उपदेश किया है। उनका उपदेश यह है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
 योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय !
 सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

कर्ममेही अधिकार है, फलमे अधिकार नहीं है। फलाकांक्षासे कभी कर्म नहीं करना चाहिये और फल नहीं मिलेगा इस विचारसे कर्मका त्याग भी नहीं करना चाहिये। आसक्तिशून्य तथा सिद्धि असिद्धिमे समभावापन्न होकर कर्म करना चाहिये, इस प्रकार समभाव ही योग कहलाता है। आर्य-जातिके आदर्श लक्षणोंमें परधर्मी विद्वेष या परजाति विद्वेष है ही नहीं। इन दोनोंको आर्यजाति निन्दनीय तथा जातीय कलङ्करूप समझती है। जिस जातिके धर्ममें यह उदार सिद्धान्त है कि—

‘धर्म यो वाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्’

अर्थात् जो धर्म अन्य धर्मको बाधा देवे वह कुधर्म है उस जातिमे परधर्मी विद्वेष हो नहीं सकता। और जिस जातिके उदार लक्ष्यमे ‘उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्’ ऐसी आज्ञा है, उस जातिके आदर्शचरित्रमे परजाति-विद्वेषका कलङ्क रह ही नहीं सकता। आर्यशास्त्रमे कही कही जो अनार्यदेशमे जाने अथवा वहाँ वास करने आदिके विरुद्ध वचन पाये जाते हैं अथवा समुद्रयात्रा या विदेशयात्रा आदिकी निन्दा पायी जाती है, उसका कारण परधर्मीविद्वेष या परजातिविद्वेष नहीं है। किन्तु उसका कारण आर्यजातिमें आध्यात्मिक भावकी पुष्टिका संरक्षण ही है। आर्यजातिकी जो महत्त्वश्रेणी केवल आध्यात्मिक लक्ष्यको ही मुख्य समझती है, अथवा जो ब्राह्मणमण्डली केवल मोक्षधर्मकी ही पक्षपातिनी हो उन्हीको लक्ष्य करके ये सब आज्ञाएँ आर्यशास्त्रमे दी गई हैं। आर्यजीवन आध्यात्मलक्ष्यमय है, इस लिये आर्यजातिकी स्वदेशसेवामें भी आध्यात्म लक्ष्य

ही प्रधान रहता है । आर्यजाति भगवत्पूजारूपसे स्वदेश तथा स्वजातिकी सेवा करती है । उसके सिद्धान्तानुसार समस्त ससार श्रीभगवान्का विराट् रूप तथा स्वदेश उस विराट् पुरुषका हृदय है । इस लिये आर्यजातिकी स्वदेशसेवा विराट् भगवान्की पूजा है । मोक्षप्रिय आर्यजाति निष्कामभावसे ही इस विराट् पुरुषकी पूजा करती है और सफलता या विफलताको पूजाफल रूपसे श्रीभगवान्में ही समर्पण करती है । इसलिये स्वदेशसेवामे उसको मोह, आत्मैक, अभिमान, अहंकार आदि क्लिष्ट वृत्तियोंके द्वारा आक्रान्त होनेका कोई भी अवसर नहीं रहता है । वह स्वदेशसेवा द्वारा विराट् भगवान्की ओर ही अग्रसर होती है । स्वदेशसेवामें उसकी मृत्यु, मृत्यु नहीं कहलाती है, किन्तु अमृतत्व प्राप्तिकी सोपानस्वरूप बन जाती है । स्वदेशसेवामे प्राण समर्पण करके आर्यजाति प्राणहीन नहीं होती है, किन्तु विश्वप्राण भगवान्में ही जा मिलती है । अतः इस प्रकार अलभ्य लाभके लिये प्राणदान देनेमें आर्य जातिको कुछ भी सङ्कोच नहीं रहना है । अन्यजातिके लोग मोहादिवृत्तियोंके वशीभूत होकर स्वदेशवासियोंको भ्राता कहकर उनके सुखके लिये आत्म-सुखत्याग करनेमें पुरुषार्थ करते हैं । किन्तु आर्यजातिको इस प्रकार वृत्तिके वशीभूत होनेका प्रयोजन नहीं रहता है । उसका धर्ममय, अध्यात्मलक्ष्यमय जीवन ही आत्मैकत्वज्ञानसे जीवमानके प्रति, विशेषतः स्वदेशवासियोंके प्रति भ्रातृभाव उत्पादित करता है । वक्ष्णवमे अपने देशवासियोंको 'भाई' कहनेका अधिकार आर्यजातिको ही है । क्योंकि आर्यजाति ही आर्यशास्त्रानुभवसे जानती है कि—

“ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति”

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः”

प्रत्येक जीवमे जीवात्मारूपसे अद्वितीय परमात्माका ही अश विद्यमान है, अतः परमात्माके अश होनेसे सभी आत्मा भ्रातृभावसे युक्त हैं । समस्त जीवोंमें विशेषतः स्वदेशवासियोंमे यह भ्रातृभाव स्वाभाविक तथा अध्यात्मकारण-जन्य है । इन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार आर्यजाति स्वदेश सेवामे विराट् भगवान्की पूजा और नरपूजामे नारायणकी पूजा करती है । और फलनिरपेक्ष होकर इस प्रकारसे अनुष्ठित महती पूजा आर्यजातिके लिये यथार्थतः स्वराज्य प्राप्तिकी कारणस्वरूप बन जाती है ।

आर्थ्यजातिके इस स्वदेशसेवाव्रतमे सनातनधर्मकी ओरसे विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जीवभाव स्वार्थमय है, इसलिये दूसरेके लौकिक सुखके लिये प्राण देकर अपना लौकिक सुख खोनेवाला मनुष्य इस संसारमे बहुत ही 'कम मिलता है। किन्तु यदि जीवको इस प्रकारका विश्वास हो जाय कि इस दुःखमिश्रित सुखमय मनुष्यलोकसे ऊपर ऐसे अनेक लोक हैं, जहां दुःखलेशहीन अनुपम सुख मिलते हैं और जहां पर इस लोकमे स्वधर्म तथा स्वदेशके लिये प्राणदानके फलसे मनुष्य जा सकते हैं, तो परलोकपर विश्वासशील आस्तिक मनुष्यको परार्थके लिये प्राणसमर्पण, परम वाञ्छनीय तथा प्रीतिकर वस्तु हो जाती है। क्योंकि इस प्रकारसे प्राणदान तथा ऐहलौकिक सामान्य सुखत्याग अधिक सुखलाभका ही कारण हो गया। बृहदारण्यकोपनिषत् में लिखा है कि उन्नत देवादि लोकोंमे मनुष्यलोकसे शतशत गुण अधिक आनन्द है। स्वर्गलोकके विषयमे शास्त्रमे प्रमाण है—

“यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् ।

अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वःपदास्पदम् ॥”

“स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति

न तत्र त्वं न जरया विभेति ।

उभे तोर्त्वा अशनायापिपासे

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥”

“अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥”

स्वर्गसुखके साथ दुःख मिला हुआ नहीं है या उसके बाद भी दुःख नहीं होता है, वहां इच्छानुसार सभी भोग्य वस्तु प्राप्त होती है। स्वर्गलोक भयशून्य है वहां मृत्युका अधिकार नहीं है और जराका भी भय नहीं है, क्षुत् पिपासा तथा दुःखशोकसे मुक्त होकर वहां लोग आनन्दके साथ दिव्य भोगको भोगते हैं। इस प्रकार स्वर्ग तथा अन्यान्य ऊर्ध्वलोकोमे गति कैसे होती है, इस विषयमे गीतामे लिखा है—

“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्”

“यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ! लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥” (गीता)

धर्म तथा देशसेवाके लिये मृत्यु और युद्ध स्वर्गका खुला हुआ द्वार स्वरूप है। अतः इस प्रकार अनुपम सुखप्रद देशसेवाके लिये किसकी रुचि नहीं होगी ? यहो आर्य्यजीवनको स्वदेशसेवामय बनानेके लिये धर्मको ओरसे पवित्र प्रोत्साहन है। केवल इतना हो नहीं, अधिकन्तु स्वदेशसेवादि उत्तम कर्मके फलसे बहु वर्ष तक उन्नत लोकोंमें सुख भोगानन्तर पुनः जय मनुष्यलोकमें जीवका जन्म होता है, तो अति उत्तम सुखमय उन्नत कुलमें वे सब जन्मते हैं। जैसा कि छान्दोग्य उपनिषदमें लिखा है—

“ये रमणीयचरणा अभ्याशो ते रमणीयां योनिमापद्येरन्”

रमणीय आचरणकारिण उन्नत रमणीय योनियोंको प्राप्त होते हैं। अतः धर्मसे परलोक पर विश्वास और उससे देशसेवादि उत्तम कार्योंमें प्रवृत्ति स्वभावतः होती है, इसमें अछुमात्र सन्देह नहीं है।

ऊपर वर्णित कारणोंसे आर्य्यजाति देशसेवाके कार्यमें शास्त्रविरुद्ध उपायोंका अवलम्बन न कदापि कर सकती है और न करनेकी आवश्यकता ही समझती है क्योंकि उनको निखिलशास्त्रयोनि श्रीभगवान्के गीतावाक्य पर सम्पूर्ण विश्वास है यथा—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ।
 न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥
 तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
 ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

अर्थात् जो शास्त्रमें बताने वाले हुए उपायोंको छोड़ कर मनमाना काम करता है, उसको कार्यमें न सिद्धि ही मिलती है, न सुख मिलता है और न उत्तम गति मिलती है। इस लिये कर्त्तव्य अकर्त्तव्यका निर्णय करते समय शास्त्रमें क्या लिखा है जान कर तदनुसार कर्त्तव्य ठीक करना चाहिये। तभी सच्ची सफलता मिलती है। और ऐसा करनेसे कभी धोखा नहीं होता है। आजकल शास्त्रज्ञानहीन देशनेता कहानेवाले कुल मनुष्य देशसेवा तथा देशोन्नतिकार्यमें शास्त्रोंको तथा सनातनधर्मको बाधक समझते हैं। सो उनकी सम्पूर्ण भूल है। उनको आर्य्यजातिके लिये सच्ची उन्नतिका क्या मार्ग है यदि इसका पूर्ण परिज्ञान होता तो वे कभी ऐसा

कहने या सोचनेकी चेष्टा नहीं करते । विचार करने पर पता लगेगा कि इतने झगड़ेके बाद स्वराज्यलामके लिये स्वदेशीवस्त्र व्यवहार आदि जिन उपायों पर निर्भर किया जाता है, उन सबका प्रयोग आर्यशास्त्रमें सदाचाररूपी प्रथम धर्मके भीतर ही अनादिकालसे रक्खा गया है । केवल वस्त्रकी ही बात क्या, आर्यशास्त्रमे तो दैव या लौकिक कार्यमें अनार्य प्रस्तुत या अनार्य संस्पृष्ट वस्तुओंका सर्वथा वर्जन लिखा है । महाभारतके आदि पर्वमें पाण्डुराजाके अन्त्येष्टि प्रकरणमें— 'अथाऽतो देशजैः शुभ्रैर्वासोभिः समयोजयन्' ऐसा कहकर दैव तथा पितृकार्यमें स्वदेशी वस्त्रका ही व्यवहार होना चाहिये ऐसी आज्ञा की गई है । आह्निकतत्त्वमे इसी प्रकरणके अनुसार प्रमाण उद्धृत किया गया है यथा—

न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः ।
मूषिकोत्कीर्णजीर्णेन कर्म कुर्याद् विचक्षणः ॥

अर्थात् दैवकार्यमे सिया हुआ, जला हुआ या चूहेसे कटा हुआ वस्त्र जिस प्रकार काम नहीं आता है उसी प्रकार विदेशजात वस्त्र भी काम नहीं आता है । आर्यशास्त्रके सिद्धान्तानुसार पहिले देवताको समर्पण करके तब वस्त्र पहिनना चाहिये अतः अपने व्यवहारमें भी विदेशी वस्त्रादिका उपयोग करना सर्वथा शास्त्र तथा सदाचार गहिँत है । मन्वादि स्मृतियोंमें 'उपपातक कौन कौन है' इसके वर्णनप्रसङ्गमें लिखा है कि गोवध, अयाज्ययाजन, परदारसेवा, आत्मविक्रय, अमोज्यभोजन आदि जिस प्रकार उपपातक हैं ऐसा ही 'महायन्त्र-प्रवर्त्तन' भी उपपातक है । बड़ी बड़ी मेशीने—बख्रादि द्रव्य अथवा आटा आदि खाद्यद्रव्य प्रस्तुत करनेके लिये जो होती है, उन्हें महायन्त्र कहते हैं । इनके द्वारा श्रमसामञ्जस्य नष्ट होकर पूंजीपति का दल बढ़ता है और मजदूर तथा मध्यवित्तका दल हीनबल हो जाता है । इससे देशमें अन्तःकलह, अशान्ति, रागद्वेष फैल जाता है । इसी कारण आर्यशास्त्रमे मेशीनसे काम लेने को उपपातक कह कर उसकी बड़ी निन्दा की गई है और गृहशिल्पका ही आदर तथा प्रशंसा की गई है । श्राद्धतत्त्वमे तो दशाहीन वस्त्रका दैवपितृकार्यमें व्यवहार ही निषिद्ध किया गया है यथा—

ईर्षदुधौतं नवं शुभ्रं सदृशं यन्न धारितम् ।
अनाहतमिति प्रोक्तं प्रशस्तं सर्वकर्मसु ॥

स्वच्छ, नवीन, शुभ वस्त्र, जिसको किसीने पहिना नहीं और जिसकी दोनों ओर दशा वनो हुई हो उसको अनाहत कहते हैं और समस्त दैव तथा पितृकार्यमें ऐसा ही वस्त्र प्रशस्त है । मेशीनमें एक साथ लम्बे लम्बे बहुत कपड़े तैयार होते हैं, इस लिये उसमें 'दशा' नहीं रक्खी जा सकती है, जैसा कि हाथके बुने हुए वस्त्रमें रक्खी जा सकती है अतः हाथका बुना हुआ वस्त्र ही शुभकार्यमें उत्तम है, यही शास्त्रका सिद्धान्त निश्चिन हुआ । यजुर्वेदीय श्राद्धतत्त्वमें इसी प्रकार अन्यान्य चीजोंके विषयमें भी कहा गया है कि—

‘आसुरं चक्रनिष्पन्नं दैविकं हस्तनिर्मितम्’

मिथुंके वर्त्तन, अन्यान्य धातु या उपकरणनिर्मित वस्तु इन सबमें जो चक्र या यन्त्रके द्वारा निर्मित हो वह आसुरी वस्तु कहलाती है और हाथके द्वारा निर्मित हो तो दैवी वस्तु कहा जाता है । आसुरी वस्तुओंके द्वारा दैवकार्य नहीं हो सकते । इस प्रमाणसे मेशीन निर्मित याचतीय द्रव्य अव्यवहार्य बताये गये हैं । इतना तक कि दियासलाई आदि जिसमें अशुद्ध मांसोत्पन्न फास्फरस लगने हैं उसका भी परित्याग यज्ञादिकार्यमें अग्नि प्रज्वालनार्थ कर दिया गया है—यथा ‘क्रव्यादमर्गिनं प्रहिनोमि दूरम्’ । क्रव्यसे उत्पन्न अग्नि द्वारा कोई उत्तम कार्य नहीं करना चाहिये । अपना भोजनादि कार्य भी यज्ञ है, क्योंकि भगवान्को निवेदन किये बिना अन्नग्रहण करना पाप तथा चोरका काम है यथा गोनादि शास्त्रमें लिखा है—

‘अन्नं विष्ठा पयो मूत्रं यद्द्विष्णोरनिवेदितम्’ ।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुङ्क्षते ते त्वर्धं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

‘तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः’ । (गीता)

जो अन्न या दुग्ध भगवान्को निवेदन नहीं किया जाता है वह विष्ठा मूत्र तुल्य ग्रहणके अयोग्य है । यज्ञशेष भोजन करने पर मनुष्य सब पापसे मुक्त हो जाना है, केवल अपने ही लिये पकानेवाला पाप भोजन करना है । देवताओंका दिया हुआ अन्न जो उन्हें बिना भोग लगाये खाता है वह चोर है । अतः दैनन्दिन भोजन वनानेमें भी दियासलाई आदि अशुद्ध वस्तुका व्यवहार निन्दनीय है, फिर विशेष यज्ञादि कार्यमें तो इनका व्यवहार हो ही

नहीं सकता है। इसी कारण अरणि मथकर यज्ञाग्नि प्रकट की जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशी चीनी, विदेशी नमक, विदेशी औषधि इत्यादि सभी-में कही हड्डिका, कही खूनका, कही शरावका, कही अन्य किसी अपवित्र वस्तुका अवश्य सम्बन्ध रहनेसे वे सभी त्याग करने योग्य हैं। क्रिकेट, हाकी, टेनिस, बल्लोबाल, केरम, विलियार्ड आदि खेलनेकी चीजे, भैसेलीन, पमेटम, लेवेण्डर, ब्रश, कोकोजैम, विस्कुट, बालीं, मेलिन्सफूड, मस्टेड् मिल्क आदि कितनी ही चीजें—सबके सब अनार्य स्पर्शदूषित होनेके कारण आर्य सदाचारके विचार-से नितान्त गहिँत है। सदाचार सनातनधर्मका प्रथम अङ्ग है। जिससे प्रथम धर्मका ही पालन नहीं होता है, वह आगेके धर्मका क्या पालन करेगा? इस लिये विदेशी वहिष्कार द्वारा देशसेवा सनातनधर्मजगत्का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है, यही सिद्ध हुआ। और धर्म होनेके कारण राजकीय सन्धि, सामयिक राजनीति, व्यापार वाणिज्यमें सुविधा-असुविधा आदि किसी भी कारणसे विदेशी वस्तुका कदापि ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ धर्म विचारसे आत्माका चिर-सम्बन्ध है। श्रीभगवान् मनुने अपनी संहिताके ६ अध्यायके ७५ श्लोकमें स्त्रियोंके लिये चरखा कातनेका स्पष्ट उपदेश किया है। यथा—

विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता ।

प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगहितैः ॥

प्रवास जाते समय पति यदि भोजन वस्त्रकी व्यवस्था कर गये हो तो सती स्त्रीको नियमके साथ उसीसे दिन काटती रहनी चाहिये, नहीं तो सूत्र निर्माण आदि निर्दोष शिल्पके द्वारा धन कमाकर जीविका चलाती रहनी चाहिये। इस प्रकारसे स्वदेशी भावमय जीवन बनाना और हर प्रकारसे देशकी सेवा करना सनातनधर्मका उत्तम अङ्ग है यही सिद्धान्त स्पष्ट होता है।

यदि आजकल समस्त पृथिवीमें प्रचलित भिन्न भिन्न धर्ममतोंके सिद्धान्त पर ही विचार किया जाय तौभी देशसेवाके धिपयमें सनातनधर्मका सिद्धान्त ही सबसे बढ कर पाया जायगा। क्योंकि सनातनधर्मका यह अटल सिद्धान्त है कि बिना देशसेवारूपी विराट पूजाके मनुष्यको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। आर्यशास्त्रमें तो दोके सिवाय कोई तीसरे प्रकारकी मृत्यु लिखी ही नहीं है। मनुसंहितामें स्पष्ट लिखा है—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ।
परित्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥

जिस प्रकार योगबलसे ब्रह्मरन्ध्र द्वारा प्राणके निकालनेसे योगी सूर्यमण्डल भेदकर उत्तम गतिको पा सकता है, उसी प्रकार देश तथा धर्मके लिये पीठ न बताकर युद्धमे जो वीर मरता है उसको भी योगीकी उत्तमा गति प्राप्त हो जाती है ।

श्रीमद्भागवतमे तो यह भी लिखा है कि देशसेवा छोड़कर केवल व्यक्तिगत पूजा करनेसे यथार्थ शान्ति नहीं मिलती है । यथा—

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।
तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुस्तेऽर्चाविडम्बनम् ॥
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः ।
भूतेषु वद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् ।
अर्हयेद् दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ (४ स्कन्ध)

श्रीभगवान् जीवात्मारूपसे घट घटमे व्याप्त है, अतः जीवसेवा न करके केवल पूजा करना पूजाका विडम्बनमात्र है । जो मन्दिरादिकी तरह शरीररूपी मन्दिरमे भी भगवान्की स्थितिको न मानकर जीवोंसे वैरभाव रखता है उसका मन शान्तिको नहीं पा सकता है । इसलिये सकल शरीरमे आत्माको मान कर मित्रकी दृष्टि सबके प्रति रखनी चाहिये और दान मान आदि द्वारा सबकी सेवा करनी चाहिये । श्रीभगवान्ने गीतामें स्पष्ट बताया है कि निर्गुण ब्रह्मोपासकगण यदि जीवसेवा न करें तो निर्वाणमोक्षपदको कदापि नहीं पा सकते हैं । यथा—

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचर्त्तं ध्रुवम् ॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ (१२ अध्याय)

मन वाणीसे परे, इन्द्रियातीत, कूटस्थ, चिन्तासे अतीत, सर्वव्यापी, अचल, अव्यक्त, निर्गुण, निराकार ब्रह्मको वे ही योगिगण पा सकते हैं, जिनने इन्द्रियोंका विशेष निग्रह किया है, स्त्री पुरुष पशु मानव आदि सर्वत्र ब्रह्मभावसे जिनकी समबुद्धि उत्पन्न हुई है और जो विश्वको ब्रह्मका रूप मानकर भूतहितमें सदा रत रहते हैं। और भी—

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

द्विन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ (५-२५)

निष्पाप ऋषिगण द्विधाभावहीन, संयतेन्द्रिय तथा भूतहितमें रत होकर ही ब्रह्मनिर्वाणको पाते हैं, अन्यथा नहीं। इन सब प्रमाणोंसे स्पष्ट होता है कि देशसेवा कार्यमें सनातनधर्मका विचार बहुत कुछ उन्नत है। अब ऐसी आज्ञा शास्त्रोमें क्यों की गई है इस पर विचार किया जाता है। जीवभाव संकीर्ण तथा स्वार्थपरतामय है। क्रमोन्नतिमें पशुयोनिके बाद मनुष्ययोनिके होनेसे साधारणतः मनुष्योंके भीतर भी पशुभाव बहुत कुछ भरा हुआ रहता है। इन्द्रियपरता स्वार्थपरता इत्यादि पशुभावके लक्षण हैं। विला, शेर, सिंह, लड़कुर आदि पशु स्वार्थवश अपने बच्चेको भी मार डालते हैं। इस प्रकार जुद्धहृदय जीव ब्रह्मको नहीं पा सकते हैं, क्योंकि 'बृहत्त्वाद्ब्रह्म गीयते' ब्रह्मसत्ता असीम है, देश कालसे सीमाबद्ध नहीं है, बड़ेको पानेके लिये हृदयको बड़ा बनाना होना है।

इस लिये जब तक जीव अपने व्यष्टि शरीरके ऊपर ही ममताग्रस्त होकर उसीको सेवामें लालायित रहता है तब तक उसको आत्मा न उदार बन सकती है और न जीवकी जुद्धता नष्ट होकर विराट् ब्रह्मके साथ एकता हो सकती है। निष्काम कर्मयोगके द्वारा जीव अपनी जुद्धसत्ताको उदार करता हुआ तथा अनुदार मल्लोको दूर करता हुआ ब्रह्मकी विराट् सत्ताके साथ धीरे धीरे एकतायुक्त हो सकता है। इस लिये वेदमें कर्मयोगका उपदेश किया गया है। कर्मयोग स्वराज्यप्राप्तिका एक प्रधान उपाय है। निष्कामता, स्वार्थसङ्कोच तथा दूसरेके सुखके लिये आत्मसुख विसर्जन इसके प्रधान साधन हैं। इसका प्रथम अनुष्ठान पारिवारिक राज्यमें ही प्रारम्भ होता है। charity begins at home उदारता घरमें ही प्रारम्भ होती है ऐसा वचन भी मिलता है। मनुष्य एकपरिवारमें रहकर स्त्री पुत्र आत्मीय रवजनोंके लिये अपना स्वार्थ त्याग करना सीखता है।

उनके सुखमें सुखी होना, उनके दुःखमें दुःखी होना, उनके सुखके लिये अपना सुख त्याग करना—इस प्रकारसे अभ्यास करते करते जीवभावसुलभ स्वार्थ-परताका सङ्कोच और ईश्वरभावसुलभ परार्थपरताका विकास होने लगता है । तदनन्तर यही परार्थभाव उदार होता हुआ ग्रामसेवा, प्रदेशसेवा, जातिसेवा इत्यादि क्रमसे समग्र देशसेवामें जब जीवके चित्तको नियोजित करता है तभी वह महान् आत्मा कर्मवीर, स्वदेशसेवी कहलाता है । प्राचीन रोमजातिमें इस प्रकार कर्मवीरकी पूजा देवताकी तरह हुआ करती थी और इसका नाम Hero-worship या वीरपूजा था । आधुनिक यूरोपियन जातिके भीतर भी कर्मवीरोंका सम्मान होता है । यही तक स्थूल स्वदेशसेवाकी कोटि है । इसके बाद धर्मसेवाकी कोटि है जिसमें प्रथमतः समस्तससारव्यापी स्वधर्मवालोंके प्रति प्रेम किन्तु परधर्मवालोंके प्रति द्वेष होता है । यह कोटि मुसलमानधर्मकी है, जिसके अनुयायिगण मुसलमानोंसे तो प्रेम करते हैं, किन्तु अन्य धर्मवालोंको 'काफ़ेर' कह कर उनके वध करनेमें भी पुराय समझते हैं । इसके अनन्तर ईसाई धर्मकी कोटि है जिसमें duty to God and love to man अर्थात् मनुष्यमात्रके प्रति प्रेम और ईश्वरभक्ति बतलाई गई है । किन्तु वर्त्तमान क्रिश्चियनजगतमें वह आदर्श नामशेष रह गया है । वे सार्वजनिक प्रेमका उपदेश दूसरोंको तो करते हैं, किन्तु स्वयं इसका आचरण नहीं करते । वर्त्तमान क्रिश्चियनजगत्का स्वधर्म तथा स्वदेशप्रेम बहुधा परदेश तथा परजातिपीड़न पर ही निर्भर करता है । वे परकीय द्वेषके द्वारा आत्मीय प्रेमका परिचय प्रदान करते हैं। इसी कारण यूरोपकी स्वदेश तथा स्वधर्म सेवामें शान्ति नहीं फैल रही है, किन्तु द्वेषकी अग्नि क्रमशः बढ़कर जातीय घोर सग्राम फैल रहे हैं ।

इसके बाद जैन तथा बौद्धधर्मकी कोटि है जिसमें मनुष्यप्रेमके अतिरिक्त मनुष्येतर पशु, पक्षी, कीटादि तकसे प्रेम तथा उनकी रक्षा करनेकी आज्ञा है । इसी कारण ईश्वरसत्ताके न मानने पर भी इन धर्ममें अहिंसामूलक परम प्रेमकी प्रतिष्ठा है । मुसलमान तथा ईसाई लोग मनुष्येतर प्राणियोंमें प्रेम नहीं रखते, किन्तु उन्हें अपना खाद्य समझकर खा जाया करते हैं । इसी कारण सेवा-विचारसे इन धर्मोंकी कोटि जैन बौद्ध धर्मोंसे हीन है । इसके बाद सनातन-धर्मकी कोटि है, जिसमें ईश्वरसत्ताको सकल जीवोंमें मानकर सबकी रक्षा की जाती है, विश्वप्रेम और भगवद्भाव दोनोंके होनेसे ही यह कोटि इतनी

उन्नत है । इस कारण उदार सनातनधर्मी कर्मयोगी मनुष्यमात्रके साथ साथ जीवमात्रके प्रति प्रेम करते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता सभीमे भगवत्कला जाकर सभीके साथ अपने उदार हृदयका सम्बन्ध स्थापन करते हैं । जैसा कि भागवतमे लिखा है—

मनसैतानि भूतानि प्रणमेद् बहुमानयन् ।
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥-(४ स्कन्ध)

ईश्वर सकल जीवोमे व्याप्त है इसलिये सभीको आत्माका अंश समझकर सभीका सत्कार करना चाहिये, इस सिद्धान्तके अनुसार उदारचेता कर्मयोगी विश्वके समस्त जीवोंके प्रति प्रीतिपरायण हो जाते हैं । इसके भी अनन्तर जब कर्मयोगीका आध्यात्मिक सम्बन्ध सजीव निर्जीव समस्त भूतोंमे, मनुष्येतर पश्व्वादि जीव, मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ सभीमे तथा सबसे परे विराजमान परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी उनको यथार्थमे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति होती है । पूज्यपाद महर्षियोने 'स भवति स्वराट्' इत्यादि वेदवचनोंके द्वारा इसी स्वराज्यकी ओर लक्ष्य कराया है । श्रीभगवान् मनुजीने भी कहा है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ (१२ अ०)

आत्माको सकल भूतोमे तथा सकल भूतोको आत्मामें देखकर आत्मयज्ञ-परायण महात्मा स्वराज्यलाभ करते हैं । इस स्वराज्यका लाभ करनेसे ही सिद्धयोगी समस्त संसारको ब्रह्मरूपमें देखकर सभीसे प्रेम तथा सभीसे पवित्र आनन्द लाभ कर सकते हैं, उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकारकी स्वतन्त्रता पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाती है और तभी श्रीभगवान् शंकराचार्यके वचनानुसार उनको अनुभव होता है कि—

सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥

आनन्दमय ब्रह्मका सर्वत्र अनुभव हो जानेसे समस्त जगत् ही नन्दन-कानन है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष है, सभी जल गङ्गाजल है, सभी कार्य धर्मकार्य हैं, प्राकृत सस्कृत सभी वाक्य वेदवाक्य है, सभी भूमि वाराणसी है और सभी स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, यही स्वाराज्यमें विराजमान योगीका आनन्दमय अनुभव है । यही आध्यात्मिक लक्ष्यसम्बन्धमें आर्य्यजानिकी अन्य जानिथोसे परम विशेषता है और देशसेवासम्बन्धमें अन्य धर्ममतोसे सनातनधर्म मतकी श्रेष्ठताका अकाट्य उज्ज्वल दृष्टान्त है ।

ऊपर लिखित वर्णनोंसे यह स्पष्ट होगा कि आर्य्यजातिकी देशसेवामें भौतिक विज्ञान (Material Science) की उन्नति ही चरम उन्नति नहीं समझी जा सकती है । यद्यपि प्राचीनकालमें अर्थकामसम्बन्धीय समस्त अभावको दूर करनेके लिये भौतिक विज्ञानकी भी विशेष उन्नति आर्य्यजातिने की थी, जिसका पूरा वृत्तान्त अन्य प्रबन्धमें दिया जायगा तथापि निम्नलिखित कारणोंसे आर्य्यजाति आधुनिक पाश्चात्यजातियोंकी तरह भौतिक विज्ञानोन्नतिको ही उन्नतिकी पराकाष्ठा नहीं समझ सकती ।

(क) भौतिक विज्ञानोन्नतिका लक्ष्य अर्थकाम है, धर्ममोक्ष नहीं है, जो कि पूर्ववर्णित हेतुओंके अनुसार आर्य्यजातिको एकान्त अभीष्ट नहीं हो सकता है ।

(ख) भौतिक विज्ञानोन्नति अप्राकृतिक समस्त कलाकौशलको प्रकट करके मनुष्यजीवनको एकवार ही अस्वामाविक बना देती है । वह प्रथमतः कुछ दिनों तक अच्छी लगनेपर भी पीछेसे मनुष्य शरीर, मनुष्य मनको दुःखशोक रोगग्रस्त तथा कुछसे कुछ बना देती है । उसके द्वारा मनुष्यजीवनमें स्वामाविक भावका आनन्द एकवार ही जाता रहता है ।

(ग) भौतिक विज्ञानोन्नति भौतिक होनेके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें दम्भ अहङ्कारको खूब ही उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य अहंभावग्रस्त होकर प्रायः यही समझने लगता है कि संसारमें प्राकृतिक विज्ञानके सिवाय और कोई पदार्थ ही नहीं है । समस्त संसारकी सृष्टि स्थिति या नाश रासायनिक संयोग वियोग द्वारा प्राकृतिक रूपसे ही होता है, इसके ऊपर किसी अलौकिक परमात्मा आदि वस्तुके माननेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकारसे

भौतिक विज्ञानके मदमें आकर लोग प्रायः नास्तिक हो जाते हैं और अर्थकाम-परायण परलोकभयवर्जित नास्तिक बनकर अपने तथा सामाजिक जीवनको अन्नपातमें ले जाते हैं ।

(घ) भौतिक विज्ञान-उन्नतिके द्वारा अर्थकामकी पुष्टि होकर प्रबल राग द्वेष तथा उसके परिणामरूप अन्तर्विवाद, जातीय कलह, जातीय संग्राम आदि तो अवश्य ही उत्पन्न होने हैं, किन्तु इन सब विपत्तियोंके निवारणके लिये भौतिक विज्ञानके पास कोई भी साधन नहीं है । अन्यपक्षमें आसुरी अस्त्र शस्त्र बनाकर भौतिक विज्ञान उल्लिखित संग्राम, नरहत्या तथा देशनाशक विस्फोटोंको और भी वृद्धिगत कर देता है। थोड़ा ही विचार करनेसे स्पष्ट होगा कि भौतिक विज्ञान उन्नतिके द्वारा युद्धकार्यमें प्राचीन कालकी तरह यथार्थ चोरताकी परीक्षाके लिये कोई भी यन्त्र नहीं बना है, किन्तु किस प्रकारसे छुल कपटके द्वारा अनिदूरसे या प्रच्छन्न होकर स्वल्पकालमें अनेक मनुष्य मारे जा सकते हैं इसीके अनेक यन्त्र बने हैं । आकाशयान (Airplane), पनडुबी (Submarine), बड़ी बड़ी तोपें (Maxim gun) आदि सभी यन्त्र भीषण नरहत्याके ही यन्त्र (Engines of destruction) हैं। इनके द्वारा संग्राममें चोरताकी कोई भी परीक्षा नहीं होती है, केवल नरहत्याकारी भौतिक मस्तिष्क शक्तिकी परीक्षा होती है । अतः इस प्रकार उन्नतिके द्वारा संसारमें वास्तविक शान्ति कदापि नहीं प्रतिष्ठित हो सकती है किन्तु केवल विद्रोह, अशान्ति, मद्रोन्माद, राग द्वेष और प्रबल हत्याकाण्ड ही बढ़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आजकल समस्त संसारमें देख रहा है और इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि समस्त सभ्यनाभिमानो जातियाँ असभ्य धन जायगी ।

(ङ) भौतिक विज्ञानके द्वारा क्रमशः स्थूल सूक्ष्म दोनों ही जगत्में प्रबल असामञ्जस्य (discord, disbalance) उत्पन्न होता है जिसके फलसे स्थूल संसारका स्वास्थ्य, नैरोग्य तथा मानसिक शान्ति नष्ट होकर दुर्भिक्ष, हाहाकार, महामारी तथा प्रबल अशान्तिसे संसार परिपूर्ण हो जाता है । यह विचार सूक्ष्म तथा गम्भीर है इस कारण नीचे विस्तारके साथ इसपर विवेचन किया जाता है ।

प्रत्येक पदार्थ तभी तक अपनी नीरोग अवस्थामें रह सकता है जब तक उस पदार्थकी प्राणशक्तिकी समतामें किसी प्रकारकी हानि उत्पन्न न हो ।

प्राणशक्तिके अधिक व्यय या अपव्ययसे उसकी समतामें हानि हो जाती है जिससे कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं । दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि मनुष्यशरीरमें प्राणशक्तिकी समता रहनेसे वात, पित्त, कफ और अन्यान्य धातुओंका भी सामञ्जस्य रहता है जिससे मनुष्यशरीर नीरोग रहता है । परन्तु ब्रह्मचर्यनाश, अधिक परिश्रम, काम, मोह, क्रोध आदि वृत्तियोंके बशीभूत होना आदि कारणोंसे मनुष्यकी प्राणशक्ति घट जाती है, उसकी समतामें विरोध पड़ता है जिस कारण वात पित्त कफ और अन्यान्य धातुओंमें विकार उत्पन्न होकर वह शरीरको रोगग्रस्त तथा अल्पायु कर देता है । जिस प्रकार व्यष्टि शरीरमें है ठीक उसी प्रकार समष्टि अर्थात् ब्रह्माण्डशरीरमें जो प्राणशक्ति विद्यमान है उसकी समता और सामञ्जस्यके द्वारा ब्रह्माण्डशरीरान्तर्गत वात पित्त कफ तथा अन्यान्य धातुओंकी समता रक्षित होकर ब्रह्माण्डशरीर नीरोग रहता है और उस नीरोगताके फलसे देशकालानुसार ऋतुओंका ठीक ठीक परिवर्तन, शस्य-सर्पत्तिकी वृद्धि, प्रजाका सुख, दुर्भिक्ष आदिका अभाव, महामारी तथा देशव्यापी रोगोंकी अन्तुत्पत्ति आदि महत्फल उत्पन्न होते हैं । ब्रह्माण्डशरीरव्यापी इस प्राणशक्तिकी समता यदि किसी तरहसे विगड जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्माण्डके वात पित्त कफ तथा अन्यान्य धातुओंमें भी विकार हांगा, पञ्चतत्त्वोंमें विकृति उत्पन्न होगी जिससे ब्रह्माण्डशरीर रोगग्रस्त होकर, ऋतुविपर्यय, अनिवृष्टि, अनावृष्टि आदि कुलक्षण, दुर्भिक्ष, महामारी आदि रोगोंको उत्पन्न करेगा । पञ्चतत्त्वोंके जिस प्रकार परिणामके द्वारा सुफला वसुन्धरा अपने निर्दिष्टगतिको प्राप्त कर रही है और विराट् पुरुषका स्थूल ब्रह्माण्डशरीर नीरोगतापर प्रतिष्ठित है, उस प्राकृतिक गतिपर यदि बलात्कार किया जाय अर्थात् प्रकृतिको तोड़कर इच्छानुसार अप्राकृतिक बनाया जाय—जल जिस गतिके अनुसार नदी समुद्र आदि रूपमें चलनेसे जगद्-जीवनको रक्षा कर सकता है, वायु जिस गतिसे प्रवाहित होने पर ससारका स्थितिविधान कर सकता है, पृथ्वी जिस प्रकारसे परिलेखिता होने पर सुफल प्रदान कर सकती है, इन सबमें यदि बलात्कार द्वारा अप्राकृतिक अनुष्ठान किया जाय तो पञ्चतत्त्वोंमें अवश्य ही विकार उत्पन्न होकर ऋतुविपर्यय, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दुर्लक्षण प्रकाशित करेगा जिससे समस्त जगत्को शान्ति नष्ट होकर अशान्ति और दुःखदारिद्र्य बढ़ जायगा । इसके सिवाय

ब्रह्माण्डकी प्राणरूप वैद्युतिक शक्तिको तत्त्वोंके भीतरसे यदि खींचकर अन्यान्य कार्यमें लगा दिया जाय तौ भी प्राणशक्तिहीन ब्रह्माण्डशरीर मृतवत् हो जायगा, इसकी जीवनीशक्ति घट जायगी जिससे इसमें शस्थोत्पादिका शक्ति, उत्तम सन्तानोत्पादिका शक्ति, ऋतुओंका क्रमविकाश आदि सभी नष्ट हो जायगा और विराट्धातुमें विकार होकर तथा वात पित्त कफका सामञ्जस्य बिगाड कर देशमें महामारी दुर्भिक्ष, संग्राम, दुःख दारिद्र्य और अशान्ति फैल जायगी । आस्तिकताविहीन भौतिक विज्ञानोन्नति (Godless scientific improvement) के फलसे ब्रह्माण्डकी प्राणशक्तिकी ऐसी ही हानि और पञ्चतत्त्वोंमें ऐसी ही वैषम्य (elemental disturbance) उत्पन्न होता है जिसको सभी लोग देख सकते हैं । इसमें ब्रह्माण्डव्यापिनी वैद्युतिक शक्ति आकर्षित करके अन्यान्य कार्यमें लगाई जाती है और स्वाभाविक रूपसे प्रवाहशील तत्त्वोंपर बलात्कार करके उनको मनमाने कार्यमें लगाया जाता है अर्थात् उनकी प्राकृतिक गतिमें बाधा दी जाती है, जैसा कि नदनदियोंके प्रवाहको नहर आदि रूपसे इधर उधर करना, उनमेंसे विजली खींच लेना इत्यादि भौतिक विज्ञानोन्नतिके द्वारा विराट्धातुमें विकार उत्पन्न होकर देशमें संग्राम, दुर्भिक्ष, महामारी, दारिद्र्य और अशान्ति आदिका उत्पन्न होना निश्चित है । ससारमें जिस जिस समय ऐसा संग्राम अथवा महामारी, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष आदिका प्रकोप देखा गया है, उसके मूलको अन्वेषण करनेसे अवश्य ही पता लगेगा कि, आसुरी शक्तिके अथवा प्रयोगद्वारा प्रकृतिराज्यमें वैषम्य, आसुरी अस्त्रोंके प्रयोगद्वारा पञ्चतत्त्वोंमें विकार अथवा ब्रह्माण्ड शरीरके प्राणशक्तिनाश या प्राणवैषम्यके द्वारा ही ऐसी बहुदेशव्यापी दुर्घटना हुई है । महर्षि वशिष्ठजीने कहा है—

विराट्धातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना ।

तद्ग्रावयवस्यास्य जनजालस्य वैषमम् ॥

दुर्भिक्षावग्रहोत्पातमानयति ।

विराट् शरीरमें तत्त्वविकार, धातुविकार तथा प्राणशक्तिके विषम स्पन्दनसे विराट्के अज्ञीभूत जीवोंकी प्रकृतिमें विषमता उत्पन्न होती है, जिससे दुर्भिक्ष, अपग्रहोका उदय, उल्कापात, धूमकेतु आदिका उदय, महामारी आदि उत्पात होने लगते हैं । प्राचीन कालमें भौतिक विज्ञान (material science) की उन्नति विशेषरूपसे होनेपर भी महर्षियोंकी दूरदर्शिताके कारण वह इस

प्रकारसे नहीं अनुष्ठित होती थी, जिससे प्रकृतिपर किसी प्रकारका बलात्कार हो। अवश्य आसुरी शक्तिका अत्याचार उस समय भी था, किन्तु उसके प्रकोपको दूर करनेके लिये ऋषिगण आवश्यकतानुसार कभी यज्ञ द्वारा, कभी दैवानुष्ठान और देवपूजा द्वारा या कभी अन्य प्रकारसे भी दैवीशक्ति उत्पन्न करके आसुरी शक्तिको दबाकर देशव्यापी अकल्याणको दूर कर देते थे। यही कारण है कि प्राचीनकालमें सभी प्रकारकी उन्नति होने पर भी कहीं पर वैषम्य नहीं था और सर्वत्र शान्ति ही विराजमान थी। देशसेवामें यह एक विशेष मननयोग्य तथ्य है।

आर्यजातिके इतिहासमें प्रायः यह देखा गया है कि जब कभी देश या जाति पर विदेशियोंका आक्रमण हुआ है तो उसके प्रतिकारके लिये आर्यजातीय देशोद्धारक वीरोने—एकता, तपस्या, उन्नत दैवशक्तिकी सहायता—संग्रह—इन तीन उपायोंसे काम लिया है। देशसेवाका सम्बन्ध जहाँ पर धर्मके साथ है वहाँ ही इस प्रकारकी सहायता ली जाती है। क्योंकि बिना धर्माचरण किये दैवशक्तिकी सहायता मिलती नहीं। दशम सिखगुरु गुरुगोविन्दसिंहजीने 'हिन्दुसन्तानकी जनेऊ और चोटीकी रक्षा' के लिये भवानीकी उपासना कर शक्ति प्राप्त की थी और उसी शक्तिके प्रतापसे किसी समय विघर्मियोंके प्रबल अत्याचारसे आर्यजातिको बचाया था। महावीर अर्जुनने भी कुरुक्षेत्रके रणाङ्गनमें आसुरी प्रजाके नाशके लिये श्रीभगवानकी आज्ञासे महाशक्तिकी ही आराधना की थी, यह बात महाभारतमें लिखा है। महाराणा प्रतापने भी एकलिङ्ग महादेवकी शक्तिसे शक्तिमान होकर असीम तपस्याके साथ अपनी जन्मभूमिकी रक्षा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराजको भी शिव-शक्तिका विशेष सहारा था, जिससे हिन्दुस्तानमें उन्होंने यवनजातिका पग जमने नहीं दिया था। इन सब दृष्टान्तोंसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बड़े कामके लिये हमारे देशके धर्म-वीरोने केवल अपने लौकिक बल पर पूर्ण निर्भर न करके अलौकिक दैवबलका भी सहारा लेना उचित समझा था। वे सभी हमसे अधिक मर्मज्ञ, यथार्थ देशसेवा-परायण तथा सच्चे वीर थे। अतः देशसेवा कार्यमें उनका अनुकरण हमें अवश्य करना चाहिये। केवल इस लोककी ही बात क्या कही जाय, दैवजगतमें भी जब कभी आसुरी अत्याचारसे देवतागण पीड़ित हुए तो एकता और तपस्याके साथ कहीं पर देवादिदेव महादेवके अलौकिक, असीम दैवबलकी सहायता

और कहीं पर विश्वजननी महाशक्तिकी अपूर्व सहायताको पाकर ही वे स्वर्ग-राज्यका अधिकार पुनः प्राप्त कर सके हैं । महिषासुर और वृत्रासुरके द्वारा स्वर्ग-राज्य अधिकृत होजाने पर तो देवताओंने घोर तपस्या की थी और एकताका वर्णन कहां तक किया जाय महिषासुरवधके लिये तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभीको अपने हृदयकी, प्राणकी समग्रशक्तिको पुञ्जीभूत करनी पड़ी थी, जिस पुञ्जीभूत शक्तिसे 'निःशेष-देवगणशक्ति-समूहसूर्ति' रूपिणी देवी दशभुजा प्रकट होगई थी और उन्होंने महिषासुरको मार दिया था । ब्रह्माका कार्य सृष्टिका निर्माण करना है और रुद्रका कार्य सृष्टिका नाश करना है, दोनों परस्पर विपरीत कार्यके करनेवालोंने भी अपने देश पर शत्रुका अत्याचार देखकर अपना अपनी मर्यादाको रखते हुए एकता कर ली थी । यही एकताका मूलमन्त्र है, अन्यथा त्रिगुणवैपस्थ-मय ससारमें अपने अस्तित्वको खोकर एकता करना सम्भव नहीं होता । श्रीभग-वान् शंकराचार्यने कहा है—

भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कर्हिचित् ।
अद्वैतं सर्वभूतेषु नद्वैतं गुरुणा सह ॥

अद्वैत भावमें होना चाहिये, क्रियामें नहीं । माता, कन्या, भगिनी, स्त्री सत्रमें एकात्माके विचारसे अद्वैतका भाव रह सकता है, किन्तु क्रियाजगत्में वर्त्तव्यका भेद बहुत कुछ रहता है । श्रीभगवान्ने गोतामें भी कहा है—


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

उत्तम ब्राह्मण, गौ, हाथी, श्वान और चण्डाल इन सबमें एक ही आत्मा-के विचारसे पण्डितगण 'समदर्शी' तो हो सकते हैं, किन्तु 'समवर्त्ती' नहीं हो सकते । गाय, हाथी, कुत्ता तीनों के साथ एकसा वर्त्ताव कभी सम्भव ही नहीं है । इसका उत्तम दृष्टान्त श्रीभगवान् रामचन्द्रके जीवनमें प्राप्त होता है । श्रीभगवान् रामचन्द्रने चण्डाल, मील, निषाद, राक्षस, प्रेत, देवता, मनुष्य, बानर, रीछ, गिरहेरी सबके साथ मैत्री की थी, किन्तु अपना मर्यादासे कभी च्युत नहीं हुए थे । मील होने उनको उच्छिष्ट बेर खिलाये थे, यह उक्ति केवल कविकल्पना मात्र है । हो सकता है कि एक बेर चख कर उसने देख लिया हो कि बेर कैसे हैं, किन्तु वे उन्हे उच्छिष्ट बेर देती गईं और वे खाने गये, ऐसी कथा

न रामायणमें है और न महात्मा तुलसीदासजीने ही लिखा है । इस प्रकारसे एकता, तपस्या और अलौकिक दैवीशक्तिकी सहायता मिलने पर तब देशभक्त वीर देशकी पूर्ण सेवा कर सुफल लाभ कर सकते हैं । मायाके राज्यमें प्रत्येक कार्यमें प्रतिमुहूर्त शक्तिका क्षय होता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तिमात्रके उदय होनेसे प्राणक्षय, आयुक्षय, शक्तिक्षय हो जाता है । इस प्रकार दैनन्दिन क्षयद्वारा उत्पन्न हानिसे बचनेका एकमात्र उपाय तपस्या, संयम और साधना है । उपासना ही मनुष्यके शक्तिभण्डारको सदा भरपूर रख सकती है । अतः कर्मवीर देशभक्तको भगवद्भक्त भी अवश्य होना चाहिये । यही देशसेवाके साथ सनातनधर्मका अच्छेसे सम्बन्ध है, जिसको हृदयङ्गम कर कार्यक्षेत्रमें अग्रसर होनेसे कर्मवीर देशसेवी—शरीरदेश, जन्मभूमिदेश और त्रिभुवनदेश—सभीकी योग्य सेवा कर कृतकृत्य हो सकते हैं, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है ।



स्वराज्य और सनातनधर्म ।



आधुनिक विद्वान और देशसेवाके साथ सनातनधर्मका सम्बन्ध बता कर अब स्वराज्यके साथ इसका सम्बन्ध बनाया जाता है ।

आर्यशास्त्रमें आत्माको नित्यमुक्त, स्वराट् तथा स्वराज्यमें विराजमान कहा गया है । श्रौमद्भागवतके पहले ही श्लोकमें—

‘जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्’

इस प्रकार कहकर श्रीभगवान् वेदव्यासने आत्माको नित्यमुक्त स्वराट् कहा है । आत्मा नित्यमुक्त है । जीव जब तक मायाकी प्रतारणा में पड़कर आत्माके इस नित्यमुक्त स्वभावको अज्ञान नहीं करता है तभी तक जीवका बन्धन तथा आवागमनचक्र बना रहता है । तभी तक जीवको परिणामशील संसारमें अनेक प्रकारके दुःख भेलेने पड़ते हैं । किन्तु आत्माके नित्यमुक्त, स्वराट्, स्वराज्यमें विराजमान स्वरूपको देखते ही जीवका समस्त दुःख नष्ट हो जाता है और तभी जीव अपनेका ब्रह्म जानकर नित्यानन्दमय हो जाता है । अतः सिद्ध हुआ कि स्वराज्यप्राप्तिमें आत्माका नैसर्गिक अधिकार (Natural right, birth right) है और स्वराज्यप्राप्ति तथा परतन्त्रताको दूर करना ही

सकल सुखोंका निदान है । इसीलिये श्रीभगवान् मनुने सुखदुःखका लक्षण निर्णय करने समय अपनी सहितामे कहा है—

सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

इति विद्यात् सभासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

सकल प्रकारकी परतन्त्रता ही दुःख है और स्वतन्त्रता एकमात्र सुख-निदान है, संक्षेपसे सुखदुःखका यही लक्षण जानना चाहिये । आत्मा नित्यस्वतन्त्र है, जीव वही आत्मास्वरूप है, अतः सुख तथा स्वतन्त्रताके लिये जीवकी इच्छा क्यों नहीं होगी ? अवश्य होगी । क्योंकि जो जिसका नैसर्गिक स्वरूप है उसके लिये उसके हृदयकी आकांक्षा होनी और बनी रहनी स्वाभाविक है । जन्मसिद्ध अधिकार (Birth right) तथा स्वभावसिद्ध अधिकार (Natural right) के लिये लालसा अवश्य ही उत्पन्न होती है । इसके बिना जीवका अस्तित्व ही वृथा है, क्योंकि स्वाधीन आत्माने यदि अपनी स्वाधीनताका ही अनुभव न किया तो उसके अस्तित्वका कोई भी प्रयोजन नहीं रह सकता है । यही कारण है कि सभी जीव स्वतन्त्रता अर्थात् स्वराज्यको चाहते हैं । अब जीवको यह स्वराज्य, यह स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त होती है सो ही विवेच्य है । मनुसहितामे लिखा है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥

आत्माको सकल भूतोंमे और सकल भूतोंको आत्माके देखकर आत्मयज्ञ-परायण महात्मा स्वाराज्यका लाभ करते हैं । यही आर्यशास्त्रके सिद्धान्तानुसार स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण है ।

क्या भूमण्डलस्थित सभी जातियोने आर्यशास्त्रके सिद्धान्तानुसार स्वाराज्यका लाभ किया है ? कभी नहीं । प्रकृति-राज्यमें उन्नतिके तारतम्यानुसार जिस जातिने 'स्व' को जितना समझा है उसने स्वका राज्य भी उतना ही लाभ किया है । जिसने स्थूलशरीर मात्रको 'स्व' समझा है उस जातिका स्वाराज्य स्थूल शरीरपर ही प्रतिष्ठित है अर्थात् स्थूल शरीरको अन्य किसी जातिके अधीन न होने देकर उसे स्वतन्त्र रखनेमें ही वह जाति अपना स्वाराज्य समझती है ।

जिस जातिने सूक्ष्मशरीरको 'स्व' समझा है उसके लिये मनोराज्य तथा बुद्धि-राज्यपर आधिपत्य विस्तार करना ही स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण है । मनको विषयोंका तथा इन्द्रियोंका अधीन न बनाना, बुद्धिपर अविद्या का आवरण आने न देना, मन बुद्धि दोनोंका इहलोक परलोकमें अभ्युदय सम्पादन करना इस स्वाराज्यसिद्धिका निदर्शनरूप है । और जिस जातिने 'स्व' का अर्थ आत्मा समझा है, वह जाति केवल स्थूलशरीरको पराधीनतासे बचानेमें ही पूर्ण स्वाराज्य नहीं समझती तथा मन बुद्धिकी उन्नतिमें ही स्वाराज्यसिद्धिको नहीं मानती, किन्तु शरीर, मन, बुद्धि तीनोंके ही साथ आत्माको भी निज नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपमें प्रतिष्ठित करके तब पूर्ण तथा यथार्थ स्वाराज्यलाभ हुआ ऐसा विचार रखती है । समस्त पृथिवीके इतिहासका पाठ करनेसे बुद्धिमान् व्यक्तिको अवश्य ही ज्ञात होगा कि अब तक पृथिवीकी अन्य सभी जातियोंने केवल स्थूल शरीरको ही 'स्व' समझ रक्खा है और इसलिये स्थूल शरीरकी स्वतन्त्रताको ही वे स्वाराज्य समझती हैं । केवल आर्य्यजातिके पिता पितामह महर्षियोंने ही 'स्व' का यथार्थ अर्थ आत्मा है यह अनुभव किया था और तदनुसार केवल स्थूल शरीरकी स्वतन्त्रतामें ही पूर्ण स्वाराज्य न समझकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभीकी स्वतन्त्रतामें सच्चा स्वाराज्य समझा था । इसलिये आर्य्यजातिके लक्षण वर्णन करते समय यास्क आदि मुनियोंने "आर्य्यः ईश्वरपुत्रः" "आर्याश्च पृथिवीपालाः" इत्यादि लक्षण बताये हैं । अतः शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभीको परतन्त्रतासे बचाना—यही आर्य्यजातिके सिद्धान्तानुसार स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण है ।

इस प्रकार चार पादोंसे पूर्ण स्वाराज्यसिद्धिका विधान महर्षियोंने क्यों किया था ? क्या पश्चिम देशियोंकी तरह केवल स्थूल शरीरमात्रकी स्वाधीनतामें ही स्वाराज्य समझना यथेष्ट नहीं है ? ऐसी शङ्काएँ हो सकती हैं । और इनका समाधान भी पृथिवीके इतिहासमें जातीय उत्थान पतनके कारणान्वेषी पुरुषोंके निकट प्रच्छन्न नहीं रहेगा । गत कई सहस्र वर्षोंके भीतर जितनी जातियों कालसमुद्रके गर्भमें अनन्तकालके लिये एकवार ही डूब चुकी हैं उनके इतिहासों पर विचार तथा मनन करनेसे स्पष्ट सिद्धान्त होगा कि अर्थ काम तथा पशुवल (Brute force) के द्वारा कोई भी जाति अपने स्थूल शरीरको स्वतन्त्र कर सकती है किन्तु यदि मन, बुद्धिको आसुरभावसे स्वतन्त्र करनेके लिये उसके

पास धर्मबल न होगा तथा आत्माको अज्ञानान्धकारसे मुक्त रखनेके लिये उसके पास ज्ञानबल, यथार्थ आत्मबल (Soul force) न होगा तो अर्थकाम और पशुबलकी प्रतिक्रियामें आसुरी उन्माद तथा अनाचार-अत्याचार-दुराचार-व्यभिचारयुक्त पशुभावकी अत्यन्त वृद्धि द्वारा वह जाति थोड़े ही वर्षोंके भीतर अवश्य ही नाशको प्राप्त हो जायगी इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । इष्टान्तरूपसे सोच सकते हैं कि गत कई सहस्र वर्षोंके भीतर वेविलोनियन्, एसिरियन्, इजिप्सियन्, ग्रीसियन्, रोमन् आदि अनेक जातियोंका पूर्णरूपसे नाश होगया है, किन्तु सभीके नाशके मूलमे धर्महीन, आत्मज्ञानहीन पशुभाव-प्रधान अर्थकाम ही प्रचल था । उन जानियोंने प्रधानतः पाशविकबल (Brute force) के द्वारा अपने स्थूल शरीरको स्वतन्त्र किया था और अन्यान्य दुर्बल जातियों पर भी पशुबलके ही प्रभावसे अपना आधिपत्य जमाया था । किन्तु जैसा कि पहले कहा गया है अर्थकामके मूलमे धर्म न रहनेसे घृताहुत वह्निकी तरह अर्थलालसा और कामलालसा अत्यन्त बलवती होकर राज्याधिकारप्राप्त उन जानियोंको शीघ्र ही मनुष्यसे पशु बना दिया ।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मेष भूय एवाभिवर्द्धते ॥

उपभोगसे कामनाकी शान्ति नहीं होती है, किन्तु घृतपुष्ट अग्निकी तरह कामना उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगती है यह बात निश्चित है । संसारमें धर्मकी ही शक्ति इस कामनानलको नियन्त्रित करके इसके प्रबल वेगको शान्त करती है । मेरे पास जितना धन है इससे अधिक धन यदि मैं ठगी, चोरी, मुठई आदिसे कमा सकूँ तो चित्तकी इस कामनाका रोकने वाला कौन है ? मेरे पास काम भोगके लिये स्त्री आदि जो कुछ सम्पत्ति है, उससे भी अधिक सामानका संग्रह व्यभिचार, बलात्कार आदि द्वारा करनेको मुझे कौन रोक्ता है ? क्यों नहीं मैं यथाशक्ति अन्याय उपायोंके द्वारा अपनी, बलवती विषयलालसा, धनलालसा, कामलालसाको चरितार्थ करूँगा ? संसारमें धर्म ही एक शक्ति है जिसने अर्थकामपराणण मनुष्यको इस युक्तिसे रोका है कि यदि वह अन्याय उपायोंसे अर्थकामका संग्रह करेगा तो वासनाकी अग्नि बढ़ती बढ़ती प्रलयान्ति बन कर कुछ दिनोंमें उसे ही भस्म कर देगी, उसके मनुष्यत्वका नाश कर उसको

पूरा पशु बना देगी और नाना प्रकारके रागद्वेष रोगशोक आदिके निर्यातन द्वारा थोड़े ही दिनोंमें उसको मार देगी । केवल इतना ही नहीं, धर्मकी भविष्यदुभेदी ज्ञानमयी शक्ति उसको यह भी बता देगी कि अधर्मसे, अन्याय उपायोंसे अर्जित अर्थकाम बहुत दिनों तक रहना नहीं है बल्कि उसकी प्रतिक्रियामें आगामी जन्ममें या अत्युत्कट होने पर इसी जन्ममें अर्थकामको ही नाश कर देना है । “अस्तेय-प्रतिघ्रायां सर्वरत्नोपस्थानम्” अस्तेय अर्थात् चोरी न करना इसको प्रतिघ्रा जिसने शरीर, मन, वचनके द्वारा की है उसको महर्षि पतञ्जलिके कथनानुसार जिस प्रकार सकल रत्नोंकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार चोरी, ठगी, मुठार, प्रवञ्चना आदि अन्याय उपायोंसे धनार्जन करने पर उसकी प्रतिक्रियामें इस जन्ममें या आगामी जन्ममें उस पापीको भीषण दारिद्र्य दुःख भोगना पड़ता है । उसी प्रकारसे परस्त्री-लोभी मनुष्य आगामी जन्ममें स्त्रीहीन या असती स्त्रीके द्वारा दुःख प्राप्त होता है एवं पर-पुरुष-लोभी स्त्री आगामी जन्ममें पतिहीन या कदाचारी पति को प्राप्त होती है । इसी कारण श्रीभगवान् वेदव्यासने कहा है कि—

“धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते”

धर्मसे ही चिरकालस्थायी अर्थकामकी प्राप्ति होती है, तथापि लोग धर्मसेवा क्यों नहीं करते ? तृतीयतः अर्थकामके मूलमें धर्म न रहनेसे लालसाग्रस्त अतृप्त अर्थकामपरायण मनुष्य दूसरेकी अर्थकामसामग्रीको छीनकर अपनी अर्थकामलालसाको अधिकाधिक तृप्त करना चाहता है, जिसके फलसे द्वेषानल, अन्तर्विवाद और अन्तमें घोर अन्तर्जातीय संग्राम (Revolution) होकर अर्थकामलोलुप जाति रसातलको चली जाती है । रोमन, ग्रीसियन, वेबीलोनियन आदि जातियों इसी तरहसे नाशको प्राप्त हो गई हैं । पशुवलके द्वारा अर्थकाम तथा स्वराज्य, परराज्यको संग्रह करके धर्मवलसे पशुवलको नियन्त्रित तथा आत्माकी ओर दृष्टि न रखने पर समस्त जाति इसी प्रकारसे मनुष्यपदसे च्युत, अनाचारी, व्यभिचारी, महापापग्रस्त तथा पशुत्वकी चरमसीमा पर पहुँच कर अन्तमें नष्ट हो जाती है । यही कारण है कि दूरदर्शी, तत्त्वदर्शी पूज्यपाद महर्षिोंने केवल अर्थकाम तथा पशुवलके प्रभावसे स्थूल शरीरकी स्वतन्त्रताको ही स्वतन्त्रता नहीं कहा है, किन्तु अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारोंकी सहायतासे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारोंकी स्वतन्त्रताको ही यथार्थ स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण कहा

है । जीवका मन या बुद्धि यदि विषयोंके परतन्त्र रहे तो केवल स्थूल शरीरकी स्वतन्त्रता अनर्गलतामात्रको उत्पन्न करके जीवको और भी दुर्दशा तथा अधोगतिमें डाल देती है इसमें अशुभाव सन्देह नहीं है । इसलिये अर्थकाम तथा क्षात्रशक्तिके द्वारा स्थूलशरीरका स्वाराज्य, धर्मबलसे मन बुद्धिका स्वाराज्य तथा ज्ञानबलसे आत्माका स्वाराज्य इस प्रकारसे चारोंकी स्वाराज्यसिद्धिमें ही पूर्ण स्वाराज्यसिद्धि होता है जिसका उपदेश पूज्यपाद महर्षियोंने आर्यजातिके लिये किया है ।

वह उपदेश क्या है ? अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारोंकी स्वाराज्यसिद्धिके लिये महर्षियोंने क्या क्या उपाय बताया है सो ही अब विचार करने योग्य विषय है । विचार करने पर पता लगेगा कि आर्यजातिकी चातुर्वर्ण्यव्यवस्थाके द्वारा अनायास ही चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यसिद्धि हुआ करती है और इसीलिये पूज्यपाद महर्षियोंने वर्णधर्मपर इतना जोर दिया है तथा प्राकृतिक विधिके अनुसार चार वर्ण अपने अपने कर्त्तव्यको पूर्ण रीतिसे पालन करें, इसका विशेष अनुशासन बताया है । मीमांसा शास्त्रका सिद्धान्त है कि—

कामप्रधानः शूद्रः ।

अर्थप्रधानो वैश्यः ॥

धर्मप्रधानः क्षत्रियः ।

मोक्षप्रधानो ब्राह्मणः ॥

शिल्पकला, कारीगरी, वस्त्रादिनिर्माण इत्यादि इत्यादि स्थूल कामनापूर्त्तिका सामान प्रस्तुत करके जातिकी शारीरिक सेवामें सहायता करना शूद्रवर्णका प्राकृतिक धर्म है । कृषि वाणिज्यादि द्वारा यथेष्ट अर्थसंग्रह करके जातिका स्थूल शरीर बहुमूल्य रत्नोंसे सुसज्जित कर देना तथा जातीय दरिद्रताका एकवार ही आमूल नाश कर देना वैश्यवर्णका प्राकृतिक धर्म है । शिल्पकला, धन, रत्न, भूसम्पत्तिको विदेशी आकर लुण्ठित तथा अधिकृत न कर सकें, इसलिये बाहुबल, अस्त्रबल, सैन्यबल, युद्धकौशल द्वारा जातिको विजातीय आक्रमणसे सुरक्षित रखना क्षत्रियवर्णका प्राकृतिक धर्म है । अनर्गल अर्थकाममें या अनर्गल क्षात्रशक्तिमें जो जातीय अवनतिकर उन्मादकी स्वाभाविक

स्थिति है, उसको धर्मबलसे रोककर समग्रजातिको आत्मा तथा मोक्षकी ओर नियोजित रखना ब्राह्मणवर्णका स्वाभाविक धर्म है। इसीसे बुद्धिमान् मनुष्य समझ सकते हैं कि दूरदर्शी महर्षियोने केवल चार वर्णकी नैसर्गिक व्यवस्थाके द्वारा ही शरीर-मन बुद्धि-आत्माभय चतुष्पाद पूर्ण स्वराज्यसिद्धिकी पूर्ण अनुशासनविधि बता दी है। वैश्य, शूद्र, क्षत्रियके ऊपर शारीरिक स्वराज्य-प्राप्तिका भार है और क्षत्रिय ब्राह्मणके ऊपर मन-बुद्धि-आत्मा सम्बन्धीय स्वराज्य लाभका भार है। बिना क्षत्रशक्ति तथा ब्राह्मणशक्तिकी समवेत सहायतासे वैश्यशक्ति और शूद्रशक्ति भी निरापद नहीं रह सकती है, इसलिये महर्षियोकी यह आज्ञा थी कि, क्षत्रशक्ति और ब्राह्मणशक्ति परस्पर सहायक बनकर सबकी रक्षा करें। यथा मनुसंहितामें—

नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्द्धते ।

ब्रह्मक्षत्रं तु संपृक्तमिह चासुत्र वर्द्धते ॥

ब्राह्मणशक्तिके बिना क्षत्रशक्ति उन्नतिको प्राप्त नहीं हो सकती है और क्षत्रशक्तिके बिना ब्राह्मणशक्ति भी वृद्धिगत नहीं हो सकती है। दोनों शक्तियां परस्पर मिलकर ही इहलोक परलोकमें सम्यक् वर्द्धित तथा कल्याणकारिणी हो सकती हैं। जिस प्रकार किसी रोपित वृक्षको पूर्णकलेवर बनानेके लिये केवल वृक्षमूलमें जलसेचन ही यथेष्ट नहीं होता, किन्तु वृक्षके चारो ओर वेष्टनी लगाकर उसे छाग, भेड़, गौ आदिके आक्रमणसे भी बचना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जातिरूप विशाल वृक्ष क्षत्रियवर्णरूप वेष्टनी द्वारा विदेशियो तथा विघर्षियोंके आक्रमणसे सुरक्षित रहता है और ब्राह्मणवर्णकृत धर्मजल-सिञ्चनसे पुष्टकलेवर बनकर जातिके प्रत्येक व्यक्तिको शान्तिछाया प्रदानमें समर्थ हो सकता है।

इस प्रकारसे प्राचीनकालमें ब्रह्मशक्ति और क्षत्रशक्तिकी समवेत सहायतासे धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूपी चतुर्वर्गकी सिद्धि तथा शरीर-मन-बुद्धि-आत्मारूपी चतुष्पादसे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति आर्थजातिको हो सकी थी। इन दोनों शक्तियोंमें जब कहीं कुछ विरोध आजाता था तो श्रीभगवान् स्वयं अवतार धारण करके विपथगामी शक्तिकी निरकुशताको दबा कर पुनः दोनोंका सामञ्जस्य विधान कर दिया करते थे। त्रेतायुगमें कार्त्तवीर्यार्जुनप्रमुख क्षत्रियोंकी शक्ति निरङ्कुश तथा

अत्याचारी बनकर ब्राह्मणशक्तिके नाशका कारण हो उठे थीं, इसलिये श्रीभगवान्‌को ब्राह्मणकुलमें परशुरामरूपमें अवतीर्ण होकर पापी क्षत्रियोंके नाश द्वारा दोनों शक्तियोंका सामञ्जस्य करना पड़ा । पुनः जब कुछ वर्षों बाद ब्राह्मणशक्ति विगड़ गई और ब्राह्मणवशमें रावण जैसे राक्षस उत्पन्न होकर अधर्माचरण करने लग गये तो श्रीभगवान्‌का निरङ्कुश ब्राह्मणशक्तिके दमनके लिये श्रीरामचन्द्ररूपमें क्षत्रिय कुलमें जन्म लेना पड़ा । उन्होंने रावण वंशका नाश करके ब्राह्मणशक्तिके अपलापका दूर किया और आदर्श क्षत्रिय नरपतिका धर्माचरण करके आर्यजातिके शान्ति प्रदान की । पुनः हापरयुगके अन्तमें दोनों ही शक्तियाँ विपथगामिनी हो गईं, जिससे देवांशोत्पन्न मीष्म कर्णादि क्षत्रिय वीरगण तथा द्रोणाचार्य्य, अश्वत्थामादि ब्राह्मणकुलभूषणपुरुषगण भी धर्मपत्नको छोड़कर पापपक्षात्कूल सत्राममें प्रवृत्त हो गये । अपने सामने कुलवधुको विचखा होती हुई देखकर भी किसीको विचार नहीं आया, धर्मक सिर पर पापका पदाघात देखकर भी किसीके हृदयमें आघात नहीं लगा, क्षत्रियधर्मको तिलाञ्जलि देकर निरस्त्र अभिमन्युके प्राणहननमें किसीको लज्जा नहीं आई, निद्रित कुमारोके सिर काटनेमें ब्राह्मणधर्मका अमानुष अपलाप नहीं प्रतीत हुआ, विश्ववन्धननाशकारी श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रको बांधनेके लिये भी महापापमय स्पर्धा होने लगी, इधर कंस, शिशुपाल, अघासुर, चकासुर, जरासन्ध, दन्तवक्र, आदि आसुरीशक्ति सभ्रक्ष क्षत्रियोंके भीषण अत्याचारसे ससागरा धरा विकम्पित होने लगी, तब श्रीभगवान्‌को कृष्णरूपसे पूर्णकलामें अवतीर्ण होकर दोनों शक्तियोंकी ही उद्दण्डताको दबाकर दोनोंका सामञ्जस्य करना पड़ा । उन्होंने कुरुक्षेत्रादि महासमरमें पापी क्षत्रियोंका नाश कराकर धर्मराज्य स्थापन कराया और गीता आदिके उपदेश द्वारा ज्ञानमयी ब्राह्मणशक्तिकी प्रतिष्ठा की । इस प्रकारसे जब जब दोनों शक्तियोंमें असामञ्जस्य या वैमनस्य फैला तभी श्रीभगवान्‌ने कभी स्वयं आवश्यकतानुसार अंशकला या पूर्णकलामें अवतीर्ण होकर और कभी साम्प्रदायिक या राजनैतिक आचार्यादि विशिष्ट विभूतियोंके रूपमें प्रकट होकर वैमनस्यको विदूरित किया और चातुर्वर्ण्यकी धर्मानुकूल व्यवस्था विधान करके अर्थकामका पोषण, अर्थकाम तथा प्रजाकी रक्षा और अर्थकामके धर्मानुकूल विनियोग द्वारा मोक्षमार्गको निष्कण्टक राजमार्गकी तरह बना रखा । और जबतक इस प्रकार चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यकी सिद्धि रही तबतक आत्मासम्बन्धीय स्वाराज्यके साथ साथ स्थूलशरीर सस्वन्धीय स्वाराज्य भी आर्यजातिके भाग्यसे पूर्णरूपसे

विराजमान रहा, जिससे यह जाति तथा यह भारतभूमि विजातीय आक्रमण तथा अधिकारविस्तारसे सदा सुरक्षित रही । यही सत्य, जेता, द्वापर तथा कलियुगके प्रथमचरणांश तक चतुष्पादपूर्ण स्वराज्यका गूढ तत्त्व है ।

पूज्यपाद महर्षियोंकी दूरदर्शितासे प्राप्त चतुष्पादपूर्ण यह स्वराज्य भाग्यचक्रके विपरीत परिवर्तनके कारण आर्यजातिके अधिकारसे कैसे निकल गया, अब यही विचारणीय विषय है । श्रीभगवान् कृष्णचन्द्रके द्वारा भूमार-हरणके बाद कुछ दिनों तक भारतवर्षमें शान्ति रही । किन्तु जो भ्रातृविद्वेषरूपी विषवृक्षका बीज भारतीय क्षत्रियभूमिमें एक बार उग चुका था, वह कदापि नष्ट नहीं हो सका । इसलिये पाण्डववंशोय कुछ नरपतियोंके एकच्छत्र साम्राज्य चलानेके बाद भारतवर्षमें एकच्छत्र नरपति कोई भी नहीं रह सके । समग्र भारतमें छोटे-छोटे अनेक राजवंशियोंके राज्य हो गये । इधर वौद्धविश्लेषके प्रतापसे ब्राह्मणशक्तिमें बहुत ही दुर्बलता आ गई, जिस कारण परस्पर विद्वेष-भावापन्न, संग्रामनिरत उन राजवंशियोंको संग्रामनिवृत्ति, एकता तथा शान्ति-प्राप्तिके लिये धर्मात्मशासन बतानेवाली ब्राह्मणशक्तिकी विशेष-सहायता नहीं प्राप्त हो सकी । 'सद्ये शक्तिः कलौ युगे' एकता द्वारा ही कलियुगमें राजकीय शक्ति लाभ हो सकता है, यह श्रीभगवान् वेदव्यासकी भविष्यद्वाणी है । किन्तु भारतके भाग्यमें इसका ठोक विपरीत फल ही हुआ । एक ओर क्षुद्र-क्षुद्र राज्यके अधिपति राजागण एकताकी महिमाको भूलकर पारस्परिक अन्तर्विवाद-से दुर्बल होने लगे, दूसरी ओर अन्तःसारहीन ब्राह्मणशक्ति द्वारा यथेष्ट सहायता न मिलनेके कारण क्षत्रियजातिमें राजसिक शक्तिहीनता और धार्मिक दुर्बलता बढ़ती ही गई । इस प्रकारसे दोनों शक्तियोंके विषमगामी होनेके कारण शिल्पकलापरायण शूद्रशक्ति तथा धनरत्नप्रसू वाणिज्यपरायण वैश्यशक्ति-का यथोचित रत्नक कोई न रहा । इस अवसरको देखकर विदेशसे भारत-वासियोंपर मुसलमानोंका आक्रमण प्रारम्भ हुआ । महमूद गजनवी, महम्मद गोरी आदि अनेक मुसलमानोंने रत्नप्रसविनी भारतमाताके रत्नभण्डारको खूब लूटा और अन्तमें दुर्बल क्षत्रियशक्तिकी पराजित करके आर्यजातिपर अपना शासनाधिकार जमा लिया । जिस प्रकार स्वार्थीनता सकल सुख तथा सकल उन्नतिका अद्वितीय निदान है, उसी प्रकार परार्थीनता आत्महननका अद्वितीय अमोघ अस्त्र है । इसी अमोघ अस्त्रके निरन्तर आघातसे आर्यजाति दिन पर

दिन निर्वीर्य, साहसहीन, पराक्रमहीन, प्राणहीन बनने लगी । कलियुगके प्रभावसे तथा धर्मद्वेषी विजातीय अत्याचारके परिणामसे धर्मजीवनमे भी बहुत ही शिथिलता आ गई । लोग अर्थकामप्रिय होकर स्वधर्म छोड़ म्लेच्छसम्बन्ध स्थापनमे भी सङ्कोच नहीं करने लगे । केवल शिशोदीय, राठौर आदि दो-चार वंशके क्षत्रियोंने स्वधर्मपालन द्वारा आत्मरक्षा तथा इस अवनतिकर प्रवाहसे जातिका कुछ रक्षा की । इधर इन्द्रियपरायणता, अत्याचार, प्रजापीड़न, परधर्मविद्वेष, परजातिविद्वेष, प्राणिहिंसा आदि अनेक दोषोंसे यवनशक्ति भी दिन पर दिन हीनबल होने लगी और नरपति औरङ्गजेवमें इन दुर्गुणोंकी पराकाष्ठा होनेके कारण उन्हींके राज्यकालसे यवनजातिका पतन प्रारम्भ हो गया । अरुवर आदि मुसलमान सम्राटोंने अपने बुद्धिबल तथा राजनैतिक कौशलसे हिन्दू मुसलमानके भीतर जो कुछ एकतास्थापन किया था, औरङ्गजेव आदिके परधर्मविद्वेष तथा परजातिविद्वेषके प्रभावसे वह सभी एकता नष्ट हो गई, जिससे हिन्दू-मुसलमानके भीतर निरन्तर संग्राम द्वारा दोनों जातियाँ और भी क्रमशः हीनबल होने लग गई । इस प्रकारसे हिन्दुशक्ति तथा मुसलमान-शक्तिका परस्पर सघर्ष और उसके परिणामरूप दोनोंकी शक्तिहीनताको देखकर पश्चिम देशकी कुछ जातियोने वाणिज्यके व्याजसे भारतवर्षमें प्रवेशाधिकार लाभ किया । चूँकि उन जातियोंका स्वभाव ही ऐसा है, कि वह वाणिज्य-शक्तिके साथ राजशक्तिको मिलाये रखती है (Flag follows the trade) इसलिये उन्होने हिन्दुजाति तथा मुसलमान जातिके भीतर वाणिज्यशक्तिके साथ धीरे-धीरे राजशक्तिका भी प्रवेश कराना प्रारम्भ कर दिया, जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ, कि दोनों शक्तियोंकी क्रमदुर्बलताको देख कर पश्चिमीय उन जातियोंमेंसे किसी एक राजनैतिक कलाकुशल जातिने भेदनातिके अचलम्बनसे दोनों जातियोंपर अपना शासनाधिकार जमा लिया । आर्यजातिका गौरव-रवि तो पहिले ही अस्तमित हो चुका था, अब मुसलमान जातिका भी गौरवसूर्य चिर-कालके लिये कालसमुद्रमें निमग्न हो गया ।

जिस जातिने हिन्दू-मुसलमान दोनों जातियोंपर शासनाधिकार विस्तार किया है, उसका राजनैतिक चतुरता बहुत ही विचित्र है । उस समुद्रके ऊपरकी लहरें ऐसी मनोमुग्धकर हैं, कि भीतर कितने मंकर नकादि जल जन्तु हैं, इसका न पता लगता है और न पता लगानेकी एकाएक इच्छा ही होती है,

केवल लहरोंके शुभ दर्शनसे मुग्ध होकर समुद्रमें गोता लगानेकी ही तीव्र इच्छा होती है। हिन्दु-मुसलमान दोनो जातियोंने वर्षों खूब गोता लगाया, लवणाक्त कितना ही जल पेटमें जाकर पेटको विगाडा तथा शरीरको अस्वस्थ कर दिया। फिर भी जबतक वे जलमें गोता खाते रहे, तबतक उन्हें कुछ भी पता न चला। राजनीतिकुशल शासकजातिने शासितजातिको विजातीय शिक्षा द्वारा कुछसे कुछ कर दिया। सबसे पहिले उन्हें यही शिक्षा मिली, कि वह इस देशका नहीं है, उसका प्राचीन घर भारतवर्ष नहीं है, वह किसी समय मध्यएशियामे कास्पियनहृदके पास निवास किया करता था, पीछेसे जब शासकजातिके लोग पश्चिमकी ओर चले गये, तो वह पूर्वकी ओर आकर भारतभूमिमे बस गया। अब वे भी यही आ गये हैं। अतः भारतको अपना घर कहना मिथ्या है। भारतमाता उसकी माता नहीं है। और वह जो अपने पिताको आर्य कहकर दूसरेको अनार्य कहता है, वह भी सिद्धान्त मिथ्या है। क्योंकि दोनोंका ही काकेसियन मुख होनेसे दोनो ही आर्य हैं। उसके पुराने इतिहासमें कोई वीर या उत्तम पुरुष हुए ही नहीं हैं। उसके राम, कृष्ण आदि असभ्य, चरित्रहीन, बुद्धिहीन लोग थे। उसके पौराणिक भीष्म, अर्जुन, भीम आदिकी कथा उपकथा मात्र है, सत्य बात नहीं है, क्योंकि भीम, अर्जुन आदि नामके कोई पुरुष हुए ही नहीं। इत्यादि-इत्यादि शिक्षाके द्वारा आर्यजाति अपने गृह तथा पिता-माता सभीको भूल गयी। किन्तु सब कुछ भूलनेपर भी जबतक जातीय भाव तथा जातीय अभिमान है, तबतक जातिका नाश कोई भी नहीं कर सकता है। जातीय भावके प्रकट करनेके लिये तीन वस्तु हैं, यथा—जातीय भाषा, जातीय वेश और जातीय धर्म। लौकिकजगतमें देखा जाता है, कि जिसके भीतर जो भाव होता है, उसके मुखसे शब्द भी ऐसे ही निकलते हैं, उसका रूप भी ऐसा ही बन जाता है और धर्म भी वह वैसा ही होता है। भीतर क्रोधका भाव होनेसे शब्द क्रोधके निकलते हैं, रूप क्रोधीकी तरह भीषण बन जाता है और आचरण भी क्रोधी जैसा ही होने लगता है। भीतर प्रेम या भक्तिका भाव होनेसे शब्द प्रेमभक्तिपूर्ण निकलते हैं, मधुररूप प्रेमीभक्तके बन जाते हैं और धर्माचरण भी प्रेमीभक्तका ही होने लगता है, इत्यादि इत्यादि। अतः सिद्ध हुआ, कि शब्द, रूप और धर्मके द्वारा ही भाव प्रकट होता है। इस कारण यदि किसी जातिके भावका नाश करना हो, तो उसकी भाषा, उसका वेश तथा उसके धर्मका नाश करना चाहिये। भाग्य-

चक्रसे आर्यजातिको तीनोंका ही नाश देखना पड़ा है। उसकी भाषा देववाणी स्तुतभाषा बनाई गई है, उसका जातीय वेश, जातीय खान-पान, जातीय रूप विगडकर विजातीय हो चला है और उसका अनादि प्रसिद्ध सनातनधर्म आस्तिकताहीन भौतिक विज्ञान (Godless material science) के भंवरमें पडकर डूबता ही जा रहा है। अब जब इनका तरु हो गया कि आर्यजाति गृहत्यागी, मातृत्यागी, पितृत्यागी, भावत्यागी, मापात्यागी, वेशत्यागी, धर्म-त्यागी हो गई, तो बाकी छोटी-मोटी बातोंके त्यागनेमें क्या देर लगती है। इसलिये शूद्रोंने कर्णकी तरह छुट्टांगुलि गुरुदक्षिणामें चढ़ाकर शिल्पकलाको परित्याग किया। वैश्योंने वारिज्यलक्ष्मीको छोडकर मन-ही-मन सन्तोषव्रत धारण कर लिया। क्षत्रियोंने रक्षाधर्मके पालनका प्रयोजन न देखकर अस्त्र-शस्त्रोंका परित्याग कर दिया और ब्राह्मणोंने ब्रह्मपूजनको छोडकर अर्थकाम सेवामें ही मन प्राणको सौंप दिया। इस प्रकारसे आर्यजातिको चतुष्पादपूर्ण स्वराज्यके स्थान पर षोडशकलासम्पूर्ण पराधीनता ही मिल गई है। इसके अतिरिक्त अपने स्वरूपको भूलकर चिर उदार आर्यजातिने स्वधर्म-विद्वेषी और स्वजाति-विद्वेषी बन अपनी पराधीनता शृङ्खलाको और भी कठिन बना लिया है।

किन्तु अन्तर्यामी विधाताके विधानको कौन रोक सकता है ? गत यूरोपीय महासमरमें पाश्चात्यसभ्यताके कुपरिणामको देखकर आर्यजाति तथा समस्त संसार चाँक उठा है और आर्यजातिको यह मालूम हो गया है कि, पाश्चात्यसभ्यताके ऊपरों चमत्कारमें मुग्ध होकर महर्षिप्रणीत प्राचीन आर्यसभ्यताके प्रति उपेक्षा करना उसको भूल थी। यूरोपीय महासमरमें मन प्राण शरीर आत्मीयस्वजन सभीके समर्पण करने पर भी—उसके बदले जो कुछ मिला है उससे भी आर्यजातिकी आँखे खुल गई हैं। यही सिद्धान्त निश्चय हो गया है कि, संसार स्वार्थपरता, नीचता, कृतघ्नता तथा पशुभावसे भरा हुआ है, यदि कोई जाति अपनी उन्नति करना चाहे तो दूसरी जातिका सुखापेक्षा न होकर स्वावलम्बनकी सहायतासे अपने ही पाँवपर खड़ा होनेका पुरुषार्थ करना ही यथार्थतः उन्नतिलाभ करनेका उपाय है। वास्तवमें भिखारीकी तरह दूसरेके कृपाकटाक्ष-मिच्छु होनेकी अपेक्षा अपने आत्मबलिदान द्वारा जगन्माताको प्रसन्न करके मातृभूमिसै शक्तिमान् होना ही उन्नतिका मूलमंत्र है। अब राज-नैतिक चक्रकी गति प्रजातन्त्र (Republic) की ओर प्रवळवगेसे हो रही है।

यह भी प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है कि, एक दो को छोड़कर पृथ्वीके जितने महा-देश हैं वे सभी राजतन्त्रको छोड़कर प्रजातन्त्र प्रथाको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा अकस्मात् क्यों हुआ इसका मूलान्वेषण करनेसे अनेक हेतु देखनेमें आते हैं। उनमेंसे तीन हेतु विशेष प्रबल हैं यथा—पश्चिमी सभ्यता (Western Civilisation) का अवश्यम्भावी परिणाम, (२) राजाओंमें राजशक्तिके अप-लाप द्वारा तपस्यानाश तथा राजोचित गुणावलीका अभाव और (३) प्रजाओंमें धैर्य, त्याग तथा सहनशीलता द्वारा तपःसञ्चय, और भगवत्कृपालाभ । नीचे इन तीनोंका क्रमशः वर्णन किया जाता है ।

(१) पश्चिमी सभ्यताका अवश्यम्भावी परिणाम—[क] पश्चिमी सभ्यताके भौतिक विज्ञान (Material Science) मूलक होनेसे उसके द्वारा संसारका सामञ्जस्य विगडता है। संसार यदि एक ओर सौ दो सौ करोड धन-पतियोंके द्वारा और दूसरी ओर दस बीस करोड अतिदरिद्र मजदूरोंके द्वारा पूर्ण होजाय, तो, संसार कभी यथार्थ सभ्यताके शिखर पर चढ़ नहीं सकता। मध्यवित्त लोगोंके द्वारा ही संसारमें सकलप्रकारकी जातीय उन्नति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उनको मजदूरोंकी तरह अन्नचिन्ता भी नहीं रहती और करोड-पतियोंकी तरह धन-मद भी नहीं रहता है। वे दोनों असामञ्जस्यकी आशङ्कासे बचकर व्यक्तिगत तथा जातिगत-जीवनकी यथार्थ उन्नतिके लिये विशेष पुरुषार्थ कर सकते हैं। किन्तु भौतिक विज्ञानका जो मूलतत्त्व है उससे संसारमें मज-दूर दल (Labour Class) और धनीदल (Capitalist) ही बढ़ते हैं, मध्यवित्त-लोग (Middle Class) घट जाते हैं। किसी एक कारखाने या मिल आदिके दृष्टान्तसे इस विचारको मिलाकर देख सकते हैं। एक वस्त्रकी या आटेकी मिल चलनेपर क्या होता है ? जिस धनीको मिल है, वही करोडपति बनता है, बाकी उसमें काम करनेवाले मजदूर लोग चिरदरिद्र ही रहते हैं। एक मिलमें अनेक वस्त्रादि प्रस्तुत होनेके कारण मध्यवित्त लोगोंके लिये श्रमविभाग (Distribution of Labour) का सिलसिला एकबार ही नष्ट हो जाता है। वे स्वतन्त्ररूपसे शिल्पकलाका अभ्यास या उन्नतिसे वञ्चित होकर केवल नौकरी करनेवाले ही रह जाते हैं। इस प्रकारसे भौतिक विज्ञान द्वारा श्रम सामञ्जस्य तथा अर्थसामञ्जस्य विगड कर एक ओर तो मध्यवित्त श्रेणी नष्ट हो जाती है और दूसरी ओर मजदूर तथा धनियोंमें संग्राम शुरू हो जाता है। क्योंकि

परिश्रम करें मजदूर, फायदा उठावे आलसी प्रमादी धनी, इससे मजदूरोंका चित्त विगड़ता है, वे धनियोंके प्रति द्वेष तथा ईर्ष्यापरायण होकर सत्राम करने लगते हैं, जिसका अवश्यम्भावी फल अन्तर्विवाद (Civil war) और एकाकारिता (Bolshevism) है जो आज ससारके सामने प्रत्यक्ष दीख रहा है । आज जो समस्त यूरोपमें मजदूरदल और धनीदलोंमें भीषण संग्राम चल रहा है और बोलशेविज्मका प्रभाव बढ़कर धनियोंके धन लूटे जा रहे हैं, प्रताप घटाये जा रहे हैं, इसका आदिकारण भौतिकविज्ञानप्रधान पश्चिमी सभ्यता ही है । किन्तु दुःख इस बातका है कि, इस प्रकार अशान्ति तथा जातीय सत्रामको मिटाकर शान्ति स्थापन करनेके लिये पश्चिमी सभ्यताने अभीतक कोई स्थायी उपाय नहीं सोचा है, उलटा संग्राम, अशान्ति, नरहत्या, जीवहत्या आदिकी पुष्टिके लिये मेशिनगन, जेम्बिन, हवाई जहाज, पनडुब्बी आदि नाशके ही सामान (Engines of destruction) तैयार किये हैं । इसका अन्तिम परिणाम यही होगा कि छोटे बड़ेको नहीं मानेंगे, प्रजा राजाको नहीं मानेंगी, राजा-प्रजामें भीषण सत्राम छिड़ जायगा और अन्तमें राजतन्त्रके बदले प्रजातन्त्र राज्य चल जायगा और इसके परिणाममें एकाकार बोलशेविज्म फैल जानेकी आशङ्का हो जायगी । इन्हीं बातों पर विचार करके पूज्यपाद दूरदर्शी महर्षिगण भौतिक विज्ञानको ही जातीय उन्नतिका एकमात्र निदान नहीं समझते थे और मिल आदिकी सहायतासे वाणिज्यश्रमोंको न बढ़ाकर गृहशिल्प (Home Industries) को सहायतासे उसे पुष्ट करके श्रमसामञ्जस्य (Balance of labour) मध्यवित्त श्रेणीकी उन्नति तथा अर्थसामञ्जस्य विधान करते थे । अतः विचार द्वारा यही सिद्धान्त निश्चित हुआ कि पश्चिमी सभ्यताका कुपरिणाम ही राजतन्त्र नाशका एक कारण है ।

[ख] पश्चिमी सभ्यता आस्तिक्यहीन भौतिकविज्ञान (Godless Material Science) मूलक होनेसे इसकी जितनी वृद्धि होती है, मनुष्यहृदयसे आस्तिकता, ईश्वरभक्ति, देवताओं पर भक्ति, सूक्ष्म जगत् पर विश्वास तथा स्थूलजगत्को ही सब कुछ न समझनेकी वृद्धि उतनी ही नष्ट हो जाती है, जिसका फल यह होता है कि, ईश्वर तथा देवताओंकी विभूतियोंपरसे भी प्रजाकी अर्द्धा भक्ति उठ जाती है । स्वधर्मसेवी यथार्थ राजामें ईश्वर तथा देवताओंकी विभूति है ।

“अष्टानां लोकपालानां मात्राभिर्निर्मितो नृपः ।”

यह आर्यशास्त्रका सिद्धान्त ही है । इसलिये राजभक्ति ईश्वरभक्तिमूलक है । ईश्वरभक्ति जितनी नष्ट होगी, राजभक्ति भी उतनी ही नष्ट होगी । अतः ईश्वरभक्तिहीन भौतिक विज्ञानके प्रभावसे संसारमेंसे राजभक्ति अवश्य ही उठ जायगी और राजतन्त्रके बदले प्रजातन्त्र प्रथा चल जायगी यह निश्चय है । इस प्रकारसे पश्चिमी सभ्यता ही राजतन्त्रका नाश करके प्रजातन्त्र राज्य स्थापनका मूल कारण हो रहा है ।

[ग] पश्चिमी सभ्यता अर्थकामके ऊपर प्रतिष्ठित है, इसमें धर्ममोक्षका नाम मात्र नहीं है, धर्महीन अर्थकाम किस प्रकारसे वासनाको बढ़ाकर मनुष्यको उन्मत्त कर देता है, इसका वृत्तान्त पहले ही कह चुके हैं । इस कारण यह बात निश्चय है कि, जिस जातिमें धर्महीन अर्थकामकी वृद्धि होगी उसमें वासनाका अन्त न रहेगा, मनुष्य वासनाको बढ़ाता हुआ चक्रवर्ती राजाकी पदवी तक पानेको जलचायेगा, जिसका फल यह होगा कि राजाकी राजसम्पत्तिको देख ईर्ष्या द्वेषसे जल मरेंगे और राजाको बड़ा न मान कर स्वयं राजा बननेकी इच्छा करेंगे और इससे यह भी परिणाम निकलेगा कि, सावधान न होनेपर प्रजाओंमें दिन पर दिन निरङ्कुश स्वाधीनताप्रवृत्ति बलवती हो जायगी । अतः देखा गया कि धर्ममोक्षहीन पश्चिमी सभ्यताके परिणामसे राजतन्त्रकी प्रधानता नष्ट होकर प्रजातन्त्रप्रथा अवश्य ही हो जायगी ।

(२) राजाओंमें राजशक्तिके अपलाप द्वारा तपोनाश—जगन्नियन्ता श्रीभगवान्का नियम ही यह है कि, इस संसारमें अनावश्यक कोई भी पदार्थ रहने नहीं पाता । प्रकृतिमाता अनावश्यक वस्तुको शीघ्र ही प्रलयके गर्भमें डुबा देती है । इस नियमके अनुसार मनुष्योंमें भी यदि भगवान्के द्वारा प्राप्त किसी वस्तुका उपयोग न हो या दुरुपयोग हो तो वह वस्तु पानेवालेके पास बहुत दिनों तक नहीं रहेगी या आगे जन्ममें वह उससे शून्य होकर उत्पन्न होगी । दृष्टान्त रूपसे समझ सकते हैं कि, इस जन्ममें धन पाकर जो अच्छे कार्यमें उसका उपयोग नहीं करेगा या पापकार्यमें उसका दुरुपयोग करेगा वह तीव्र पापसे इसी जन्ममें या साधारणतः आगामी जन्ममें निर्धनताको प्राप्त हो जायगा । 'चक्रको पाकर' उसका अपव्यवहार करनेवाला नेत्रशक्तिसे हीन होकर उत्पन्न होगा । बुद्धि पाकर उसका दुरुपयोग करनेवाला निर्बुद्धि होकर

जन्मेगा । यह सब क्रिया प्रतिक्रियामय प्राकृतिक नियम है । पूर्वजन्मकी सकाम तपस्याके फलसे मनुष्यको राज्य मिलता है । तपस्याके प्रभावसे अपूर्व उत्पन्न होनेके कारण राजाके शरीरमे सूर्य, चन्द्र, वरुण, यमादि आठ देवताओकी विभूति प्रकट हुआ करती है । किन्तु, यदि राजा इन दैव-विभूतियोका उपयोग न करे या दुरुपयोग करे, यथा—सूर्यका अंश पाकर भी प्रजाओमें प्रकाश विस्तार न करके अज्ञान या अन्धकारका ही विस्तार करे; चन्द्रका अंश पाकर भी प्रजाको निजगुणसे आनन्द न देकर निज स्वार्थसिद्धिके लिये दुःख ही देवे, वरुणका अंश पाकर भी धन दानद्वारा प्रजाको पुष्ट न करके दुर्मित्तके कराल शासमे पातित करे और प्रजा शोषणसे धनोपाजन द्वारा अपने ही ऐश्वर्य, सुख, गौरवकी वृद्धि करे अथवा राज्यमें व्ययाधिक्यनीति चलाकर राज्यको दुर्बल तथा प्रजाको दारिद्र्य दुःखसे पीड़ित करे, यमराजका अंश पाकर भी न्यायालुसार विचार न करके अन्याय तथा पक्षपातके साथ विचार करे तो इस प्रकार देवांशके दुरुपयोगके फलसे राजामेंसे दैवविभूतियां नष्ट हो जायेंगी और उनमें राजसका अंश प्रकट होकर भीषण प्रजापीड़नका कारण हो जायगा जैसा कि शुक्रनीतिमें—

यो हि धर्मपरो राजा देवांशोऽन्यथ रक्षसाम् ।

अंशभूतो धर्मलोपी प्रजापीडाकरो भवेत् ॥

धर्मांनुसार प्रजापालक राजामे देवांश प्रकट होता है, अन्यथा राजसंश प्रकट होकर राजाको प्रजापीड़क बनाता है और इसी प्रजापीड़नरूपी पापसे राजाकी क्या दुर्गति होती है सो भी महर्षि याज्ञवल्क्यने बताया है, यथा—

प्रजापीड़नसन्तापात् समुद्भूतो हुताशनः ।

राज्यं कुलं श्रियं प्राणान् नाऽदग्ध्वा विनिवर्तते ॥

प्रजापीड़नजन्य सन्तापसे उत्पन्न अग्नि राजाके राज्य, वंश, सम्पत्ति और प्राणके जलाये बिना निवृत्त नहीं होती है । इतिहासकी पर्यालोचना करनेसे ऐसा ही मालूम होता है । नहुष इन्द्र वनकर भी प्रजापीड़न पापसे ही गिर गया था । वेणु, दुर्योधन, कंस आदिका नाश भी इसी प्रकारसे हुआ था । वर्त्तमान समयमें भी समस्त जगत्के राजाओमें दैवविभूतियोका विरल ही विकास देखनेमें आ रहा है । उलटा आसुर या राजस विभूतिके

विकाश द्वारा प्रजापीड़न तथा तज्जन्य पापसे राजाश्रोका तपःक्षय हो रहा है । यह पूर्वजन्मकी तपस्या जब तक थोड़ी बहुत बाकी है तबतक तो उनका राज्य चलेगा, उसके बाद सम्पूर्ण तपस्याके नाश होते ही वे सव नष्ट हो जायेंगे और संसारमें राजतन्त्रके बदले प्रजातन्त्र राज्य हो जायगा, यही वर्त्तमान समयमें राजनैतिक जगत्के श्रद्धचक्रका परिवर्त्तन दृष्टिगोचर हो रहा है ।

(३) प्रजाश्रोमें धैर्य, त्याग तथा सहनशीलता द्वारा तपःसञ्चय और भगवत्कृपा लाभ—एक ओर तो राजागण पापाचरण, प्रजापीड़न, दुर्व्यसन आदिके द्वारा पूर्वतपस्याको खोकर शक्तिहीन हो रहे हैं और दूसरी ओर प्रजा त्यागी नेताओंकी वशवर्त्तिनी होकर धैर्यके साथ अन्यायी राजाके अत्याचारोंको सहन करती जाती है और धैर्य, त्याग, सहिष्णुता आदि सद्गुणोंके प्रभावसे विशेष तपःसञ्चय तथा दैवकृपालाभ कर रही है । इसका फल क्या होगा सो अनायास ही मालूम हो सकता है । राजाकी ओरसे भगवत्कृपा हट जायगी और प्रजाके ऊपर करुणानिधान भगवान्की कृपादृष्टिकी वृष्टि होगी । संसारमें सहनशीलता, त्याग और आत्मबलिदानके द्वारा ही निखिल शक्ति प्राप्त होती है । वसुदेव देवकी यदि कसके अत्याचारको सहन न करते तो श्रीभगवान् कृष्णचन्द्र उनके पुत्र बन, संसारमें प्रकट होकर उनका दुःखनाश व कसविनाश न करते । द्रौपदीके वस्त्रहरणके समय यदि पाण्डवगण धैर्य और धर्मको न रखते, तो श्रीभगवान्की कृपा तथा कुक्लेत्र युद्धमें उनको जयश्री नहीं प्राप्त होती । महात्मा ईसामसी यदि यहूदियोंके मरणान्त अत्याचारको सहन न करते, तो ईसाई धर्म आज समस्त संसारमें इतना विस्तृत न हो जाता । अतः सहिष्णुतासे तपोलाभ और उससे दैवकृपा, भगवत्कृपालाभ तथा अन्तमें तपस्याके फलसे राज्यलाभ विधाताका अवश्यम्भावी विधान है । इन्हीं तीन विशेष कारणोंसे राजनैतिक जगत्की गति कलियुगके इस अंशमें प्रजातन्त्रकी ओर चल रही है यही विचार तथा अनुभवसिद्ध सत्य ज्ञान पड़ता है ।

जिस प्रकार प्रजातन्त्रकी ओर गति आजकल समस्त जगत्में हो रही है, यद्यपि प्राचीन हिन्दु-राज्यके समय ऐसी प्रजातन्त्रप्रथा नहीं थी, तथापि राज्यशासनमें प्रजामत और बहुमतका बड़ा ही सम्मान था और प्रकारान्तरसे प्रजातन्त्र ही था । इसके उदाहरणके लिये बहुत दूर तक ढूँढ़ना नहीं पड़ेगा । आदर्श-क्षत्रिय नरपति-रामचन्द्रके राज्यतन्त्र पर विचार करनेसे ही सिद्धान्त

निर्णय हो जायगा । श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके समय दशरथने प्रजाओंके भिन्न भिन्न पञ्चोंकी सम्मति लेकर तब गुरु वशिष्ठसे अभिषेक कार्य कराया था, ऐसा रामायणमें लिखा है । श्रीरामचन्द्र अपने राज्यकालमें प्रजामतको कितना मानते थे सो रामायणके पत्र-पत्रमें स्पष्ट है । यह उनके प्रजामतके माननेका ही पूर्ण निदर्शन था कि—बहुवार परीक्षा द्वारा ससारके सम्मुख सम्पूर्ण निर्दोषा प्रमाणित होनेपर भी—परमसती सीताका केवल प्रजा-सन्तोषके लिये ही उन्होंने वनवास कराया था । प्रजामत माननेका पतादृश दृष्टान्त जगत्के इतिहासमें अतीव दुर्लभ है । प्राचीन आर्यमतानुसार क्षत्रिय वर्णमेंसे ही नरपति हो सकते थे, अन्य वर्णमेंसे राजा नहीं हो सकते थे । इसका हेतु यह है कि, सत्त्वगुणमें क्रियाशक्तिका अभाव होनेसे सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मण वर्णमेंसे राजा नहीं हो सकते । तमोगुणमें प्रमाद अधिक होनेसे तमोगुणप्रधान शूद्रवर्णमेंसे भी राजा नहीं हो सकते । वैश्यवर्णमें क्रियाशक्तिमूलक रजोगुण होनेपर भी उसकी प्रवृत्ति तमोगुणकी ओर है इस कारण वैश्य वर्णमेंसे भी राजा नहीं हो सकते । केवल सत्त्वगुणकी ओर झुकते हुए रजोगुणसे युक्त क्षत्रिय वर्णमेंसे ही आर्यशास्त्रानुसार राजा हो सकते हैं । उनमें रजोगुणके कारण क्रियाशक्ति, युद्धशक्ति आदिका प्राचुर्य रहेगा और सत्त्वगुणके कारण धर्मभावका आधिक्य होनेसे धर्मानुसार प्रजापालन तथा राजकर्म सञ्चालन हो सकेगा । इसी प्रकारसे राजतन्त्रप्रणाली सञ्चालनका भार प्राचीनकालमें क्षत्रिय जातिपर था । किन्तु कोई भी तन्त्र स्वतन्त्र था निरंकुश नहीं था, दोनों ही तन्त्र धर्मतन्त्रके द्वारा नियमित था, जिससे राजतन्त्रकी स्वेच्छाचारिता तथा प्रजातन्त्रकी निरंकुशता किसीकी भी सम्भावना न थी और उस धर्मतन्त्रकी व्यवस्थाका भार सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी त्यागी प्रजा दूरदर्शी महर्षियों पर था । निर्लोभ अरण्यवासी, तपस्वी महर्षिगण समस्त प्रजाके प्रतिनिधिरूप होकर ज्ञानदृष्टि तथा धर्मशास्त्रके सिद्धान्तानुसार राज्यशासनकी प्रक्रिया क्षत्रिय नरपतिको बताया करते थे और इसी प्रकारसे धर्मतन्त्रके अधीन होकर नरपति प्रजामतके अनुसार राज्य चलाया करते थे । जहाँपर कभी किसी राज्यके द्वारा धर्मतन्त्रकी अवमानना अथवा अवहेलना होती थी, प्रजामतके प्रतिनिधि महर्षिगण उसी समय निरंकुश राजाको सावधान कर दिया करते थे । धर्मतन्त्रके पूर्णनाशकी आशङ्का देखने पर अन्यायी अधार्मिक राजाको गद्दीसे उतारकर योग्य धार्मिक क्षत्रिय वीरको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करते थे । यही प्राचीन प्रथानुसार धर्मतन्त्र द्वारा

राजतन्त्र और प्रजातन्त्रका सामञ्जस्य तथा क्षत्रिय नरपतिकी धर्मानुकूल राज्य-शासन व्यवस्था है। यह हम पहिले ही कह चुके हैं कि, प्राचीन कालमें राज-तन्त्र-प्रथा प्रचलित रहनेपर भी वह वस्तुतः एक प्रकारसे प्रजातन्त्र ही था, जिसके निम्नलिखित लक्षणपर विचार किये जा सकते हैं।

(क) उस समय ग्राम-ग्राम नगर-नगरमें स्वतन्त्र स्वतन्त्र पञ्चायतें थी। जिसका प्रमाण मध्ययुगके इतिहाससे भूरि भूरि मिल सकता है। (ख) धर्म परिषद्की व्यवस्थाकी दृढ़ आज्ञा स्मृतिशास्त्रमें है जिसके अनुसार उस राजकीय सभाके सभासद प्रजाओंमेंसे चुने जाते थे। (ग) राजधर्म तथा प्रजाशासनप्रणालीके निर्णयमें राजागण निरङ्कुश होने ही नहीं पाते थे, क्योंकि अरण्यवासी ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मणोंके द्वारा वे सब नियम बनाये जाते थे। ब्राह्मणगण निःस्वार्थव्रतधारी तथा तपोधन होनेके कारण और विशेषतः उनमें अन्तर्दृष्टि रहनेसे उनके सिद्धान्त दोषरहित, सर्वजीवहितकारी और दूरदर्शितासे पूर्ण होते थे। अतः उस समय नवीन प्रजातन्त्रप्रणाली न रहने पर भी वस्तुतः वह प्रजातन्त्र ही थी, केवल उसमें विलक्षणता यह थी कि, उस प्रणालीमें राजा प्रजा दोनों ही निरङ्कुश नहीं होने पाते थे। प्रजा राजाकी सन्तति समझी जाती थी और राजा अपनेको भगवानकी ओरसे राजसम्पत्तिके रक्षक तथा आश्रयदाता समझते थे।

कालके प्रभावसे अब इस प्रकार सर्वहितकर राजप्रणाली नष्टप्राय हो गई है। न ऐसे धर्मपरायण वीर क्षत्रिय नरपति ही रहे और न उस प्रकार धर्म-तन्त्रकी सम्भावना ही रही। अब तो सर्वत्र अर्थकामका दोर्दण्डप्रताप, स्वार्थ-परता, प्रजापीड़न, प्रजाका धनरत्नलुंठन, अविचार, अनाचार ही देखनेमें आ रहा है। आर्यजाति स्वधर्मविद्वेषवह्निसे दग्ध होकर जब भारतसाम्राज्यको खो बैठी थी तब श्रीभगवान्ने आर्यजातिको स्वधर्मप्रेमशिक्षामें सहायता देनेके लिये स्वधर्मप्रेमी मुसलमानजाति पर भारतसाम्राज्यका शासनभार सौंपा था। किन्तु कुछ वर्ष राज्य करनेके बाद औरङ्गजेवप्रमुख यवननरपतियोने आर्यजाति-का स्वधर्मप्रेम न रखकर जब आर्यधर्मके मूलमें ही कुठाराघात करना प्रारम्भ कर दिया तो भगवद्दृष्ट्याके विरुद्ध होनेसे भारतवर्षमेंसे मुसलमान राज्यका नाश हो गया। तदनन्तर आर्यजातिमें स्वजातिविद्वेषवह्निको प्रबल देखकर श्रीभगवान्ने आर्यजातिको स्वजातिप्रेमशिक्षामें सहायता देनेके लिये स्वजाति

प्रेमी अंगरेजजाति पर भारतका शासनभार सौंपा था । किन्तु दुर्भाग्यवश भारतवासीको स्वजातिप्रेमकी शिक्षा नहीं मिली, उलटा हिन्दुजातिमें भ्रातृविद्वेष, अनैक्य, स्वजातिविद्वेषका बीज बोना प्रारम्भ हो गया है । अनः जिस उद्देश्यसे श्रीभगवान्ने उनको यहां पर भेजा था वह पूर्ण न हो सका । इधर ऊपर कथित तीनों कारणोंसे धर्मतन्त्रका नाश, तपस्याका नाश तथा सहनशील प्रजाश्रौ-
में दिन दिन तपोवृद्धि हो रही है । अतः कालचक्रकी गति पर अनुसन्धान कर देखनेसे यही अनुभवमें आता है कि, अब कलियुगके आगामी कुछ वर्षों तक संसारमें प्रजातन्त्रका ही जोर रहेगा और इस प्रकारसे नानाजाति तथा राज्यका उत्थान पतन होते होते कलियुगके अन्तकालमें वही होगा जैसा कि श्रीभगवान् वेदव्यासने श्रीमद्भागवतके १२ स्कन्धमें कहा है—

देवापिः शन्तनोर्ध्राता मरुस्त्विक्ष्वाकुवंशजः ।

कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ ॥

ताविहेत्य कलेरन्ते वामुदेवानुशिक्षितौ ।

वर्णाश्रमयुतान् धर्मान् पूर्ववत् प्रथयिष्यतः ॥

सूर्यवंशीय मरुराजा और चन्द्रवंशीय देवापि राजा अतीन्द्रिय योगशरीरमें कलापग्राममें निवास करते हुए अभीसे योग तथा तपस्या कर रहे हैं । कलियुगके अन्तमें जब श्रीभगवान् कल्किरूपमें ब्राह्मणवंशमें अवतार धारण करेंगे और पापी स्लेच्छोंका नाश करके धर्मतन्त्रकी व्यवस्था करेंगे उस समय देवापि और मरु-कल्किभगवान्की आज्ञानुसार आर्यजातिके अधि-
पति होकर भारतवर्षका शासनभार अपने हाथमें लेंगे और उसी समयसे पुनः वर्णाश्रमानुकूल धर्मानुकूल राजतन्त्रकी प्रतिष्ठा होगी । अतः हिन्दुजातिको वर्त-
मान राजनैतिक जगत्त्रककी गतिके अनुसार आत्मरक्षा, तथा चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यलामके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये और श्रीभगवान् वेदव्यास कथित भावी शुभ समयकी शुभ उदय आकाङ्क्षासे आर्यशास्त्रसम्मत पवित्र वर्णाश्रम धर्मकी बीजरक्षा करनी चाहिये—यही दूरदर्शी मुनिगणका अकाट्य सिद्धान्त है ।



आचारमें वैज्ञानिक चमत्कार ।

‘आधुनिक विज्ञान और सनातनधर्म’ नामक पत्रपत्रमें अध्यात्मविद्या और सायन्सके परस्पर भेद तथा प्रतिपाद्य विषय बतानेके प्रसङ्गमें यह कहा गया है कि अध्यात्मविद्या प्राकृतिक नियमोंके आदि निदान (why) को बतاتی है किन्तु सायन्स केवल प्राकृतिक नियम कैसे (how) कार्य करते हैं इतने ही भरको बतया करती है । पश्चिमी विद्वान् स्टैन्ले रेडग्रोव (H Stanley Redgrove) साहबने इस विषयमें स्पष्ट कहा है—“The business of Science is the generalisation of Phenomena, it is the function of philosophy to explain. Stated otherwise, the Scientist endeavours to answer ‘How,’ the philosopher to answer ‘why’ We must beware of the error of saying that such and such an event happens because of certain laws of nature. The laws of nature provide in themselves no real explanation of phenomena. It is simply a statement in terms as general as possible of what happens under given circumstances in the expression of an observed order or uniformity in natural phenomena Science is concerned only with phenomena as phenomena It shows us a marvellous harmony in nature. But it is a problem for philosophy to solve the ‘why’ of nature’s harmony ”

(The Purpose of philosophy—Kalpaka).

किसी प्राकृतिक व्यापारकी नियमित शृङ्खलाको बताना देना सायन्सके अधिकारका काम है । किन्तु उसके निदानको ढूँढ निकालना दर्शनशास्त्र या अध्यात्मविद्याका काम है । दूसरे शब्दमें—‘कैसे’ का उत्तर देना सायन्सका और ‘क्यों’ का उत्तर देना दर्शनशास्त्रका काम है । हमें भूलसे ऐसा नहीं कहना चाहिये कि ‘प्राकृतिक इन नियमोंके कारण ऐसी घटना होती है’ । क्योंकि प्राकृतिक नियम किसी प्राकृतिक व्यापारके निदानको नहीं बताने सकता है । उसके द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाएँ कैसे घटा करती हैं उनके सिलसिलेवार

प्रकार ही प्रकाशित किये जाते हैं । किसी प्राकृतिक व्यापारको व्यापारके रूपमें दिखाना और प्रकृतिराज्यमें उसके सुन्दर सामञ्जस्यको प्रकट कर देना सायन्स-का काम है । किन्तु उस सामञ्जस्यके आदिकारणको अन्वेषण कर प्रकट कर देना दर्शनशास्त्र या अध्यात्मविद्याका काम है । इस प्रकारसे पश्चिम देशके विज्ञान-वित् पण्डितोंने भी—आधुनिक विज्ञान और अध्यात्मविद्याका पार्थक्यनिरूपण करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे इस देशके अध्यात्मशास्त्रका चमत्कार संसार-के सामने और भी उज्वल हो उठेगा इसमें सन्देह नहीं है ।

वर्तमान प्रबन्धका विषय हिन्दु सदाचार है । धर्मातुल्य शारीरिक व्यापारको 'आचार' कहते हैं । प्रातःकालसे लेकर रात्रिको सोनेके समय तक किस किस प्रकार शारीरिक चेष्टाओंके करनेसे शरीरकी यथार्थ उन्नति और उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, इन्हींका नाम सदाचार है । क्योंकि शरीररक्षाके लिये इसकी विशेष आवश्यकता है 'शरीर-माद्यं खलु धर्मसाधनम्' प्रथम धर्मसाधन शरीरकी रक्षा ही है, इसी कारण स्मृतिशास्त्रमें आचारको प्रथम धर्म कहा गया है, यथा मनु—

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥

श्रुति स्मृतिमें कथित आचार प्रथम धर्म है । अतः द्विजगणको आचार पालन करते हुए शरीररक्षा तथा आत्माकी उन्नति करनी चाहिये । इसके करने-से क्या होता है और न करनेसे क्या होता है इस विषयमें पूर्व पश्चिम दोनों देशके विद्वानोंने नवीन नवीन बहुत कुछ आविष्कार किये हैं ।

आचाराङ्गभते ह्यायुराचाराङ्गभते श्रियम् ।

आचाराङ्गभते कीर्त्तिं पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् भवेत् ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ (मनु)

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिघांसति ॥ (मनु)

सदाचारके पालनसे आयु तथा श्रीकी वृद्धि और इहलोक परलोकमें मनुष्यको यशोलाभ होता है । और कोई विशेष लक्षण न रहने पर भी केवल आचार और शास्त्रमें श्रद्धाके बलसे मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है । आत्मोन्नतिकर शास्त्रके नियमित न पढ़नेसे, आचारहीन होनेसे, आलसी होनेसे और खराब अन्नके खानेसे मनुष्य अल्पायु हो जाता है । ठीक इसी सिद्धान्तका अन्वभव करके जे. मिलट सेवर्न (J. Millett Severn) साहबने लिखा है—

That one may attain to the age of one hundred years or more is no visionary statement. According to physiological and natural laws the duration of human life should be at least five times the period necessary to reach full growth. This is a prevailing law which is fully exemplified in the brute creation. The horse grows five years and lives to about twenty five or thirty, the dog two and a half and lives to about twelve or fourteen, the camel grows eight years and lives forty years. Man grows to about twenty or twenty-five years; hence if accidents could be excluded, his normal duration of life should not be less than one hundred.

A study of the skeleton shows that man is capable of increase of stature upto about the age of twenty-five years. At this period the last of the growing areas of the long bones becomes calcified and further growth in a longitudinal direction ceases.

The secrets of longevity may be based chiefly upon discretion in the choice of food and drink, temperance, sobriety, chastity and a hopeful optimistic outlook on life. Neither gluttons, drunkards, the idle, dissipated or lazy can reasonably hope to attain old age. The quakers, who are

very temperate in their habits and in the exercise of control over emotional feelings, are generally a long-lived people. The French, whose social habits, appetites and passions are less restrained, are not so long-lived

There are many maxims helpful to the attainment of old age Be hopeful, active, useful, moderate in all things Avoid all excesses, passion and undue contention. Keep both mind and body reasonably employed. Cultivate tranquility of mind and self-control We must be useful if we would be healthful. Nature, like the industrious bees, refuses to tolerate drones.

(Live to be hundred, Kalpaka)

मनुष्य सौ वर्ष या उससे भी अधिक उमर पा सकता है ऐसा कहना कोई काल्पनिक वर्णन नहीं है। शरीरविज्ञान या प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्यके अवयवकी पूर्णता जितने वर्षमें होती है उसकी कमसे कम पांचगुनी आयु मनुष्योंकी होनी चाहिये। पशुजगतके दृष्टान्तसे भी यह सिद्धान्त सत्य प्रमाणित होता है। घोड़ा ५ वर्षमें पूर्णावयव होजाता है, इसलिये उसकी आयु भी २५।३० वर्षकी होती है। कुत्ता अढ़ाई वर्षमें होता है, इसलिये १२।१४ वर्ष तक जीवित रहता है। ऊँट आठ वर्षमें पूरा बढ़ता है इसलिये आयु भी ४० वर्षकी पाता है। मनुष्यकी वृद्धिकी उमर २०।२५ वर्ष तक है, अतः यदि कोई दैव कारण न हो, तो उसे भी सौ वर्षसे कम आयु नहीं पानी चाहिये। मनुष्यकङ्कालकी परीक्षा करके देखा गया है कि मनुष्यावयवकी वृद्धि प्रायः २५ वर्ष तक होती है। इस समय हड्डियोंका बढ़ना रुक जाता है और उसका परिणाम मज्जाके रूपको धारण कर लेता है।

दीर्घायुलाभके लिये प्रधानतः इन विषयों पर ध्यान रखना होता है, यथा-
खाने तथा पीनेकी वस्तु विचारके साथ ठीक करनी चाहिये। मिताहार, संयम, सञ्चरित्रता, शान्तमन और शान्तियुक्त जीवन होना चाहिये। अतिभोजी, मद्यपायी, आलस्यपरायण, अपनी प्राणशक्तिके क्षय करनेवाले दीर्घायुको नहीं पा सकते

हैं। कौकार नामक धर्ममनवाले जिनके अभ्यास बहुत ही नियमित और मनो-वृत्ति संयत है, प्रायः विशेष दीर्घजीवी होते हैं। फ्रान्सदेशनिवासिगण इन विषयोंमें कम संयत होनेके कारण प्रायः अल्पायुः होते हैं।

दीर्घायुलाभके लिये अनेक नियम स्वरूपसे बताये जा सकते हैं, यथा- जीवन आशामय, कर्मठ, समाजके लिये हितकारी और सभी विषयोंमें 'अति' से वर्जित होना चाहिये। अति मानसिक वेग, अति विद्रोह तथा सभी विषयोंमें अतिको त्याग देना चाहिये। शरीर और मन दोनोंको अच्छे कार्यमें लगाये रखना चाहिये। मानसिक शान्ति और आत्मसंयमका अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिये। यदि हम स्वास्थ्यको चाहते हैं तो हमारा शरीर मन जिससे समाजके कामका उपयोगी हो ऐसा हमें करना चाहिये। प्रकृतिमाता श्रमजीवी मधुमक्खीकी तरह आलस्यपरायण पुरुषोंको पसन्द नहीं करती है। इन वर्णनों^० से स्पष्ट होजाता है कि सदाचारके फलाफलके विषयमें पूर्व, पश्चिम दोनों देशोंके विद्वानोंका अभिन्न मत है।

आचारके अन्तर्गत समस्त शारीरिक व्यापार प्रकृतिके नियमोंके पूर्ण अङ्गकूल है, क्योंकि प्रकृतिके नियमानुकूल चलने पर ही स्वास्थ्यकी रक्षा तथा मानसिक उन्नति होती है। प्रकृतिके नियमोंको (Laws of nature) सामञ्जस्यके साथ प्रकट कर देना सायन्सका काम है। अतः समस्त आचारके मूलमें वैज्ञानिक चमत्कार है। इसीका दिग्दर्शन प्रकृत प्रवन्ध में कराया जायगा।

अब द्विजमात्रके सेवनीय कुलु दैनन्दिन सदाचारोंका वर्णन किया जाता है। सदाचारोंमें प्रथम कृत्य ब्राह्ममुहूर्त्तमें शय्या-त्याग है। ब्राह्ममुहूर्त्तके विषयमें शास्त्रमें निम्नलिखित वर्णन मिलते हैं—

ढाई घड़ीका एक घंटा होता है। रात्रिके अन्तकी चार घड़ियोंमेंसे पहली दो घड़ियोंको ब्राह्ममुहूर्त्त और पिछली दो घड़ियोंको रौद्रमुहूर्त्त कहते हैं। इसी ब्राह्ममुहूर्त्तमें शय्या त्याग देनी चाहिये। आर्यशास्त्रोंमें ब्राह्ममुहूर्त्तमें शय्या त्याग करनेकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। इसका कारण यह है कि, ब्राह्म-मुहूर्त्तमें श्रीसूर्यभगवान् समस्त रात्रिके पश्चात् अपनी ज्योति और शक्तिका विस्तार करते हैं, अतः उसी समय जागनेपर श्रीसूर्यभगवान्की शक्तिसे अपनी ज्योति बहुत बढ़ जाती है और उनकी ज्योतिके प्रभावसे मन और

बुद्धि आलोकित होती है, तथा मन, बुद्धि और शरीरमें रात्रिके प्रभावसे जो कुछ जड़ता आगई थी, सूर्यकी शक्ति और ज्योतिके प्रभावसे वह हटकर नव-जीवन को प्राप्त होता है। ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेको उपदेश करनेमें महर्षियोंका यही अभिप्राय है। प्राणके देवता श्रीसूर्यभगवान् हैं। ब्राह्ममुहूर्तमें उनके महाप्राणके साथ अपने प्राणको मिलाकर मन-ही-मन उनको प्रणाम करते हुए 'ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी' आदि स्तोत्र पाठ करना चाहिये। इन स्तोत्रोंसे सभी कार्य भगवत्कार्य हो जाता है। सूर्यकी इस असीम शक्तिके तथा इस शक्तिसे लाभ उठानेके विषयमें पश्चिमी विद्वानोंने भी बहुत कुछ कहा है। यथा—

Tyndall teaches that every mechanical action on the face of the earth, every manifestation of power, organic or inorganic, vital and physical, is produced by the sun which is the reservoir of the electrical, magnetic and vital forces required by our system, which are taken in by all men, animals, vegetables, minerals and by them translated into various life-forces.

(Artie Mae Blackburn—Kalpaka)

Get as much sunshine as possible into yourself. Sunshine contains vitality. Admit lots of sunshine into your house.

(Capt. Walter Carey—Kalpaka)

टिन्ड्याल साहब कहते हैं कि संसारमें समस्त क्रिया तथा समस्त शक्तिकी उत्पत्ति करनेवाला सूर्य ही है। विद्युत्शक्ति, सुम्बकशक्ति और प्राणशक्ति सभीकी खान सूर्य है। मनुष्य, नीचेके सब जीव और धातु तक सभी इसी शक्तिको लेते हैं और यथाक्रम अपने शरीरोंमें भिन्न भिन्न प्राणशक्तिरूपसे प्रेरित करते रहते हैं।

जितना सम्भव होसके सूर्यकिरणको अपने भीतर ले लेना चाहिये। सूर्य-किरणमें प्राणशक्ति है। अपने घरमें भी उसका सञ्चार कराना चाहिये।

ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेसे और भी कई एक लाभ हैं । सारी रात चन्द्र और नक्षत्रोंके किरणोंके साथ जो अमृत वरसता रहता है, उषाकालमें उसीको लेकर वायु प्रवाहित होता है । इस अमृत भरे वायुको 'वीरवायु' कहते हैं । वीरवायु शरीरमें लगनेसे शरीरके बलकी वृद्धि होती है, मुखकी कान्ति बढ़ती है, बुद्धि सतेज होती है, मन प्रफुल्ल और शरीर नीरोग होता है । हमारे सांसारिक पिताको छोड़कर पितृलोकमें अनेक प्रकारके पितृगण होते हैं । प्रातःकालमें पितृगण प्रसन्न होते और उनके बलकी वृद्धि होती है । यही बल वे संसारमें प्रचारित करते हैं । इस कारण ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेपर पितृगणका बल प्राप्त होता है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और शक्ति बढ़ती है । यही सब शीघ्र शय्यात्यागकी महिमा है ।

शय्यात्याग करनेके बाद मुख धोकर मलमूत्र त्यागके लिये जाना चाहिये । प्रातःकालमें ही मलमूत्र त्याग करनेसे शरीर अधिक नीरोग रह सकता है । जीवशरीरका यह स्वभाव है कि, भीतर च्छेदा होते ही शारीरिक रसका शोषण होने लगता है । अतः यदि प्रातःकालमें पहिले शौच न होकर कोई दूसरे काममें लग जाय, तो मलका दूषित रस रक्तमें मिल जायगा, जिससे मल कठिन होकर अनेक प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न होंगी, मलका दूषित रस रक्तमें मिलनेसे रक्तविकार होंगे, रक्त दूषित होनेसे फोड़े, खुजली आदि रोग होंगे और शरीर तथा मुख दुर्गन्धयुक्त बना रहेगा, इसलिये शय्या-त्याग करते ही मलमूत्र विसर्जन करना आवश्यक है । जो मनुष्य मलमूत्रके वेगको रोकते हैं, उनको नाना प्रकारके रोग होते हैं । अतः कभी मलमूत्रके वेगको रोकना न चाहिये । मलमूत्र त्यागके सम्बन्धमें हिन्दुशास्त्रोंमें कुछ नियम हैं, यथाः—

(१) 'वाच्यं नियम्य यत्नेन छीवनोच्छ्वासवर्जितः' अर्थात् शौचाचारके समय बोलना, थू-थू करना अथवा हांपना न चाहिये ।

(२) 'वाय्वग्निविप्रानादित्यमपः पश्यन् तथैव च' अर्थात् अग्नि, जल, सूर्य, वायु और पूजनीय लोगोंके आगे मलमूत्र त्याग करना निषिद्ध है ।

(३) 'तिष्ठेन्नातिचिरं तस्मिन्' जहां मलमूत्र त्याग करे, वहां अधिक समय तक न ठहरे । इन नियमोंमें विज्ञान भरा हुआ है । शरीरके ऊपरी

भागमें जो स्नायु हैं उनमें यदि क्रिया उत्पन्न हो, तो शरीरके नीचेके भागके स्नायु और पेशीके कार्य भलीभांति हो नहीं सकेंगे। मलमूत्र-त्यागके समय यदि नीचेके स्नायु और पेशी अच्छा कार्य न कर सकें तो कोष्ठ किसी प्रकारसे विशुद्ध न हो सकेगा। कोठा शुद्ध न रहनेसे सब तरहके रोग शरीरपर आक्रमण करेंगे। मलमूत्र त्यागके समय बोलने, थू थू करने अथवा हांपनेसे शरीरके ऊपरिभागके स्नायु कार्य करने लगेंगे और निम्न भागकी पेशियां स्नायु आदि कार्यरत्न नहीं रहेंगे। कोठा शुद्ध न होनेसे अनेक प्रकारका रोग होना स्वाभाविक है। अग्नि, जल, सूर्य आदिके आगे शौच करनेसे आप ही आप शरीरके ऊपर भागके स्नायु कार्य करने लगेंगे, क्योंकि अत्युज्ज्वल, चञ्चल अथवा सचल वस्तुके दर्शन-स्पर्शनसे स्वभावतः स्नायु उद्दीपित होते हैं, इससे कोष्ठशुद्धिमें बाधा होकर रोग होना स्वाभाविक है। अग्नि, सूर्य, जल आदि प्रत्यक्ष देवता है। उनके सामने मलमूत्र-त्याग जैसे घृणाजनक कार्य करनेसे तेज और शक्तिकी अवश्य ही हानि होगी। इसी विचारसे शास्त्रोंमें उक्त आज्ञाश्लोका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त हिन्दुशास्त्रोंमें निवासस्थानसे कुछ दूर नगर या ग्रामके बाहर जाकर एकान्त स्थानमें मलमूत्र त्याग करना चाहिये इत्यादि अनेक आज्ञाप मिलती हैं। श्रीभगवान् मनुने लिखा है—

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ।
 न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ॥
 न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ।
 न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि न स्थितः ॥

रास्तेके ऊपर, भस्मपर, गोचारणभूमि, कर्षितभूमि, जल, चिता, पर्वत, जीर्ण देवमन्दिर या वल्मीकके ऊपर, प्राणियुक्त गर्तमें, चलते चलते या खडे होकर कदापि मलमूत्रत्याग नहीं करना चाहिये।

ग्राम वा नगरके बाहर मलमूत्रादिका त्याग करनेसे देशमें रोगोत्पत्ति होनेकी सम्भावना कम रहती है। आजकल नगरोंमें इस नियमका पालन होना कठिन होगया है, ग्रामोंमें हो सकता है। इसी कारण नगर निवासियोंकी अपेक्षा ग्रामवासियोंका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रक्रियासे,

प्रातःकालको वीरवायुका अनायास सेवन होजाता है । हिन्दुशास्त्रोंमें मोससे भीगी हुई घासपरसे खालो पैर चलनेका माहात्म्य बताया गया है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहकर चक्षुरोग दूर होते हैं और नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है । वात्स्यायनस्ये ही चश्मा चढ़ानेकी आवश्यकता नहीं होती । केवल मलत्यागकी विधिमें ही इतने काम अनायास बन जाते हैं ।

मलत्यागानन्तर शौचक्रियामे मिट्टी और निर्मल जलका व्यवहार करना चाहिये । मन्वादिर्संहिताओंमें लिखा है:—

वसाशुक्रमसृङ्मज्जामूत्रविट्कर्णविन्नखाः ।

श्लेष्माश्रुद्रूपिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥

आददोत मृदोऽपश्च षट्षु पूर्वेषु शुद्धये ।

उत्तरेषु तु षट्ष्वद्भिः केवलाभिर्विशुध्यति ॥

चर्वि, शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्टा, कर्णमल, नख, श्लेष्मा, अश्रु, अक्षिमल और स्वेद—मनुष्यशरीरमें ये बारह प्रकारके मल होते हैं । इनमेंसे पहले छ मलोंके लिये मिट्टी तथा जल दोनोंसे ही शौच करने होते हैं, और दूसरे छ मलोंके लिये केवल जलसे ही शुद्धि हो सकती है । इसी कारण मल त्यागानन्तर मिट्टीसे हाथ धोने चाहिये ।

मिट्टीसे जैसे हाथ साफ होते हैं वैसे साबुन आदि द्रव्योंसे नहीं होते, क्योंकि पृथिवी गन्धवती है । हाथोंकी दुर्गन्धि पृथिवीकी मिट्टीसे जैसी दूर होगी, वैसी और किसी वस्तुसे नहीं हो सकती । पित्तके सयोगसे विष्टामें तेलकी तरह एक प्रकारका लसीला पदार्थ रहता है, वह केवल मिट्टीसे ही छूटता है, अतः शौच कर लेनेपर हाथ मिट्टीसे ही धोने चाहिये । तीन बार मिट्टी लगाकर फिर शुद्ध जलसे हाथ पैर धो डालने चाहिये ।

मूत्रत्यागके अनन्तर भी पैर धोना उचित है । इससे शरीर स्निग्ध और स्वस्थ रहता है । लघुशुद्धा कर लेने पर मूत्रयन्त्रको ठण्डे जलसे धो देना चाहिये, क्योंकि मूत्र अत्यन्त पित्तप्रधान होता है और उसमें कितनी ही विषैली वस्तुएं रहती हैं । इन्द्रियमें अथवा धोतीमें मूत्र लगा रहनेसे अनेक प्रकारके रोग हो जाते हैं, अतः इन्द्रियको धोना आवश्यक है । उपस्थ इन्द्रिय-

में विशेषतया उसके अग्रभागमें कितने ही ऐसे स्नायु रहते हैं, जिन्हें थोड़ी उत्तेजना मिलते ही वे उत्तेजित हो जाते हैं । मूत्रत्यागके समयमें उष्ण और दूषित मूत्रद्रव्योंके संस्पर्शसे उन स्नायुओंमें उत्तेजना आ जाती है । शीतल जलसे धोनेसे वह भय नहीं रहता । प्रायः देखा जाता है कि, स्कुलोंमें या अन्यत्र भी एक ही स्थानमें अनेक मलुष्य लघुशुद्धा करते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि मूत्रत्यागके साथ दूसरोके रोग उसी इन्द्रियके द्वारा संक्रामित हो जाते हैं । अन्ततः एक व्यक्ति जहां मूत्रत्याग करे, वही दूसरेको नहीं करना चाहिये । यदि मूत्रत्यागका एक ही स्थान बना हो, तो वहां पहिले जल छोड़कर तब लघुशुद्धा करे । उपदंशादि विकार पैतृक भी होते हैं । जिस मलुष्यके माता-पिताको यह रोग हो गया हो उसने जहां लघुशुद्धा की है, वही यदि दूसरा लघुशुद्धा करे, तो पहिलेका रोग दूसरेमें संक्रामित हो जायगा । इसलिये यदि हर एक मलुष्य लघुशुद्धाके समय जल लेनेका अभ्यास करे, तो आप ही इस रोगभयसे दूर रहेगा ।

मिट्टीसे हाथ धोकर मुख-आंखे धोनी चाहिये । मुहमें ठण्डे पानीका कुल्ला भरकर शुद्ध जलसे आंखे धोई जायं, तो नेत्रोंकी शिराप अधिक सतेज होंगी और आंखे शीघ्र नहीं विगड़ेंगी । मुंह धोकर दन्तधावन करना चाहिये । दन्तधावनके लिये शास्त्रमें लिखा है कि :—

तिक्तं कषायं कटुकं सुगन्धि कण्टकान्वितम् ।
सीरिणो वृक्षगुल्मानां भक्षयेदन्तधावनम् ॥

तिक्त, कषाय, कटुक, सुगन्धयुक्त, कण्टकयुक्त और दुग्धविशिष्ट वृक्ष तथा गुल्म आदिका काष्ठ दत्तन बनानेमें प्रशस्त है । तदनुसार दन्तधावनके लिये शास्त्रोंमें खैर, कदम्ब, आम, नीम, बेल, ऊमर, बकुल आदिका टेहुनी प्रशस्त कही गई है । बकुल (मौलश्री) की दत्तनका प्रभाव तो—

“दन्ता भवन्ति चपला अपि वज्रतुल्याः”

दांत घजूके समान दृढ़ बन जाते हैं, ऐसा लिखा है । दन्तधावनके बाद स्नान करना चाहिये । इस विषयमें लिखा है :—

स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम् ।
शरीरबलसन्धानं केरयमोजस्करं परम् ॥

स्नानक्रिया पवित्रताजनक, आयुको बढ़ानेवाला, श्रमनाशक, स्वेद-निवारक, मलनाशक, शारीरिक बलवर्द्धक, केशवर्द्धक तथा परम तेजस्कर है । इसलिये स्नान करना चाहिये । स्नानके विषयमें निम्नलिखित नियम अवश्य पालन करने योग्य हैं, यथा :—

न स्नानमाचरेद् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये ॥

भोजनके पश्चात्, शरीरमें पीडा हो तो, रात्रिके दूसरे और तीसरे प्रहरमें तथा अधिक कपड़े पहिनकर स्नान करना उचित नहीं है । छोटे वा अपरिचित जलाशयमें स्नान न करे । नदी हो तो उसमें नहाना बहुत उत्तम है, परन्तु वर्षाकालकी बाढ़में नदीमें नहानेसे बचना चाहिये । प्रवाहके जलमें नहाना हो, तो जिस ओरसे प्रवाह आ रहा हो, उस ओर मुंह करके और घरमें नहाना हो, तो सूर्याभिमुख होकर नहावे । स्नान करते समय बकवाद करना अथवा पहिरे हुए कपड़ोंसे देह मलना अच्छा नहीं । शरीर अच्छा हो, तो ठण्डे जलसे स्नान करना उत्तम है । शास्त्रोंमें समुद्र-स्नानकी बड़ी प्रशंसा की है, यथा :—

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं कुरुते नरः ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्नात्वा क्षारार्णवे सकृत् ॥

समुद्रस्नानसे जन्म जन्मान्तरके पाप नष्ट होते हैं ।

Dr. C. E. Saleeby writes in the Daily Mail—Here in Switzerland there are many advantages, but the air and the lake water are very poor in iodine, whereas the sea is the natural reservoir of that precious element सलिवि साहबकी सम्मति है कि 'आयोडिन' नामक रासायनिक पदार्थकी प्रचुरताके कारण समुद्र-स्नान बड़ा ही लाभदायक है ।

कुछ भी हो स्नान बड़ी ही पवित्र वस्तु है । स्नानके द्वारा अशुचि शरीर शुचि होकर भगवान्की पूजाके योग्य बनता है, इसीसे स्नान पवित्र कार्योंमें समझा

गया है । स्नानमें भी प्रातःस्नानकी बड़ी महिमा है । प्रातःस्नानका वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं:—

गुणा दश स्नानपरस्य मध्ये,
रूपञ्च तेजश्च बलञ्च शौचम् ।
आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं,
दुःस्वप्नघातश्च तपश्च मेधा ॥

प्रातःस्नान करनेसे रूप, तेज, बल, शौच, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, दुःस्वप्ननाश, तप और मेधा, इन दश गुणोंका लाभ होता है । इन दश गुणोंके लाभ करनेमें चन्द्र और सूर्य ही कारण हैं । रात्रिभर चन्द्रामृतसे जल पुष्ट रहता है । सूर्योदयके बाद सूर्यकिरण द्वारा वह अमृत आकृष्ट हो जाता है । अतः सूर्योदयसे पहले नहा लेने पर वह अमृत स्नान करनेवालेको प्राप्त होगा । इसी प्रकार दिनभर सूर्यरश्मिके द्वारा जो शक्ति जलमें प्रवेश करती है वह रात्रिकी टरढकके कारण जलमें ही रह जाती है । इसी कारण शीतकालमें प्रातःकाल जल गरम रहता है । उसी जलमें सद्य ऋतुमें विशेषतः शीतऋतुमें स्नान करनेसे बड़ा ही लाभ होता है । रोगके कीटाणु प्रायः जलमें ही रहते हैं । सूर्योदयसे पहिले वे गंभीर जलमें चले जाते हैं, सूर्यकिरण देखकर वे ऊपर जलमें आजाते हैं । अतः प्रातः स्नान करने पर रोगकीटाणुका सस्पर्श भी नहीं होता । अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको सबेरे ही नहा लेना चाहिये ।

स्नानके बाद चन्दन, भस्म, तिलक आदि धारण करना चाहिये क्योंकि जो जिस देवताके भक्त होते हैं, वे अपने उपास्यके चिह्न धारण करें, तो उनके हृदयमें भक्ति और पूजाके भाव स्वतः ही होने लगते हैं । इस प्रकार शुद्ध शरीर और पवित्र अन्तःकरण होकर, पिता, माता, गुरुजन तथा घरमें जो कुल-देवता इष्टदेवता हो, उनको भक्तिभावसे प्रणाम, सन्ध्योपासना, पुष्पचयन तथा इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये ।

आर्य्य शास्त्रमें पिता माता ज्येष्ठ भ्राता तथा आचार्यकी सेवा और इष्ट-देवपूजाकी बड़ी महिमा बताई गई है । वेदमें तो पितृदेवो भव, भ्रातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इस प्रकारके मन्त्र ही मिलते हैं । मनुसंहिताके द्वितीयाध्यायमें लिखा है—

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ।
 माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥
 आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।
 नार्त्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥
 तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।
 तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥
 इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्यातु मध्यमम् ।
 गुरुशुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समरनुते ॥
 सर्वे तस्याहता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः ।
 अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥

आचार्य ब्रह्मकी मूर्ति, पिता प्रजापतिकी मूर्ति, माता वसुमतीकी मूर्ति और भ्राता अपनी ही मूर्ति है । इसलिये इनके द्वारा पीड़ित होनेपर भी कदापि इनकी अवमानना किसीको, विशेषतः ब्राह्मणको नहीं करना चाहिये । प्रति दिन पिता माता तथा आचार्यका प्रियानुष्ठान करना चाहिये । इन तीनोंके प्रसन्न रहनेसे सकल तपस्या पूर्ण होती है । मातृभक्ति द्वारा भूलोक, पितृभक्ति द्वारा मध्यमलोक और गुरुभक्ति द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं । इन तीनोंका आदर करने पर धर्मका आदर होता है । इनके अनादरसे सभी धर्म कर्म वृथा होता है । इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें पितृमातृसेवा तथा गुरुसेवाकी महिमा बताई गई है ।

पिता-मातादिके प्रणामके अनन्तर सन्ध्योपासना, पुष्पचयन और इष्ट-देवपूजा करनी चाहिये । पुष्पचयन तथा तुलसी दूर्वादिचयनकी बड़ी महिमा शास्त्रमें कही गई है । समस्त रात्रि चन्द्रामृत पान करके कुसुमसमूह अमृतमय बने रहते हैं, इसलिये उनके स्पर्शसे भी शरीर मन दोनोंका स्वास्थ्य तथा शक्तिलाभ होता है । प्रातःकालकी हरियाली नेत्रोंको प्रफुल्लित तथा नीरोग बनाती है । मैलेरिया आदि रोगनाशिनी शक्ति तुलसी, दूर्वा, विल्वपत्र आदिमें यथेष्ट है, यह बात आधुनिक पश्चिमी विज्ञानके द्वारा भी प्रतिपादित हो चुकी है । अतः प्रातःकाल भी पुष्पचयन, तुलसीवायुसेवन, तुलसीचयन आदि शरीर मन आत्मा सभीके लिये उन्नतिप्रद है, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं ।

इस प्रकारसे पुष्पचयनादिके अनन्तर इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये । इतनेहीमें पूर्वाह्नकृत्य समाप्त होता है ।

पूर्वाह्नकृत्यके अनन्तर मध्याह्नकृत्य करनेकी विधि है । उसमें भोजन ही प्रधान कृत्य है । किन्तु सबको खिलाये बिना गृहस्थोंका स्वयं भोजन करना शास्त्रविरुद्ध है । इस कारण होम, वैश्यदेव, बलि, अतिथिसेवन, नित्य-श्राद्ध, गोआसदान और पञ्चमहायज्ञके बाद तब भोजन करनेकी आज्ञा आर्य-शास्त्रमें दी गई है । होमके विषयमें शास्त्रमें लिखा है—

गृहमेधिनो यदशनीर्यं तस्य
होमावलयश्च स्वस्वपुष्टिसंयुक्ताः ।

गृहीके जो खाद्य है, उन्हींसे हवन करना होता है । असमर्थपक्षमें 'जुह्यादम्बुनापि च' जलमें जलसे भी हवन हो सकता है, ऐसा शास्त्रमें कहा गया है । हवनसे देवतागण तृप्त होते हैं । वैश्यदेवके विषयमें शास्त्रमें लिखा है—

सायं प्रातर्वैश्वदेवः कर्त्तव्यो बलिकर्म च ।
अनश्नतापि कर्त्तव्यमन्यथा किन्विषी भवेत् ॥

सायंकाल तथा प्रातःकाल भोजनसे पहले बलिवैश्वदेव करना चाहिये । अन्यथा गृहस्थको पाप स्पर्श करता है । वैश्वदेवकी पूजा 'सप्रणव विश्व-देवाय नमः' इतने ही मन्त्रसे की जाती है । जिस प्रकार हवनसे देवतागण प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही वैश्वदेवसे श्रीभगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं । वैश्व-देवके बाद बलि दी जाती है । इसमें समस्त प्राणियोंको लक्ष्य करके अन्न दिया जाता है, यथा—

देवा मनुष्याः पशवो व्यासि सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसंघाः ।
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धवद्धाः ।
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं मुदिता भवन्तु ॥
येषां न माता न पिता न बन्धुर्नैवान्नसिद्धिर्न यथान्नमस्ति ।
तत् तृप्तयेन्न भुवि दत्तमेतत् प्रयान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु ॥

देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, उरग, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष, पिपीलिका, कीट, पतङ्ग आदि सभी जो अन्न चाहते हैं, या वृक्षुक्षित हैं, सब मेरे प्रदत्त अन्नसे तृप्त हो जाय । जिनके पिता माता या बान्धव नहीं हैं या अन्नसंस्थान नहीं हैं उन सबकी तृप्तिके लिये यह अन्न देता हूँ । यही सब बलिप्रदानके मन्त्र है । इस प्रकार उदार मन्त्रका रहस्य यह है—

भुवि भूतोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः ।

रवचण्डालविहङ्गानां भुवि दद्यात् ततो नरः ॥

क्योंकि गृहस्थ ही सकल जीवांका आश्रय है, इसलिये स्वयं भोजनसे पहले सबको भोजन देकर तब गृहस्थको भोजन करना चाहिये । बलिप्रदानके बाद अतिथिसेवा गृहस्थका प्रधान कार्य है । उसके लिये शास्त्रमें लिखा है:—

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः परिडित एव वा ।

संप्राप्तो वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

देशं नाम कुलं विद्यां पृष्ट्वा योऽन्नं प्रयच्छति ।

न स तत्फलमाप्नोति दत्त्वा स्वर्गं न गच्छति ॥

प्रिय, द्वेष्य, मूर्ख, परिडित जो कोई हो, वैश्वदेवके अन्तमें जो गृहस्थके मकानपर आवे, वही अतिथि और उनको सेवा स्वर्गप्रद है । अतिथिका देश, नाम, कुल, विद्या पूछ कर अन्नदान करनेसे वह सेवा स्वर्गप्रद नहीं होती है । इसलिये

‘हिरण्यगर्भबुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं गृही ।’

अतिथिको हिरण्यगर्भ भगवानका रूप मानकर इसी भावसे उनकी सेवा करनी चाहिये । यही गृहस्थाश्रमका प्रधान कर्त्तव्य अतिथि सत्कार है । इसके अनन्तर नित्यश्राद्धविधि है । नित्य श्राद्धमें इस प्रकार विधिकी आवश्यकता नहीं होती है । इसमें केवल पितृपक्षके तीन और मातृपक्षके तीन व्यक्तियोंका स्मरण करके उनके उद्देश्यसे कुछ कुछ अन्नदान किया जाता है और अभावपक्षमें—

‘अशक्ताबुदकेन तु’

इस आश्राके अनुसार थोड़ा जल देनेपर भी नित्यआश्राकृत्य सम्पादित हो सकता है । इसके अनन्तर गो-ग्रास है । इसमें सकल-भूतोंसे विशेषताके कारण गो माताको ग्रास दिया जाता है । उसका मन्त्र यह है—

सौरभेद्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः ।

प्रतिमृहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥

सकलहितकारिणी, पवित्रा, पुण्यराशिमयी, त्रैलोक्यजननी, सुरभी सन्तान गौर्वे मेरे दिये इस ग्रासको ग्रहण करें । यही गो-ग्रास है । इसके अनन्तर पञ्च महायज्ञ करके मध्याह्नकृत्य भोजन होता है । इन सबका और भी विस्तृत वैज्ञानिक रहस्य आगेके अध्यायमें बताया जायगा ।

आर्यशास्त्रमें अन्यान्य यज्ञोंकी तरह भोजन व्यापारको भी एक नित्ययज्ञ कहा गया है । इस नित्ययज्ञके यज्ञेश्वर भगवान् वैश्वानर कहे गये हैं, यथा श्रीमद्भगवद्गीतामें—

“अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥”

श्रीभगवान् वैश्वानर (जठराग्नि) रूपसे प्रत्येक प्राणीमें बैठकर प्राण और अपान वायुकी सहकारितासे चर्ब्य, चोष्य, लेह्य तथा पेय, इन चार प्रकारके भोज्य अन्नोंको भक्षण करते हैं । अन्ततः आर्यभोजनसे केवल उदर-पूर्ति ही नहीं होती, किन्तु श्रीभगवान्की पूजा भी होती है, इसीसे हमारे शास्त्रोंमें भोजनको पवित्रतापर विशेष विचार किया गया है । इस सम्बन्धमें सबसे प्रथम स्थानका विचार करना चाहिये, अर्थात् चाहे जिस स्थानमें बैठकर या खड़े खड़े भोजन करना ठीक नहीं, क्योंकि अशुचि स्थानमें पूजा करनेसे कोई फल नहीं होता, भगवान् असन्तुष्ट होते हैं । भोजनका स्थान पवित्र, एकान्त और गोमय जल आदिसे शुद्ध किया हुआ होना चाहिये । द्वितीयतः स्वयं पवित्र होकर भोजन करें, क्योंकि अपवित्र शरीर और अशुचि मनसे भगवत्पूजा करनेसे कोई फल नहीं होता । तृतीयतः जिस वस्तुसे पूजा करनी हो, वह पवित्र और सात्त्विक होनी चाहिये, क्योंकि अशुद्ध और तामसिक वस्तुओंसे भगवान्की पूजा नहीं की जाती । उससे शरीर, मन, बुद्धि और

आत्मा का कलुषित होना सम्भव है । अन्ततः खाद्यद्रव्य शुद्ध और सात्त्विक होना आवश्यक है । चतुर्थतः पूजाकी वस्तु जिसमें संग्रह की जाय, वह पात्र अच्छा परिष्कृत होना चाहिये और वह किसी अपवित्र व्यक्ति अथवा जीवसे छुआ हुआ न हो, क्योंकि पूजाके फूल, नैवेद्य आदि नीच जीव या पापियोंसे छुए जानेपर पूजाके योग्य नहीं रहते, इसीसे पापी या नीच जीवोंका अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है । यही नहीं, किन्तु उनका छुआ अन्न भी ग्रहण न करना चाहिये । इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियोंने आहारपर बहुत विचार कर आहार सम्बन्धीय नाना प्रकारके आचारोंका निर्णय किया है ।

भोजनके विषयमें भगवान् मनुने लिखा है :—

‘आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्वं दक्षिणामुखः’

आयु चाहनेवालेको पूर्वमुख और यश चाहनेवालेको दक्षिणमुख हो भोजन करना चाहिये ।

पूर्वदिशासे प्राण और शक्तिका उदय होता है । प्राणस्वरूप सूर्यदेव पूर्वसे ही उदित होते हैं, इस कारण पूर्वामिमुख होकर भोजन करनेसे आयुका बढ़ना स्वभाविक है । इस विषयमें पश्चिमी परिदत्तोंने भी अन्वेषण किया है, यथा—Dr. George Starr White of the New York Medical College discovered that a healthy person had a slight difference in sound over each organ when faced east than he had when he faced north and he deduced that the reason for this is that when a person faces north the magnetic lines of force cut through a larger surface of the sympathetic nervous chain डा० जार्जका सिद्धान्त है कि उत्तरकी ओर मुँह कर खानेसे वैद्युतिक प्रवाह नसोंके द्वारा अधिक वेग तथा विस्तारके साथ चलता है, इसलिये वह आयुवृद्धिकर उतना नहीं है जितना कि पूर्वामिमुख भोजन । इसी प्रकार यश देनेवाले पितरोंका सम्बन्ध दक्षिण दिशाके साथ रहनेके कारण दक्षिणमुख भोजनसे यशोलाभ होता है । स्नान, पूजादिसे शरीर और मनकी पवित्रता बढ़नी है, इसलिये शास्त्रमें कहा है—

‘अस्नात्वाशी मलं भुंक्ते अजपी पूयशोणितम्’

नौरोग शरीर होनेपर भी विना स्नान खानेसे मलभोजन और विना जपपूजा खानेसे पूय शोणित भोजनका दोष होता है। इसलिये स्नानके बाद भोजन करना चाहिये।

शास्त्रोंमें लिखा है:—

“पश्चाद्भो भोजनं कुर्यात्प्राङ्मुखो मौनमास्थितः ।
हस्तौ पादौ तथैवास्यमेषा पश्चाद्भता मता ॥”

दोनों हाथ, दोनो पाँव और मुँह धोकर, ‘पूर्वाभिमुख हो, मौन अवलम्बन कर भोजन करे। योगशास्त्रमें मनुष्यके स्वाभाविक श्वासकी गति १२ अङ्गुल, किन्तु भोजनकालमें २० अङ्गुल बतार्ह गई है। श्वासको गति अधिक होने पर आगु घटती और कम होने पर बढ़ती है। लोभसे भोजन करनेमें तथा हाथ पाँव न धोकर भोजन करनेमें श्वासगति बढ़ती है। इसी कारण भगवान्को भोग लगाकर प्रसादरूपसे तथा हाथ पाँव धोकर खानेकी विधि है। मनुने कहा है कि:—

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् ।
आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥

भीगे पैर भोजन करे, परन्तु शयन न करे। भीगे पैर भोजन करनेसे आयु बढ़ती है और शयन करनेसे घटती है। मौन होकर भोजन करनेकी इसलिये कहा है कि, भोजन करते करते बकवाद करनेसे लाला (लार)-कम उत्पन्न होगी, जिससे मुँह सूखकर बीच बीचमें पानी पीना पड़ेगा। लार कम उत्पन्न होने और मुँह सूखनेके कारण पानी पीनेसे पाचनक्रियामें बाधा उत्पन्न होगी। महाभारतमें लिखा है, “एकवल्हो न भुञ्जीत” केवल एक वस्त्रधारण कर भोजन न करे। भोजन करते समय एक उत्तरोष्ण (दुपट्टा) ओढ़ लेना चाहिये, वह रेशमी हो तो अधिक अच्छा है। भोजन करते हुए शरीरयन्त्रकी जो क्रियाएँ होती हैं, उनमें बाहरी वायु बाधा न पहुँचा सके, इसीलिये यह व्यवस्था है। रेशमी वस्त्र इस कारण अच्छा समझा गया है कि, रेशम भीतरी शक्तिको सुरक्षित रखकर बाहरी शक्तिका उसपर परिणाम नहीं होने देता। इस प्रकार पवित्रभावसे भोजन करना चाहिये। स्नानके पश्चात् ही भोजन

करना उचित है, क्योंकि भगवत्पूजा बिना स्नान किये नहीं की जाती और पूजा किये बिना भोजन करना निषिद्ध है । शरीर अस्वस्थ रहनेपर गीले कपड़ेसे शरीर पोछकर बख बदल दे और भस्मस्नान अथवा मानसिक स्नान कर ले । मानसिक स्नान, श्रीविष्णु भगवान्का स्मरण कर 'स्वर्गसे गङ्गाकी धारा आई और उसमे स्नानकर मैं पवित्र हुआ' ऐसी दृढ़ भावना करनेसे होता है । भस्मस्नान शिवमन्त्रसे अग्निहोत्रको विभूतिको अभिमन्त्रित कर देहमें लगानेसे होता है ।

भोजनके पहिले भोज्य पदार्थका भगवान्को नैवेद्य दिखाकर, तब प्रसाद समझकर भोजन करे । प्रसादरूपसे भोज्य पदार्थका सेवन करनेसे अन्नमे अलुचित आसक्ति न रहेगी । जब कि संसारकी सब वस्तुए भगवान्की उत्पन्न की हुई हैं, तब उन्हे पकाकर भगवान्को बिना अर्पणकर खानेसे निस्सन्देह पाप होगा । गीतामे कहा है:—

“तैर्दत्तानमदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ।”

देवताकी दी हुई वस्तु उन्हे बिना समर्पण किये जो खाता है, वह चोर है । अतः भगवान्को समर्पण करके ही अन्नग्रहण करना चाहिये ।

खाद्य वस्तुए पवित्र और सात्त्विक होनो चाहिये । इसका कारण छान्दोग्य श्रुतिमे धताया गया है । यथा—६१-६—१६

“अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्-
पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ।” (६-५)

“दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः
समुदीपति तत् सर्पिर्भवति । एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्वमानस्य
योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपति, तन्मनो भवति ।”

और भी—

“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः
स्मृतिशुद्धौ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।”

खाया हुआ अन्न तीन भागमें विभक्त होजाता है—स्थूल अंशर अश मल बनता है, मध्यम अंशसे मांस बनता है और सूक्ष्म अंशसे मनकी पुष्टि होती है । जिस प्रकार दधिके मथनेपर उसका सूक्ष्म अंश ऊपर आकर घृत बनता है, उसी प्रकार अन्नके सूक्ष्मांशसे मन बनता है । मन अन्नमय ही है । आहारशुद्धिसे सत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धिसे ध्रुवा स्मृति और स्मृतिशुद्धिसे ससार-ग्रन्थियोंका मोचन होता है । अतः सिद्ध हुआ कि, अन्नके सात्त्विकादि गुणालु-सार मन भी सात्त्विकादि भावापन्न होगा । साधारणतः देखा जाता है कि, अन्न न खानेसे मन दुर्बल हो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट होने लगती है, और अन्न खानेसे मन सबल तथा चिन्ताशक्ति बढ़ने लगती है । अतः यही अन्न तामसिक हो, तो मन, बुद्धि, प्राण और शरीर तामसिक होगा, जिससे ब्रह्म-चर्य्यधारण और साधना आदि असम्भव हो जायगी । इसी तरह राजसिक अन्नसे भी मन और बुद्धि चञ्चल होती है, अतः पवित्र और सात्त्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिये । खाद्याखाद्यके सम्बन्धमें पश्चिमी देशोंमें जिस प्रणालीसे विचार किया है, वह सर्वाङ्गदृष्टिपूर्ण नहीं है । उन्होंने केवल इतना ही विचार किया है कि, किस वस्तुमें कौनसा रासायनिक द्रव्य कितना है । कैल्सियम, प्रोटिड, मिटाभिन, अथवा अम्लजान, यवत्तारजान जिसमें न्यून हो, वह अखाद्य ओर जिसमें अधिक हो, वह खाद्य, इतना ही मोटा सिद्धान्त उन्होंने बना लिया है । कौन सी वस्तु, किस ऋतुमें, किस प्रकारके शरीरके लिये, किस प्रकारसे सेवन की जाय, जिससे शरीर और मनका स्वास्थ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि पश्चिमी चिकित्साशास्त्रकी पोथियोंमें नहीं मिलती । उन देशोंमें शीत अधिक है, अतः एकसी ही वस्तुओंके बारहो मास सेवन करनेसे तद्देशवासियोंका काम बन जाता है, परन्तु इस देशमें छहो ऋतु एकसे ही बलवान् हैं । ऋतुभेदसे वात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता होनेके कारण शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामें कितना परिवर्तन होता है, यह जाननेकी वे अबतक चेष्टा नहीं करते । द्वितीयतः पश्चिमी देशोंको यह निर्णयविधि बड़ी ही जटिल है । वहांके प्रसिद्ध विद्वान् भी खाद्याखाद्यके सम्बन्धमें अभी एकमत नहीं है । तृतीयतः उद्गमें जाकर इन सब खाद्य द्रव्योंका किस प्रकार विश्लेषण होता है, और उससे शरीर पोषणकारी कौनसे गुण उत्पन्न होते हैं, साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा उसका निरूपण नहीं हो सकता । अतुर्थतः इस देशके खाद्यद्रव्योंके साथ उस

देशके खाद्यद्रव्योंके गुणावगुणका निर्णय नहीं हो सकता । सबसे बढ़कर बात यह है कि, खाद्यद्रव्योंके साथ मनका क्या सम्बन्ध है, सो पश्चिमी लोग नहीं जानते । अतः हमारे देशके खाद्याखाद्यका विचार हमारे शास्त्रीय विधियोंके अनुसार ही होना चाहिये । उसमें किसी खाद्य वस्तुमें चाहे कितना ही मिट्टामिन हो यदि उसके परिणामद्वारा शरीरमें या मनमें विषयभाव, तमोगुण आदि बढ़ेंगे तो वह अवश्य ही चर्जित माना जायगा । श्रीभगवान् कृष्णने सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे खाद्यद्रव्योंको तीन भागोंमें विभक्त किया है । यथा—

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्द्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

कट्वरूक्षलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकापयप्रदाः ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत् ।

लच्छिद्रमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥

सरस, स्निग्ध, सारवान् और हृद्य-ग्राही आहार सात्त्विक होता है । अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष और उग्र आहार राजसिक है, और वासी, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, जूठा और अपवित्र आहार तामसिक है । सात्त्विक आहारसे आयु, बल, उत्साह, अरोग्य, सुख और प्रीतिकी वृद्धि होती है । और चित्तमें सत्त्वगुणवृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है । राजसिक आहारसे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं, और तामसिक आहारसे जड़ता, अज्ञान, कुरोग और पशुभाव बढ़ता है । अतः राजसिक और तामसिक खाद्यद्रव्योंका परित्याग कर सात्त्विक आहार करना चाहिये । इसी कारण आर्यशास्त्रमें पियाज, लहसुन आदि राजसिक तामसिक वस्तुओका भोजन निषिद्ध है, यथा—

लशुनं शृङ्गनञ्चैव पलाण्डु करकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनां अमेध्यप्रभवानि च ॥

लहसुन, गाजर, पियाज, लुला आदि तथा विष्टादि अपवित्र वस्तुसे उत्पन्न शाकादि द्विजातियोंको सर्वथा अभक्ष्य है । इन वस्तुओंके खानेसे मन, बुद्धि,

शरीर, प्राण, आत्मा सभी मलिन होजाते हैं, और ब्रह्मचर्य्यनाश, पशुमाचवृद्धि, कामवृद्धि, चित्तचाञ्चल्य आदि उत्पन्न होकर आध्यात्मिक उन्नितका मार्ग एक बार ही बन्द हो जाता है ।

यह डाक्टरों विज्ञान सम्मत है कि स्पर्शसे एकके शरीरसे दूसरेके शरीरमें रोग संक्रामित होते हैं । Miss Helen M Mathews of the University of British Columbia demonstrated that bacilli were readily transferred from one to another by even hand-shaking or shake-hand अर्थात् मिस हेलेनेने यन्त्रके द्वारा स्पष्ट प्रमाणित कर दिखाया है कि हाथके साथ हाथका स्पर्श होने पर भी रोगके बीज एकसे दूसरेमें चले जाते हैं । केवल रोग ही नहीं किन्तु स्पर्शसे शारीरिक और मानसिक वृत्तियोंमें हेरफेर हो जाता है । प्रत्येक मनुष्यमें एक प्रकारकी विद्युत्शक्ति रहती है, जो मनुष्यकी प्रकृति और चरित्रके भेदसे प्रत्येकमें विभिन्न जातीय होकर स्थित है । तामसिकोंमें तमोमयी, राजसिकोंमें रजोमयी और सात्त्विकोंमें सत्त्वमयी विद्युत् विराजमान है । अन्ततः जिस वृत्तिके लोगोंके साथ रह जाय, जिस वृत्तिके लोगोंका लुआ था दिया अन्न सेवन किया जाय उसी प्रकारकी वृत्ति सहवासियों अथवा अन्न ग्रहण करनेवालोंमें संक्रामित होगी । भिन्न भिन्न प्रकारकी विद्युत्का प्रकृतिपरिणाम एक दूसरेपर हुए बिना न रहेगा । अतः चाहे जिसका भी हो, लुआ या दिया हुआ अन्न ग्रहण न करना चाहिये । हिन्दुशास्त्रोंमें नीच, अपवित्र, पापी और चाण्डालादिका लुआ अन्न ग्रहण करनेका जो निषेध है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको अलग अलग पंक्तियोंमें बैठकर भोजन करनेका जो आह्वान है, इसका कारण भी यही है कि प्रत्येक वर्णकी विद्युत् (प्रकृति) जन्मसे ही विभिन्न प्रकारकी होती है, और उसका अन्य प्रकृतिमें सक्रमण होना स्वाभाविक है । अपनेसे निम्न श्रेणीके लोगोंके साथ बैठकर भोजन करनेसे अपनी उच्चगुणविशिष्ट विद्युत् मलिन हो जाती है । अथवा नाना जातिकी बिजलीके विपरीत संघर्षसे किसीका भी भोजन परिपक्व नहीं होता-है ।

भोजनके समय इन नियमोंका प्रालन करना आवश्यक है । एक वर्णमें पंक्तिभोजनके समय यह भी नियम अवश्य रखना चाहिये कि, जितने एक साथ बैठें, सब भोजनका प्रारम्भ तथा समाप्ति एक ही साथ करके उठें । क्योंकि पंक्तिभोजनके समय सबके शारीरिक यन्त्रमें क्रियाविशेष होनेसे तथा एक साथ

बैठनेके कारण सभोंके भीतर एक वैद्युतिक शृङ्खला (Electric line or circle) बन जाती है। उसीमेंसे जो आगे उठ जायगा, वह यदि दुर्बल है, तो उसकी वैद्युतिक शक्तिको बाकी बैठनेवाले खींच लेंगे, जिससे उस पहले उठनेवालेके पेटमें भोजन पचेगा नहीं वह और दुर्बल हो जायगा। द्वितीयतः उठनेवाला यदि अधिक शक्तिशाली है, तो सारे बैठनेवालोंकी विद्युत्शक्तिको वह खींचकर उठेगा, जिससे बाकी सबके पेटमें विकार हो सकता है। अतः पंक्ति-भोजनमें साथ ही बैठने उठनेका नियम अवश्य पालना चाहिए। द्वितीयतः यदि किसीसे अन्न लेना हो, तो सत्पात्र देखकर उससे लेना चाहिये, क्योंकि पापियोंका अन्न ग्रहण करनेसे उसका पाप अन्नमें भी संक्रमित होगा। भोग्यपितामहने दुर्बोधनका पापात्र ग्रहण किया था, इसीसे उनका ब्रान लुप्त हो गया था और द्रौपदीके बख्हरणके समय वे द्रौपदीको रक्षा नहीं कर सके थे। जब इतने बड़े महात्माकी भी पापात्रके ग्रहण करनेसे बुद्धि पलटती है, तो साधारण जीवोंकी कथा ही क्या है ? सारांश यह है कि, सत्पात्रके यहाँका भोजनार्थ निमन्त्रण स्वीकार करना और सत्पात्रका ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, इन विषयोंपर वर्णविवेक प्रकरणमें और भी अधिक प्रकाश डाला जायगा।

भोजनमें स्पर्शदोषकी तरह दृष्टिदोषगुणका भी विचार आर्यशास्त्रमें किया गया है। केवल आर्यशास्त्रमें ही नहीं अधिकन्तु पश्चिमी विद्वानोंने भी स्पर्शदोषके साथ दृष्टिदोषके विषयमें बहुत कुछ विचार किया है। प्रसिद्ध विज्ञानविद् फ्लामेरियन (Flammarion) साहब कहते हैं —

What is this mysterious force, this something which flows through the nerves of the hand, to the finger tips ? This mysterious force by some scientists called 'Ethereal Fluid,' by others 'Fluid Force' starts from the brain, unites itself with the impulses, thoughts and acts, flows through the nerves, the same as the nervous fluid to each one of its three centres of radiation viz the hand, the eyes and the soles of the feet. From each one of these respective centres, this invisible recorder registers its particular results, but

it is through the hand, where this emotional wireless, reveals its greatest power.

(The mysterious power which operates through
the hand—Kalpaka)

वह कोन शक्ति है जो हाथकी नसोंके द्वारा अङ्गुलियोंके अन्त तक चली जाती है ? इसीको वैज्ञानिकगण 'आकाशी शक्ति' कहते हैं । यह मस्तिष्कसे प्रारम्भ होती है, मनोवृत्तियोंके साथ जा मिलती है और स्नायुपथसे प्रवाहित होकर हाथ, आँख और पाँवकी पङ्गी तक पहुँचती है । इन तीनोंके ही द्वारा दूसरों पर यह अपना प्रभाव दिखाता है, किन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव हाथकी अङ्गुलियों द्वारा ही प्रकट होता है । अब आर्यशास्त्रीय विचार कहते हैं । यथा—

पितृमातृसुहृद्वैद्यपुण्यकूर्द्धसर्वहिंणाम् ।
सारसस्य चकोरस्य भोजने दृष्टिरुत्तमा ॥

पिता, माता, बन्धु, वैद्य, पुण्यात्मा, हंस, मयूर, सारस और चकवेकी दृष्टि भोजनमें उत्तम है । इनकी दृष्टिसे अन्नका दोष दूर होता है । चकवेके विषयमें मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, 'चकोरस्य चिरज्येते नयने विपदर्शनात् ।' अन्नमें विष आदि दोष रहनेपर चकवे आंखे मूंद लेते हैं जिससे विषाक्त अन्नका पता लग जाता है । दृष्टिदोषके विषयमें लिखा है—

हीनदीनक्षुधार्त्तानां पाषण्डस्त्रैणरोगिणाम् ।
कुक्कुटादिशुनां दृष्टिर्भोजने नैव शोभना ॥

नोच, दरिद्र, भूखे, पाषण्ड, छैण, रोगी, मुर्गे, सर्प और कुत्तेकी दृष्टि भोजनमें ठीक नहीं होती है । उनकी विषदृष्टि अन्नमें संक्रमित होनेसे अजीर्ण रोग उत्पन्न होते हैं । अरुद्धी या बुरी दृष्टिमें कितनी शक्ति है सो आजकल मेसूमेरिज़म, हिपनटिज़म आदि विद्याओंके द्वारा स्पष्ट प्रमाणित होचुका है । यदि कभी इनमेंसे किसीकी दृष्टि अन्नमें पड़ जाय तो निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर उसकी अर्थ चिन्ता करते करते भोजन करना चाहिये, यथा—

अन्नं ब्रह्म रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः ।
इति सञ्चिन्त्य भुञ्जानं दृष्टिदोषो न बाधते ॥

**अञ्जनीगर्भसम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणम् ।
दृष्टिदोषविनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम् ॥**

अन्न ब्रह्मरूप है । अन्नरस त्रिष्णुरूप है, भोक्ता महेश्वर है, ऐसी चिन्ता करते करते भोजन करनेपर दृष्टिदोष नहीं होता । अञ्जनीकुमार ब्रह्मचारो-हनुमानको दृष्टिदोषनाशार्थ मैं स्मरण करता हूँ, यही सब भोजनके विषयके नियम है ।

दिनमें एकवार ही भोजन करना चाहिये । यथा आपस्तम्बमें 'दिव्या पुनर्न भुञ्जीत नान्यत्र फलमूलयोः' दिनमें एकवार ही भोजन करना चाहिये । लुधावोध होनेपर फलमूलादि आहार कर सकते हैं ।

माथा लपेट कर या जूना पहिनकर खाना उचित नहीं है ।

**यो भुङ्क्ते वेष्टितशिरा यश्च भुङ्क्ते विदिङ्मुखः ।
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते सर्वं विद्यात्तदासुरम् ॥**

माथा लपेट कर, निपिद्धमुख होकर या जूता पहन कर खाना आसुरी प्रकृतिका लक्षण है । रात्रिमें लघु (हलका) भोजन करना चाहिये । क्योंकि निद्रावस्थामें स्नायुशक्ति दुर्बल रहती है, उस समय गुरु (भारी) भोजनका ठीक परिपाक (पचन) नहीं होता । दिन या रात्रिका भोजन ऐसा न हो, जिसमें खूब चरपरे मसाले पड़े हों और जो पचनेमें जड़ हो । जड़ भोजनसे शरीर और मन दोनों धिगड़ते हैं । अतः सहजमें पचनेवाले हलके पदार्थ ही भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायें । सन्ध्याके समय भोजन न करे, क्योंकि सन्ध्याके समय भूत-प्रेतोंकी दृष्टि अन्नपर रहती है । उनकी अन्नपर आसक्ति रहनेसे उस समय अन्न ग्रहण करनेवालोंके अन्नपरिपाकमें सन्देह रहेगा । इसी तरह अधिक रात वीत जानेपर भी भोजन न करे, क्योंकि भोजनोत्तर कमसे कम दो घण्टे जागकर तब सोना चाहिये । ऐसा न करनेसे अन्न नहीं पचेगा । अन्नके न पचनेसे गाढ़ निद्रा नहीं लगेगी । अच्छी नीद न होनेसे नाना प्रकारके स्वप्न देख पड़ेंगे और निद्राभङ्ग होगा, जिससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । भोजन करतेनेके कुछ समयके पश्चात् जलपान करना चाहिये । पीनेके जलमें सात गुण अवश्य हों । वह स्वच्छ, लघु, शीतल, सुगन्धित, स्वयं स्वादहीन, हृद्य और तृष्णानिवारक हो । जलके विषयमें महर्षि यमने कहा है—

दिवाकरश्मिसंस्पृष्टं रात्रौ नक्षत्रभासितैः ।
सन्ध्ययोश्च तथोभाभ्यां पवित्रं जलमुच्यते ॥

दिनमें सूर्यकिरण, रात्रिको चन्द्र नक्षत्र किरण और सन्ध्यओंमें दोनों किरणोंसे युक्त, वायुप्रवाहमय जल ही उत्तम है। जिस जलपर सूर्यकिरण नहीं पड़ते अथवा जिस जलको वायु नहीं खोखती, वह अति स्वच्छ रहनेपर भी कफ उत्पन्न करता है। उस जलको गरम करके ठंडा होनेपर पिये। ऐसा जल काश, श्वास, ज्वर, कफ, वात, आम और अजीर्णका नाश करता है। नारियलका जल मधुर, पाचक और पित्तशामक होता है। लाल नारियलके जलमें केवल पित्तशामनका ही गुण है। सोडावाटर, लेमनेड आदि क्षारयुक्त जल इस देशके आहार विहार और जल वायुके लिये सर्वथा अलुपयुक्त और अपथ्यकर है।

जल पीनेके विषयमें ऐसा भी भावप्रकाशमें लिखा है—

अत्यम्बुपानाच्च विपच्यतेऽन्नं, अनम्बुपानाच्च स एव दोषः ।
तस्मान्नरो वह्निविवर्द्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिवेद्भूरि ॥

बहुत जल पीनेसे या विलकुल ही न पीनेसे अन्नका परिपाक नहीं होता है। इसलिये पाकाग्निके बढ़ानेके लिये बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिये।

आर्यशास्त्रमें मिताहारकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। मिताहारके लक्षणके विषयमें लिखा है—

द्वौ भागौ पूरयेदन्नैर्भागमेकं जलेन तु ।
वायोः सञ्चरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत् ॥

उदरका दो भाग अन्नसे पूर्ण किया जाय, एक भाग जलसे पूर्ण किया जाय और वायु सञ्चारके लिये एक भाग खाली रक्खा जाय, यही मिताहारका लक्षण है। इससे आयु बढ़ती है, रोगनाश, बल और सुख लाभ होता है।

भुक्त्वा पाणितले घृष्ट्वा चक्षुषोर्दीयते यदि ।
अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥
स्वर्यातिञ्च मुकन्याञ्च च्यवनं शक्रमरिचिनौ ।
भोजनान्ते स्मरेद् यस्तु तस्य चक्षुर्न हीयते ॥

भोजनके बाद मुखप्रक्षालन करना चाहिये, जिससे मुखमें उच्छिष्ट न रहे । तदनन्तर 'स्वर्ग्याति' आदि मन्त्रपाठ करते हुए आर्द्र हस्तद्वय वर्षणपूर्वक दोनो चक्षुओंमें तीन बार लगानेपर दृष्टिशक्ति अच्छी होती है । तदनन्तर क्या करना चाहिये, उसके लिये लिखा है—

भुत्त्वा राजवदासीत यावन्न विकृतिं गतः ।
ततः शतपदं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् ॥
एवञ्चाधोगतश्चान्नं सुखं तिष्ठति जीर्यति ॥

भोजनके बाद प्रथमतः वीरासनमें बैठना चाहिये, पश्चात् शतपद घूम कर वामपार्श्वमें सोना चाहिये । यथा—नावप्रकाशमे—

वामदिशायामनलो नाभेरुर्द्धेऽस्ति जन्तूनाम् ।
तस्मात्तु वामपार्श्वे शयीत भुक्तप्रपाकार्थम् ॥

नाभिके ऊपर वामपार्श्वमें अग्नि रहती है, इसलिये वामपार्श्वमें सोनेपर अन्नपरिपाक अच्छा होता है ।

भोजनके बाद कठिन परिश्रम कदापि नहीं करना चाहिये, उससे रक्त सञ्चालन अधिक होनेपर पाकक्रियामें बाधा होती है । इसलिये लिखा है—

‘अनायासप्रदायीनि कुर्यात् कर्माण्यतन्द्रितः’

जिससे परिश्रम न हो, इस प्रकारके हलके काम कर सकते हैं । और भी वैद्यशास्त्रमें लिखा है—

भुक्तोपविशतस्तुन्दं शयानस्य वपुर्महत् ।
आयुश्चक्रममाणस्य मृत्युर्धावति धावतः ॥

भोजनके बाद बैठे रहनेसे पेट बड़ जाता है, सोये रहनेसे शरीर अच्छा रहता है, थोड़ी देर पादचारण करनेसे आयु बढ़ती है, और खाते ही दौड़नेसे मृत्यु भी पीछे पीछे जाती है । येही सब आहारके नियम हैं ।

शास्त्रमें गोदुग्धकी बड़ी प्रशंसा लिखी है । यह प्राण देनेवाला, रक्तपित्त-नाशक, पौष्टिक रसायन है । इसमें भी काली गायका दूध त्रिदोषनाशक, परम-शक्तिवर्द्धक सर्वोत्तम कहा गया है । इसका क्या कारण है सो विचार करने योग्य है । पशुओंमें गऊ सबसे अधिक सार्विक होनेसे उसके शरीरमें दैवशक्तिके

अनेक केन्द्रस्थान है । 'पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णुः' इत्यादि शास्त्रोंमें इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं । दैवशक्तिके साथ इस प्रकार सम्बन्ध रहनेसे ही गोदुग्धमें इतना सात्त्विक बल है । अब काले रङ्गसे क्या विशेषता दूधमें आ जाती है सो ही विचारना चाहिये । रङ्ग क्या वस्तु है, सूर्यके साथ रङ्गका क्या सम्बन्ध है इस विषयमें वैज्ञानिक परिदृष्टि मिलरने कहा है—

The objects are themselves devoid of colour, but when placed in white light they absorb the rays of one or more colours and reflect the rest. the object therefore, appears to be of the colours that would be produced by the ray or mixture of rays which it reflects, green objects, for example, absorb the red rays and reflect the yellow and blue. The rays thus absorbed are said to be complementary to those that are reflected, a complementary colour being always that tint which when added to the primary colour upon the eye would constitute white light

(Miller's Chemical Physics p. 157)

किसी पदार्थका अपना रङ्ग नहीं होता है, सूर्यके शुभ्र किरणोंमेंसे कुछ रङ्गका किरण पदार्थ हजम कर जाता है, बाकी रङ्गको प्रकाशित कर देता है । जो रङ्ग प्रकाशित कर देता है, वही उस पदार्थका रङ्ग हो जाता है । जो पदार्थ सब रङ्ग प्रकाशित करता है वह श्वेत रङ्गका होता है, जो पदार्थ सब रङ्गको हजम कर लेता है वह कृष्णवर्ण होता है । अतः काले रङ्गमें सब रङ्ग छिपा हुआ है, यह प्रमाणित हुआ । इसलिये काली गाय अपने शरीरमें सूर्यके सात रङ्गको पचा लेती है और रङ्गके साथ सूर्यकी शक्तिको भी आकर्षण कर लेती है यह निश्चय है । इसी कारण काली गायके दूधमें इतनी शक्ति है । भैंस काली होने पर भी तामसिक पशु होनेके कारण सूर्यशक्तिको पाकर वह अति उष्णवीर्य, तामसी दूध-ही देती है यह विज्ञानसिद्ध है । वैद्यशास्त्रमें अनिद्रारोगमें भैंसके दूधका सेवन बताया गया है । यह पशु मृत्यु अर्थात् यमराजका वाहन है । जो ब्रह्मचर्य रखकर परमात्माकी साधना करना चाहे उसको भैंसका दूध कभी न पीना चाहिये । गोदुग्धकी तरह गोघृत और गोदधिकी भी शास्त्रोंमें बड़ी प्रशंसा की गई है ।

गोधृत नेत्रोका तेज बढ़ानेवाला, बलप्रद, मधुर, शीतल, वातपित्तनाशक है । 'आयुर्वे घृतम्' इसमें गोघृत ही शास्त्रमें कहा गया है । दही वातनाशक, स्निग्ध, दीपक और बलवर्द्धक है । उसका मट्टा लघु, कषाय, दीपक है । उसमें सैन्धव मिलानेसे वातनाशक, शर्करा मिलानेसे पित्तनाशक और सोठ मिलानेसे कफ नाशक होजाता है । यही सब गव्यामृतकी उपकारिता है ।

घी, शहद और सूली एक साथ न खाय । ठण्डा भात पुनः गरम करके खाना वर्जित है । अमडा, निब्वू, केलेका फूल, अमरुद, नारियल, अनार, आंवला या और कोई घस्तु दूधमें मिलाकर न खानी चाहिये । शहदको गरम करके न खाय, कांसेके पात्रमें दश दिन घी रक्खा रहे तो वह न खाना चाहिये, जो मिठाई कुछ दिन पड़ी रहनेसे खट्टी हो जाय वह खाना अनुचित है । जुआं आदि घृणित कृमि-संसृष्ट, व्यभिचारिणी स्त्री या स्त्रौण पुरुषका, पैरोसे कुचला या जूठा, चोरका, वेश्याका या सूतक लगा हो उस व्यक्तिका अन्न ग्रहण न करे । बेर कुपथ्यकी घस्तु है, उसे न खाना ही अच्छा है । लहसुन, प्याज, गाजर और कोवी नितान्त अखाद्य है । इन तामसिक चीजोको कभी न खाना चाहिये । इनसे इन्द्रियकी उत्तेजना अत्यन्त बढ़ती है, मन चञ्चल और काम-परायण होता है तथा अन्तःकरण श्रीभगवान्की ओरसे हटकर विषयकी ओर आकृष्ट होता है । प्याजकी उत्पत्ति पुराणोंमें गोमांससे बताई गई है । इसी कारण वैद्यशास्त्रमें उसे यवनष्टे अर्थात् यवनजातिका खाद्य बताया गया है । लहसुन, प्याज आदिकी तरह मांस, मछली, अण्डे आदिके भक्षणसे भी सत्त्वगुण नष्ट होकर रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है तथा बुद्धि विषयासक्त, अन्ततः भ्रष्ट हो जाती है । मांसभोजी कभी सत्त्वगुणी नहीं देख पड़ेगा । मांसखानेवाले व्याघ्र आदि और तृणभोजी गौ आदि पशु इसके प्रमाण हैं । मांसाशी पशु-पक्षियोंकी जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, मांसभोजी मनुष्योंकी वैसी ही प्रकृति और प्रवृत्ति बन जाती है । श्वान आदि मांसभोजी हैं, इसीसे अतिकामुक और अस्पृश्य हैं । जैसा भक्ष्य रहेगा, वैसी बुद्धि होगी । पशु-पक्षियोंमें देख पड़ता है कि, जिनका आहार सात्त्विक, वे शान्त, जिनका राजस, वे विलासी और जिनका तामस, वे क्रूर होते हैं । मनुष्योंको भी इन ईश्वरीय उदाहरणोको देख अपना आहार सात्त्विक रखना उचित है । मांस खानेसे कुष्ठ, कैनसर (गलेके घाव) आदि रोग होते हैं, अतः मांस

न खाना ही उचित है। मांसकी तरह मछली भी दुर्गुणकारी है। यद्यपि मछली राजसिक है, तथापि उसके खानेसे सात्त्विकताका नाश होता है। सारांश यह कि, किसी सजीव और सुख दुःखका अनुभव करनेवाले प्राणीको मारकर खानेकी इच्छा ही मनुष्यमें हिसावृत्ति और पाशविकभाव उत्पन्न करती है, अतः जो जीवनमें आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हों, उन्हें मांस मछली आदिका त्याग कर ही देना चाहिये। कितने लोग यह समझ बैठे हैं कि, मत्स्य मांस न खानेसे आयु घटती है, आँखें बिगड़ती हैं और अम्ल पित्तादि रोग होते हैं। उनकी यह समझ निरी भ्रममूलक है। निरामिषाहारी पञ्चद्रविड़ और बङ्ग या अन्य प्रान्तोंकी विधवायें—जो मत्स्य मांस खाना छोड़ देती हैं देखिये कैसी नीरोग, दीर्घायु और सशक्त हुआ करती हैं। खानेके पदार्थोंमें अधिक मिर्चा भोंक देना उचित नहीं है। मिर्चा अत्यन्त उष्ण, गुरु और वीर्यनाशक वस्तु है। मिर्चाकी जगह काली मिरच छोड़ना उपकारी होगा।

इन बातोंके अतिरिक्त हमारे शास्त्रोंमें वार और तिथिभेदके अनुसार भी खाद्याखाद्यका विचार किया गया है। सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि आदिका आकर्षण तारतम्य ही इस विचारके मूलमें है। अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमाको पृथ्वीपर चन्द्रके आकर्षणका प्रभाव बहुत होता है। जल तरल पदार्थ है, इस कारण उक्त तिथियोंमें समुद्रका जल उछलने लगता है, जिससे ज्वार-भाटा होता है। शरीरमें भी कफ, रक्त, मस्तिष्क आदि जो जलयुक्त पदार्थ हैं, उक्त तिथियोंमें उनका उछलना भी स्वाभाविक है। चन्द्रके इस प्रकारके आकर्षणसे ही अमावस्या और पूर्णिमाको वातरोग और कफादिकी वृद्धि होती है, अतः इन तिथियोंमें कम खाना, नीरस शुष्क वस्तु खाना या दिन रात न खाना, कमसे कम रातको न खाना अच्छा है। उपवाससे देहका रस शुष्क होकर उसपर चन्द्रके आकर्षणका परिणाम नहीं होता और उससे रसाधिक्यसे होनेवाले कोई रोग शरीरमें उत्पन्न नहीं होते। चन्द्रमा मनका देवता होनेसे इन तिथियोंमें उसके आकर्षणका प्रभाव मनपर पड़कर वह चञ्चल हो उठता है। उक्त तिथियोंमें उपवास कर अथवा एकभुक्त रहकर भगवान्में ध्यान लगानेका अभ्यास करना चाहिये। ऐसा करनेसे मन शान्त रहेगा और आहार कम करनेसे विषयवासनाएँ कम होंगी।

अतः हिन्दुशास्त्रोक्त तिथियोंमें उपवास और उपासना करनेसे उन तिथियोंमें जो वातादि रोग, चित्तकी चञ्चलता आदि दोषोंके होनेका भय है

वह मिट जायगा । उपर्युक्त ग्रह-विज्ञानके विचारसे ही भिन्न भिन्न तिथियोंमें विभिन्न खाद्याखाद्यका निर्णय ऋषियोंने किया है, यथा—चातुर्मास्यमें श्वेत सेम, परचल, नारीका शाक, बैंगन, माघमें भूली, रविवारको लौकी, मसूर, नीम, आदी, मङ्गलवारको उर्दू तथा एकादशीको भात न खाना चाहिये, इत्यादि । यही संज्ञेपसे शास्त्रसम्मत खाद्याखाद्यका नियम है ।

मध्याह्नकृत्यके बाद अपराह्नकृत्य प्रारम्भ होता है, उसके विषयमें शास्त्रमें लिखा है—

इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ।
वृथा विवादवाक्यानि परीवादञ्च वर्जयेत् ॥

इतिहास पुराण तथा धर्मशास्त्रचर्चा द्वारा मध्याह्नोत्तर कर्म करना चाहिये । वृथा-कलह या परनिन्दादिमें रत नही होना चाहिये । और भी—

इतिहासपुराणाद्यैः षष्ठसप्तमकौ नयेत् ।
अष्टमे लोकयात्रा च बहिः सन्ध्या ततःपरम् ॥

दिनका षष्ठ तथा सप्तम भाग इतिहास पुराणादिको चर्चामें बिता कर अष्टम भागको बाहर भ्रमण लौकिक व्यवहार आदिमें बितावे और तदनन्तर सायं सन्ध्या करें । आर्यशास्त्रमें मध्याह्नभोजनके बाद दिवानिद्राका निवेश किया गया है । यथा—

दिवा स्वप्नं न कुर्वीत स्त्रियञ्चैव परित्यजेत् ।
आयुःक्षीणा दिवा निद्रा दिवा स्त्री पुण्यनाशिनी ।

दिवा निद्रा और दिनमें स्त्रीसस्वन्ध वर्जनीय है । दिवा निद्रासे आयु क्षीण होती है और दिवा रतिसे पुण्यनाश होता है । भोजनोत्तर वामपाश्वर्यमें विश्रामार्थं सोनेके विषयमें लिखा है—

‘निद्रायां ये गुणाः प्रोक्तास्ते गुणा नेत्रमीलने’

भोजनोत्तर निद्रा न लेकर केवल आंखें बन्दकर विश्राम करनेसे परिपाकादिमें सुविधा हो सकती है । इस प्रकारसे मध्याह्नोत्तरकाल बिताकर—

‘अहःशेषं समासीत शिष्टैरिष्टैश्च बन्धुभिः’

सन्ध्यासे कुछ पहिले भ्रमण तथा आत्मीय जनोसे सद्मालाप करके सायं-काल सायंसन्ध्याविकृत्य करना चाहिये। यही सब संक्षेपसे वर्णित मध्याह्नोत्तर कृत्य है। तदनन्तर सायंकृत्यमें सायं संध्या, इष्टोपासनादि विहित है। सन्ध्या समय निषिद्ध चार कर्म हैं, यथा मनुसंहितामें—

चत्वारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् ।

आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायश्च चतुर्थकम् ॥

सन्ध्याकालमें भोजन, रतिक्रिया, निद्रा और स्वाध्याय निषिद्ध है। सायं कृत्यके बाद रात्रि कृत्यमें रात्रिभोजन मुख्य है। गृहस्थको रात्रिभोजन अवश्य करना चाहिये यथा—

‘रात्रावभोजनं यस्य क्षीयन्ते तस्य धातवः’

रात्रिमें भोजन न करनेसे मांसादि सप्त धातु क्षीण होते हैं। रात्रि-भोजनका काल चार दण्ड रात्रिके बाद तथा एक प्रहर रात्रिके भीतर है। तदनन्तर शयनादि कृत्य हैं।

अब शयन तथा निद्रादि कृत्यपर विचार किया जाता है।

शरीरके अङ्ग प्रत्यङ्ग और ज्ञायुओंको विश्रान्ति न देनेसे वह चल नहीं सकता। निद्रावस्थामें उन्हें वैसी विश्रान्ति मिल जाती है, अतः निद्रा प्राणि मात्रके लिये आवश्यक है। पशुपक्षी भी सो जाते हैं। मनुष्योंमें भी परिश्रमके तारतम्यानुसार निद्रामें न्यूनताधिक्य हुआ करता है। चर्चे दिनभर खेला कूदा करते हैं, इस कारण उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग और ज्ञायु बहुत थक जाते हैं। उन्हें अधिक निद्रा लगना स्वाभाविक है। वृद्धावस्थामें दौड़ धूप, परिश्रम और मस्तिष्कके कार्य थोड़े होते हैं, इस कारण वृद्धोंको नींद कम आती है। विद्यार्थी और युवक जैसे परिश्रम करते हैं, वैसी उनको निद्रा भी आती है। साधारणतः छः घण्टा सोनेसे शरीरकी थकावट मिट जाती है। आवश्यकतासे अधिक सोनेसे अधिक निःश्वास व्यर्थ निकल जाते हैं जिससे आयु क्षीण होती है। अतिनिद्रा भी एक रोग है।


किस प्रकार तथा किस समय सोना चाहिये, इसका भी हमारे शास्त्रोंमें विचार किया गया है। हिन्दुशास्त्रकारोंने दिनमें सोनेका बड़ा निषेध किया है। वेदोंमें भी लिखा है—“मा दिवा स्वाप्सीः” अर्थात् दिनमें नींद न लो,

दिनमें सोनेसे कफ, आलस्य और जड़ना बढ़ती है, एवं आयु क्षीण होती है। पहिले कहा गया है कि, समस्त ब्रह्माण्डमें सूर्य ही प्राणस्वरूप और शक्तिका निधान है इसलिये ब्रह्माण्डमें सूर्य ही लेकर सन्ध्या समय पर्यन्त जबतक सूर्यशक्ति पृथ्वीपर फैली हो, तबतक निद्रावस्थामे न रहकर जाग्रतभावसे सूर्यके साथ सम्पर्क रखना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवके लुप्त प्राणमें सूर्यका महाप्राण सञ्चरित होकर जीव पुष्टप्राण और दीर्घायु हो सकेगा। शास्त्रकारोंने दिनमें और सन्ध्या समयमें सोना इसी विचारसे निषिद्ध माना है। ग्रीष्म ऋतुमें उष्णताधिक्यसे रातभर नींद नहीं आती और दिनमें भी बेचैनी बनी रहती है, इस कारण शास्त्रोमे आवश्यकतानुसार कभी दिनमें थोड़ा सो ले, तो उसका निषेध नहीं किया है। अन्य ऋतुओंमें तो दिवानिद्रा सर्वथा त्याज्य है।

किस दिशाकी ओर सिर करके निद्रा करनी चाहिये, इसका विचार करते हुए शास्त्र कहते हैं,—पूर्व अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके सोना प्रशस्त है। इस शास्त्रीय आह्वामें वैज्ञानिक रहस्य है। समस्त ब्रह्माण्डकी गति भ्रुवकी ओर होनेके कारण और भ्रुवकी स्थिति उत्तर दिशामें होनेके कारण ब्रह्माण्डान्तर्गत पृथिवी ग्रहके भीतर जो विद्युत्-धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी भी गति दक्षिण दिशासे उत्तरकी ओर है। इसी कारण जहाजके कम्पासके बीचका सुम्बकका कांटा सदा उत्तरकी ओर ही रहता है। समुद्रमें दिग्गहनका यही कांटा एक मात्र साधन है। यदि हम उत्तरकी ओर सिर करके सो जायं, तो वह पार्थिव विद्युत् हमारे पैरों से होकर सिरकी ओर प्रवाहित होगी, जिससे शिरोव्यथा या ऐसे ही सिरके अन्य रोग उत्पन्न होंगे और स्नायुपुञ्जोंमें अस्वाभाविक उत्तेजना बढ़कर प्रकृति अस्वस्थ हो रहेगी। सब दिन परिश्रम करनेसे स्नायु और मस्तिष्क आप ही दुर्बल हो जाते हैं, तिसपर निद्रावस्थामे विद्युत्तेज यदि उलटा ग्रहण किया जाय तो शरीर अधिक अस्वस्थ होगा इसमें सन्देह ही क्या है ? यदि दक्षिणकी ओर सिर करके सोवे, तो विद्युत् सिरसे पैरोंकी ओर जायगी, जो स्वाभाविक है। इससे किसी प्रकारकी पीड़ा होनेकी सम्भावना नहीं है। पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेसे भी वही हानि है जो उत्तरकी ओर सिर करके सोनेसे, क्योंकि जिस प्रकार पार्थिव विद्युत् दक्षिणसे उत्तरकी ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार

सूर्यदेवकी प्राणमयी विद्युत् शक्ति भी पूर्वसे पश्चिमकी ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त विज्ञानानुसार पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेसे भी मस्तिष्क और स्नायुमण्डलमें पीड़ा उत्पन्न होगी, अतः पूर्व या दक्षिण सिर सोना ही उचित है। आर्यशास्त्रोमे उत्तर अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर पूजा पाठ, ध्यानधारणा आदि दैवकार्य करनेका आदेश है, इसका कारण भी यही है कि, सौर और पार्थिव विद्युत् शक्तिका सम्यन्ध शरीरके साथ बना रहे जिससे शरीर शक्ति-सम्पन्न हो।

शयनके पहिले श्रीभगवान्‌का स्मरणकर उन्हीका गुणानुवाद करते हुए सोना चाहिये। इससे सुनिद्रा होती है और उत्तम स्वप्न होते हैं। यही सब आर्यशास्त्रसम्मत सदाचार और उसके मूलमें वैज्ञानिक चमत्कार है।



नित्यकर्म ।

ग्रीसदेशके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्लेटो (Plato) ने संसारमें परम मङ्गल क्या है इसका लक्षण बतानेके लिये कहा है :—

“The highest good is not pleasure, not knowledge alone, but the greatest possible likeness to God, as the absolutely good.”

(I bid p 128)

केवल सुख या ज्ञान मनुष्योंका परम मङ्गल नहीं है, किन्तु पूर्णमङ्गलमय परमात्माके साथ सबसे अधिक सारूप्यलाभ ही परममङ्गल है। इसीको और भी स्पष्ट रूपसे कहा गया है, यथा—

The supreme end of life or the highest good is virtue i.e. a life conformed to nature, the agreement of human conduct with the all-controlling law of nature, or of the human with the Divine will.

(I bid p 197-198)

जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य या परममङ्गल वही धर्म है, जिसके द्वारा मानवीय सत्ता व्यापक भगवत्सत्ताके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाय। 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' समस्त जीव परमात्माके अंशरूप है ऐसा गीतामें भी उपदेश है। अतः अंश और अंशिका natural affinity अर्थात् प्राकृतिक सम्बन्ध रहनेके कारण, अंशकी गति अंशिकी ओर स्वाभाविकरूपसे होती है। और इस गतिको अंश जितना बनाये रखेगा, उतनी ही उसकी स्थूल, सूक्ष्म सत्ता अलुप्त रहेगी यह भी निश्चित है। जल समुद्रका अंश है, अतः उसकी गति नीचेकी ओर है, प्रकाश सूर्यका अंश है, अतः प्रदीपशिखा ऊपरकी ओर ही चलती है। जिस प्रकार natural affinity या प्राकृतिक मेल होनेके कारण जलके लिये नीचेकी ओर जाना और प्रदीपशिखाके लिये ऊपरकी ओर जाना उन वस्तुओंका नित्यकर्तव्य है, ऐसा ही मनुष्यके लिये भी जिसका वह अंश है उस परमात्माके साथ नित्यसम्बन्ध बनाये रखना और कदापि उस सम्बन्धको टूटने न देना नित्यकर्तव्य या नित्यकर्म है। इसके 'अकरणत् प्रत्यवायः' न करनेसे मनुष्य अपनी स्थितिले अवश्य ही गिर जायगा। यहाँ नित्यकर्मके मूलमें गूढ़ विज्ञान है जिसको इस देशके विद्वानोंकी तरह पश्चिम देशके विद्वानोंने भी अनुभव किया है जैसा कि ऊपर बताया गया।

परमात्मा निराकार है इसलिये उनसे मिलनेका सीधा उपाय उनकी शक्ति तथा उनकी विभूतियोंके साथ मिलना है। इसी कारण नित्यकर्ममें इसीकी विधियाँ बताई गई हैं। सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञको नित्यकर्म कहते हैं। सन्ध्यामें परमात्माकी सृष्टिकारिणी ब्राह्मीशक्ति, स्थितिकारिणी वैष्णवीशक्ति और संहारकारिणी रौद्रीशक्तिके साथ दिवारत्रिकी तीन सन्धियोंमें मिलनेकी विधि है। इसके अतिरिक्त त्रिशक्तिसमन्वयरूपिणी गायत्री, शक्तिके परम आकर सूर्यदेव तथा पृथिवी, जल, अग्नि आदि सभीकी अधिष्ठात्री देवताओंके साथ मिलनेकी और उनकी कृपासे ज्ञान-अज्ञानकृत नित्यपापोंके दूर करनेकी विधि भी सन्ध्योपासनामें दी गई है। इसी प्रकार पञ्चमहायज्ञमें भी पञ्चसनाजन्य पापनिवृत्तिके साथही साथ परमात्माकी पांच विभूतियोंके साथ मिलनेकी विधि है। सो किस प्रकारसे है यह सब सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञके वर्णन प्रसङ्गमें क्रमशः बताया जायगा।

आर्यशास्त्रमें सन्ध्योपासनाकी विशेष महिमा वर्णित की गई है। वेदमें लिखा है—“अहरहः सन्ध्यामुपासीत” प्रतिदिन सन्ध्योपासना करनी चाहिये।

मनुसंहितामें लिखा है—“अप्यो दीर्घसन्ध्यत्त्वाद्दीर्घमायुर-
सन्ध्या ।

वाप्तुवन्” दीर्घकालतक सन्ध्योपासना करके महर्षियोने दीर्घायु लाभ किया था और भी—“सन्ध्या उपासिता येन ब्रह्म तेन उपासितम्” सन्ध्योपासनाके द्वारा ब्रह्मकी उपासना होती है। इसका फल क्या होता है इस विषयमें यमस्मृतिमें कहा है—

सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संयतव्रताः ।

विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥

जो लोग संयमके साथ सन्ध्योपासना करते हैं वे पापरहित होकर अनामय ब्रह्मलोकको प्राप्त होजाते हैं। इन सब शास्त्रप्रमाणोंके द्वारा सन्ध्या-वन्दनको अतीव उपकारिता बताई गई है।

प्रातः सन्ध्यारूपी नित्यकर्मके उद्देश्यके विषयमें पुराणोंमें निम्नलिखित वचन मिलते हैं—

नत्वा तु पुण्डरीकाक्षं उपात्ताद्यप्रशान्तये ।

ब्रह्मवर्चसकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्महे ॥

कमलनयन श्रीभगवान् विष्णुको प्रणाम करके सञ्चित पापकी निवृत्ति तथा ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये हम प्रातः सन्ध्याकी उपासना करते हैं। इस श्लोकके द्वारा नित्यकर्मरूपी सन्ध्योपासनाके दो उद्देश्य वर्णित किये गये, एक नित्यकृत पापनाश और दूसरा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति। अनः त्रैकालिक सन्ध्या तथा त्रिवेदीय सन्ध्या सभीके यथाविधि अनुष्ठान द्वारा सन्ध्याके दो उद्देश्य—पापनिवृत्ति और ब्रह्मतेजलाभ अवश्य ही सिद्ध होंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है। अब नाचे सन्ध्याके अन्तर्गत क्रियाओंका संक्षेप वर्णन किया जाता है।

१—सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत प्रथम क्रियाका नाम मार्जन है। इसमें ‘ॐ शन्न आपो’ इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण करते करते कुशा अथवा इसके अभावमें कनिष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठ द्वारा मस्तक, भूमि और ऊपरकी

और जलसिञ्चनकी विधि है। यह एक प्रकारका मन्त्रस्नान है जिससे बहिः शुद्धि तथा अन्तः शुद्धि दोनों ही होती है। शुद्धिके बिना उपासना नहीं होती है, इसलिये सन्ध्योपासनाका प्रथम अङ्ग यह शुद्धि है। इस मार्जनके मन्त्रमें परमपावन ब्रह्मविभूतिस्वरूप जलके समीप वाह्यमल तथा अन्तर्मल दूर करनेके लिये प्रार्थना की जाती है। सृष्टिकार्यमें जल ही प्रथम वस्तु है, वह परम शिवतम रसका प्रतिरूप है, इसलिये जलमे जिस प्रकार शारीरिक मल दूर करनेकी शक्ति है ऐसी ही स्नेहमयी जननीकी तरह शरीरपोषण करनेकी शक्ति तथा परमकल्याणमय सब रसोंके मूलरूप ब्रह्ममे संयुक्त कर देनेकी शक्ति है। इसी लिये मार्जनमे जलके निकट इस प्रकारसे प्रार्थना है जिससे सन्ध्योपासकको अवश्य ही अन्तर्वहिःशुद्धि तथा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होती है। अर्वाचीन पुरुषोंने जो मार्जनका उद्देश्य आलस्य दूर करना लिखा है यह उनको भूल है क्योंकि प्रातःकाल, सन्ध्याकाल आलस्यका समय नहीं होता है।

२—सन्ध्योपासनाकी द्वितीय प्रक्रियाका नाम प्राणायाम है। इसमें पूरक द्वारा वायु आकर्षण, कुम्भक द्वारा वायुधारण और रेचक द्वारा वायुरेचन किया जाता है। इन प्रक्रियाओके क्रमानुसार नाभिदेशमे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयमे पालनकर्ता विष्णुका ध्यान और ललाटमे संहारकर्ता रुद्रका ध्यान किया जाता है। और साथ ही साथ ऐसी भी धारणा की जाती है कि मैं सूर्यमण्डलान्तर्गत तेजःस्वरूप परब्रह्मका चिन्तन करता हूँ जो ससार-दुःखनाशक तथा हमारी बुद्धिवृत्तिके प्रेरक है। समस्त विश्व उन्हीके तेजसे प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकारसे प्राणायामक्रिया द्वारा व्यापक सत्तासे सम्बन्ध स्थापित होकर ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा पापनाश होता है। इसीलिये मनु-संहितामें लिखा है—

यथा पर्वतधातूनां दोषान् दहति पावकः ।
एवमन्तर्गतं चैनः प्राणायामेन दहते ॥

जिस प्रकार अग्निके द्वारा पार्वत्य धातुओंका मल दूर होता है उसी प्रकार प्राणायामके द्वारा हृदयस्थित पापका नाश होता है।

३—सन्ध्योपासनाकी तीसरी प्रक्रियाका नाम आचमन है। इसमे हाथमें जल लेकर उसके कुछ अंशको कण्ठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको

मस्तकपर छिड़क देना होता है । तदनन्तर पूर्वकृत सन्ध्योपासनाके समयसे लेकर वर्त्तमान सन्ध्योपासनाके समयपर्यन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई पापकार्य हुआ हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्र द्वारा तीव्र इच्छा प्रकट की जाती है । इसमें प्रातःकाल वाह्यजगत्के सूर्यरूपी हृदयस्थित अन्तर्ज्योतिर्मै, मध्याह्नके समय देह तथा देहीके अतिघनिष्ट सम्बन्धकी धारणा करके जलमें और सायंकालके समय परमात्माके सत्त्वज्योतिःस्वरूप अग्निमें पापको आहुति देनी होती है । इस प्रकार आचमन क्रियासे अहोरात्रकृत पापको दग्ध करके सूर्यास्तमें जीवात्माकी शुद्धि सम्पादन द्वारा ज्ञानशक्ति तथा ब्रह्मतेजका लाभ किया जाता है । अर्वाचीन पुरुषोंने जो आचमनमें जल लेनेका उद्देश्य कफ पित्तकी निवृत्ति करना बताया है यह उनका मिथ्या प्रलाप है । क्योंकि जलसे कफ बढ़ता है घटता नहीं और सायं प्रातःकालमें पित्त वृद्धि नहीं होती है । मध्याह्नमें पित्तवृद्धि और सायंकालमें वायुवृद्धि होती है ।

४—सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत चतुर्थ क्रियाका नाम पुनर्माज्जन है । यह क्रिया पूर्वकथित मार्जनक्रियाके अन्तरूप ही है । केवल ऋष्यादि स्मरण पूर्वक देह तथा जीवात्माको और भी विशेषरूपसे पवित्र करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

५—सन्ध्योपासनाकी पञ्चम क्रियाका नाम अघमर्षण है । अघमर्षण शब्दका अर्थ पापनाशन है । इसमें नासिकारन्ध्रके निकट एक गण्डूप जल रखकर मन्त्रोच्चारण करते करते ऐसी चिन्ता करनी होती है कि देहस्थित पापराशि कृष्णवर्ण पापपुरुषके रूपमें इस जलमें मिल गया है और इसीलिये यह जल काला होगया है । इस प्रकार चिन्ता करनेके बाद उस जलको दक्षिण हस्तसे वामपार्श्वमें बलपूर्वक फेंक देना चाहिये और चिन्ता करनी चाहिये कि वह पापपुरुष विनष्ट होगया । यही अघमर्षण क्रिया है ।

६—सन्ध्योपासनाकी षष्ठ क्रियाका नाम सूर्योपस्थान है । इसमें परमात्माके साक्षात् विभूतिरूप सूर्यदेवके उपस्थान द्वारा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति तथा ज्ञानका उन्मेष होता है । सन्ध्यामें सूर्यके उपस्थानकी जो ऋचाएँ हैं उनमेंसे पहला मन्त्र उदय होनेवाले सूर्यके दर्शनसे जीवजगत्में आनन्दोच्छ्वासका अपूर्व प्रकाशक है । यथा—“विश्वप्रकाशके लिये रश्मिगण सूर्यको वहन किये आती है । सूर्यदेव अन्तरिक्ष और पृथिवीके नेत्रस्वरूप तथा अराचर जगत्के आत्मास्वरूप हैं ।”

सूर्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी मुद्राका प्रयोग किया जाता है उससे जान पड़ता है कि उपासक सूर्यके साथ मिलनेके लिये प्रस्तुत है । इससे उपासकको तेजोलाम, ज्ञानलाम तथा पवित्रतालाम होता है । इसके उपरान्त सूर्यमण्डलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, मध्याह्नकाल सावित्री और सायंकाल सरस्वती नामसे एक ही महादेवोके त्रिविध रूपोंका जो ध्यान बताया गया है उससे भी ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा तत्त्वज्ञानका उन्मेष होता है । इस प्रकारसे पूर्व पूर्व क्रियाओंके द्वारा पापनाशके बाद सूर्योपस्थान क्रियाके द्वारा ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा ज्ञानका विकास होता है ।

सूर्यदेवकी इस असीम शक्तिको जानकर कितने ही पश्चिमी विद्वानोंने उन्हे ज्योतिः पिण्ड न कहकर देवता कहा है और उसकी किरणोंको आत्माका प्रकाश करके बताया है, यथा—

Since the sun is the first cause of life on our globe, since he is as we have proved, the origin of life, feeling and thought, since he is the determining cause of the existence of every thing possessing organisation upon the earth, why may we not hold that the rays which the sun pours upon the earth and the other planets are nothing else but the emanations from these souls ? That they are emissions from pure spirit dwelling in the Central Star, directed towards us and the other planets, under the visible form of rays ?

(The day after Death p 105-106)

जब यह बात सिद्ध है कि पृथिवीमें प्राणविकासका प्रथम कारण सूर्य ही है, मनुष्योंमें प्राणशक्ति, चिन्ताशक्ति तथा अनुभवशक्तिका आदिनिदान सूर्य ही है, और जो कुछ व्यवस्थित सत्ता ससारमे है उसकी भी व्यवस्थाके मूलमे सूर्य ही है, तो ऐसा सिद्धान्त करना अनुचित न होगा कि सूर्यकिरण सामान्यकिरण नही है, किन्तु सवितृमण्डलमध्यवर्ती महान् आत्माका स्थूल विकास है, जो रश्मिके रूपमें हमें तथा अन्यान्य ग्रहगणको प्राप्त होते है । इस प्रकारसे सूर्योपस्थानकी महिमाको पश्चिमी विद्वानोंने भी स्वीकार किया है ।

७—सन्ध्याकी सप्तम क्रियामे गायत्रीका आवाहन, ध्यान और जपकी विधि है । त्रिकालके भेदसे गायत्रीके अधिष्ठात्री देवता भी तीन है, यथा—

ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी देवी । इनके पृथक् पृथक् रूप तथा भावके अनुसार ध्यान भी पृथक् पृथक् हैं । उनको अक्षरत्रयमयी, ब्रह्मवादिनी, सनातनी वेदमातृरूपसे आवाहन करके उनकी उपासना तथा उनसे शक्ति मांगी जाती है जिससे सन्ध्योपासकको शक्ति लाभ, ब्रह्मतेजलाभ तथा ज्ञानलाभ होता है । यही सन्ध्यान्तर्गत सप्तम प्रक्रिया है ।

८-सन्ध्याकी अष्टम क्रियामें आत्मरक्षा, नवम क्रियामें रुद्रोपस्थान और दशम क्रियामें सूर्यार्च्यका विधान किया गया है । आत्मरक्षा द्वारा आत्माकी उन्नत स्थितिका लाभ, रुद्रोपस्थान द्वारा तेजोलाभ और सूर्यार्च्य द्वारा सूर्य देवताका अन्तिम अभिनन्दन होता है । इस प्रकारसे सन्ध्योपासनारूपी नित्यकर्मके विकालानुष्ठान द्वारा नित्यकृत पापनाश तथा ब्रह्मतेजका क्रमविकाश होता है ।

सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत अग्रमर्षण, आचमन, उपस्थान आदि अनेक क्रियाओंमें इच्छाशक्तिका प्रयोग (auto-suggestion) करके तदनु रूप फलकी जो आकांक्षा की जाती है, उसके विषयमें वर्तमान वैज्ञानिकजगत्में भी बहुत कुछ चिन्ता की गई है । जार्ज एल. डैमिस (George L. Davis) साहबने इस विषयमें कहा है—

If we are observant and experimental, like a great scientist, we soon learn what thoughts and how we hold them, bring good results and what thoughts or the misapplication of them, produce bad results. And that by always holding certain beautiful, good, true and loving thoughts, positively registered in our sub-consciousness there is always reproduced in our lives and circumstances the exact results of health, happiness and prosperity that we expect. Create your variant thought images or ideal desires in the same serene faith that you have in the multiplication rule and by the inevitable law of life you get the inevitable result. 'Whatsoever a man thinketh in his own heart so is he.'

(The Logic of Right Thought—Kalpaka)

यदि यथार्थ वैज्ञानिककी दृष्टिसे हम देखना आरम्भ करेंगे तो हमें मालूम हो जायगा कि चिन्ताशक्तिके प्रयोगसे किसप्रकारसे अच्छे बुरे फल उत्पन्न होते हैं और अच्छी चिन्नाका संस्कार अन्तरात्मा पर खचित होकर स्वास्थ्य, सुख, सम्पत्तिरूपी फलको किसप्रकारसे उत्पन्न किया करता है । सच्चे विश्वासके साथ चिन्ताकी प्रतिमाको प्रस्तुत करो, जीवनके अवश्यम्भावी नियमांशुसार फल भी अवश्य ही होगा, मनुष्य वैसा ही है जैसा कि उसके हृदयमें मार्मिक चिन्ता है । सन्ध्योपासनमें भी ऐसी ही चिन्ताशक्तिके कितना ही काम लिया जाता है । यही सन्ध्योपासनाका शास्त्रवर्णित वैज्ञानिक रहस्य है ।

नित्यकर्मके लक्षण वर्णन प्रसङ्गमें यह बात पहिले ही कही गई है कि नित्यकर्मके अनुष्ठान द्वारा जीव नित्यरुन पापसे बचकर अपनी प्राक्तनालुक्ल उन्नत स्थितिमें दृढ़ रह सकता है और नित्यकर्मरूपसे अनुष्ठेय उपासनादिके द्वारा व्यापक सत्तासे सम्बन्ध वांछकर स्वतः ही आध्यात्मिक उन्नति तथा पूर्णताके पथपर चल सकता है । इसलिये नित्यकर्मके द्वारा यद्यपि किसी प्रकारके संकल्पित फलकी प्राप्ति नहीं होती है तथापि स्वाभाविक रूपसे आध्यात्मिक उन्नति लाभ अवश्य ही होता है । जीवसत्ता सदा ही परिच्छिन्न तथा अनुदार है इस कारण यदि जीव व्यापक सत्ताके साथ अपना तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन नहीं करेगा तो कदापि अपनी परिच्छिन्नता और अनुदारताको काटकर ब्रह्मभावका लाभ नहीं कर सकेगा । इसलिये पूज्यपाद महर्षियोंने सन्ध्या तथा पञ्च महायज्ञरूपी नित्यकर्मके द्वारा प्रत्येक गृहस्थके लिये व्यापक सत्ताके साथ सम्बन्ध-स्थापन पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति करनेकी विधि बताई है । सन्ध्याविधिके अन्तर्गत जो क्रियाएँ हैं उनपर मनन करनेसे स्पष्ट ही विदित होता है कि उन क्रियाओंके द्वारा द्विजगण प्रकारान्तरसे व्यापक ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं । जलाधिष्ठात्री देवता, सूर्यात्मा, ब्रह्मशक्तिरूपिणी गायत्री आदिकी उपासना ब्रह्मोपासनाका ही रूपान्तरमात्र है । इस प्रकारसे सन्ध्योपासनाके द्वारा कारण ब्रह्मके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन होता है । सन्ध्या तीन ही हैं दो नहीं, जैसा कि अर्वाचीन लोग कहते हैं । बल्कि तन्त्रशास्त्रमें तो महानिशा सन्ध्या नामक चौथी सन्ध्या भी लिखी है । तैत्तिरीयारण्यकमें अणु० २३ में 'ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीम्' इत्यादि मध्याह्न सन्ध्याका आचमन भी लिखा गया है । महाभारत वनपर्व अ० २६३ श्लो० २८ में 'ते चावतीर्णा सलिले कृतवन्तोऽधम-

र्षणम्' ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासाकी मध्याह्न सन्ध्या लिखी है । महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—'सध्यात्रय तु कर्त्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा' इत्यादि तीन सन्ध्याके अनेक प्रमाण मिलते हैं ।

जिस प्रकार सन्ध्योपासनाके द्वारा कारणब्रह्मके साथ तादात्म्य संबन्ध स्थापन होता है उसी प्रकार पञ्चमहायज्ञके द्वारा कार्यब्रह्मके समस्त अङ्गोंके पञ्चमहायज्ञ । साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । कार्यब्रह्मके सकल अङ्गोंके अनुसन्धान करनेसे यही देखा जाता है कि कारणब्रह्मकी आध्यात्मिक विभूतिका विकाश ऋषियोंके द्वारा, आधिदैविक विभूतिका विकाश देवताओंके द्वारा, आधिभौतिक विभूतिका विकाश पितरोंके द्वारा, विशेष कलाका विकाश मनुष्योंके द्वारा और साधारण कलाका विकाश जड़ जीवोंके द्वारा होता है । अतः कार्यब्रह्मके साथ तादात्म्य भाव स्थापनके लिये इन पाँचोंकी नित्यसेवा सर्वथा कर्त्तव्य है । इसी आशयकी चिन्ता ऐनरी डूमण्ड साहवने भी की है, यथा—

Uninterrupted correspondence with a perfect environment is eternal life according to science. Life eternal is to know God. To Know God is to correspond with God. To correspond with God is to correspond with perfect environment. And the organism which attains to this in the nature of things must live for ever. Here is eternal existence and eternal knowledge.

-(Natural Law in the spiritual World p 215)

विज्ञानके अनुसार अनन्त, शाश्वत जीवन वही है जिसमें सर्वतोन्वयापी पूर्ण सत्ताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहे । यही शाश्वत जीवन परमात्माके अनुभवका जीवन है । परमात्माके अनुभवका यही तत्त्व है कि उनके साथ सदैव सम्बन्ध कायम रहे । उनके साथ सम्बन्ध कायम रहनेसे उनकी चारों ओर स्थित विभूतियों तथा शक्तियोंके साथ भी सम्बन्ध कायम रहता है । और जिस सत्ताकी पहुँच यहां तक हो चुकी है वह स्वतः ही चिरस्थायी रहेगी । यही नित्य स्थिति और नित्य ज्ञानका तत्त्व है । अब पञ्चमहायज्ञके रहस्य वर्णन द्वारा नीचे क्रमशः इसका रहस्य बताया जाता है ।

यज्ञ और महायज्ञ दोनोंका एक ही अनुष्ठान होनेपर भी साधारणतः यह भेद बताया जा सकता है कि यज्ञफलरूप आत्मोन्नतिके साथ व्यष्टिका सम्बन्ध प्रधान होनेसे इसमें स्वार्थ सम्बन्ध अधिक रहता है, परन्तु महायज्ञका यह महत्त्व है कि इसमें समष्टि-सम्बन्ध प्रधान रहनेसे इसका फल जगत्-कल्याणके साथ आत्माका कल्याण है । इसलिये महायज्ञमें निःस्वार्थता, निष्कामभाव और हृदयकी उदारताका सम्बन्ध अधिक रहता है ।

अविद्याप्रसित जीवभावको त्याग करके ब्रह्मभावकी उपलब्धि करना जब मनुष्यजन्मका लक्ष्य है तो जिस कार्यके द्वारा यह लक्ष्य सिद्ध होगा उसीकी महिमा सर्वोपरि होगी इसमें सन्देह नहीं है । जीवभावके साथ ईश्वरभावका यही भेद है कि जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव देश, काल और वस्तुसे परिच्छिन्न है और ईश्वर इनसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण विभु नित्य एवं पूर्ण है, जीव अविद्याके अधीन है और ईश्वर मायाके अधीश्वर है, जीवभाव स्वार्थपर एवं साहङ्कार है और ईश्वरभाव परार्थपर एवं निरहङ्कार है, जीवकी सत्सत्ता लुप्त है, चित्सत्ता भ्रमजालयुक्त है एवं आनन्दसत्ता मायाकी छायाके कारण अनित्य सुखरूपमें परिणत है, परन्तु ब्रह्मकी सत्सत्ता अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डमें परिव्याप्त है, उनकी चित्सत्ता अनन्त ज्ञानमय है और उनकी आनन्दसत्ता मायासे परे, सुख दुःखसे बाहर नित्यानन्दमय है । इसलिये जिस अनुष्ठानके द्वारा जीवभावकी ऊपर लिखी हुई समस्त लुप्तता नष्ट होकर विराट्, उदार, पूर्ण, ज्ञानमय, आनन्दमय, निःस्वार्थ, निरहङ्कार, सर्वतोव्याप्त ब्रह्मभावके साथ एकता प्राप्ति हो, वह अनुष्ठान सबसे महान्, महत्तर और महत्तम होगा, इसमें सन्देह ही क्या है, प्रस्तावित विषय महायज्ञ इसी परम महिमासे पूर्ण है, इसलिये ही महायज्ञ महान् है । यज्ञके द्वारा सकाम साधकको बहुधा ऐहिक और पारमार्थिक सुखलाभ होनेपर भी महायज्ञके द्वारा आत्माकी शुद्धि और मुक्ति होती है, एवं सब वर्ण और सब आश्रमके लोग इसका अनुष्ठान करके अपवर्ग लाभ कर सकते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया जाता है ।

श्रीभगवान् मनुने कहा है कि :—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

अध्ययन अध्यापनका नाम ब्रह्मयज्ञ, अन्न अथवा जलके द्वारा नित्य नैमित्तिक पितरोंके तर्पण करनेका नाम पितृयज्ञ, देवताओंको लक्ष्य करके होम करनेका नाम देवयज्ञ, पशु पक्षी आदिको अन्नादि दान करनेका नाम भूतयज्ञ और अतिथिसेवाका नाम नृयज्ञ है । जो गृहस्थ यथाशक्ति इस पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान करते हैं उनको गृहस्थमे रहनेपर भी पञ्चसूना दीप अर्थात् चूल्हा, चक्की, सिल-बट्टा, पानीका घड़ा आदिमें जीवहत्याका दीप स्पर्श नहीं करता ।

अब नीचे इन यज्ञों द्वारा अपना तथा विश्वका कल्याण कैसे होता है सो यथाया जाता है ।

वेद और शास्त्रसम्मत सकल शास्त्रोंका अध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ कहाता है । पञ्चमहायज्ञोंमें यह यज्ञ सर्वप्रथम है । पूज्यपाद महर्षिगण आध्यात्मिक ज्ञान विस्तारके कर्त्ता होनेके कारण सर्व्वदा पूजनीय हैं । ज्ञान ही सब सुखोंका मूल है और ज्ञान ही मुक्ति-पद लाभका कारण है । ऐसे ज्ञानके प्रवर्त्तक पूज्यपाद महर्षिगणसे कौन मनुष्यगण उत्तीर्ण हो सकते हैं ? कोई भी नहीं । केवल उन महर्षियोंके निकट कृतज्ञता दिखानेके लिये, उनके सम्बर्द्धनके लिये और यथा कथञ्चित् ऋषिगणके ऋणसे उन्मूढ होनेके लिये ब्रह्मयज्ञ किया जाता है । वे सम्बर्द्धित और प्रसन्न होकर उस देशकी मनुष्य-जातिमें आध्यात्मिक ज्योतिरूप ज्ञानका विस्तार किया करते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नताका फल यही है । इस प्रकारसे ब्रह्मयज्ञ द्वारा अपना कल्याण, जगत्कल्याण तथा ऋषिशक्तिके साथ तादात्म्य स्थापन होता है ।

इष्ट उपासनाके अर्थ भगवत्पूजारूपसे परमात्मा और उनकी शक्तियोंके लक्ष्यसे अग्निमें आहुति प्रदान करनेपर देवयज्ञका साधन हुआ करता है । पञ्चमहायज्ञोंमें यह यज्ञ द्वितीयस्थानीय है । श्रीभगवान्की अधिदैव शक्तिके सम्बर्द्धनार्थ इस यज्ञका साधन किया जाता है ।

जिस प्रकार श्रीभगवान्की आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता ऋषि हैं, उसी प्रकार उनकी अधिदैव शक्तिके अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री देव देविगण हैं । देवता बहुत है और वे नित्य नैमित्तिक भेदमें विभक्त हैं । रुद्रगण, वसुगण और इन्द्रादिक नित्यदेवता हैं और ग्रामदेवता, गृहदेवता, वनदेवता आदि नैमित्तिक हैं । षष्ठतस्तु अधिदैव शक्तिकी पूजा ही इस यज्ञके द्वारा होती है । देवता प्रसन्न

होने पर यावत् सुख दान करते हैं। जिन देवताओंकी कृपासे जड़भावापन्न कर्मसे फलकी उत्पत्ति होती है, जिन देवताओंकी कृपासे यावत् सुख और शान्ति प्राप्त होती है, जिन देवताओंकी कृपासे मनुष्य अपने भोगोंको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है, और जो देवतागण सदा ब्रह्माण्डकी यावत् क्रियाओंको यथा समय सुसम्पन्न करके उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे देवताओंके ऋणसे कौन उन्मूढ हो सकता है ? कोई नहीं। श्रीभगवान्की आध्यात्मिक शक्तिके परिचालक ऋषिगण और अधिदैव शक्तिके परिचालक देव-देविगणके सृष्टिके रक्षणार्थ अवतार भी होते हैं। भगवदवतारकी नार्ह ऋषि और देवताओंके अवतार भी पूजनीय हैं। देवता और उनके अवतारोंकी पूजा करनेसे वे सन्तुष्ट होकर समष्टि जगत्में शक्ति और सुखका विस्तार करेंगे। देवयज्ञका साधक इस रीति पर देवयज्ञके द्वारा समष्टि जगत्में शक्ति और सुखविस्तारका कारण हो सकता है। यही देवयज्ञ साधनका विश्वजनीन भाव है।

कीट, पक्षी, पशु आदिकी सेवारूप यज्ञका नाम भूतयज्ञ है। भूतयज्ञ पञ्चमहायज्ञमें तृतीय स्थानीय है, अर्थात् देवयज्ञ साधनके अनन्तर भूतयज्ञ साधन करनेकी विधि है। एव ऐसी आह्वा है कि देवयज्ञसे बचे हुए अन्नदिके द्वारा पृथिवीपर भूतयज्ञका अनुष्ठान किया जाय और तदनन्तर वह अन्न पशुपक्षी आदिको अथवा गायको खिला दिया जाय।

उद्भिज्ज जातीय औषधि, लता, गुल्म और वृक्षसे लेकर स्वेदज अण्डज जरायुज जातीय सकल प्रकारके प्राणियोंके साथ जब इस ब्रह्माण्डका समष्टि व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनके सम्बर्द्धनसे ब्रह्माण्डका सम्बर्द्धन होता है। सृष्टिके कोई अन्न भी उपेक्षा करने योग्य नहीं हैं, उसके एक अन्नकी सहायतासे सब अन्नोकी सहायता मानी जा सकती है, इस विचारसे भूतयज्ञ परम धर्म है। दूसरा विचार यह है कि मनुष्य अपने सुखके लिये अनेक जीवोंको कष्ट दिया करता है जैसा कि पञ्चसूनामे वर्णन है। मनुष्योंके प्रत्येक निःश्वासमें कितने लक्ष जीव आत्मबलि देते हैं। मनुष्यकी तृष्णाकी शान्तिके लिये जलान्तर्गत कितने जीव आत्मोत्सर्ग किया करते हैं। यदि मनुष्य निरामिषभोजी भी हो तो भी उसके खाद्य पदार्थके प्रत्येक प्रासमें कितने जीवोंका नाश होता है। अपि च मनुष्योंके सुख-सम्पादनके अर्थ भूतोंको क्लेश दिये बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, अब थोड़े ही विचारसे समझमें

आ सकेगा कि भूतोंके ऋणसे मनुष्य कदापि उच्छ्रम नहीं हो सकता है । अस्तु भूतयज्ञ द्वारा मनुष्य तत्तद्भूतरत्नक देवताओंकी सहायतासे उनके सम्बर्द्धनार्थ जो कुछ पुरुषार्थ करेगा सो अवश्य महायज्ञकहाने योग्य है ।

मनुष्यके नीचे जितने जीव हैं उनमेंसे प्रत्येक श्रेणीके जीवोंपर एक एक अधिष्ठात्री देवता है । जैसा कि समस्त श्वानों पर एक देवता, समस्त अश्वों पर एक देवता, समस्त हाथियों पर एक देवता, इस तरहसे प्रकृतिके भिन्न भिन्न विभागोंमें अलग अलग पशुजाति, पक्षिजाति और कीट पतङ्ग उद्भिज्जादि जातिपर एक एक देवता है । भूतयज्ञमें उन सब देवताओंके नामपर बलि दी जाती है जिससे उन सब देवता या दैवी शक्तियोंके अधीन समस्त पशु पक्षी आदिकी तृप्ति होती है यही भूतयज्ञका गूढ़ रहस्य है ।

पञ्चमहायज्ञोंमें पितृयज्ञ चतुर्थस्थानीय है । अर्घ्यमादि नित्य पितर और परलोकगामी नैमित्तिक पितरोंको तर्पण, पिण्डप्रदानादि द्वारा संवर्द्धित करनेसे पितृयज्ञ होता है ।

पितृयज्ञादिके द्वारा पितृगण सम्बर्द्धित होकर संसारमें स्वास्थ्य और बल आदिका सम्बर्द्धन किया करते हैं ।

तर्पण विधिमें लिखा है—

आब्रह्मभुवनाल्लोका देवर्षिपितृमानवाः ।

तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः ।

तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिलं मया ॥

ब्रह्मलोकसे लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानव, माता और मातामहादि पितर हमारे किये हुए अनुष्ठानके द्वारा तृप्त हों । समस्त नरकमें यातनायुक्त जितने जीव हैं उनके उद्धारके लिये मैं यह जल प्रदान करता हूँ । अतः केवल अपने आत्मीय सम्बन्धयुक्त पितरोंकी ही पूजा करनेकी विधि नहीं है, परन्तु परलोक सम्बन्धसे महर्षिगणसे लेकर सब प्रकारके आत्माकी तृप्तिके अर्थ ही इस यज्ञका विधान किया गया है । ज्ञानराज्यके चालक ऋषि, कर्मराज्यके चालक देवता और आधिभौतिक राज्यके चालक

पितृगण है । अपना शरीर स्वस्थ रहना, आत्मीयोंका शरीर स्वस्थ रहना, देशवासियोंका शरीर स्वस्थ रहना, जगत्के प्राणिमात्रको आधिभौतिक स्वस्थता, ऋतुओंका ठीक समय पर होना इत्यादि सब नित्य पितरोंका कार्य है । अर्घ्य-मादि नित्यपितर कहाते हैं और पितृलोकमें गये हुए हमारे पूर्वज नैमित्तिक पितर कहाते हैं । इस प्रकारके पितृगणकी तृप्तिके अर्थ जगत्कल्याण बुद्धिसे जो क्रिया की जायगी वह क्रिया अवश्य महायज्ञ होगी, इसमें सन्देह ही क्या है ।

विचारशील मनुष्यगण तर्पण और पितृयज्ञके मन्त्रोंपर निरपेक्षरूपसे जितना मनन करेंगे उतना ही जान सकेंगे कि केवल सार्वभौम मतयुक्त परार्थभाव, जगत्की सेवा और तृप्ति एवं उसके साथ ही साथ विश्वजीवनके साथ ऐक्य सम्पादन करनेके अर्थ यह यज्ञ किया जाता है । यही पितृयज्ञकी परम महिमा है ।

मनुष्यजीवनके विचारसे जिस प्रकार एक मनुष्य समस्त मनुष्यसमाजका एक अङ्ग होता है उसी प्रकार यह स्थिर निश्चय है कि मनुष्यजीवन विश्वजीवनका एक अङ्ग है । इसी विश्वजीवनसे मनुष्यजीवनका तादात्म्य सम्बन्ध स्थिर रखनेके अर्थ अतिथिसेवाकूप नृयज्ञका साधन करना प्रथम कर्त्तव्य कर्म है ।

अथर्ववेदके अतिथिसूक्त ६।५।८ में लिखा है—

एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्च स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ।

सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमरन्ति ॥

अतिथि प्रिय हो या अप्रिय भोजन करानेपर वह यजमानको स्वर्ग पहुंचा देता है और पाप नाश करता है ।

यह संसार अधिभूतप्रधान होनेके कारण अपने शास्त्रोंमें इसी यज्ञकी सर्वोपरि आवश्यकता मानी गई है । यदि गृहस्थ दरिद्रसे भी अति दरिद्र होवे तो भी कदापि अतिथिसेवासे उसे विरत होना उचित नहीं है । शास्त्रोंमें कहा है कि :—

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

अतिथि असत्कृत होकर गृहस्थके घरसे लौट जानेपर उसे अपना पाप देकर उसका पुण्य अपने साथ ले जाया करते हैं। अतिथिके प्रसन्न होनेपर गृहस्थको धन, आयु, यश और स्वर्गकी प्राप्ति हुआ करती है। विश्वजीवनके साथ अपने आत्माका एकत्व सम्बन्ध स्थापन करनेसे मनुष्य मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। किन्तु इस भावको कार्यरूपमें परिणत करनेमें कठिनता यह है कि एक मनुष्य कदापि संसारभरके सब मनुष्योंकी सेवा नहीं कर सकता। इसी कठिनताको सुसाध्य करनेके लिये विशेष देश तथा विशेष कालमें मनुष्यकी पूजा करनेको नृयज्ञ कहते हैं; अर्थात् भोजनकाल तक घरपर चाहे किसी जाति वा किसी धर्मका मनुष्य क्यों न आवे, उसे नारायण समझकर उसका सत्कार करना नृयज्ञ है। इस प्रकार नित्यकर्मरूपसे पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान होता है।

अर्वाचीन पुरुषोंने विचित्र युक्तियों द्वारा देवयज्ञमें हवनका उद्देश्य केवल वायुशुद्ध करना बताया है। यह उनकी सम्पूर्ण भूल है। वायुशुद्धि और भी सस्ती चीजोंसे और भी अधिक हो सकती है इसके लिये कीमती घी खर्च करनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वायुशुद्धिमें 'मन्त्र' पढ़नेकी और 'स्वाहा स्वाहा' कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 'मन्त्र पढ़नेसे होमके लाभ विदित होते हैं' यह भी उनका कहना मिथ्या है, क्योंकि 'विश्वानि देव' आदि मन्त्रोंमें कहीं होमका लाभ नहीं बताया गया है। हवनसे दैवजगत्के साथ कैसा सम्बन्ध होता है इस विषयमें यजु० अ० ११ मं० ३५ में वर्णन है—

सीद होतः स्वल लोके चिकित्वान्त्सादया यज्ञं ऽ सुकृतस्य योनौ ।
देवावीर्देवान् हविषा यजास्यग्ने वृहद् यजमाने वयोषाः ॥

हे देवताओंके आह्वान करनेवाले अग्निदेवता, सर्वज्ञ तुम अपने लोकमें ठहरो और श्रेष्ठकर्म यज्ञके स्थान कृष्णाजिनपर ही यज्ञको स्थापन करो। हे अग्ने ! जिस कारण देवताओंकी तृप्ति करनेवाले तुम हव्यसे देवताओंको पूजते हो, इसी कारण यजमानमें बड़ी आयु और अन्नको धारण करो। और भी मनु० अ० ३, श्लोक ७६ में—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

अग्निमें डाली हुई आहुति सूर्यदेवताको प्राप्त होती है । सूर्यसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न और उससे वीर्यादि द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है । 'इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यन्नभाविताः' देवतागण हवनसे तृप्त होकर उत्तम भोग जीवको देते हैं । इत्यादि सहस्र सहस्र प्रमाण केवल वायुशुद्धिके विरुद्ध तथा हवन द्वारा दैवजगत्से सम्यन्धके विषयमें आर्यशास्त्रमें पाये जाते हैं । अतः अर्वाचीन पुरुषोंका यह सब मिथ्या प्रलापमात्र है । इसके सिवाय दैवजगत्का रहस्य न समझकर उन्होंने चार वेदके ज्ञाता मनुष्यको ब्रह्मा, विद्वान्को देवता और जीवित पिता माताओंको जो तर्पण करने योग्य पितर कह दिया है, यह सब उनकी प्रचण्ड भूल है । इन सब भ्रान्तियोंका निराकरण आगेके अध्यायोंमें प्रकरणानुसार किया जायगा । अब नीचे सन्ध्योपासनामें विहित गायत्रीका रहस्य बताया जाता है ।

आर्यशास्त्रमें कहा है कि,—‘या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधाभूता प्रतिष्ठिता’ अर्थात् जिस प्रकार सन्ध्योपासना ब्रह्मोपासना है, उसी प्रकार गायत्री-उपासना भी ब्रह्मोपासना है, क्योंकि दोनों ही उपासनाओंमें गायत्री महिमा ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री—रूपिणी त्रिधाविभक्त ब्रह्मशक्तिकी उपासना होती है । त्रिसन्ध्याओंमें ये तीन शक्तियां पृथक् पृथक् उपस्थित होती हैं और गायत्रीदेवोंमें ये तीन शक्तियां एकाधारमें सन्निविष्ट हैं । प्रलयानन्तर सृष्टिके समय परमात्मामें प्रथमतः इच्छाशक्तिका विकाश होता है और तदनन्तर क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्तिके विकाशके साथ ही साथ उनके देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री नाम्नी तीन शक्तियां, तीनोंकी समन्वयरूपिणी त्रिपदा गायत्री, त्रिदेव समन्वयरूप ओंकार, ज्ञानाधार त्रिवेद तथा कार्यब्रह्मके अन्तर्गत भूर्भुवःस्वरूप व्याहृतित्रयका विकाश हो जाता है । प्रथम तीन शक्तियोंका विकाश होकर पश्चात् वेदोंका आविर्भाव होता है, इस कारण त्रिशक्तिसमन्वयरूपिणी गायत्रीदेवीको वेदजननी कहा गया है ।

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ।

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम् ॥

गायत्री वेदमाता है, गायत्री पापनाशकारिणी है, गायत्री जैसी पवित्र वस्तु, मर्त्यलोक या दुलोकमें कहीं भी नहीं है । अब नीचे नाना शास्त्रोंसे

गायत्रीके भावार्थ, रहस्य तथा महिमाके विषयमें वर्णन किये जाते हैं । गायत्रीका पूरा मन्त्र यह है—

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

इसी मन्त्रका जप या चिन्तन करना चाहिये । यथा कूर्मपुराणमें :—

ओंकारमादितः कृत्वा व्याहृतीस्तदनन्तरम् ।
ततोऽधीयीत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥

एकाग्रचित्तसे श्रद्धायुक्त होकर प्रथम ओंकार तदनन्तर भूर्भुवः स्वः नामक व्याहृतित्रय और तत्पश्चात् गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये । महर्षि व्यासने भी कहा है—

प्रणवव्याहृतियुतां गायत्रींश्च जपेत्ततः ।
समाहितमनास्तूर्ण्णीं मनसा वापि चिन्तयेत् ॥

एकाग्रचित्त तथा मौन होकर प्रणव और व्याहृतिसे युक्त गायत्रीका जप अथवा मनमें चिन्तन करना चाहिये । समग्र मन्त्रका अन्वय तथा अर्थ निम्नलिखित रूपसे है—

ॐ भूःभुवःस्वः तस्य सवितुर्देवस्य (तं) वरेण्यं भर्गः धीमहि, यः (भर्गः) नः धियः प्रचोदयात् ।

सवितृमण्डलमध्यवर्ती दीप्तिमान् परमात्मा निमित्तकारणरूपसे भूः भुवः स्वः नामक महाव्याहृतित्रयको (तथा उपलक्षणरूपसे सप्तलोकरूपी सप्तव्याहृतिर्योको) उत्पन्न तथा प्रकाशित करके उपादान कारणरूपसे तद्रूप बना हुआ है, उसके उस वरणीय तेजका मैं चिन्तन करता हूँ, जो तेज हमारी बुद्धिको धर्मार्थकाममोक्षमें नियोजित करता है । अब नीचे इस अर्थानुकूल प्रत्येक मन्त्र शब्दका पृथक् पृथक् विवेचन किया जाता है ।

‘मन्त्राणां प्रणवः सेतुः’

ओंकार समस्त मन्त्रोंका सेतु अर्थात् यथास्थान पहुँचानेवाला है, इस सिद्धान्तके अनुसार गायत्रीके प्रथम तथा अन्तमें प्रणवोच्चारण करना आवश्यक है । श्रीभगवान् मनुने भी कहा है :—

ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।
क्षरत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते ॥

मन्त्रके आदि तथा अन्तमे प्रणवका उच्चारण करना चाहिये । अन्यथा आदि अन्त दोनों ही ओर प्रत्यवाय होता है । यही कारण है कि गायत्रीके आदिमे 'ॐ' कहा जाता है । तदनन्तर 'भूः भुवः स्वः' रूपी व्याहृतित्रयका उच्चारण किया जाता है । व्याहृति किसको कहते हैं इस विषयमें योगियाह्व-वल्क्यमे कहा है—

भ्राघाश्चैव सत्यान्ताः सप्तव्याहृतयस्तु याः ।
लौकास्त एव सप्तैते उपर्युपरि संस्थिताः ॥
सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयम्भुवा ।
ता एव सप्त ब्रह्मांसि लोकाः सप्त प्रकीर्त्तिताः ॥

भूलोकसे सत्यलोक पर्यन्त ऊपर ऊपर सन्निविष्ट सात लोक सप्त-व्याहृति कहलाते हैं । पूर्वकल्पमें ब्रह्माने इन्हें सप्त व्याहृति कहा है और ये ही सप्त छन्द भी कहलाते हैं । इनमेंसे सत्त्वरजस्तमोमय तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरमय प्रथम तीन महाव्याहृति कहे जाते हैं । यथा कूर्मपुराणमें—

पुराकल्पे समुत्पन्ना भूर्भुवः स्वः सनातनाः ।
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वाश्चरनिर्वहणाः ॥
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
सत्त्वं रजस्तमस्तिस्रः क्रमाद् व्याहृतयः स्मृताः ॥

पूर्वकल्पमें भूः भुवः स्वः ये तीन दिव्यतेजपूर्ण महाव्याहृतियां उत्पन्न हुई थी, जो सत्त्वरजस्तम तथा ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मक हैं । यही कारण है कि ये तीन महाव्याहृति कहलाते हैं और विश्वरूप परमात्मा भी इनके रूप तथा इनके उत्पादक और प्रकाशक हैं । इस प्रकारसे प्रणव और व्याहृतिका उच्चारण करके पश्चात् गायत्रीका उच्चारण किया जाता है । उसमें प्रथम 'तत् सवितुः' यह वाक्य आता है । 'तत्' का 'तस्य' अर्थ है । 'सवितुः' का 'सर्व-भूतानां प्रसवितुः' या 'सर्वभावानां प्रसवितुः' यह तात्पर्य है । योगियाह्ववल्क्यमें लिखा है:—

सविता सर्वभूतानां सर्वभावान् प्रसूयते ।
सवनात् पावनाच्चैव सविता तेन चोच्यते ॥

सकल भूतोंके उत्पादक तथा पावनकर्त्ता होनेसे परमात्मा सविता कहलाते है, 'सविता' शब्दका अर्थ सूर्य भी है और गायत्रीमें तेजकी उपासना होती है, इस कारण 'सविता' शब्दसे सवितृमण्डलमध्यवर्त्ती परमपुरुष परमात्मा जानना चाहिये । अतः 'तत्सवितुः' या 'तस्य सवितुः' का यह तात्पर्य निरूला कि,—जिस परमात्माने तीन महाव्याहृतियोंको उत्पन्न किया है, जो इन्हें प्रकाशित करते है और स्वयं इनके रूप है उनका । वह सविता कैसे है ? इसके उत्तरमें उनको 'देवस्य' कहा गया है । योगियाज्ञवल्क्यमें लिखा है :—

दीव्यते क्रीडते यस्मादुच्यते द्योतते दिवि ।
तस्माद्देव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदैवतैः ॥

परमात्मा मायाके आश्रयसे लीला करते है और दीप्तिमान् हैं, इस कारण 'देव' कहलाते है । ऐसे दीप्तिमान् सविताके तेजका चिन्तन किया जाता है । मन्त्रमें 'तं वरेण्यं भर्गः' कहकर जो 'तं' पदका अध्याहार किया गया है उसके विषयमें योगियाज्ञवल्क्यमें कहा है :—

तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधैः ।
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहृतः ॥

मन्त्रमे 'यः भर्गः' अर्थात् 'जो भर्ग' कहकर जब भर्गका निर्देश किया है, तो उस भर्गका चिन्तन करता हूँ ऐसा वतानेके लिये 'उस' अर्थमें 'तं' पदका अध्याहार करना पड़ा है । वह भर्ग कैसा है ? इसके उत्तरमें 'वरेण्यं' शब्दका प्रयोग हुआ है । योगियाज्ञवल्क्यमें कहा है :—

वरेण्यं वरणीयञ्च जन्मसंसारभीरुभिः ।
आदित्यान्तर्गतं यच्च भर्गारुखं वै मृष्टुभुभिः ॥
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च ।
ध्यानेन पुरुषो यस्तु द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले ॥

जन्म तथा संसारभयसे भीत मुमुक्षुजनोंके लिये सूर्यमण्डलस्थ परमपुरुष परमात्मा वरेण्य अर्थात् वरणीय होते हैं । जनन-मरणनिवारण तथा

त्रिताप निवारणार्थं ध्यानयोगसे ये ही पुरुष द्रष्टव्य हैं । अथ 'भर्ग' शब्दका अर्थ यताया जाता है । सवितृमण्डलमें जो परमात्माका दिव्यतेज है, सूयका प्रकाश जिस दिव्यतेजका आधिभौतिक विकासमात्र है, उसी दिव्यतेजको भर्ग कहते हैं । यथा योगियाज्ञवल्क्यम्—

भृजिः पाके भवेद्भ्रातुर्यस्मात् पाचयते ह्यसौ ।
 भ्राजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि ॥
 कालाग्निरूपमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्मिभिः ।
 भ्राजते तत् स्वरूपेण तस्माद् भर्गः स उच्यते ॥
 भेति भाजयते लोकान् रेति रञ्जयते प्रजाः ।
 गर्हत्यागच्छतेऽजस्रं भरगो भर्ग उच्यते ॥

परमात्माका दिव्यतेज स्वयं प्रकाशमान् होकर समस्त विश्वजीवको प्रकाशित करता है, परिपाक करता है, सप्तरश्मि सूर्यरूप धारण करके श्रान्तमें विश्वको लय भी करता है इसलिये इसका नाम भर्ग है । 'भर्ग' में भ, र और ग ये तीन अक्षर हैं । भ के द्वारा सप्त लोकोंका विभाग करना, र के द्वारा प्रजाओंका रञ्जन करना और ग के द्वारा प्रचुर प्रकाशमान होना, इस तरहसे भी भरग अर्थात् भर्ग कहला सकता है । गायत्री उपासनामें उसी दिव्यतेजका चिन्तन तथा ध्यान होता है, जो तेज जीवोंकी बुद्धिको धर्म अर्थ काम मोक्षके भिन्न भिन्न मार्गमें प्रेरित करता है । यथा योगियाज्ञवल्क्यम्—

चिन्तयामो वयं भर्गं धियो यो नः प्रचोदयात् ।
 धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धितृप्तीः पुनः पुनः ॥

हम उसी भर्गका चिन्तन करते हैं जो धर्मार्थकाममोक्षमें हमारी बुद्धि-वृत्तिको पुनः पुनः प्रेरित करता है । यही आर्यशास्त्रके सिद्धान्तानुसार गायत्रीके प्रत्येक शब्दका तथा समग्र गायत्रीका अर्थ है ।

गायत्रीकी महिमाके विषयमें मनुसंहिताके द्वितीयाध्यायमें लिखा है—

एतदक्षरमेताञ्च जपन् व्याहृतिपूर्विकाम् ।
 सन्ध्ययोर्वेदविद् विमो वेदपुण्येन युज्यते ॥

- सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरैतत्त्रिकं द्विजः ।
 - महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेबाहिर्विमुच्यते ॥
 ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महान्याहुतयोऽन्यथाः ।
 त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥
 योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।
 स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्तिमान् ॥
 एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।
 सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥

जो वेदज्ञ विप्र दोनो सन्ध्याओमें प्रणव तथा व्याहृतिसहित गायत्रीका जप करते है उनको समग्र वेदपुरण लाभ होता है । इस प्रकार सन्ध्यातिरिक्त अन्य समयमें प्रतिदिन गायत्रीका सहस्र जप एक महीने तक करनेपर, कञ्चुकमुक्त सर्पकी तरह द्विज महान् पापसे मुक्त हो सकता है । प्रणवपूर्विका तीन महा-व्याहृति और त्रिपदा गायत्री ब्रह्मप्राप्तिकी द्वारस्वरूपा तथा वेदकी मुखरूपा है । अनलस होकर तीन वर्ष तक प्रतिदिन प्रणवव्याहृति सहित गायत्री जप करनेसे परब्रह्मलाभ, वायुकी तरह यथेच्छ गति तथा आकाशकी तरह निर्लिप्तता प्राप्त हो जाती है । एकाक्षर प्रणव ही परमब्रह्म और प्राणायाम ही परमतप है, गायत्रीसे उत्तम कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य ही विशिष्ट-तर है । यही आर्यशास्त्रमें वर्णित गायत्री की महिमा है ।

अब प्रणव अर्थात् ओंकारकी महिमा बताई जाती है ।

वेदमें संक्षेपसे ब्रह्मपद वर्णन करते समय 'ॐ' रूपसे ही उस ओंकार-महिमा । पदका वर्णन किया गया है, यथा कठोपनिषद्में—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति,
 तपांसि सर्वाणि च यद्ब्रुवन्ति ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
 तच्चे पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

इत्येतत् ।

सकल वेद तथा सकल तपस्यामें लक्ष्यरूपसे जिस पदका वर्णन है और जिस पदकी इच्छा करके मुमुक्षुगण ब्रह्मचर्य अवलम्बन करते हैं उस पदका संक्षिप्त नाम 'ॐ' है। इसी प्रकार गीतामें भी वर्णन है—

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥

एकाक्षर ब्रह्मरूप 'ॐ' का उच्चारण तथा परमात्माका चिन्तन करता हुआ जो शरीरत्याग करता है उसी परमगति प्राप्त होती है।

तन्त्रोंमें वर्णन है कि,—

अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः ।
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ।

अर्थात् अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका वाचक और मकार ब्रह्माका वाचक है। फलतः त्रि अक्षरमय ओंकार साक्षात् परमात्मा ब्रह्मका वाचक है। इसी कारण पूज्यपाद महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें आज्ञा की है कि "तज्जपस्तदर्थभावनम्" अर्थात् श्रीभगवान्में और प्रणवमें तादात्म्य सम्बन्ध रहनेके कारण प्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते करते साधक मुक्तिपदको प्राप्त कर सकता है। महर्षियोंने वेदाङ्गरूपी शिक्षाशास्त्र द्वारा यह भलीभांति सिद्ध कर दिया है कि प्रणवमें तीनो गुणोंकी तीनों शक्तियां भरी हुई हैं, इसी कारण प्रणव ह्रस्व दीर्घ म्रुत तीनों स्वरोकी सहायता बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। पुनः गान्धर्व उपवेदसम्बन्धी शिक्षाओमें भलीभांति वर्णित है कि षड्ज आदि सातौं स्वर एकमात्र ओंकारके ही अन्तर्विभाग है। जिस प्रकार बहिः सृष्टिमें सात दिन, सात रङ्ग, सात धातु आदि सप्त विभाग पाये जाते हैं और जिस प्रकार अन्तर राज्यमें सप्त ज्ञान-भूमिका आदि सप्त विभागोंका प्रमाण मिलता है, उसी शैलीके अनुसार एकमात्र अद्वितीय शब्दब्रह्मरूपी ओंकार षड्ज आदि सप्तस्वर विभागमें विभक्त होकर नाना शब्दराज्यकी सृष्टि किया करते हैं। इसी कारण शब्दब्रह्मरूपी ओंकार सब मन्त्रोंका चालक है। तन्त्रों में लेख है कि "मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" अर्थात् सब मन्त्रोंका एकमात्र प्रणव ही सेतु है, जिस प्रकार बिना सेतु (पुल) के पथ अविरोधी नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना ओंकारकी सहायता लिये न तो मन्त्र-समूह पूर्ण बलको



प्राप्त होते हैं और न वे लक्ष्यके अनुसार यथावत् काम करनेमें उपयोगी हो सकते हैं। फलतः एकमात्र प्रणव ही शब्दमय साक्षात् शब्दब्रह्म है, इसमें सन्देह नहीं। मुखसे उच्चारण होने योग्य प्रणव यदि च अलौकिक प्रणवनादका प्रतिशब्द है तथापि वह केवल लौकिकसम्बन्धसे आविष्कृत नहीं हुआ है। तन्त्रोंमें यह निश्चय कर दिया गया है कि मुखसे उच्चारण होने योग्य ओंकारध्वनि भी अपूर्व रीतिसे आधार पद्मसे उठकर सहस्रदलस्थित पुरुषमें लय हुआ करती है।

प्रणवकी महिमाके विषयमें पश्चिमी वैज्ञानिकोंने भी थोड़ा बहुत अनुमान किया है, यथा—

The pronunciation of sacred word ॐ is one which has engaged the attention of all Europeans devoted to Eastern studies. The vibrations set up by the same word are so powerful that if persisted in, they would bring the largest building to the ground. This seems difficult to believe until one has tried the practice; but once having tried it one can easily understand how the above statement may be true and correct perfectly. I have tested the power of the vibrations and can quite believe that the effect would be as stated. Pronounced as spelt, it will have a certain effect upon the student, but pronounced in its correct method, it arouses and transforms every atom in his physical body, setting up new vibrations and conditions and awakening the sleeping power of the body.

(The Practical Yoga L. N. Fowler & Co. London)

आजकल आर्यशास्त्रकी चर्चा करनेवाले पश्चिमी विद्वानोंकी दृष्टि प्रणव उच्चारणकी ओर विशेषरूपसे पड़ी है। इस शब्दके उच्चारणसे जो स्पन्दन उत्पन्न होता है वह इतना तीव्र तथा बलवान है कि लगातार ऐसा स्पन्दन होते रहने पर बड़े बड़े मकान तक गिरा दिये जा सकते हैं। यद्यपि बिना परीक्षा किये इस बात पर विश्वास करना कठिन है, तथापि एकवार परीक्षा करनेसे

ही इसकी सत्यताके विषयमें निश्चय हो जाता है । मैंने इसे स्पन्दन शक्तिकी परीक्षा की है और मुझे इस विषयमें स्थिर विश्वास है । सामान्यरूपसे उच्चारण करने पर भी छात्र पर इसका कुछ प्रभाव होता है, किन्तु यथार्थ रीतिसे यदि प्रणवका उच्चारण किया जाय तो शरीरके प्रत्येक परमाणुमें परिवर्तन हो जाता है । उसमें नवीन स्पन्दनसे नवीन दशा हो जाती है और देहस्थित अनेक मिश्रित शक्तियां जाग उठती हैं ।

योगशास्त्रमें लेख है कि,—

कार्यं यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन सव्यापकम्,
स्पन्दश्चापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सर्व्वदा ।
सृष्टिश्चैव तथादिमाकृतिविशेषत्वादभूत् स्पन्दिनी,
शब्दश्चोद्भवत्तदा प्रणव इत्योङ्काररूपः शिवः ॥

अर्थात् जहां कुछ कार्य है वहां अवश्य कम्पन होना सम्भव है, जहां कम्पन है वहां अवश्य शब्द होना भी सम्भव है, फलतः सृष्टिरूपी कार्यमें साम्यावस्था प्रकृतिके सबसे प्रथम हिजोलकी ध्वनिका नाम शिवरूपी ओंकार है । अर्थात् प्रलयके बाद जब ईश्वरमें 'एकोऽहं बहुस्याम् प्रजायेय' मैं एकसे बहुत होजाऊं, सृष्टि करूं यह संकल्प होता है तभी ब्रह्माण्डप्रकृतिमें कम्पन होता है और समस्त ब्रह्माण्डप्रकृतिको कंपाकर जो प्रथम शब्द निकलता है वही प्रणव नाद है । यह ध्वनि कैसी है इस विषयमें योगशास्त्रमें लिखा है—

“तैलधाराभिवाच्छिन्नं दीर्घघटादिनादवत् ॥”

अर्थात् यह प्रणव तैलधाराके समान अविच्छिन्न और दीर्घघटाके शब्दकी नाई श्रुतिमधुर है एवं उसका कोई भी अङ्ग मुखसे उच्चारण नहीं किया जाता । वास्तवमें ईश्वरवाचक आदि-शब्द ओंकार योगिगणको तभी सुनाई दे सकता है कि जब वे योगयुक्त होकर साम्यावस्था प्रकृतिमें मन-स्थिर कर सकें । वह ओंकारध्वनि वाच्यवाचक सम्बन्धसे अनादि और अनन्त है एवं प्रणव जो अक्षरोंसे लिखनेमें अथवा मुख द्वारा उच्चारण करनेमें आता है वह उसका प्रतिशब्द है, जिसको पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षिगणने अपनी योगयुक्त समाधिबुद्धि द्वारा वेदके आविर्भाव करनेके आदिमें ससारमें प्रकट किया है । यही ओंकारके विज्ञानका रहस्य है ।

श्रीमद्भवद्गीतोपनिषद्में आज्ञा है कि,—

“ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा” ॥

अर्थात् ॐ तत्सत् ये तीन शब्द परमात्मा ब्रह्मके निर्देशक हैं । इन तीनोंके द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञ पुराकालमें विहित हुए हैं । यहाँ यह वैज्ञानिक रहस्य है कि ॐ, तत् और सत् ये तीनों मन्त्र ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावयुक्त होकर एकमात्र परमात्मा ब्रह्मके वाचक रूपसे नियत हुए हैं । पुनः वर्यून है कि—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥

अर्थात् ओंकाररूपी मंत्रके द्वारा ब्रह्मवादिगणका यज्ञ, दान और तप क्रिया सर्वदा प्रवर्तित हुआ करती है ।

इत्यादिरूपसे गीताशास्त्रमें प्रणवकी महिमा बताई गई है ।

वेदमें प्रणवको ‘उद्गीथ’ कहा गया है, यथा छान्दोग्यमें—“इत्येतद-
क्षरमुद्गीथमुपासीत, ओमिति ह्युद्गीथयति तस्योपव्याख्यानम् ।” इसके भाष्यमें श्रीभगवान् शंकराचार्यने कहा है—

‘ॐ इत्यारभ्य हि यस्माद् उद्गीथयति अतः उद्गीथ ओंकार इत्यर्थः,’
प्रणवमन्त्रसे आरम्भ करके उद्गीथ गान होता है, इसलिये प्रणवको उद्गीथ कहा गया है । प्रणवगान ही भगवान्का गान है, प्रणव नाम ही भगवान्का नाम है । इसी कारण योगदर्शनमें ‘तस्य वाचकः प्रणवः’ इस सूत्रके द्वारा ओंकारको श्रीभगवान्का वाचक अर्थात् नाम कहा गया है । श्रीभगवान् भाष्यकारने लिखा है—‘तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति, प्रियनामग्रहण इव लोकः’ जिस प्रकार प्रियनाम धरकर पुकारनेसे मनुष्य प्रसन्न होकर उत्तर देता है, उसी प्रकार ‘ॐ’ नाम धरकर पुकारनेसे श्रीभगवान् प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं । जहाँ प्रकृतिकी लयावस्था है वहाँ ओंकार ब्रह्ममें विलीन है, जहाँ निर्गुण सत्तामें सङ्कल्पाद्वारा सगुण ईश्वरभावकी सूचना है वहीं प्रकृतिके प्रथम स्पन्दन रूपसे ओंकारका आविर्भाव है, अतः ईश्वरभाव, ईश्वरका सङ्कल्प, प्रकृतिकी प्रवृत्ति और प्रणव विकास ये सब समसामयिक है । इसी कारण वाच्य वाचक या

अभिधान अभिधेय रूपसे ओंकारके साथ ईश्वरभावका विशेष सम्बन्ध है। यही कारण है कि, आर्यशास्त्रमें ओंकारको ईश्वरका वाचक तथा वाच्य वाचककी एकताके विचारसे दोनोंमें एकता बताई गई है।

ओंकारमें इतनी शक्ति निहित रहनेसे ही वेदादि समस्त शास्त्रोंमें ओंकारकी इतनी महिमा गाई गई है, यथा—

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः अपामोषधयो रस ओष-
धीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रसः ऋचः साम रसः साम्न
उद्गीथो रसः । स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्यः आत्मा यदुद्गीथः ।

तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणान्येवमोंकारेण सर्वा वाक्
सन्तृणा ओंकार एवेदं सर्वम् । (ब्रान्दोग्योपनिषत्)

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् ।

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ (कठोपनिषत्)

ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ (स्मृति)

ओंकारं पितृरूपेण गायत्रीं मातरं तथा ।

पितरौ यो न जानाति स विप्रस्त्वन्यरेतजः ॥ (देवी भागवत)

आत्मानमरणं कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढवत् ॥

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्देव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (श्रुति)

सकल भूतोंका सार पृथिवी है, पृथिवीका सार जल है, जलका सार ओषधि है, ओषधिका सार पुरुष है, पुरुषका सार वाक् है, वाक्का सार ऋक् है, ऋक्का सार साम है, सामका सार ॐ है। वह सारोंका सार, परम वस्तु तथा परम मूल्यवान् है।

जिस प्रकार डायट्रीमें सब पत्र, लगे रहते हैं, ऐसे ही प्रणवमें समस्त वाक् सम्बद्ध हैं, प्रणव ही सब कुछ है ।

प्रणव ही अक्षर ब्रह्म है, प्रणव ही अक्षर परमात्मा है, इसी अक्षरके ज्ञानसे सकल अभिलाषा पूर्ण हो सकती है । यही श्रेष्ठ अवलम्बन है, यही परम अवलम्बन है, इसी अवलम्बनको जानकर साधक ब्रह्मलोकमें पूजित हो सकता है ।

पुराकालमें ओंकार और अथ ये दो शब्द ब्रह्माका कण्ठ भेद करके निकले थे, इस कारण वे मङ्गलार्थक हैं ।

जो ब्राह्मण ओंकारको, प्रितरूपसे, और गायत्रीको, मातरूपसे नहीं जानता है-उसका हीनजन्म समझना चाहिये ।

देही आत्माको पूर्वार्णि और प्रणवको, उत्तरार्णि-करके ध्यानरूप मथनी-के अभ्याससे, गूढ़, पुरुष परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । प्रणव धनु है, जीवात्मा शर है, परमात्मा लक्ष्य है, शरकी-तरह, तन्मथ होकर अप्रमत्तचित्तसे लक्ष्यभेद करना चाहिये ।

इस प्रकारसे ओंकारकी अलौकिक महिमा होनेके कारण प्रणव, अनन्त, तार आदि विशेष संज्ञा ओंकारको दी जाती है यथा शिवाथर्वशीर्षोपनिषद्में—

अथ कस्मादुच्यते ओंकारः यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानूर्ध्वं शुक्राभयति तस्मादुच्यते ओंकारः ।

अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुःसामाथर्वाङ्गिरसं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणमयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः ।

अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्चार्यमाण एव यथा स्नेहेन पल्ल-पिण्डमिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिषक्तश्च तस्मादुच्यते सर्वव्यापी ।

अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चार्यमाण एव तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः ।

अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव गर्भजन्मव्याधिज्रामरण-संसारमहाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारम् ।

अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चार्यमाण एव क्रन्दते क्रामयति च तस्मादुच्यते शुक्लम् ।

अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चार्यमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीरा-
प्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभिमृश्यति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम् ।

अथ कस्मादुच्यते वैद्यतं यस्मादुच्चार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि
द्योतयति तस्मादुच्यते वैद्युतम् ।

अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात् परमपरं परायणं च बृहद् बृहत्या
बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म ।

ओंकार क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही प्राणोंको ऊपरकी ओर आक-
र्षण करता है इसलिये ओंकार कहते हैं ।

प्रणव क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही ऋग्यजुरादि वेद ब्राह्मणोंसे
प्रणाम तथा स्वीकारको प्राप्त होता है इसलिये प्रणव कहते हैं ।

सर्वव्यापी क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही तिलचर्चामें तेलकी तरह
शान्तरूप होकर जगत्में ओतप्रोत तथा परिव्याप्त हो जाता है इसलिये सर्व-
व्यापी कहते हैं ।

अनन्त क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही उद्दुर्ध्व अध आस पास कही
अन्त नहीं मिलता है इसलिये अनन्त कहते हैं ।

तार क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा, मृत्यु
आदि संसारसागरके महाभयसे तारता है इसलिये तार कहते हैं ।

शुक्ल क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही हृदयको श्राद्ध करके संसारके
प्रति ग्लानि उत्पन्न करता है और शुद्ध पवित्र निर्विकार स्वरूप बना देता है
इसलिये शुक्ल कहते हैं ।

सूक्ष्म क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही सूक्ष्मरूप होकर शरीरमें स्थित
हो जाता है और सकल अङ्गोंका स्पर्श करता है इसलिये सूक्ष्म कहते हैं ।

वैद्युत क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही व्यक्त महान् अन्धकारमें विजली-
के समान प्रकाश करता है इसलिये वैद्युत कहते हैं ।

परब्रह्म क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे अपनी महत्ताके द्वारा पर अपर ब्रह्मभावको परिपुष्ट कर देता है इसलिये परब्रह्म कहते हैं ।

इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें महान् ओंकारके विविध नामोंकी अति गूढ़ रहस्यमय अलौकिक सार्थकता बताई गई है, जिसपर विचार तथा मनन करनेसे और उपासना द्वारा जिसका अनुभव करनेसे साधक निःसन्देह संसारसिन्धु सन्तरण कर सकता है ।

श्राद्धतर्पण ।



नित्यकर्मके अङ्गरूपसे श्राद्धतर्पण भी किया जाता है, इसलिये नित्यकर्मका वर्णन करके अब श्राद्धतर्पणका रहस्य बताया जायगा । श्राद्ध किसको कहते हैं इस विषयमें महर्षि पराशरने कहा है—

देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् ।

तिलैर्दूर्भैश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं स्याच्छ्रद्धया युतम् ॥

देश काल पात्र विचारसे हविष्यादि विधिके साथ श्रद्धायुक्त होकर तिल, दूर्भ, मन्त्रोंकी सहायतासे जो कृत्य किया जाता है, उसका नाम श्राद्ध है । मरीचि ऋषिने भी कहा है—

प्रेतान् पितृंश्च निर्दिश्य भोज्यं यत् प्रियमात्मनः ।

श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम् ॥

प्रेत तथा पितरोंके निमित्त अपना प्रिय भोजन श्रद्धाके साथ जिस कर्ममें दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं । इस प्रकार कृत्यका फल क्या होता है इस विषयमें मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है—

यद् यद् ददाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्तत् पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥

विशेष श्रद्धासे युक्त होकर विधिके साथ नित्यनैमित्तिक पितरोंको जो कुछ दिया जाता है उससे परलोकमें उनकी अन्नय तृप्ति होती है। श्राद्ध कृत्यके मूलमें श्रद्धा और कृतज्ञताका ही मधुर भाव है। जिन पितरोंकी कृपासे दुर्लभ मुक्तिप्रद मनुष्य देह मिला, जिनके हृदयके अमृतसे हमारा पालन-पोषण हुआ, संसारका सुन्दर मुख देखनेको मिला, जिनने स्वयं कितना ही कष्ट सहकर हमें नरलोकमें उन्नत किया, उनके प्रति कृतज्ञ न होना, परलोकमें उनकी प्रसन्नता, तृप्ति, शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नतिके लिये यथाशक्ति अनुष्ठान न करना, कमसे कम उनके आत्माको स्मरण करके एक विन्दु अश्रुपात भी न करना केवल मनुष्यभावसे अधम नहीं, बल्कि पशुभावसे भी अधमाधम महापराध है, इसमें अणुमात्र सशय नहीं है। इसीलिये आर्यशास्त्रमें सकल पापोंसे कृतघ्नताको अति अधम पाप कहा गया है। यथा—

नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मोपेक्षारतस्य च ।

विश्वासघातकस्यापि निष्कृतिर्नैव सुव्रते ॥

नास्तिक, कृतघ्न, धर्मके प्रति सदा उपेक्षापरायण और विश्वासघातक— इनके पापकी निष्कृति नहीं है। यही कारण है कि, अपनी अपनी धार्मिक स्थिति तथा अधिकार तारतम्यानुसार अन्य धर्मावलम्बियोंके भीतर भी किसी न किसी प्रकारसे श्राद्धकृत्यकी तरह अनेक कृत्य किये जाते हैं। खीष्ट धर्मावलम्बी,—विशेष कर कैथलिक सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता, पत्नी, पति और पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमें जाते हैं और कब्र या समाधिके ऊपर फूल बरसाते हैं, शोक करते हैं तथा ईश्वरके निकट मृत-व्यक्तियोंके लिये अन्नय स्वर्गकी प्रार्थना करते हैं। मुसलमानोंमें भी मृत-व्यक्तिकी समाधिके समीप ईश्वरसे प्रार्थना करना तथा कुरान पढ़ना विशेष सत्कार्य कहकर प्रशंसित है और पैसे करना मृत-व्यक्तिकी भी सद्गतिके लिये सहायक समझा जाता है, इसी भावके आधार पर ही मुसलमान लोग कब्रपर बड़े बड़े मकान बनाते हैं। बौद्धलोगोंमें चीन, जापान, ब्रह्मादि देशोंमें अत्यन्त अधिकताके साथ श्राद्धकृत्य किया जाता है। उनमें आद्यश्राद्ध, नव-मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध आदि अनेक प्रकारके श्राद्ध प्रचलित हैं और उनमें भूरिदान, गाना-बजाना-नाचना, बिलाप कीर्त्तन आदि यथेष्टरूपसे किया जाना है।

बौद्ध देशमें पितृपुरुषोंके नामपर स्थापित भवनोंकी कीर्तिका अभाव नहीं है । किन्तु बौद्धजातीय लोगोंमें कोई भी अन्य किसीको मृत-व्यक्तिका प्रतिनिधि नहीं कल्पित करता । वे जो कुछ भोजन वस्त्र आदि देते हैं, सो साक्षात् पितृपुरुषके जीवात्माको ही देते हैं । ऐसा समझकर देते हैं, जैसे वही मृत व्यक्ति साक्षात् प्रत्यक्ष हुआ है और वह जैसे कोई आज्ञा या उपदेश देगा—श्राद्धकर्त्ताको अपने मुख और नेत्रोंकी ऐसी ही भावभंगी कर अत्यन्त नम्र तथा संयत रहना होता है ।

इस प्रकार अन्यान्य धर्मोंके माननेवालोंके भीतर भी अपने अपने अधिकारके अनुसार कृतज्ञतासूचक श्राद्धकृत्य जैसे कृत्योंके द्वारा पितृगणके प्रसन्नता विधानकी विधियाँ देखी जाती है । आर्य्यजाति तथा आर्य्यशास्त्रमें अन्तर्दृष्टि और दैवदृष्टिकी अधिकताके कारण श्राद्धविधिमें भी व्यापकताका विशेष अवकाश रक्खा गया है । तदनुसार आर्य्यशास्त्रसम्मत श्राद्धतर्पणकृत्यमें पितरोंके तृप्तिसाधनके अतिरिक्त व्यष्टिसत्ताके साथ समष्टि सत्ताके एकीकरण विषयक अनेक विधान देखनेमें आते हैं—जब मृत्युलोक ऊपर नीचेके समस्त लोकोंके बीचमें है और कर्मकेन्द्रस्वरूप होनेसे इसीमें अनुष्ठित उत्तमाधम कर्मोंके फलसे स्थूल सूक्ष्म समस्त लोकोंमें जीवोंका आवागमन बना रहता है, तो स्वभावतः समस्त लोकवासी जीवोंके साथ तथा ऋषिदेवपितरोंके साथ प्रत्येक मनुष्यका आदानप्रदान सम्बन्ध है । इसी आदानप्रदान सम्बन्धको

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ'

इस गीतोक्त सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य जितना बनाये रखेगा, उतना ही वह इहपरलौकिक कल्याणका अधिकारी, निरामय, स्वास्थ्यवीर्यवान्, दीर्घायु, सुखी, देवकृपासम्पन्न तथा आध्यात्मिक उन्नतिपथमें अग्रसर होता रहेगा, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । इसी कारण ज्ञानदृष्टिसम्पन्न पूर्णप्रज्ञ महर्षियोंने श्राद्ध, तर्पण तथा पञ्चमहायज्ञादि नित्यकृत्योंमें व्यष्टि समष्टिकी एकताविधायिनी विविध विधियोंका अवश्य कर्त्तव्यरूपसे निर्देश किया है । यही कारण है कि, श्राद्ध तथा तर्पणमें नित्य नैमित्तिक पितरोंके तृप्तिसाधनके अतिरिक्त अनेक देवता, यज्ञेश्वर विष्णु, ऋषिगण, वास्तु देवता गंगा तथा अन्यान्य भूतोंकी तृप्तिके अर्थ भी अन्नजलादि प्रदानकी विधि है । सो कैसे है, यह क्रमशः आगे बताया जाता है ।

वेदमें परलोकगत नैमित्तिक पितरु तथा नित्य पितरोंका आवाहन, श्राद्धादि द्वारा उनकी सम्बर्द्धना आदिके विषयमें अनेक प्रमाण मिलते हैं । कठोपनिषद्में नाचिकेत उपाख्यान वर्णनके अनन्तर कहा गया है:—

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि ।

प्र्यतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥

अति गूढ़ नाचिकेत उपाख्यानको ब्रह्मनिरत पुरुषोंकी सभामें तथा श्राद्ध समयमें संयत होकर सुनानेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । पिरडोपनिषद्में लिखा है:—

देवता ऋषयः सर्वे ब्रह्माणमिदमब्रुवन् ।

मृतस्य दीयते पिण्डः कथं गृह्णन्त्यचेतसः ॥

भिन्ने पश्चात्पके देहे गते पञ्चसु पञ्चधा ।

हंसस्त्यक्त्वा गतो देहं कस्मिन् स्थाने व्यवस्थितः ॥

देवता तथा ऋषियोंने भगवान् ब्रह्मासे पूछा कि, मृतपितरोंको जो श्राद्धमें पिण्ड दिया जाता है, वे कैसे उसको ले सकते हैं और पञ्चभूतात्मक देह जब भूतपञ्चकर्म मिल जाता है, तो जीवात्मा और सूक्ष्मशरीरका निवास कहां होता है । इन सब प्रमाणोंके द्वारा सिद्ध होता है कि श्राद्धकृत्य वेदाद्युत्प्रेक्षित वैदिक कृत्य है और मृत पितरोंके ही श्राद्ध होते हैं, जीवित पितरोंके नहीं, जैसा कि, कही कही भ्रान्तिसे कल्पना की जाती है । श्राद्धके लक्षणके विषयमें महर्षि पराशर तथा मरीचिके जो वचन उद्धृत किये गये हैं, उनसे भी श्राद्धकृत्यके साथ मृत पितरोंका ही स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित होता है । अथर्ववेदमें लिखा है:—

ये निखाता ये परोम्ना ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वास्तानग्नं आवह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ (१-३४)

हे अग्ने ! जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रह गये, जो अग्नि में जला दिये गये और जो फेंके गये, उन सबको हविर्भक्षणके लिये बुला लाओ । यजुर्वेदके १६-६७ में लिखा है:—

ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विज्ञयां २ ।

उ च न प्रविद्य त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः

स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥

जो पितर इस लोकमें हैं, जो इस लोक में नहीं हैं, जिनको हम जानते हैं और जिनको नहीं जानते, हे सर्वज्ञ अग्ने ! उनको तुम जानते हो, सो आप पितरोंके अन्नसे शुभ यज्ञको सेवन करो । उसी वेदके १६-५८ में लिखा है :—

आयन्तु नः पितरस्सोभ्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः ।

अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥

हमारे पितर देवताओंके गमनयोग्य मार्गसे आवें, इस यज्ञमें अन्नसे प्रसन्न होकर बोलें और हमारी रक्षा करें । अथर्ववेदके १८ । ४ । ८० । ७६ में लिखा है :—

स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यः स्वधा पितृभ्यः ।

अन्तरिक्षषद्भ्यः स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥

जो पितर पृथिवीमें हैं उनके लिये, जो अन्तरिक्ष में हैं उनके लिये और जो स्वर्गमें हैं उनके लिये स्वधा कव्य देता हूँ । और भी अथर्ववेदमें :—

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।

त्वं तान् वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम् ॥

जो अग्निमें दग्ध हुए और अग्निमें दग्ध नहीं हुए दुलोकके मध्यमें अमृतरूप अन्नसे प्रसन्न हैं, हे अग्ने ! तुम उनको जानते हो, वे तुम्हारे द्वारा अन्न सेवन करें । इस प्रकारसे वेदमें पितरोंके बुलानेके प्रमाण मिलते हैं ।

परलोकगत आत्माको बुलाकर उनके साथ बातचीत, उन्हें भोजनादिसे प्रसन्न करना, उनसे परलोकके विषयमें अनेक प्रश्न करना, इत्यादि विषयोंमें आजकल पश्चिम देशमें भी बहुत कुछ अन्वेषण तथा उपाय उद्भावन हो चुके हैं । मिक्टर ई. क्रोमर (Victor E. Cromer) साहबने म्रिल (vril) नामक एक ओजः शक्तिका आविष्कार किया है जिसके अनेक गुणोंमेंसे यह भी एक गुण है कि—'We could get in touch with the

disembodied spirits. It is possible to direct a ray of vrillic power in a concentrated form. A little time spent in concentration on the name of a deceased individual would bring him or her, into touch with us. (Kalpaka) अर्थात् आजः शक्तिके द्वारा परलोकगत आत्माओंके साथ सम्बन्ध स्थापन किया जा सकता है। इसमें केवल एकाग्र होनेकी आवश्यकता होती है। एकाग्रताके साथ किसी मृत आत्माके ऊपर इस शक्तिका प्रयोग करते ही उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है। इसी प्रकार Flammation, the eminent scientist, is quoted as saying, Each of us possesses a fluid force, which I call 'psychic' and adds; 'this force survives us and when we are dead, we are able through its agency to communicate with the living' (Kalpaka) फ्लेमोरियन नामक प्रसिद्ध सायन्सवेत्ताका कहना है कि हम सबके भीतर एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्ति है, जो मृत्युके बाद भी हमारे साथ रहती है और इसी शक्तिकी सहायतासे मृत आत्माएँ इस लोकके जीवोंके साथ बातचीत कर सकती हैं। प्रसिद्ध परलोकवादी कौनन डायल (Sir Arthur Conan Doyle) साहबने एक स्थान पर कहा है—“As for myself I have not a doubt I have talked with several of my friends and relatives who have passed from this earthly world and I have seen, as clearly as in the life, the materialisation of my mother and my nephew. For me it is no question of opinion that we live after death. I know it and I know also that in making this discovery we have made the greatest step forward in the history of the human race” मेरा तो इस विषयमें कोई सन्देह ही नहीं है। मैंने इहलोक छोड़ कर परलोकवासी अपने कितने ही मित्र तथा आदमियोंके साथ बातचीत की है और अपनी मृत माता तथा भतीजेको स्थूल शरीर धारण कर आते हुए देखा है। मृत्युके बाद आत्मा परलोकमें रहता है इसको मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ और इस अपूर्व आविष्कारके द्वारा मानवजगतके इतिहासमें हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ गये हैं यह भी मेरा निश्चय है।

श्राद्धप्रकरणमें मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है :—

भ्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् ।
 विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥
 पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेद्वापि पितामहः ।
 पितुः स नाम सङ्कीर्त्यं कीर्त्तयेत् प्रपितामहम् ॥
 पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः ।
 कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥
 तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।
 तत् पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्वधैषामस्त्विति ब्रुवन् ॥
 पाणिभ्यान्तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वद्धितम् ।
 विप्रान्तिके पितृन् ध्यायञ्छन्नकैरुपनिक्षिपेत् ॥
 अक्रोधनान् सप्रसादान् वदन्त्येतान् पुरातनान् ।
 लोकास्याप्यायने युक्तान् श्राद्धदेवान् द्विजोत्तमान् ॥
 यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदशनन्ति वाग्यताः ।
 पितरस्तावदशनन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥

पिताके जीवित रहनेपर पितामहादि तीन पुरुषोंका श्राद्ध करना चाहिये, अथवा पितृब्राह्मणरूपसे अपने पिताको भोजनदान और पितामह प्रपितामहको पिण्डदान कर सकते हैं। यदि पिता मृत हो और पितामह जीवित हो, तो पिताका श्राद्ध करके पश्चात् प्रपितामहका श्राद्ध करना चाहिये। इसमें जीवित पितामह, प्रपितामह ब्राह्मणरूपसे भोजन करेगे, अथवा आन्ना लेकर पौत्र स्वयं श्राद्धकर्मको करेगे। तदनन्तर ब्राह्मणोके हाथमें दर्भ और तिलयुक्त जल देकर पूर्वोक्त पिण्डाग्रको 'पित्रे स्वधास्तु' कहकर उन्हें समर्पण करना चाहिये। उसके बाद दोनों हाथोसे अन्नपूर्ण पात्रको ग्रहण करके पितरोंका ध्यान करते हुए ब्राह्मणोंके समीप भोजनार्थ उस अन्नको रखना चाहिये। महर्षियोंने क्रोधहीन, सुप्रसन्न, 'सृष्टिप्रवाहमें पुरातन लोककल्याणनिरत द्विजोत्तम ब्राह्मणोंको ही श्राद्धकृत्यके पात्रभूत देवता करके निर्देश किया है। जबतक अन्न उष्ण रहता है,

ब्राह्मणगण संयतवाक् होकर भोजन करते हैं, और अन्नका गुणावगुण नहीं कहा जाता है, तबतक पितृगण ब्राह्मणमुखसे अन्नभोजन करते हैं । इन सब प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है कि, मृत पितरोंके निमित्त ही श्राद्ध किया जाता है, जीवित पितरोंके निमित्त नहीं, और श्राद्धमें ब्राह्मणभोजन मुख्य कार्य है, क्योंकि ब्राह्मणोंके द्वारा ही पितृगण श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं ।

श्राद्धकृत्यके अनेक अंग होते हैं । यथा—पार्वण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध, इष्टि श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध इत्यादि ।

एकोद्दिष्ट श्राद्धके विषयमे श्रीमनुजीने कहा है :—

एकमुद्दिश्य यच्छ्राद्धमेकोद्दिष्टं प्रकीर्त्तितम् ।

एक पितृके उद्देश्यसे किया हुआ श्राद्ध एकोद्दिष्ट कहलाता है । पार्वण श्राद्धमें तीन पितरोंके अर्थात् पिता, पितामह, प्रपितामहके श्राद्ध होते हैं । यथा :—

“त्रीनुद्दिश्य तु यच्छ्राद्धं पार्वणं मुनयो विदुः”

यज्ञारम्भमे करणीय श्राद्ध इष्टिश्राद्ध कहलाता है । पौष वदी अष्टमी, माघ वदी अष्टमी और फाल्गुन वदी अष्टमीमे करणीय श्राद्धको अष्टकाश्राद्ध कहते हैं ।

शास्त्रमे श्राद्धकालके विषयमें बहुत कुछ विचार किया गया है । इसमें पितरोंका निवासस्थान तथा पितृलोकका कालप्रमाण ही मुख्य कारण है । शास्त्रमे लिखा है—‘विधूद्भ्रूलोके पितरो वसन्ति’ पितृगण चन्द्रमण्डलके ऊर्ध्वभागमें वसते हैं । चन्द्रलोक जलमय है, इस कारण पितृगणके निवास-स्थानके विषयमे श्रीमद्भागवतके १३ स्कन्धमें कहा है :—

‘उपरिष्ठाच्च जलाद् यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणा निवसन्ति ।’

जलमय लोकके ऊर्ध्वदेशमे अग्निष्वात्तादि पितृगण निवास करते हैं । अथर्ववेदके १२।२।४८ में लिखा है :—

उदन्वती धौरवमा पीलुमतीति मध्यमा तृतीयाह प्रचौरिति यस्यां पितर आसते ।

आकाशकी पहिली कक्षा अवमा है, वह उदन्वती अर्थात् उदकवाली है । मध्यमकक्षा पीलुमती अर्थात् परमाणुवाली है । तृतीय कक्षा प्रद्यौ अर्थात् प्रकाशवाली है, जिसमें पितर लोग रहते हैं ।

चन्द्रमण्डलमें रहनेके कारण हमारा एक महीना पितृलोकका एक दिन है । इसी विचारके अनुसार हम लोगोंकी अमावस्या पितृलोक मध्याह्न है और इसी कारण अमावस्या तिथि, उसके आसपासकी तिथियां तथा अपराह्न-काल ही पितृभोजन देनेका अर्थात् श्राद्ध करनेका मुख्यकालरूपसे निर्दिष्ट हुआ है । यथा मनुसंहितामें :—

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।
 श्राद्धे प्रशस्तास्तित्थयो यथैता न तथेतराः ॥
 युष्तु कुर्वन् दिनर्क्षेषु सर्वान् कामान् समश्नुते ।
 अयुष्तु तु पितृन् सर्वान् प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥
 यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद् विशिष्यते ।
 तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्लादपराह्लाे विशिष्यते ॥

चतुर्दशीको छोड़कर कृष्णपक्षकी दशमीसे अमावस्यापर्यन्त तिथियां श्राद्धकार्यमें जितनी प्रशस्त है, इतनी प्रतिपदादि तिथियां नहीं हैं । द्वितीया चतुर्थी आदि युग्मतिथि तथा भरणी रोहिणी आदि युग्मनक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे सब कामना सिद्ध होती है और तृतीया पञ्चमी आदि अयुग्मतिथि तथा अश्विनी कृत्तिकादि अयुग्म नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे उत्तम सन्तति प्राप्त होती है । श्राद्धके लिये शुक्लपक्षसे कृष्णपक्ष जिस प्रकार विशेष फलदायक है, उसी प्रकार पूर्वाह्नसे अपराह्न भी विशेष फलदायक है । शतपथ २।३।२८ में :—

पूर्वाह्नो वै देवानां मध्यंदिनो मनुष्याणाम् ।
 अपराह्नः पितॄणां तस्मादपराह्णे ददति ॥

देवताओंका पूर्वाह्न, मनुष्योंका मध्याह्न और पितरोंका अपराह्न है, इसलिये अपराह्नमें श्राद्ध करना चाहिये । गरुड़ पुराणमें भी लिखा है :—

अमावास्यादिने प्राप्ते शृहद्वारे समाश्रिताः ।
 वायुभूताः प्रवाञ्छन्ति श्राद्धं पितृगणा वृणाम् ॥

यावदस्तगतं भानोः क्षुत्पिपासासमाकुलाः ।
 ततश्चास्तं गते सूर्ये निराशा दुःखसंयुताः ॥
 निःश्वसंतश्चिरं यान्ति गर्हयन्तः स्ववंशजम् ।
 तस्माच्छ्राद्धं प्रयत्नेन अमायां कर्तुमर्हति ॥

अमावस्याके प्राप्त होनेपर पितर वायुरूप होकर श्राद्धकी अभिलाषाले घरके द्वारपर रहते हैं। जवतक सूर्य अस्त नहीं होता, तवतक क्षुत्पिपासासे व्याकुल होकर ठहरते हैं। परन्तु सूर्यास्त हो जानेपर निराशासे दुःखी होकर और अपने वंशजोंको शाप देते हुए पीछे चले जाते हैं। इसीलिये अमावस्यामें अवश्यमेव श्राद्ध करना चाहिये।

ऊपर वर्णित नित्य नैमित्तिक पितरोंकी सम्बर्द्धनाके अतिरिक्त श्राद्ध-कृत्यका एक विशेष फल यह है कि, इसके द्वारा प्रेतयोनिप्राप्त जीवोंका प्रेतत्व नाश होता है। मृत्युके समय किस प्रकारसे काममोहादि भावके द्वारा सूक्ष्म शरीरके आच्छन्न होनेसे अथवा अपघातमृत्यु या अकस्मात् मृत्यु आदिके द्वारा जीवको प्रेतयोनि प्राप्त होती है और उस योनिमें क्या क्या क्लेश जीवको भोगना पड़ता है, इसका प्रचुर वर्णन 'परलोक और पुनर्जन्म' नामक प्रबन्धमें किया जायगा। प्रेतत्व प्राप्ति सूक्ष्मशरीरका एक प्रकार मूर्च्छाविस्था होनेके कारण जिस प्रकार किसी मूर्च्छित व्यक्तिका मूर्च्छाभंग ओषधि आदिकी शक्तिके द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार प्रेतका भी प्रेतत्व नाश मनः-शक्ति, मन्त्रशक्ति और द्रव्यशक्ति नामक त्रिविध शक्तियोंके यथाविधि प्रयोग द्वारा ही किया जाता है, सो किस प्रकारसे, यह क्रमशः नीचे बताया जायगा।

मृत्युके समय सूक्ष्म शरीरके विशेष दुर्बल तथा मूर्च्छाभावापन्न हो जानेके कारण मृत्युके अनन्तर समस्त अवयवोंमें परलोकगत आत्माका सहसा क्रिया-शक्तिका उदय नहीं होता है और अङ्ग प्रत्यङ्गकी पूर्ति भी शीघ्र नहीं हुआ करती है। इसलिये विशेष श्राद्धकृत्यसे पहिले दश दिनोंतक अङ्ग प्रत्यङ्गपूर्तिरूपसे दश पूरकपिण्ड देनेकी विधि है, यथा अथर्ववेदीय पिण्डोपनिषद्में :—

प्रथमेन तु पिण्डेन कलानां तस्य सम्भवः ।

द्वितीयेन तु पिण्डेन मांसत्वकशोणितोद्भवः ।

तृतीयेन तु पिण्डेन मतिस्तस्याभिजायते ।
 चतुर्थेन तु पिण्डेन अस्थिमज्जा प्रजायते ।
 पञ्चमेन तु पिण्डेन हस्तांगुल्यः शिरोमुखम् ।
 षष्ठेन तु पिण्डेन हृत्कण्ठं तालु जायते ।
 सप्तमेन तु पिण्डेन दीर्घमायुः प्रजायते ।
 अष्टमेन तु पिण्डेन वाचं पुष्यति वीर्यवान् ।
 नवमेन तु पिण्डेन सर्वेन्द्रियसमाहृतिः ।
 दशमेन तु पिण्डेन भावानां सवर्नं तथा ।
 पिण्डे पिण्डे शरीरस्य पिण्डदानेन सम्भवः ।

प्रथम पिण्डसे कलाविकाश, द्वितीय पिण्डसे मांस त्वचा शोणितकी उत्पत्ति, तृतीय पिण्डसे मति, चतुर्थ पिण्डसे अस्थिमज्जा, पञ्चम पिण्डसे हस्त, अंगुलि, शिर और मुख, षष्ठ पिण्डसे हृदय, कण्ठ तालु, सप्तम पिण्डसे आयु, अष्टम पिण्डसे वाक्, नवम पिण्डसे समस्त इन्द्रियां और दशम पिण्डसे नाना भावोंका विकाश होता है। इस प्रकारसे प्रत्येक पूरक पिण्डदान द्वारा अङ्ग प्रत्यङ्गकी पूर्ति तथा श्राद्धकृत्यमे मन, मन्त्र द्रव्यके साथ अधिदैव सम्यन्ध करनेकी योग्यता परलोकगत आत्माकी हो जाती है। इसीके वाद मनःशक्ति मन्त्रशक्ति और द्रव्यशक्तिके प्रयोगात्मक क्रियाओंका विधान किया गया है।

शास्त्रमें मनकी शक्ति अति असाधारण करके वर्णित की गई है। मन ही समस्त संसारका उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता है।

उपनिषद्में कहा है:—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥

मन ही मनुष्योंके बन्धन तथा मोक्षका कारण है। विषयासक्त मनसे बन्धन तथा निर्विषय मनसे मोक्षलाभ होता है। मनके ही बलसे भक्तगण भगवान् तकके दर्शन कर लेते हैं। योगी मनके ही बलसे दूसरेकी वशीभूत तथा कठिन कठिन रोगोंको भी आराम कर देते हैं। मनुष्यकी वात ही क्या,

जङ्गलके वृहदाकार अजगर सर्पको चलनेकी शक्तिसे रहित होने पर भी मनके ही बलसे निरन्तर चिन्ता द्वारा मृग आदि आहार्य वस्तुओंको आकर्षण करते हुए देखा गया है । श्राद्धमें प्रेतात्मापर इसी मनशक्तिका प्रयोग होता है । प्रथमतः अशौचके दिनोंमें सयम, ब्रह्मचर्य्यरक्षा, स्पृश्यास्पृश्यविचार, सदाचारपालन आदिके द्वारा मनमें यथेष्ट बल संचय किया जाता है । तदनन्तर, चिन्ताशक्तिके द्वारा—‘आयन्तु नः पितरः’ इत्यादि भावसे परलोकगत आत्मीयजनोंको श्राद्धस्थानमें बुलाया जाता है । यह बात विज्ञानसिद्ध है कि, जहाँपर आत्मा तथा मनका स्वाभाविक मेल है, वहाँ एक मनकी चिन्ताका तरङ्ग अनायास ही अन्य मनपर घान प्रतिघात उत्पन्न कर सकता है । एक घरमें पांच सितार एक सुर मिलाकर रख दीजिये, एकके बजानेसे शेष चार बिना बजाये स्वयं ही बजने लगते हैं । क्योंकि सुर मिले रहनेसे एकका कम्पन वायुतरंग द्वारा वाहित होकर अन्य यन्त्रोंपर भी प्रभाव विस्तार कर देता है । जब जड़ यन्त्रोंमें इतनी शक्ति है, तो चेतन मनकी बात ही क्या है । इस विषयमें मिक्टर डूबो (Victor Du Bois) साहबने बड़ा अच्छा कहा है, यथा—Mental suggestions are reproduced in the ether, like wireless messages They occasionally reach other mind and influence them, when the voice cannot be heard and the external organs fail to receive verbal suggestions from any causes such as inattention, deafness or blindness Distance is no barrier, if one soul is attuned to another One need not be in the presence of a person to use suggestion in this way

(The Law of Suggestion—Kalpaka)

मानसिक प्रेरणा बेतार खबरकी तरह ‘इथर’ मार्गसे दूसरेके मनपर प्रभाव डालती है । जहाँ पर शब्दकी सुनाई न हो, अमनोयोग, बहरापन, या अन्वेषणके कारण बाहिरि इन्द्रियोंकी भी सहायता प्राप्त न हो, वहाँ भी इसका प्रभाव टूटता नहीं है । यदि आत्माका मेल रहे, तो स्थान कितनी ही दूर हो उससे बाधा नहीं होती है । और इस प्रकार प्रेरणाके लिये जिस पर प्रेरणा की जाय, उसके पास रहनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है । शास्त्रमें ‘आत्मा वै जायते पुत्रः’ ‘आत्मा वै पुत्रनामासि’ इत्यादि प्रमाणोंके द्वारा पुत्रको पिताका

आत्मा ही कहा गया है । उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र धर्मज पुत्र होनेसे पिता माताके साथ उसका विशेष स्वाभाविक सम्बन्ध है । इस प्रकार पुत्र जब अशौचावस्थामें मनःशक्ति विशेषरूपसे सम्पादन करके परलोकगत पिता-मातादिका चिन्तन तथा आवाहन करेगा, तो उससे परलोकगत आत्माको अवश्य ही विशेष लाभ पहुँचेगा, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । इस विषयमें भी पश्चिमी परिदृष्टोंने अतृकूल अनुभव किया है यथा— Asked as to how a real scientist like him could believe in ghosts Sir Oliver Lodge pointed out that mental force can make dead matter move as it directs and can also work upon the mental force of another, living or dead and one mind can send thought waves to another no matter how many miles separate the two. And thus it is also, that a mind—without any material body, such as the surviving spirit of a dead person, can talk to the mind of a person who still has a living body. (Kalpaka). इतने बड़े सायन्सके जाननेवाले होकर प्रेतयोनिकर कैसे विश्वास करते हैं, अलिमार लज्को ऐसा पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया कि मनकी शक्तिसे जड़वस्तु भी हिलायी जा सकती है । और मृत या जीवित किसी भी मनुष्यके मन पर प्रभाव डाला जा सकता है । चाहे कितनी ही दूरपर हो चिन्ताका तरङ्ग एक मनसे दूसरे मनपर जा सकता है और इसी प्रकारसे एक मृतव्यक्तिका मन एक जीवित व्यक्तिके मनके साथ सम्बन्ध स्थापन, वार्त्तालाप आदि कर सकता है । यही कारण है कि, श्राद्धमें कुटुम्बभोजन तथा निकटस्थ सद्व्राह्मण-भोजनकी विधि है । यथा—

सम्बन्धिनस्तथा सर्वान् दौहित्रं विट्पतिन्तथा ।

भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धून् गृहाधिपान् ॥

यस्त्वासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादृते ।

दूरस्थं भोजयेन्मूढो गुणाढ्यं नरकं व्रजेत् ॥

सब कुटुम्बी विशेषकर दौहित्र, भगिनीपति, भागिनेय और गृहस्वामीके बन्धुवर्ग—ये ही सब श्राद्धभोजनमें निमन्त्रण देनेके लिये प्रशस्त हैं । जो

निकटस्थ उत्तम ब्राह्मणको छोड़कर दूरस्थ ब्राह्मणको भोजन कराता है, वह नरकगामी होता है । इसी कारण मनुने भी अपनी सहिताके तृतीयाध्यायमें कहा है—

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् ।

द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥

श्राद्धमें प्रयोजन होनेपर मित्रभोजन भी अच्छा है, किन्तु विद्वान होनेपर भी शत्रुभोजन श्राद्धमें कभी नहीं कराना चाहिये, क्योंकि शत्रुके साथ मानसिक मेल न होनेके कारण उससे परलोकगत आत्माका कोई कल्याण नहीं होता है ।

कुटुम्बभोजनकी तरह ब्राह्मण-भोजनकी जो बड़ी महिमा श्राद्धकृत्यके अङ्गरूपसे आर्यशास्त्रमें बतलाई गई है, उसके भी मूलमें मनःशक्ति प्रदानका ही रहस्य भरा हुआ है । मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है—

निमन्त्रितान् तु पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् ।

वायुवच्चानुगच्छन्ति तथाऽऽसीनानुपासते ॥

परलोकगत पितर या आत्मा निमन्त्रित ब्राह्मणोंके शरीरोंमें वायुशरीर धारण करके समाविष्ट होते हैं, इनका अनुगमन करते हैं तथा इनके बैठने-पर बैठते हैं । इस प्रकारसे ब्राह्मणोंके साथ ब्राह्मणोंके द्वारा परलोकगत आत्माका श्राद्धकालमें भोजन भी मनुने बताया है । वेदमें भी—

इदमोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ।

स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु ॥ ४-३४-८

इस अन्नको मैं ब्राह्मणोंके समीप रखता हूँ, यह बिस्तृत है, लोकजित है, स्वर्गमें पहुँचनेवाला है । जलके द्वारा वृद्धिगत यह अन्न मुझे कामधेनु-तुल्य फल दे । पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० ३३ मे स्पष्ट ही लिखा है कि, भगवान् रामचन्द्र जब पिता दशरथका श्राद्ध करके ब्राह्मणभोजन करा रहे थे, तो सीतामाता ब्राह्मणोंके साथ भ्रशुर दशरथको देखकर लज्जिता हो छिप गई थीं ।

‘पिता तव मया दृष्टो ब्राह्मणाङ्गेषु राघव ।’

इसलिये यह बात निश्चय है कि, श्राद्धभोजी ब्राह्मण यदि तपस्वी और संयमी होंगे तभी प्रेतसमाविष्ट श्राद्धांशको पचा सकेंगे और भोजनपरितृप्त होकर आशीर्वाद तथा मन्त्रशक्ति और तपःशक्ति प्रदान द्वारा परलोकगत आत्माका कल्याण कर सकेंगे। अन्यथा असयमी ब्राह्मणको श्राद्धमें भोजन देनेसे पितर या प्रेतका तो कोई कल्याण होता ही नहीं, अधिकन्तु प्रेतसमावेश द्वारा श्राद्धभोजी अधम ब्राह्मणकी और भी अधोगति होती है। इसी कारण श्रीभगवान् मनुने बार बार अपनी संहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है। यथा—

श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः ।

अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥

एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत् ।

पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान् वहूनपि ॥

सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते ।

एकस्तान् मन्त्रवित् प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥

पूज्यतम श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको ही हव्यकव्य प्रदान करना चाहिये। क्योंकि इनको देनेसे ही महाफललाभ होता है। दैव या पितृकर्ममें इस प्रकार एक विद्वान्को भोजन करानेपर भी यथेष्ट फल लाभ होता है, किन्तु वेदज्ञानहीन अनेक ब्राह्मणोंको भोजन करानेपर भी कुछ फल नहीं मिलता है। वेदज्ञानहीन दश लक्ष ब्राह्मण जिस श्राद्धमें भोजन करें वहां यदि वेदज्ञ एक ब्राह्मण भी भोजन द्वारा तृप्त किया जाय तो धर्मतः एकसे दश लक्षका काम हो जाता है। चन्द्रलोकवासी पितरोंके साथ मानसिक क्रियाओंका विशेष सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है। वेदमें भी 'चन्द्रमा मनसो जानः' 'इंसं मन्त्रके' द्वारा विराट् मनके साथ चन्द्रलोकका नैसर्गिक सम्बन्ध बताया गया है। समस्त व्यष्टि मन समष्टि मनका ही अंशरूप होनेसे श्राद्धकालमें व्यष्टि मनमें उत्पन्न भावतरङ्ग समष्टि मनःसमुद्रमें भी हिल्लोल उत्पन्न करके सुदूर सूक्ष्मलोकमें पितरोंके मनपर प्रभाव विस्तार कर सकेगा, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिसे कुछ भी सन्देह नहीं रह सकता है। अतः श्राद्धकृत्यमें मनःशक्ति प्रयोग विज्ञानसिद्ध है। गृहस्थोंकी तरह संसारत्यागी सन्यासी भी मनोबल तथा आत्मबल द्वारा अपने वंशज पितरोंका कल्याण करते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नतिमें विशेष सहायता

करते हैं। किन्तु उनके मन तथा आत्मामें विशेष शक्ति होनेके कारण उन्हें गृहस्थोंकी तरह स्थूल श्राद्धविधियोंका आश्रय लेना नहीं पड़ता है। वे मृत पितरोंको स्मरण करके मनोबल तथा आत्मबल द्वारा सूक्ष्मरूपसे ही सब कुछ कर देते हैं। यही कारण है कि, शास्त्रमें वर्णन देखनेमें आता है कि, जिस वंशमें एक साधुपुत्र उत्पन्न होता है, उसके आगे पीछे चतुर्दश पुरुष या इक्कीस पुरुष उद्धारको पा जाते हैं। यथा—श्रीमद्भागवतमें प्रह्लादके प्रति नृसिंह भगवान्का वाक्य है:—

त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ !
यत् साधोऽस्य कुले जातो भवान् वै कुलपावनः ॥

हे प्रह्लाद ! केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, किन्तु इक्कीस पुरुषतक तुम्हारे वंशके पितृगणका उद्धार हो जायगा, जहांपर तुम जैसे साधुपुत्र उत्पन्न हुए हो। यही सब श्राद्धमें मनःशक्तिका प्रभाव है।

मनःशक्तिकी तरह मन्त्रशक्तिके द्वारा भी परलोकगत आत्माओंको विशेष शान्ति तथा उन्नतिमें सहायता मिलनी है और प्रेतोंका प्रेतत्वनाश भी मन्त्रबलसे विशेषरूपसे होता है। मन्त्र क्या वस्तु है, दैवराज्यके साथ मन्त्रोंका क्या सम्बन्ध है, आदिमन्त्र प्रणवसे प्राकृतिक क्रमस्पर्न्दन द्वारा अन्यान्य समस्त मन्त्रोंका किस प्रकारसे विकाश होता है, इसका यथेष्ट वर्णन और किसी प्रबन्धमें किया जायगा। संसारमें शब्दकी महिमा अपार है। शब्दहीके उपयोग-तारतम्यसे शत्रु भी मित्र होते हैं और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, लक्ष्मण मनुष्योंपर विजलीकी तरह शक्तिसंचार तथा प्रभावविस्तार हो जाता है, मनुष्य प्राण देनेके लिये तैयार हो जाते हैं, और प्राण लेनेके लिये भी तैयार हो जाते हैं, वनके मृग भी व्याधकी वीणाके शब्दके द्वारा वशीभूत होकर प्राण दे देते हैं और कालसर्प भी डमरूके शब्द प्रभावसे ही वशीभूत हो जाता है। अतः जब स्थूल शब्दका ही इतना प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म दिव्यशब्दरूप मन्त्रोंका असाधारण प्रभाव होगा, इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है, क्योंकि वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, उसकी शक्ति भी उतनी ही बढ़ जाया करती है। स्थूल वस्तु पाञ्चमीतिक स्थूल शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्मतरंगके परि-

णामरूप सूक्ष्म शरीर तथा मनका विलक्षण ही प्रभाव है । इसी विज्ञानपर ही प्रतिष्ठित होकर अणुविश्लेषण (dilution) द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा-शास्त्रमें भिन्न भिन्न शक्तिकी ओषधि बनाई जाती है और यह भी विज्ञान जगत्-ने आजकल प्रमाणित कर दिखाया है कि, जबतक अणु अणुसे मिला रहता है, तभीतक उनमें स्वामाविक शक्तिका ठीक विकास नहीं होता है, नहीं तो पृथक् पृथक् एक एक अणुमें समस्त संसारके भीतर प्रलय मचा देनेकी शक्ति विद्यमान है । अतः विचार द्वारा सिद्धान्त हुआ कि, स्थूल शब्दकी अपेक्षा दिव्य शब्द मन्त्रोंके भीतर अधिक तथा असाधारण शक्ति विद्यमान है । इस कारण श्राद्धमें इन मन्त्रोंको श्राद्धकर्त्ता सचत होकर परलोकगत आत्माओपर जितना ही प्रयोग करेंगे उतना ही उनकी प्रेतत्वमुक्ति अथवा आध्यात्मिक उन्नति या शान्तिके लाभमें सुविधा होगी—इसमें अशुभान् सन्देह नहीं । शास्त्रमें 'मन्त्राणां प्रणवः सेतुः' अर्थात् प्रणवको सब मन्त्रोंका चालक कहा गया है । इसलिये प्रणवके साथ अन्यान्य मन्त्रोंका उच्चारण करनेसे प्रणव उन मन्त्रोंको चालित करके जहाँपर जिस लोकमें परलोकगत आत्मा विराजमान है वही ले जाकर अभीष्ट फल प्रदान करानेमें सहायता कर देगा, इसमें भी संशय नहीं है । यही श्राद्धमें मन्त्रशक्ति प्रयोगका उपयोग तथा रहस्य है । इस प्रकारसे मन्त्रकी दिव्यशक्तिके प्रयोगके साथ साथ और भी अनेक दिव्य शक्तिकी सहायता श्राद्धकृत्यमें परलोकगत आत्माको पहुँचाई जाती है । मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है—

स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥

अर्थात् श्राद्धकालमें ब्राह्मणोंको वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण तथा श्रीसूक्तादि सुनाने चाहिये । और भी—

‘ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात् पितृणामेतदीप्सितम्’

ब्राह्मणभोजनके समय आध्यात्मिक आलाप पितरोंको प्रीतिप्रद होता है । इसके सिवाय कठोपनिषद्का प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है कि, नचिकेताकी कथा श्राद्धकालमें सुनानेसे परलोकगत आत्माकी उन्नति होती है । यही सब श्राद्धकृत्यमें दिव्य शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तिके द्वारा पितर तथा

प्रेतात्माको सहायता पहुँचानेके उपाय है । श्राद्धमें तीर्थ, गया, गङ्गा और गदाधरकी बड़ी महिमा बताई गई है । काशीखण्डमें लिखा है—

अकालेऽप्यथवा काले तीर्थे श्राद्धं च तर्पणम् ।

अविलम्बेन कर्त्तव्यं नैव विघ्नं समाचरेत् ॥

कालका विचार कुछ भी न करके तीर्थमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिये । महर्षि हारीतने कहा है—

दिवायां यदि वा रात्रौ भुङ्क्ते चोपोषितोऽपि वा ।

न कालनियमस्तत्र गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम् ॥

दिन हो या रात्रि हो, भोजन किये हुए हो या उपवासी हो, प्रधान नदी गङ्गाको पानेसे कोई भी कालनियम नहीं रखना चाहिये । और भी—

‘गयां प्रसंगतो गत्वा मातुः श्राद्धं समाचरेत्’

गया जानेपर अन्यान्य श्राद्धके अतिरिक्त मातृश्राद्धको अवश्य ही करना चाहिये । मत्स्यपुराणमें लिखा है—

एषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तत् कोटिगुणमिष्यते ।

यस्मात्तस्मात् प्रयत्नेन तीर्थे श्राद्धं समाचरेत् ॥

तीर्थोंमें श्राद्ध करनेसे कोटिगुण फल लाभ होता है । इस कारण यत्नके साथ तीर्थमें श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिये । नित्य तीर्थमें दिव्यशक्तिका नित्य विकाश है, नैमित्तिक तीर्थमें दैवशक्तिका नैमित्तिक विकाश है, गया धर्ममें पौराणिक प्रमाणके अनुसार गयासुरके सम्बन्धसे प्रेतादिकत्याणकारी अति दिव्य शक्तिका सदैव विकाश है, गङ्गा माता अलौकिक ज्ञानशक्ति तथा दिव्य शक्तिधारिणी है, विष्णु भगवान् यज्ञेश्वर होनेसे सकल दैव कर्मोंमें सफलता देनेवाले हैं । यही कारण है, कि शास्त्रोंमें परलोकगत पितरोंको शान्ति, उन्नति तथा दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदानके लिये तीर्थ, गया, गंगा और गदाधरकी विशेष शरण लेनेकी आज्ञा की गई है । यही सब श्राद्धकृत्यमें मन्त्रशक्ति तथा दिव्यशक्ति द्वारा सहायता देनेके दृष्टान्त हैं ।

तृतीयतः द्रव्यशक्ति द्वारा भी प्रेतात्मा तथा पितरोंको बहुत कुछ सहायता मिलती है । संसारमें द्रव्यशक्तिकी भी महिमा मन्त्रशक्तिकी तरह अपूर्व है ।

प्रत्येक द्रव्यके ही भीतर जीवनदानकारी अथवा प्राणस्पन्दनकारी कुछ न कुछ वैद्युतिक शक्ति देखी जाती है । उन सब द्रव्योंके रासायनिक संमिश्रण द्वारा वैद्युतिकशक्तिको प्रकट करके तार-द्वारा संवाद भेजना, पंखा चलाना, प्रकाश कर देना, गाड़ी चलाना आदि प्रक्रिया तो आजकल वैज्ञानिक जगत्की विशेष सम्पत्ति ही बन बैठी है । किन्तु पूज्यपाद महर्षियोंने अपनी ज्ञानशक्ति द्वारा विशेष विशेष द्रव्योंके भीतर स्थूल शक्तिके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्मशक्तिका भी अनुभव किया था और तदनुसार उन शक्तियोंकी सहायतासे पितृलोक, प्रेत-लोक और देवलोकसे दैवसम्बन्ध स्थापन कैसे कैसे हो सकता है सो भी बताया था । इस प्रकार द्रव्यान्तर्गत सूक्ष्मशक्तिके प्रभावसे परलोकगत आत्मा-ओको श्राद्धस्थानमें आकर्षण, उन्हें तृप्ति प्रदान, सहायता प्रदान, प्रेतयोनि प्राप्त जीवोंका प्रेतत्वनाश आदि अनायास ही हो सकता है । और इसी कारण मन्वादि धर्मशास्त्रोंमें इनके प्रयोगका तथा विशेष विधियों द्वारा इनके परस्पर संमिश्रण-का प्रकार बताया गया है । श्राद्धमें कुश, तिल, आदिको विशेष महिमा तो पहिले ही बताई गई है । इसके सिवाय ताम्र, रौप्य आदि विद्युत् शक्तिमय धातुओंकी भी विशेष प्रशंसा की गई है । यथा मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें—

राजतैर्भाजनैरेषामथवा राजतान्वितैः ।

वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥

रौप्यमय पात्र अथवा रौप्ययुक्त ताम्रादि पात्रमें पितरोंको श्रद्धापूर्वक जलदान करने पर भी वह उनकी अक्षयवृत्तिका कारण होता है । द्रव्यशक्ति तथा मन्त्रशक्तिके विषयमें भी पश्चिमियोंने आजकल बहुत कुछ अन्वेषण करना प्रारम्भ कर दिया है । आर्टि में ब्लाकबर्न (Artie Mae Blackburn) साहबने इस विषयमें निम्न लिखित बातें कही हैं । "Each of the seven metals is the imprisoned or precipitated force or quality which emanates from one of the seven planets"

"Through the living force of the nature elementals associated with them, there are innumerable occult uses to which the seven metals may be put Cures may be effected and disease created by the use or misuse of metals which possess at once life-giving or death-dealing qualities "

“Jewels are positive in force and have inherent qualities of their own Metals, on the other hand, are more or less negative. Silver, particularly coming under the rulership of Luna is passive and therefore becomes a perfect medium for the transmission of influence with which it may be associated by chance or intentionally charged ”

“Students of occultism can thus readily see how a water elemental by natural sympathy may be attracted and attached to silver and by inherent antipathy made to repel fire elementals, depending upon the strength of the thought-forms attached to the Talisman ”

“Talismans, amulets, colors, numbers and harmonious name vibrations are legitimate weapons of defence, forces of protection and power and are rendered well-nigh irresistible when reinforced by a life of rectitude and selflessness, devoted to the advancement of the race and attuned to the key note of universal Love ”

(The Alchemy of Precious Stones—Kalpaka)

सात धातुओंमेंसे प्रत्येकमें ही ग्रहोंसे प्राप्त विशेष शक्ति निहित है । प्राकृतिक पञ्चभूतोंकी शक्तिका सहारा मिलनेपर इन धातुओंके द्वारा सूक्ष्म जगत्के अनेक काम लिये जा सकते हैं । इनमें जीवन देने तथा जीवन लेनेकी भी शक्ति है, इसलिये इनके यथार्थ प्रयोगसे रोग आराम हो सकता है और खराब प्रयोगसे जीवोंमें रोग उत्पन्न भी कर दिया जा सकता है । रत्नोंमें पजिटिभ अर्थात् समशक्ति होती है और इनके प्रत्येकमें अपनी अपनी शक्तियां होती हैं । धातुओंमें कम या अधिक नेगेटिभ अर्थात् विषमशक्ति है । चन्द्रग्रहके अधीन होनेसे चांदी निष्क्रिय अर्थात् पैसिभ होती है, इस कारण कहीं शक्ति पडुंचाना हो तो चांदीके द्वारा उत्तम रीतिसे हो सकता है । परलोकविद्या या सूक्ष्मविद्या के जाननेवाले इसीसे विचार कर सकते हैं कि जल और चांदीकी शक्ति एक

साथ मिलाई जाय और उसमें इच्छा शक्तिकी प्रेरणा की जाय तो वह अग्नि-की शक्तिको हटा सकती है। यन्त्र, वर्ण, संख्या, मन्त्र इन सबका प्रयोग रक्षाके लिये किया जाता है और निःस्वार्थ तथा उत्तम मनुष्यके द्वारा प्रयोग किये जानेपर इनकी शक्तिसे अवश्य ही उत्तम कार्य हो जाते हैं। खाद्य पदार्थोंके विषयमें देशकाल पात्र भेदसे आमिषका भी कही कही प्रयोग देखा जाता है।

यथा अथर्ववेद १८।४।४२ में—

यं ते मयं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते ।

ते ते सन्तु स्वभावन्तो मधुमन्तो घृतच्युतः ॥

इस मन्त्रमें फल, अन्न और मांस किसी एकके द्वारा अपनी रुचि अनु-सार श्राद्ध करना बताया है। 'यदन्नः पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः' इसी कारण वेद तथा मन्त्रमें ऐसा विधान है। तथापि निरामिषकी ही सबसे अधिक महिमा बताई गई है। यथा—

यत् किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् ।

तदप्यस्यमव स्याद् वर्षासु च मघासु च ॥

अपि नः स कुले जायाद् यो नो दद्यात् त्रयोदशीम् ।

पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राक्छायेकुञ्जरस्य च ॥

वर्षाकालमें जब मघानक्षत्रके साथ एकादशीका योग हो, उस दिन पितरोंको मधुमिश्रित अन्न प्रदान करनेपर वह उनको अन्नय तृप्तिका कारण होता है। पितृगण प्रार्थना करते हैं कि उनके वंशमें कौन ऐसा कुलभूषण उत्पन्न होगा, जो मघात्रयोदशीको या जिस समय हस्तीकी छाया पूर्व दिशाको आवे, उस समय उनको घृत मधु मिश्रित पायसात्र द्वारा परितृप्त करें। इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें द्रव्यशक्तिकी पितृलोकतृप्तिकारिणी परममहिमा बताई गई है। यही आर्यशास्त्रानुसार प्रेतत्वनाश तथा पितरोंकी तृप्ति और उन्नतिके अर्थ मनःशक्ति, मन्त्रशक्ति और द्रव्यशक्तिका विविध विधिके अन्तुसार प्रयोग-रहस्य है।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि, इस प्रकार श्राद्धान्न दानका उपयोग तभी तक होना चाहिये, जब तक परलोकगत आत्माका मृत्युलोकमें पुनर्जन्म

न हो गया हो । किन्तु जन्म हो जानेपर इन श्रद्धोंका क्या उपयोग है और ये सब अन्न उनको प्राप्त भी कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि, श्राद्ध सङ्कल्प-प्रधान तथा मनःशक्ति-प्रधान होनेसे सूक्ष्मजगत्में सङ्कल्पशक्ति द्वारा पितरोंकी तृप्ति और जन्म हो जानेपर भी उसी जन्ममें आध्यात्मिकादि उन्नतिका कारण बनता है । इस विषयमें हेमाद्रिमें उत्तम प्रमाण मिलता है । यथा—

देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः ।

तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति ॥

गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् ।

श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति ॥

पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम् ।

दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रुधिरौदकम् ॥

मानुषत्वेऽन्नपानादिनानाभोगरसो भवेत् ॥

पिताने यदि शुभकर्मके द्वारा देवयोनिको प्राप्त किया है, तो उनके निमित्त दिया हुआ श्राद्धान्न अमृतरूप होकर उन्हें मिलेगा । इसी प्रकार गन्धर्वयोनिसमें भोगरूपसे, पशुयोनिसमें तृणरूपसे, नागयोनिसमें वायुरूपसे, यक्षयोनिसमें मद्यरूपसे, राक्षसयोनिसमें आमिषरूपसे, दानवयोनिसमें मांसरूपसे, प्रेतयोनिसमें रुधिररूपसे और मनुष्ययोनिसमें अन्नादि विविध भोज्यरूपसे श्राद्धान्न प्राप्त होता है । इन प्रमाणोंसे सिद्ध हुआ कि, सङ्कल्पित पदार्थ तथा सङ्कल्पशक्तिके द्वारा सभी योनियोंमें जीवोंको शान्ति तथा उन्नति मिल सकती है । वास्तवमें प्रत्येक जन्मकी उन्नति या अवनतिके साथ निजकृत कर्मसम्बन्धके अतिरिक्त जन्मजन्मान्तरलब्ध आत्मीय जनोंकी सङ्कल्पशक्ति, आशीर्वादशक्ति तथा क्रियाशक्तिका भी बहुत कुछ सम्बन्ध विद्यमान है, जिसको सूक्ष्मदर्शी महात्मागण ही जानकर तत्त्वनिर्णय कर सकते हैं । अतः इन सब रहस्यपूर्ण विषयोंमें शंका करना निरर्थक है ।

पहिले ही कहा गया है कि, श्राद्धकृत्यमें नित्य नैमित्तिक पितरोंकी तृप्ति-साधनके अतिरिक्त समस्त संसारकी तृप्तिसाधन द्वारा व्यष्टि समष्टि सत्ताके एकीकरणके लिये भी अनेक अद्भुतान किये जाते हैं । अब उपसंहारमें उन्ही

सब अनुष्ठानोंके प्रमाणभूत कुछ श्लोक उद्धृत किये जाते हैं । पिएडदान-प्रकरणके अन्तर्गत पोड़श पिएडदान प्रयोगमें जो जो मन्त्र पितरोंके आवाहन तथा सम्बर्धनके लिये कहे जाते हैं, उन सभीमें यह उदार व्यापक भाव भरा हुआ है । इसमें प्रथमतः विद्याये हुए कुशाके ऊपर तिलयुक्त जलके द्वारा पितरोंका आवाहन किया जाता है । यथा :—

ॐ अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
आवाहयिष्ये तान् सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥
ॐ मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
आवाहयिष्ये तान् सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥
ॐ बन्धुवर्गकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
आवाहयिष्ये तान् सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥

इस प्रकारसे अपने कुल, मातामह कुल और बन्धुवर्गके कुलमें जिनकी सद्गति नहीं हुई है, उन पितरोंका आवाहन किया जाता है । तदनन्तर तिल-सहित जलाञ्जलि लेकर नीचेके मन्त्रसे कुशापर देना होता है । यथा :—

ओं आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः ।
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ-मातामहादयः ॥
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ।
आब्रह्मभुचनान्नोकादिदमस्तु तिलोदकम् ॥

इन मन्त्रोंमें समस्त विश्व तथा उसमें अवस्थित देव, मानवादि सकल योनियोंके जीवोंकी तुष्टिके अर्थ प्रार्थना की गई है ।

अतः आर्यशास्त्रविहित श्राद्धकृत्य एक सर्वाङ्गीण मंगलमय अति पवित्र तथा महान् कृत्य है इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं रहा । इस कृत्यके द्वारा नियमितरूपसे सम्बर्द्धित होनेपर पितृगण प्रसन्न होकर गृहस्थोंको क्या क्या देते हैं, इस विषयमें मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है, यथा :—

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पितः ॥ (३२/३८)

श्राद्धतृप्त पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घायु, सन्तति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्षप्रदान करते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने भी कहा है :—

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नृणां प्रीताः पितामहाः ॥ (२७०)

अतः गृहस्थमात्रको इस प्रकार अभ्युदयनिःश्रेयस सहायक पवित्र-कृत्यका नियमित अनुष्ठान करना अवश्य कर्तव्य है। यही आर्यशास्त्रविहित श्राद्धकृत्यका संक्षिप्त रहस्यवर्णन है। अतःपर नीचे तर्पणकी संक्षिप्त विधि बताई जायगी।

‘पितृयज्ञस्तु तर्पणम्’

ऐसा कहकर श्रीमगवान् मनुने पितरोंकी तृप्तिके अर्थ मन्त्रसहित जलादि प्रदानको ही तर्पण कहा है। तथापि जिस प्रकार श्राद्धमें भी देवताओंका आवाहन पूजन होता है, उसी प्रकार तर्पणमें भी देवता ऋषि और पितर तीनोंके ही निमित्त तर्पण किये जाते हैं। यथा शातातपः—

तर्पणन्तु शुचिः कुर्यात् प्रत्यहं स्नातको द्विजः ।

देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम् ॥

शुचिताके साथ प्रत्यह स्नातक द्विजको यथाक्रम देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करना चाहिये।

विशेषतस्तु जाह्नव्यां सर्वदा तर्पयेत् पितृन् ।

न कालनियमस्तत्र क्रियते सर्वकर्मसु ॥

तिथितीर्थविशेषे च गयायां पितृपक्षके ।

निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्तर्पणं तिलमिश्रितम् ॥

विशेषतः गङ्गामे सर्वदा पितरोंका तर्पण करना चाहिये। उसमें कालका नियम नहीं है। विशेष तिथिमें, विशेष तीर्थमें, पितृपक्ष आनेपर गयामें निषिद्ध दिनमें भी तिलमिश्रित तर्पण करना चाहिये। अब आगे संक्षेपसे तर्पणोंकी विधियां बताई जाती हैं।

तर्पण करनेवाला स्नान संख्या आदिसे निवृत्त हो, दो चख धारणकर, मृत्तिका या भस्म लगा तीन आचमन या प्राणायामके अनन्तर कुश तथा जल लेकर—

अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहं षेदबोधितपञ्चमहायज्ञान्तर्गत
देवर्षिपितृतर्पणं करिष्ये ।

इस प्रकारसे संकल्प करे । फिर पवित्र मोटक हाथमें लेकर हाथ जोड़ नीचे लिखे मन्त्रसे देवताओंका आवाहन करे । यथा—

ॐ विश्वेदेवास आगत शृणुता म इमं हवम् । इदं वहिर्निपीदत ।

अनन्तर एक तांबेके पात्रमें पूर्वाग्र कुश धर, पूर्वाभिमुख हो देवतीर्थसे चावलसहित जलकी प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें एक एक अंजलि छोड़ता जाय ।

ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्, ॐ विष्णुस्तृप्यताम्, ॐ रुद्रस्तृप्यताम्,
ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्, ॐ देवास्तृप्यन्ताम्, ॐ इन्द्रांसि तृप्यन्ताम्,
ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्, ... ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम्, ... ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्,
ॐ भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम् ।

अनन्तर हाथ जोड़ कर उत्तराभिमुख बैठ नीचे लिखे मन्त्रसे ऋषियोंका आवाहन करे ।

ॐ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सप्तापः स्वपतोलोकमीयु तत्र जाग्रतो अस्त्रप्रजौ सत्ररुदौ च देवौ ॥

फिर यज्ञोपवीतको कण्ठमें कर जलमें यव मिला एक एक ऋषिको दो दो अंजलि अगले मन्त्रोंसे उत्तरको मुख कर देवे । यथा :—

ॐ सनकस्तृप्यताम्, ॐ सनन्दनस्तृप्यताम्, ॐ सनातनस्तृप्यताम्,
ॐ कपिलस्तृप्यताम्, ॐ आसुरिस्तृप्यताम्, ॐ वोढुस्तृप्यताम्, ॐ पञ्च-
शिखस्तृप्यताम् ।

फिर अपसव्य हो अर्थात् यज्ञोपवीतको दक्षिण स्कन्धके ऊपर तथा वाम बाहुके नीचे करके दक्षिणाभिमुख हो निम्नलिखित मन्त्रसे पितरोंका आवाहन करे । यथा :—

आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । अस्मिन्
यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥

तदनन्तर जलमें तिल मिला पितरोंको तीन तीन अञ्जलि देवे । यथा :—

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम्, ॐ सोमपास्तृप्यन्ताम्, ॐ यमस्तृप्यताम्,
ॐ अर्यमा तृप्यताम्, ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्, ॐ सोमपाः
पितरस्तृप्यन्ताम्, ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, ॐ यमाय नमः, ॐ धर्म-
राजाय नमः, ॐ मृत्यवे नमः, ॐ अन्तकाय नमः, ॐ वैवस्वताय नमः,
ॐ कालाय नमः, ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः, ॐ औदुम्बराय नमः, ॐ
दध्नाय नमः, ॐ नीलाय नमः, ॐ परमेष्ठिने नमः, ॐ वृकोदराय नमः,
ॐ चित्राय नमः, ॐ चित्रगुप्ताय नमः ।

ॐ अद्य अमुकगोत्रः अमुकशर्मा पिता तृप्यतामिदं जलं सतिलं
तस्मै स्वधा नमः ।

ॐ अद्य अमुकगोत्रः अमुकशर्मा पितामहस्तृप्यतामिदं जलं सतिलं
तस्मै स्वधा नमः ।

ॐ अद्य अमुकगोत्रः अमुकशर्मा प्रपितामहः तृप्यतामिदं जलं सतिलं
तस्मै स्वधा नमः ।

अनन्तर ऊपर लिखित रीतिके अनुसार माता, पितामही और प्रपिता-
महीको तीन तीन अञ्जलि देवे ।

अनन्तर तीन तीन अञ्जलि मातामह, प्रमातामह, तथा वृद्ध प्रमातामह-
को देवे और मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामहीको एक एक अञ्जलि देवे,
उसमें मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामहके अञ्जलिदानमें एक चार मन्त्र पढ़े
दो बार वाक्यमात्र पढ़े ।

इसके अनन्तर और संस्यन्धियोंको जिनको जलदान करना उचिन हो,
उनका गोत्र और नाम लेकर एक एक अञ्जलि देनी चाहिए । यह सब कृत्य हो

जानेपर स्नानवस्त्रको वाम भागमें—

ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ।

ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॥

इस मन्त्रसे निचोड़ कर, सब्य हो, आचमन करके, चन्दन अक्षत पुष्प जलमें मिलाकर अर्घपात्रमें या अञ्जलिमें लें :—

ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजसे ।

जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॥

इस मन्त्रसे सूर्यनारायणको अर्घ देकर तीन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके :—

‘ ॐ देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमितः ’

इस मन्त्रसे विसर्जन करना होता है । यही कात्यायनश्रोक्त तर्पण विधि है ।

जिस प्रकार श्राद्धकृत्यके भीतर व्यापक भाव भरा हुआ है, उसी प्रकार तर्पणमें विश्वतृप्तिका अमोघ सम्बन्ध देखने में आता है । इस कारण अपने निकटस्थ तथा दूरस्थ आत्मीयोंके तर्पणके अनन्तर निम्नलिखित नामसे भी तर्पण किये जाते हैं । यथा :—

देवाः सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः ।

पिशाचा गुह्यकाः सिद्धा कुष्माण्डास्तरवः खगाः ॥

जलेचरा भूमिलया वायुधाराश्च जन्तवः ।

प्रीतिभ्रते प्रयान्वाशु महचेनाम्बुनाखिलाः ॥

इस मन्त्रके द्वारा पूर्वमुख होकर देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्माण्ड, तरु, पक्षी तथा जलचर, स्थलचर, व्योमचर सभी जीवोंकी तृप्तिके लिये एक एक अञ्जलि जल देनेकी आज्ञा की गई है । तदनन्तर—

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः ।

तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सञ्जलिं मया ॥

इस मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख होकर नरकस्थ समस्त जीवोंकी तृप्तिके लिये एक एक अञ्जलि जल दिया जाता है । तदनन्तर—

येऽवान्धवा वान्धवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः ।
ते तृप्तिमखिलं यान्तु यथास्मत्तोऽम्बु वाञ्छति ॥

इस मन्त्रसे अवान्धव, वान्धव, जन्मान्तरके वान्धव तथा हरएक जल चाहनेवालेकी तृप्तिके लिये एक एक अञ्जलि जल दिया जाता है । तदनन्तर आदित्यपुराणमें अवसानाञ्जलिरूपसे भी दो मन्त्र कहे गये हैं । यथा—

यत्र कचन संस्थानां क्षुत्तृपोपहतात्मनाम् ।
तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् ॥
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः ।
तेषां तु दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् ॥

यह अञ्जलि जहां कहीं कोई लुधा तृष्णासे पीड़ित जीव हो तथा अपने ही कुलमें लुप्तपिण्ड पुत्रदारवर्जित हो उसकी अन्न तृप्तिके लिये दी जाती है । अवसानाञ्जलिके अन्तमें पितामह भीष्मदेवके लिये भी तर्पण किया जाता है । यथा:—

वैयाघ्रपादगोत्राय सांकृत्यप्रवंराय च ।
गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम् ॥
अपुत्राय ददाम्भ्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे ॥

भीष्मदेवने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होनेके कारण प्रजातन्तुका विस्तार नहीं किया था, इस कारण उनके नप्पारूप ससारके सभी जीव उनकी तृप्तिके लिये तर्पण करते हैं, यही सब विस्तारित तर्पणविधि है । जो इसके करनेमें असमर्थ हो, उसके लिये निम्नलिखित मन्त्रोंसे संक्षिप्त तर्पणविधि भी आर्यशास्त्रमें बतलाई गई है । यथा :—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः ।
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥

अतीतकुलकोटीनां समद्वीपनिवासिनाम् ।
 आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम् ॥
 एकं जलाञ्जलिं दद्यात्कुर्यात् संक्षिप्ततर्पणम् ॥

और भी विष्णुपुराणमें :—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्पृथिविति ब्रुवन् ।
 क्षिपेत्पयोञ्जलीं स्त्रीस्तु कुर्यात् संक्षिप्ततर्पणम् ॥

इस मन्त्रसे आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त समस्त विश्वके निखिल प्राणियोंकी तृप्तिके लिये एक अञ्जलि या तीन अञ्जलि जल देनेकी आज्ञा की गई है। यही संक्षिप्त तर्पण है। इन सब तर्पणोंका फल क्या है सो भी शास्त्रमें लिखा है। यथा :—

एवं यः सर्वभूतानि तर्पयेदन्वहं द्विजः ।
 स गच्छेत्परमं स्थानं तेजोमूर्तिमनामयम् ॥

सकल जीवोंकी तृप्तिके लिये नित्य नियमितरूपसे जो तर्पण करते हैं उनको अनामय, तेजोमय, परमधाम प्राप्त होता है। यही आर्यशास्त्राचिहित श्राद्ध तथा तर्पणका वैज्ञानिक रहस्य वर्णन है।

षोडश संस्कार ।

पश्चिम देशके प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विद्वान् हर्वर्ट स्पेन्सर साहबने अङ्गरेजी chance (चान्स = बिना कारण अकस्मात् होना) शब्दके विषयमें कहा है :—

“Chance cannot be the subject of the theory, because there is really no such thing as chance regarded as producing and governing events. The word chance signifies falling (Latin cado to fall). Chance then exists not in nature and cannot co-exist with knowledge; it is merely an expression

as Laplace remarked, for our ignorance of the causes in action and our consequent inability to predict the result or to bring it about infallibly. In nature the happening of an event has been predetermined from the first fashioning of the universe."

(The Principles of Science p. 198)

आकस्मिकता विचारका विषय नहीं हो सकता है क्योंकि किसी घटनाकी उत्पत्ति या सञ्चालनके मूलमें आकस्मिकताका कोई स्थान नहीं है । लाटिन भाषाके अनुसार चान्स या आकस्मिकता का अर्थ 'पतन' है । प्रकृति राज्यमें चान्सका कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान और चान्स यह दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते । जैसा कि लैप्लेस साहबने कहा है हम 'चान्स' शब्दका प्रयोग तभी करते हैं जब कि किसी कार्यके कारणके विषयमें हमें अज्ञता रहता है और इसीसे उसके फलके विषयमें भी हम अनुमान नहीं कर सकते । अन्यथा विश्वरचनाके प्रारम्भसे ही प्रकृतिराज्यमें घटना घटनेके कारण निर्दिष्ट हो चुकते हैं । आर्य शास्त्रका ठीक यही सिद्धान्त है । हम बिना कारण किसी कार्यका होना नहीं मानते । बल्कि कैसे उत्तम कारणका आश्रय लेनेपर अत्युत्तम कार्य हो सकता है यह हम सर्वथा सिद्ध कर देनेको तैयार हैं । संसारमें शिल्पकलाकी सहायतासे जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियां अत्युत्तम सामग्रो तैयार कर लेती हैं, उसी प्रकार वैदिक प्रक्रियाओंके द्वारा मनुष्यको पूर्ण मनुष्य, उत्तम मनुष्य, उत्तम विभूति सम्पन्न स्त्री पुरुष बना देनेका अधिकार आर्यशास्त्र रखता है । इन्हीं अधिकारोंमेंसे एक अधिकारका नाम पोड़श संस्कार है ।

आर्यशास्त्रमें संस्कारोंकी बड़ी महिमा बताई गई है । पोड़श कला-पुष्ट चन्द्रदेवकी पूर्णताके सदृश पोड़श संस्कार द्वारा पूर्णता लाभ करके जीव जीवत्व छोड़ ब्रह्मत्व पदपर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है । शास्त्रमें लिखा है:—

चित्रं क्रमाद् यथानेकैरंगैरुन्मील्यते शनैः ।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात् संस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

लेखनीके बार बार फेरनेसे जिस प्रकार चित्र सर्वाङ्ग सम्पूर्ण होता है,

उसी प्रकार विधिपूर्वक संस्कारोंके अनुष्ठान द्वारा ब्राह्मणगुण विकसित होता है । श्रीभगवान् मनुने कहा है :—

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥

गार्भेर्होमैर्जातकर्मचौदमौञ्जीनिवन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया स्मृतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (२ य अध्याय)

वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्म द्वारा द्विजगणका शरीरसंस्कार करना चाहिये, जो कि इहलोक तथा परलोकमें पवित्रकारी है । गर्भसमयके तीनों संस्कारोंमें तथा जातकर्म, चूडाकर्म और उपनयनादि संस्कारोंमें अनुष्ठित होमोंसे बीज तथा गर्भवासजन्य प्राप्त अपवित्रता नष्ट हो जाती है और वेद-मन्त्रोंके प्रभावसे अन्तःकरणमें शुभ संस्कारोंका उदय होता है । वेदारम्भ संस्कार द्वारा प्राप्त वेदोंके स्वाध्याय, व्रत तथा होमोंसे, त्रयी विद्याके ज्ञानसे, योगानुष्ठानसे, विवाह द्वारा सन्तानोत्पत्तिसे और पञ्च महायज्ञ तथा अग्नि-ष्टोमादि यज्ञोंसे द्विजशरीर ब्रह्मप्राप्तियोग्य बनाया जाता है । इस प्रकारके संस्कारोंका साधारण फल मन्वादि स्मृतिकारोंने बताया है । इनके पृथक् पृथक् फल स्मृतिसंग्रहमें विशेष रूपसे बताये गये हैं । यथा—

निषेकाद् वैजिकं चैनो गार्भिकश्चापमृज्यते ।

क्षेत्रसंस्कारसिद्धिश्च गर्भाधानफलं स्मृतम् ॥

गर्भाद् भवेच्च पुंसूतेः पुंस्त्वस्य प्रतिपादनम् ।

निषेकफलवज्ज्ञेयं फलं सीमन्तकर्मणः ॥

गर्भाम्बुपानजो दोषो जातात् सर्वोऽपि नृश्यति ।

आयुर्वर्चोऽभिवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहृतेस्तथा ॥

नामकर्मफलं त्वेतेत् समुद्दिष्टं मनीषिभिः ।

सूर्यावलोकनादायुरभिवृद्धिर्भवेद् भुवा ॥

निष्क्रमादायुः श्रीवृद्धिरप्युद्दिष्टा मनीषिभिः ।
 अन्नाशनान्मातृगर्भमलाशादपि शुद्ध्यति ॥
 बलायुर्वचोवृद्धिश्च चूडाकर्मफलं स्मृतम् ।
 उपनीतेः फलं त्वेतद् द्विजतासिद्धिपूर्विका ॥
 वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धिः ऋषिभिरीरिता ।
 पत्न्या सहाग्निहोत्रादि तस्य स्वर्गः फलं स्फुटम् ॥
 ब्राह्माद्युद्वाहसम्भूतः पितृणां तारकः सुतः ।
 विवाहस्य फलं त्वेतद् व्याख्यातं परमर्षिभिः ॥

गर्भात्मान संस्कारसे वीज तथा गर्भ सम्बन्धीय समस्त मलिनता नष्ट हो जाती है और क्षेत्ररूपी स्त्रीका संस्कार भी इसका फल है । गर्भके अनन्तर कन्याशरीर न बनकर पुत्र शरीर बनना पुंसचन संस्कारका फल है । सीमन्तोन्नयन और गर्भाधानका फल एक ही प्रकार है । गर्भमें माताके आहार रसके पीनेका सब दोष जातकर्म संस्कारसे नष्ट हो जाता है । आयु तथा तेजकी वृद्धि और नाम व्यवहारकी सिद्धि नामकरण संस्कारका फल है । निष्क्रमणमें सूर्यनारायणका, समन्त्रक दर्शन करानेसे आयुकी वृद्धि होती है और इस संस्कार द्वारा आयु तथा लक्ष्मीकी भी वृद्धि मानी गई है । माताके गर्भमें मलिनताभक्षणका जो दोष लगता है वह अन्नप्राशनद्वारा शुद्ध हो जाता है । बल, आयु और तेजकी वृद्धि होना चूडाकर्म संस्कारका फल है । द्विजत्व-सिद्धिपूर्वक वेदाध्ययनका अधिकारी होना उपनयनका फल है । विवाहके अनन्तर सपत्नीक अग्निहोत्रादि अनुष्ठान द्वारा स्वर्गलाभ होता है और ब्राह्मादि उत्तम विवाहके फलसे सुपुत्र उत्पन्न होकर पितरोंका त्राण करता है, यह सब विवाहका फल है । इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें संस्कारोंकी परम-महिमा बताई गई है ।

संस्कारोंके इन सब फलोंको प्रधानतः तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं यथा—दोषमार्जन, अतिशयाधान और हीनारूपीति । किसी मलिन प्राकृतिक वस्तुको संस्कृत करनेके लिये इन तीन उपायोंकी आवश्यकता होती है । दृष्टान्तरूपसे खानसे निकले दूध छोड़े पर विचार किया जा सकता है । खानसे निकला

हुआ छोटा अति मलिन होता है । यदि उससे तलवार बनानी हो तो प्रथमतः उसका 'दोषमार्जन' अर्थात् उसे साफ करना होता है । तदनन्तर उसको आगमें नियमित तपाकर उससे इस्पात बनाना और उस इस्पातको तलवारके रूपमें बना लेना 'अतिशयाधान' कहलावेगा । इस तरहसे अतिशयाधान द्वारा तलवार बन जाने पर इसे लकड़ी, सोने या चांदीसे जड़ना या मूठ बनाना 'हीनाङ्गपूर्ति' कही जाती है । इसी प्रकार कपासके वृक्षसे प्राप्त मलिन कपासको साफ करना दोषमार्जन है, उससे कपड़ा कुर्त्ता बना लेना अतिशयाधान है और 'वटन' आदि लगाकर उसे पहिनेने लायक बना लेना हीनाङ्गपूर्ति है । इसी दृष्टान्त, पर संस्कारोंके विषयमें भी समझा जा सकता है कि गर्भाधान, जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कारोंके द्वारा दोषमार्जन होता है, चूडाकर्म, उपनयन आदि संस्कारोंके द्वारा अतिशयाधान होता है और विवाह, अग्न्याधान आदि संस्कारोंके द्वारा हीनाङ्गपूर्ति होती है । इस प्रकारसे संस्कारके अन्तर्गत विविध विधियोंके द्वारा जीव शिवत्व पदवी तक पहुँच सकता है ।

संस्कारकार्यमें अधिकार किसका है ? इस प्रश्नके उत्तरमें महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है :—

ब्रह्मसन्नियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः ।

निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ॥

चार वर्णोंमेंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन द्विज कहलाते हैं । गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त समस्त क्रिया इनकी वैदिकविधिसे समन्वयक होती है । शूद्रवर्णकी समस्त क्रिया अमन्त्रक होती है । यथा यमसंहितामें—

‘शूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ।

शूद्रवर्णके भी ये सब संस्कार बिना वैदिक मन्त्रके होने चाहिये । वेदमें अधिकार न होनेके कारण उनके लिये केवल उपनयन संस्कारका निषेध है ।

संस्कार कितने हैं, इस विषयमें स्मृतिशास्त्रमें मतभेद पाये जाते हैं । कहींपर ४० संस्कार, कहींपर २५ और कहीं १६ संस्कार बताये गये हैं । गौतम-स्मृतिमें ४० संस्कारोंका वर्णन है, यथा—गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, विवाह, पञ्चमहायज्ञ, अष्टकांश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध इत्यादि । महर्षि अक्रियाने २५ संस्कार बताये हैं ।

इसी प्रकार ध्यास स्मृतिमें १६ संस्कार कहे गये हैं । यथा—

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण इत्यादि । इस प्रकार षोडश संस्कारके विषयमें महर्षियोंके मतभेद रहनेपर भी निम्नलिखित सोलह संस्कारोंमें समीक्षा अन्तर्निवेश हो जाता है । यथा—

आधानम्, पुंसवनम्, सीमन्तोन्नयनम् ।

जातकर्म, नामकरणम्, अन्नप्राशनम्, चौलम्, उपनयनम् ॥

ब्रह्मव्रतम्, वेदव्रतम्, समावर्त्तनम्, उद्वाहः ।

अग्न्याधानम्, दीक्षा, महाव्रतम्, संन्यासः ॥

ये ही मीमांसादर्शनके अनुसार षोडश संस्कार हैं । इनमेंसे प्रथम ८ संस्कार प्रवृत्ति सम्बन्धीय और दूसरे ८ संस्कार निवृत्ति सम्बन्धीय हैं । क्योंकि श्रीभगवान् मनुने 'ब्राह्मीय क्रियते तनुः' इत्यादि शब्दोंके द्वारा संस्कारका लक्ष्य जीवशरीरको ब्रह्मत्वलाभ योग्य बनाना कहा है और यह ब्रह्मत्वप्राप्ति 'त्यागैकैःऽमृतत्वमानशुः' इत्यादि वेदमन्त्रोंके द्वारा निवृत्तिकी पराकाष्ठामें ही होना सम्भव है, इस कारण मीमांसादर्शनके षोडश संस्कारविभाग जो कि प्रवृत्तिनिरोध और निवृत्ति पोषणके विचारसे किया गया है वही जीवात्माकी पूर्णता प्राप्तिके लिये समीचीन जान पड़ता है ।

अब नीचे षोडश संस्कारोंका क्रमशः वर्णन किया जाता है :—

(१) प्रथम संस्कारका नाम गर्भाधान है । पहिले ही कहा गया है कि संस्कारका लक्ष्य ब्राह्मण्यगुणका क्रमविकाश है । गर्भाधान संस्कार इस लक्ष्यकी सिद्धिमें सहायक होता है । सन्तान पितामाताके आत्मा, हृदय तथा शरीरसे उत्पन्न होती है इस कारण पितामाताके स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीरमें जो दोष रहेंगे, सन्तानमें भी वे दोष सक्रामित होंगे । इसी तथ्यको निश्चित करके गर्भग्रहणयोग्यता तथा उपयुक्त कालका निर्णय पूर्वक सन्तानके जन्मके समय जिसमें पितामाताका मन या शरीर पशुभावयुक्त न होकर सात्त्विक देवभावमें भावित हो इस लिये ही गर्भाधान संस्कारका विधान है । श्रीभगवान्ने गीतामें लिखा है :—

“धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।

मनुष्यमें धर्मसे अविरुद्ध काम भगवान्की विभूति है । पितामाता यदि धर्मभावसे भावित होकर केवल धार्मिक प्रजोत्पत्तिके लक्ष्यसे कामक्रियाका अनुष्ठान करेंगे, तभी वह काम धर्माविरुद्ध होगा और उससे संसारका कल्याण होगा । सन्तानोत्पत्तिके समय मातापिताके चित्तमें जिस प्रकार भावका उदय होता है सन्तानका शरीर तथा मन उस भावसे गठित हो जाता है । काम-भावके द्वारा कामुक सन्तान उत्पन्न होती है, वीरभाव तथा वीर पुरुषोंके स्मरण या वीरताकी अधिष्ठात्री देवताके चिन्तन द्वारा वीर सन्तान उत्पन्न होती है, धर्माधिष्ठात्री देवताके चिन्तन द्वारा धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है इत्यादि । इसलिये आर्यशास्त्रका सिद्धान्त है कि पितामाता गर्भाधानके समय अपनेको देवभावमें भावित करें, पति अपनेको प्रजापतिका अंश समझें, पत्नी अपनेको वसुमतीका रूप समझें और देवताओंका चिन्तन पूर्वक गर्भाधान कर्मको सम्पादित करें । गर्भाधानके समय इस प्रकारके मन्त्र आते हैं । यथा—

ॐ पूषा भगं सविता मे ददातु रुद्रः कल्पयतु ललामगुम् । ॐ विष्णुर्योनिं
कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातुते ।

(ऋ. अ. ८. अ. २. व ४२)

अर्थात् पोषणकारी सूर्य और रुद्र योनियोंकी कल्पना करें । व्यापक विष्णु गर्भग्रहणका स्थान दें, देवशिल्पी त्वष्टा रूपका मिश्रण करें, प्रजापति सिञ्चन करें, सृष्टिकर्ता गर्भका संगठन करें । और भी चन्द्रकलाकी देवी गर्भाधान करें, सरस्वती देवी गर्भाधान करें, आश्विनीकुमारगण जिनके अधिष्ठान द्वारा सन्तान आयुः प्राप्त, विनयशील सत्त्वगुणसम्पन्न होती है, वे गर्भाधान करें । इस प्रकारसे देवभाव युक्त होने पर सन्तान अवश्य ही सुलक्षणयुक्त तथा धार्मिक होगी इसमें अशुभात्र सन्देह नहीं है । यही गर्भाधान संस्कारका संक्षिप्त रहस्य है । कालके कुटिल प्रभावसे इस उत्तम संस्कारका अब नामशेष रह गया है । इस संस्कारमें पशुभावका ही प्रादुर्भाव देखा जाता है ।

(२) द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन है । यह संस्कार तथा परवर्ती सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भरक्षा के लिये उपयोगी है । इसलिये गर्भावस्थामें ही ये दो संस्कार किये जाते हैं । मानवी गर्भके विनष्ट होनेके दो समय अनि प्रबल होते हैं, यथा—गर्भधारणके अनन्तर तीसरे महीनेसे लेकर चौथे महीनेके

बीचमें और दूसरा छुटे महीनेसे लेकर आठवे महीनेके बीच में । अतः इन दोनों समयोंमें विशेष सावधानताके साथ गर्भिणीके गर्भरक्षाकी आवश्यकता होती है । इसीलिये शिशुके गर्भमें रहते समय इन दोनों संस्कारोंका विधान है ।

पुंसवन संस्कार सीमन्तोन्नयनसे पहिले किया जाता है । इसका समय गर्भग्रहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है । पुंसवनका अर्थ है, पुरुषसन्तानको उत्पन्न करना । गर्भाशयमें स्थित गर्भसे पुत्र होगा या कन्या होगी, इसका निश्चय चौथे महीने तक नहीं होगा, क्योंकि साधारणतः चौथे महीनेके पहले स्त्री या पुरुषका चिह्न नहीं होता इस कारण स्त्री या पुरुषका चिह्न प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कारका विधान है । साधारणतः सभी देशकी स्त्रियाँ कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करती हैं, विशेषतः भारतकी स्त्रियाँ पुत्र सन्तानकी बहुत ही इच्छा करती हैं, इसलिये पितरोंके तृप्त्यर्थं वृद्धिआह्न तथा माङ्गलिक हवनदि समाप्त करके जब पति मन्त्रपाठ पूर्वक गर्भिणीसे कहता है कि—“मित्रावरुण नामक दोनों देवता पुरुष हैं, अश्विनीकुमार नामक दोनों देवता पुरुष हैं और अग्नि वायु ये भी दोनों पुरुष हैं । तुम्हारे गर्भमें भी पुरुषका आविर्भाव हुआ है ।” तब गर्भिणीका हृदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठता है । इस आनन्दसे उस समयका अत्यन्त वमन आदिसे उत्पन्न अ्रवसाद एव भीति और आलस्य आदिसे उत्पन्न विषाद मिट जाता है और गर्भपोषणका बल फिरसे आ जाता है । पुंसवनमें दो बटके फलोंको उर्द और यवके साथ गर्भिणीकी नासिकामें लगाकर सुघानेकी व्यवस्था है । सुश्रुतादि आयुर्वेद शास्त्रमें उसमें योनिदोषनाश तथा गर्भरक्षाकी शक्ति बताई गई है । मीनोपयोगी उत्तम स्थूल शरीर प्रदान करना इस संस्कारका लक्ष्य है, यही इसकी विशेषता जाननी चाहिये ।

(३) तीसरे संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन है । इसका भी प्रयोजन गर्भ रक्षा करना है । गर्भग्रहणके बाद छुटे या आठवे महीनेमें यह संस्कार किया जाता है । इसका मुख्यकर्म गर्भिणीके सीमन्तको उखाड़ देना है । सीमन्तके कुछ केश उखाड़ देनेके बाद गर्भिणी स्त्रीको शृङ्गार या सुगन्धादि सेवन नहीं करना चाहिये और पुष्पमाला आदिका धारण तथा पतिसहवास नहीं करना चाहिये ।

इस संस्कारमें पति वृद्धिआह्न, चरुपाक आदि कर चुकनेपर एकवृन्त

स्थित दो पके हुए उदुम्बरके फल तथा अन्यान्य कई एक मांगलिक पदार्थोंको रेशमी वस्त्रसे गर्भिणीके गलेमें बाँधकर पहले यह मन्त्र सुनाते हैं—‘तुम इस ऊर्जस्वल उदुम्बर वृक्षसे ऊर्जस्वला बनो । हे वनरूपते ! जैसे पत्तेकी उत्पत्तिसे तुम्हारी समृद्धि होती है, वैसेही इसमें पुत्ररूप परम धन उत्पन्न हो ।’ तदनन्तर कुशगुच्छ द्वारा गर्भिणीके सीमन्तभागके केश उखाड़ते समय पति कहते हैं—‘जिस प्रकार प्रजापतिने देवमाता अदितिका सीमन्तोन्नयन किया था, उसी प्रकार इस गर्भिणीका सीमन्तोन्नयन कर इसके पुत्र पौत्रादिकोंको मैं जरा-बस्था पर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ ।’ तदनन्तर पौर्णमासी देवता आदिसे भी इसी प्रकार प्रार्थना, सघृत चरु प्रदर्शन आदि कई एक क्रियायें हैं जिनसे गम-पोषण, भावी सन्तानका कल्याण तथा गर्भदोष नाश होता है । गर्भावस्थामें स्त्रीके प्रसन्न तथा कामादिचेगशून्य रहने पर सन्तान अच्छी, धार्मिक और दीर्घायु होती है, इसी लिये सीमन्तोन्नयनमें ऐसी विधियाँ हैं ।

(४) चतुर्थ संस्कारका नाम जातकर्म है । यह सन्तानके भूमिष्ठ होते ही किया जाता है । इसका कार्य यह है कि पिता पहले यव और चावलके चूर्ण द्वारा और तत्पश्चात् सुवर्ण द्वारा घिसे हुए मधु और घृतको लेकर सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें लगाता है । इस समय पढ़नेका मन्त्र यह है—‘यह अन्न ही प्रज्ञा है, यही आयु है, यही अमृत है, तुमको ये सब प्राप्त हों । मित्रावरुण तुम्हें मेधा दें । अश्विनीकुमार तुम्हें मेधा दें । बृहस्पति तुम्हें मेधा दें ।’

इस मन्त्रमें अन्नके लिये एक बार प्रार्थना है और उसीका सूचक चावल और यवका चूर्ण चखाना है, क्योंकि अन्नके द्वारा ही शरीरकी रक्षा होती है और शरीर रक्षा ही प्रथम धर्मसाधन है । तदनन्तर मेधाके लिये देवताओंसे बार बार प्रार्थना है क्योंकि इसीसे जीव आगेके जीवनमें सब प्रकारकी उन्नतिका अधिकारी हो सकता है । गर्भसे निकलते समय अत्यन्त कष्ट होनेसे और महा-मायाके मोहके कारण भूमिष्ठ शिशुकी गर्भस्थ स्मृति लुप्त हो जाती है । उसी स्मृतिको पुनः लानेके लिये यह मेधा-जननप्रक्रिया की जाती है ।

सुवर्णसे घिसे हुए घृत और मधुको सन्तानकी जिह्वापर लगानेमें अनेक गुण हैं । सुवर्ण वायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको साफ करता है और रक्तकी ऊर्ध्वगतिके दोषको शान्त करता है । घृत शरीरमें तापको बढ़ाता है, बलकी रक्षा करता है और खुलासा दस्त लाता है । मधु मुखमें ‘तार’ का सञ्चार

करता है, पित्तकोषकी क्रियाको बढ़ाता है और कफदोषको दूर करता है, अर्थात् यह क्रिया वायुदोषकी शान्तिका, गलनालिका, उदर और आँतोंको सरस बनानेका तथा मलमूत्र निकलने और कफके कम करनेकी क्रिया है। प्रसवकी यन्त्रणाके कारण सद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको जाती है, उसके शरीरमें कफका दोष अधिक हो जाता है और उसकी आँतोंमें एक प्रकारका काला काला मल सञ्चित रहता है, उसी मलके न निकलनेसे अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ उपजती हैं। इसलिये डाक्टर लोग भी सद्योजात शिशुके लिये मधुमिश्रित रेड़ीके तेलकी व्यवस्था करते हैं। किन्तु सुवर्णसे मधुमिश्रित घृत परण्डतेलकी अपेक्षा अधिक उपकारी होता है। इसी लिये आर्यशास्त्रमें ऐसी व्यवस्था है। इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात् पितृ-मातृ-शरीरज कई एक दोषोका भी नाश होता है, ऐसा आर्यशास्त्रका सिद्धान्त है।

(५) पञ्चम संस्कारका नाम नामकरण है। सन्तानके उत्पन्न होनेके अनन्तर दस रात्रियाँ बीतनेपर उसका नाम रखना होता है। दस रात्रि छोड़ कर नामकरणका तात्पर्य यह है कि सूतिकागृहमें जितने लड़की लड़के मरते हैं उनमेंसे लगभग तीन भाग प्रथम दस रात्रियोंमें ही मर जाते हैं। इसी लिये प्रथम दस रात्रि छोड़ दी गई है। नामकरण संस्कारमें शिशुके जन्मग्रह, नक्षत्र तथा अन्धान्य देवताओंके उद्देश्यसे हवनकर पिताको बालक का नाम कह देना चाहिये। उसमें निम्न लिखित अर्थका मन्त्र है—“तुम कौन हो ? तुम्हारी क्या जाति है ? तुम अमृत हो। हे अमृत ! तुम सूर्य्य सम्बन्धीय मासमें प्रवेश करो। हे अमृत ! सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करावें। दिन, रात्रिमें प्राप्त करावे। दिन और रात्रि, पक्षमें प्राप्त करावे। पक्ष, पूर्णमासमें प्रवेश करावें। मास, ऋतुमें प्रवेश करावे। ऋतु सम्बत्सरमें और सम्बत्सर शतवर्षकी सीमा तक पहुँचावे।” इस प्रकारसे दृढ़ मंत्रद्वारा आत्माका अमृतत्व प्रतिपादन करके सन्तानके लिये अति दीर्घजीवनकी आशा तथा प्रार्थना की गई है। नामकरण संस्कार द्वारा नामकी भिन्नताके अनुसार जातिका भी निर्णय हो जाता है। नामके साथ भावका सम्बन्ध है, इसी लिये वर्णभेदसे नामभेद होने पर उसके द्वारा नामी अपने वर्णानुसार उन्नत भावको लाभ करते हैं। नामके द्वारा अमृत ब्रह्मके साथ सम्बन्ध मिलाना और शतायुके लिये प्रार्थना भी अन्तःकरणमें बलवृद्धि तथा आयुवृद्धिका कारण बनता है।

(६) षष्ठ संस्कारका नाम अन्नप्राशन है। पुत्र हो तो छठे या आठवें महीने और कन्या हो तो पांचवें या सातवें महीने यह संस्कार करना चाहिये। इसके द्वारा खाद्यपदार्थके निर्दिष्ट हो जानेसे अन्नसङ्करता दोषका निराकरण होता है। अन्नप्राशनके लिये शुभ दिन देखना होता है। वृद्धिआद्य कर चुकनेपर पिता सन्तानको गोदमें लेकर बैठे और माता वाम भागमें बैठे। तब पिता मन्त्र पढ़ता हुआ हवन करे और फिर सन्तानके मुखमें अन्नका ग्रास दे। “अन्न ही सकल जीवों का रक्षक है, अन्नपति सूर्यदेव अन्नदान तथा मङ्गलदान करें।” इत्यादि इत्यादि भावार्थबोधक मन्त्र इसमें पढ़े जाते हैं। माताके गर्भमें मलिनता भक्षणका जो दोष लगता है वह अन्नप्राशनसे शुद्ध हो जाता है। अन्नको उपनिषद्में ब्रह्म कहा गया है, इसलिये प्रथम अन्नग्रहणमें ब्रह्मचर्य, बल, आयु, अन्तःकरणकी शुद्धिका सम्बन्ध स्थापन होकर ब्रह्मभावका उद्बोधन हो यह भी इस संस्कारका लक्ष्य है।

(७) सप्तम संस्कारका नाम चूड़ाकरण है। इसका मुख्य समय शिशुका तीसरा वर्ष है और इसमें प्रधान कार्य केशमुण्डन है। गर्भावस्थामे जो केश उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिखा तथा संस्कारका पात्र बनाया जाता है। इसीलिये कहा गया है कि चूड़ाकरण द्वारा अपात्रीकरण दोषका निराकरण होता है।

आद्य, हवनदि करनेके बाद सूर्यका ध्यान करते हुए निम्न लिखित भावके मंत्र इस संस्कारमें पढ़ने होते हैं; यथा—“जिस सुधिति अर्थात् जुरेके द्वारा सूर्यने बृहस्पतिका केशमुण्डन किया था, वायुने इन्द्रका मुण्डन किया था उसी ब्रह्मरूपी सुधिति द्वारा मैं तुम्हारा केशमुण्डन करता हू। तुम्हे आयु, तेज, बल आदि प्राप्त हो। इत्यादि।

चूड़ाकरण संस्कारमें शिखा रखकर बाकी केश काट दिये जाते हैं और इससे आयु, तेज, बल, ओज आदिकी प्राप्ति होती है जैसा कि दीर्घायुष्टाय वलायै वर्चसे’ ‘शक्त्यै शिखायै षषट्’ इत्यादि वेद मन्त्रोंके द्वारा प्रमाणित होता है। अब शिखा रखनेके साथ इस प्रकार नामका क्या सम्बन्ध है सो ही वैज्ञानिकरूपसे विचार करने योग्य है।

शिखा रखनेकी प्रथा और शिखाहीन सिरकी निन्दा केवल आर्यशास्त्रमें ही नहीं है, अधिकन्तु अति प्राचीन कालसे अन्यान्य जातियोंमें भी प्रचलित थी।

Strength was supposed to be in the hair and the cutting of it off brought weakness to the body. Criminals who refused to confess even under torture, have done so when their hair was cut off. So Sampson was powerless when his locks were cut off. In ancient Israel mourners cut off their hair to make the head bald. Amos, in pronouncing a doom on Israel, says 'baldness shall be on every head' and Ezekiel also speaks of the time when baldness shall be on all heads.' You shall not cut yourselves nor make any baldness between your eyes for the dead (Dent XIV, I.) केशमें बल है और शिरोमुण्डनसे दुर्बलता आवेगी, ऐसी धारणा प्राचीन लोगोंमें थी । अपराधी लोगोंने बहुत क्लेश देने पर भी अपराध स्वीकार नहीं किया, किन्तु सिर मुड़ा देने पर कर डाला ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । सैम्पसनकी जब शिखा काट दी गई तो वह शक्तिहीन होगया था । प्राचीन इस्रेलमें शोक मनानेवाले लोग केश मुड़ा देते थे । एमस्ने इस्रेल पर अभिसम्पत् करते समय कहा था कि 'सबके सिर मुड़ जायेंगे ।' और इज्जैकेलने भी कहा है कि वह समय आवेगा जब सब लोग सिर मुड़ा कर कमजोर हो जायेंगे । लोगोंको केश मुड़ाकर दुर्बल नहीं होना चाहिये और मृत व्यक्तिके लिये भी ऐसा नहीं करना चाहिये । इत्यादि प्राचीन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि किसी समय पृथ्वीकी अनेक जातियोंमें शिखा रखनेकी रीति प्रचलित थी । और शिखाके साथ बल रक्षाका सम्बन्ध लोग मानते थे । अब इसके वैज्ञानिक रहस्यपर विचार किया जाता है ।

केश क्या वस्तु है, पुरुषोंमें अधिक केश और स्त्रियोंमें कम केश क्यों उपजता है, इस विषयमें स्त्रीप्रकृति और पुरुषप्रकृतिके भेद बताते हुए पश्चिमी विद्वानोंने कहा है.—

In the metabolic rhythm of life, Katabolic surplus of men leads to its corresponding secondary sex-expressions, primarily in the growth of hair on the cheeks and the breast, while the anabolic surplus of the women does not put on similar expressions but expends itself as periodic menstrual discharge

or the feeding of the foetal growth or her lactation. Preponderant Katabolic organism can be distinguished from the preponderant anabolic one from the biological evidence that while the former is "active and roaming, is a hunter for his partner and is an expender of energy, the latter is passive and sedentary, one who waits for her partner and is a consumer of energy. The masculine activity tends to a greater power of maximum effort, of scientific insight, of cerebral experiment with impressions and is associated with an unobservant or impatient disregard of minute details, but with a stranger grasp of generalities. The feminine passivity is expressed in greater patience, more open-mindedness, greater appreciation of subtle details and consequently what we call more rapid intention. (Sex, Home University Series P.)

स्त्री और पुरुषके जीवनमें यौवनके आते समय पुरुषशक्तिका विकास मुख, छाती आदि स्थानों में केशनिर्गमके द्वारा होता है, किन्तु स्त्रियोंमें ऐसा न होकर उनकी शक्तिका विकास मासिक ऋतुधर्म, स्तनोंमें दूध तथा जरायुकी वृद्धि द्वारा होता है। पहिलीको अङ्गरेजीमें 'कैटाबलिक' और दूसरीको 'एनाबलिक' कहते हैं। इन दोनोंके भेदसे स्त्रीपुरुषोंकी प्रकृतिमें भी बहुत कुछ भेद पाया जाता है यथा—पुरुष स्वयं क्रियाशील, अपनी अर्द्धाङ्गिनीका दूढ़ने वाला और अपनी शक्तिका लय दूसरेके लिये करनेवाला है, स्त्रीमें स्वयं क्रियाशीलता नहीं है, वह अपने सहचरके लिये निश्चेष्ट होकर प्रतीक्षा करनेवाली है और शक्तिको अपने भीतर जमाये रखती है। पुरुषमें स्वयं क्रियाशीलता होनेसे ज्ञानविज्ञानराज्यमें उसका अधिक प्रवेश रहता है, उसके मस्तिष्कमें बाहिरी वस्तुका संस्कार अधिक जमाता है, और वह किसी विचारके मामूली पदमें न घुसकर, विचार शृङ्खलाको एकड़ता हुआ साधारण सिद्धान्त पर पहुँचता है। स्त्रीजातिमें स्वयं कर्तृत्व न होनेसे अधिक धैर्य होता है, वह अपने विश्वासपात्रके समीप अधिक खुले दिल बन जाती है, किसी भी विचारके मामूली तह तक पहुँचती है, और इसी कारण प्राकृतिक मनोवेग, प्राकृतिक प्रेरणा आदि उसमें पुरुषसे अधिक होती है। इस

प्रकारसे स्त्री-पुरुषोंके स्वभावमें भेद पाये जाते हैं । प्रकृत विषय केश निर्गमके सम्बन्धका है । जब यौवन विकाशके साथ केश निर्गमका सम्बन्ध है तो जिस प्रकार किसी वृक्षकी शाखा काटनेसे उसमें नवीन शाखा निकलनेका वेग बढ़ता है उसी प्रकार प्रतिदिन या प्रायः केश काटते या हजामत बनाते रहनेसे भीतरी कामशक्ति स्नायुओंमें अधिक प्रकट होती है । यही कारण है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी आदियोंके लिये केश धारणकी विधि शास्त्रमें बतलाई गई है । केश धारण करनेसे कामसम्बन्धी नसोंका वेग स्वभावतः घट जाया करता है ओर मनुष्य सहज ही सथमी बन सकता है । संन्यासी कुटीचक, बहूदक अवस्थाको अतिक्रम करके जब 'हस' अवस्थाको पाता है तो सोऽहं भावमें कामकी चिन्ता ही नहीं रहती है, इसी कारण दण्डोस्वामी केश मुण्डन कराते हैं । गृहस्थ दशमें समस्त केश रखना अनुविधाजनक है इसलिये 'गोचुर' की तरह सिरके ऊपर भागमें केश रखकर बाकी मुड़ा देनेकी विधि शास्त्रोंमें पाई जाती है । इसमें कई एक लाभ हैं । गोचुरमें सिरके सामनेका कुछ अंश और पीछे का कुछ अंश ढक जाता है और वही शिखाके रूपमें सिरके ऊपर रहता है । योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसार सिरके सामनेके उस अंशके नीचे ब्रह्मरन्ध्र और ब्रह्मरन्ध्रके ठीक ऊपर सहस्रदलकमलमें परमात्माका केन्द्रस्थान है । और डाक्टरों सायन्सके सिद्धान्तानुसार सिरके पीछेके उस अंशमें अर्थात् ठीक उसके नीचेके brain cell या मस्तिष्क भागमें कामका केन्द्रस्थान है । अतः इन दोनों अंशोंमें शिखा-स्थानमें केशके रहनेसे पूर्ववर्णनानुसार आत्मिक शक्ति बनी रहेगी और चिन्ता-शक्ति दबी रहेगी, यह निश्चय है । यही कारण है कि भिन्न भिन्न जातियोंमें और विशेषतः आर्यजातिमें शिखाके साथ बल, ब्रह्मचर्य, आयु, तेज रक्षाका सम्बन्ध बताया गया है । केवल इतना ही नहीं गोचुर शिखा रखनेसे व्यापक ब्रह्मके केश-द्वारा शक्तिका यथेष्ट आकर्षण भी होता है । पश्चिमी परिद्वित भिक्टर ई क्रोमर (Victor E. Cromer) ने जो भ्रिल् नामक ओजः शक्तिका आविष्कार किया है उसके विषयमें वर्णन करते करते एक स्थान पर उन्होंने यह लिखा है—

“In meditation one receives the vitalic influx While concentrating one pours it out. If one, however, concentrates one's mind upon God there is an outgoing and an inflowing process set up. The concentration of the mind upwards sends

a rush of this force through the top of the head and the response comes as a fine rain of soft magnetism. These two forces cause a beautiful display of color to the higher vision. The out pouring from above is beautiful beyond description "

(Vril—Kalpaka)

ध्यानके समय ओजः शक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तु पर चिन्त एकत्र करनेसे ओजः शक्ति उसकी ओर दौड़ती है। यदि परमात्मा पर चिन्त एकत्र किया जाय तो मस्तकके ऊपर शिखाके रास्तेसे ओजः शक्ति प्रकट होती है और परमात्माकी शक्ति उसी पथसे अपने भीतर आया करती है। सूक्ष्म-दृष्टिसम्पन्न योगी इन दोनों शक्तियोंके सुन्दर रङ्गको देख भी लेते हैं। जो शक्ति परमात्मासे अपने भीतर आती है उसकी सुन्दरताकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतः आधुनिक विज्ञानद्वारा भी सिद्ध होगया कि शिखाके द्वारा ऊपरसे शक्ति मिलती है। यही ब्रह्मचर्य, वल, तेज, आयु बढ़ानेका कारण है। परमहंस संन्यासी सदा ही ब्रह्मसे मिले रहते हैं इसलिये उन्हें पृथक् रूपसे शिखा द्वारा शक्ति खींचनेकी आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी जटा और शिखा द्वारा और गृहस्थगण गोलुर शिखा द्वारा इस शक्तिका ग्रहण करते और अपनी आध्यात्मिक तथा आधिदैविक उन्नति प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय शिखा-धारण, शिखामार्जन, शिखास्पर्श, शिखावन्धन इत्यादि प्रक्रियाद्वारा हर समय सहस्रदलकमलकी ओर ध्यान लगा रहनेसे आत्मा सम्बन्धीय दृष्टि मनुष्यमें अवश्य बढ़ा करती है। यहो सब चूडाकरण संस्कारमें शिखा रखनेका फल है।

पहिले ही कहा गया है कि बार बार बाल छांटते या डाढ़ी मूँछ मुड़ाते रहनेसे 'कैटावलिक' उत्तेजना द्वारा काम सम्बन्धी नसोंमें उत्तेजना फैलती है। इसलिये ऐसे मनुष्य प्रायः विषयी हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थूल शरीरके सुन्दर बनानेमें मन लगा रहनेसे मनुष्य आत्मोन्नतिको खोकर विषयविलासी ही बने रहते हैं। इसी कारण जब चार्हे केश न कटवाकर किसी विशेष तिथिमें मुण्डनकी विधि आर्यशास्त्रमें लिखी है। इन तिथियोंके विषयमें लिखा है—
"The removal of hair and nails at the prescribed times helps the conservation and absorption of powers shed by the stars and the heavenly aspects of the days and the hours. The

ancient Munis have also thought that at the prescribed times of shaving the hair and nails are lifeless, their psychic connection with the individual is not active, but is dormant; if they even fall into the hands of evil workers, they are useless with them. But if at forbidden times we do shaving, it acts contrarivise" (The Science and Religion of shaving—Sanatanist) ठीक तिथि पर केश या नख काटे जाय तो उस समयके तारे तथा दिनाभिमानी देवतासे शक्ति प्राप्त होती है । इसके सिवाय उक्त तिथि या समय पर नख केशमे जीवन नहीं रहता है अर्थात् मनुष्यशरीरके साथ उनका सूक्ष्म चेतन सम्बन्ध नहीं रहता है । इस कारण ऐसे समयपर केशमुण्डनद्वारा 'कैटावलिक' नसोंकी उत्तेजना भी नहीं होती है और यदि ऐसे नख या केश किसी जादूगरके हाथमें पड़ जाय तौभी उसका दुरुपयोग वह नहीं कर सकता है । किन्तु बिना वार, तिथि, नक्षत्रके विचारे जब चाहे केश नख काटते रहनेसे यह सभी विपत्तियां हो सकती है । यही सब शिक्षा तथा केशके विषयमें रहस्यपूर्ण विज्ञान है ।

स्त्रियोंके लिये केश काटनेकी विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका आशक्तिकविकाश ऋतुधर्म, दूध, जरायु आदि द्वारा होता है । इसलिये यदि स्त्रियां अपने प्राकृतिक धर्मको छोड़कर, पुरुषोंकी तरह केश कटवाना प्रारम्भ करेगी जैसा कि आजकल पश्चिमी विलासिनियोंमें कही कहीं देखा जाता है, तो प्रकृति-विरुद्ध आचरणका यह फल होगा कि 'कैटावलिक' प्रेरणा उनमें जबर-दस्ती बढ़ानेपर उनकी 'एनावलिक' प्रेरणा अर्थात् स्त्रीसुलभ शक्ति घट जायगी और उसके प्राकृतिक विकाशमे बाधा पहुंचेगी, जिससे ऋतुधर्म, दूध आदि सभीमे बाधा होकर यह यथार्थ 'मां' बननेसे ही रह जायगी । इनमें मातृभाव नष्ट होकर पुरुषभाव आने लग जायगा और जरायु, प्रसव, मासिकधर्म आदिके विषयमें अनेक प्रकारके रोग इनमें उत्पन्न होने लगेंगे । जैसा कि कितने ही पश्चिमी डाक्टरोंने दुःखके साथ लिखा है :—

Dr. Gillard Thomas, the American Gynaecologist, says that only about 4 per cent of American women proper are physically fitted to become wives and mothers. Dr. Stanley

Hell gives a large body of statistics showing the alarming unfitness of the Anglo-Saxon women for maternity. अमेरिकाके डाक्टर गिलार्ड टोमस्को सम्मतिमें वहाँकी स्त्रियाँ जो पुरुषकी तरह बाल कटवाकर स्थूल व्यायाम करती रहती हैं उनमें केवल ४ फीसदीमें सन्तान पैदा करनेको और मां बननेको शक्ति रह जाती है । इङ्गलैण्डके डाक्टर ट्रेन्ले हाल साहबने बड़ा भारी हिसाब बतवाकर दिखाया और दुःख प्रकाश किया है कि वहाँकी स्त्रियाँ पुरुषभावापन्न होकर 'मां' बननेकी अयोग्य हो रही हैं । इन्हीं सब कारणोंसे आर्यशास्त्रमें स्त्रियोंके लिये पुरुषकी तरह केश काटना, व्यायाम करना आदिका निषेध बतया गया है । इतना तक कि प्रायश्चित्तमें भी उनका केवल ४ अङ्गुल केश काट लेनेकी विधि है, पूरा शिरोमुण्डन नहीं किया जाता है । यद्यपि केश स्त्रियोंके लिये चिलासिताकी वस्तु है परन्तु निवृत्तिके आश्रममें 'पूनावलिक' उत्तेजनाकी आवश्यकता नहीं रहती है इसी कारण वैधव्य दशमें उनके केश पूरा काट देनेकी आज्ञा आर्यशास्त्रमें दी गई है यथा 'विधवा-कवरी-बन्धो भर्तृबन्धाय जायते' इत्यादि ।

पहिले ही कहा गया है कि शिखा रखनेकी रीति प्राचीन कालमें और भी अनेक जातियोंमें प्रचलित थी । हिम्बुजातिके तल्मड् (Talmud) नामक शास्त्रग्रन्थमें शिखा रखनेके विषयमें बहुत कुछ वर्णन है, जिससे यही प्रमाणित होता है कि हिम्बुजाति भी शिखा रखती थी । बार्डबलमें साम्सन एगोनस्टिस् (Samson Agonostis) के विषयमें यह कथा लिखी है कि उनके प्रतापसे और राजागण कांपते थे । इनके मारनेके लिये उन लोगोंने बहुत कुछ प्रयत्न किया किन्तु सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए । अन्तमें उन लोगोंको यह पता लगा कि उनके सिरके ऊपर शिखा है (At last they discovered that all his power lay on account of the tuft on his head) उसीसे उनमें इतनी शक्ति है । नव कौशल करके निद्राकी हालतमें उन लोगोंने उनकी शिखा कटवा दी । प्रातःकाल नीद टूटनेपर उन्होंने देखा कि शिखा कट गई और सभी शक्ति नष्ट होगई । वे शत्रुओंसे भी परास्त हो गये । इसी प्रकार हरिवंश पुराणमें भी एक कथा मिलती है । यथा—गुरु वशिष्ठके एक विश्वविजयी क्षत्रिय शिष्य थे । उनके पितृहन्ता पश्चिम देशके कुछ राजा उनसे अत्यन्त घबड़ाकर वशिष्ठकी शरणमें आये और अपने अपने प्राण बचानेके लिये

वशिष्टजीसे प्रार्थना की । महर्षिजीने करुणापरायण होकर उन्हे प्राणरक्षाका वचन दिया । किन्तु जब उन्हें मालूम पडा कि उनका विजेता अपना शिष्य ही है तो दोनों ओरकी प्रतिहारक्षाके लिये वशिष्टजीने अपने शिष्यसे आज्ञा दी कि इन लोगोंका प्राणघात न करो, किन्तु इनकी शिखा काट लो, जिससे वे सब शक्तिहीन होकर मृतवत् हो जायेंगे । क्षत्रियवीरने गुरु वशिष्टकी आज्ञा मानकर ऐसाही किया । शिखाके साथ बल, वीर्य, स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक उन्नतिका इतना प्रबल सम्बन्ध होनेके कारण ही शिखा धारण हिन्दुका एक उत्तम जातीय चिह्न है । चूड़ाकरण संस्कारमें इस जातीय चिह्नका प्रथम सन्निवेश होता है ।

(२) अष्टम संस्कारका नाम उपनयन है । द्विजातिके बालक इसी संस्कारके द्वारा ज्ञानशिक्षाके लिये शिक्षक आचार्यके समीप उपनीत होते हैं, इसी कारण इसका नाम उपनयन है । द्विजगण इसीके द्वारा द्विजत्वलाभ करते हैं, यथा याज्ञवल्क्यस्मृतिमें :—

मातुरग्रे विजननं द्वितीयं मौञ्जिवन्धनात् ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंका प्रथम जन्म मातृगर्भसे और द्वितीय जन्म उपनयन संस्कार द्वारा होता है, इसलिये वे द्विज कहलाते हैं । उपनयन कालके विषयमें गृह्यसूत्र ओर धर्मसूत्रमें लिखा है :—

वसन्ते ब्राह्मणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यं,

गर्भाष्टमेन्दे ब्राह्मणं गर्भैकादशे राजन्यं गर्भद्वादशे वैश्यम् ।

वसन्त ऋतुमें ब्राह्मण बालकका, ग्रीष्ममें क्षत्रिय बालकका और शरत् कालमें वैश्य बालकका उपनयन कराना चाहिये । गर्भसे आठवें वर्षमें ब्राह्मण बालकका, ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका और बारहवें वर्षमें वैश्य बालकका उपनयन होना चाहिये । उपनयनमें ऋतुका विचार वर्षोंके प्रकृति विचारसे ही किया गया है । 'ऋतूनां कुसुमाकरः' कह कर श्रीभगवान्ने वसन्तमें अपनी दैवी विभूति बताई है, अतः ब्राह्मण बालकके लिये यही ऋतु ठीक है । निदाघका उच्चाप, सूर्यकी शक्ति क्षत्रिय प्रकृतिके अस्तकूल है और शरत्कालकी पोषण शक्ति वैश्य प्रकृतिके अस्तकूल है । अष्ट ऋतुओंके साथ वैवराज्यमें ब्राह्मण वर्षोंका मेल है

अतः आठवें वर्षमें ब्राह्मण बालकका उपनयन ठीक है। रुद्रप्रकृतिके साथ क्षत्रिय प्रकृतिका मेल है और पोषणशक्तिसम्पन्न सचिताके साथ वैश्य प्रकृतिका मेल है। अतः ११वें वर्षमें क्षत्रियका और १२वें वर्षमें वैश्याका उपनयन होता है।

शूद्र वर्णका वेद मन्त्रमें अधिकार नहीं है अतः उपनयन संस्कारमें भी अधिकार नहीं रक्खा गया है। वेद मन्त्रके विषयमें यह तथ्य है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित् आदि भेदसे मन्त्रोंका उच्चारण वही मनुष्य कर सकता है जिसमें कोई शारीरिक असम्पूर्णता या कण्ठकी असम्पूर्णता न हो। नहीं तो महाभाष्यके प्रमाणानुसार अशुद्ध या स्वरवर्णहीन उच्चारणसे उच्चारण करनेवालेका लाभ न होकर उल्टा हानि होती है। प्राकृतिक जिस भूमिमें शूद्रवर्णका जन्म होता है उसमें शारीरिक असम्पूर्णता निश्चित है अतः वेदमन्त्रोंका स्वर तथा वर्ण युक्त ठीक ठीक उच्चारण उनके द्वारा होना सम्भव नहीं है। और प्रकृति विरुद्ध कार्य करनेसे उनकी हानि होगी। यही कारण है कि पूज्यपाद दूरदर्शी महर्षियोंने उनके लिये वैदिकी व्यवस्था न बताकर पौराणिकी उपासना आदि बताई है। इस विषयमें और भी विचार आगेके किसी प्रबन्धमें किया जायगा।

उपनयन अच्छे आचार्यके द्वारा कराना होता है, उसका लक्षण यथा धर्मसूत्रमें—

‘यस्माद् धर्मानाचिनोति स आचार्यः ।

जिनसे यथासिद्ध धर्मोपदेश प्राप्त हो वे ही आचार्य हैं। महर्षि बृहस्पतिने भी कहा है:—

आचिनोति च शास्त्राणि आचारे स्थापयत्यपि ।

स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

जां वेदादि शास्त्रोंका स्वयं संग्रह करें, शिष्यको आचारवान् बनावें, और स्वयं आचारशील हों उन्हें आचार्य कहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है:—

‘उपनीय ददद् वेदमाचार्यः स उदाहृतः’

द्विजबालकका उपनयन कराकर वेदकी शिक्षा देनेवाले आचार्य कहलाते हैं।

पिता, पितामह, पितृव्य, ज्ञाति या ज्येष्ठभ्राता ये सब श्रेष्ठानुक्रमसे पर पर उपनेता हो सकते हैं। पिताकोही पुत्रका उपनयन करना चाहिये, उनकी

अयोग्यता या अभावमें पितामह कर सकते हैं, उनके अभावमें पितृव्य और उनके भी अभावमें सहोदर ज्येष्ठ भ्राता कर सकते हैं । यदि इनमेंसे कोई भी आचार्य बननेकी योग्यता न रखता हो, तो महर्षि शौनक कहते हैं :—

कुमारस्योपनयनं श्रुताभिजनवृत्तवान् ।

तपसा धूतनिःशेषपाप्मा कुर्याद्द्विजोत्तमः ॥

कुलान्, श्रुतिशास्त्रज्ञ, सदाचारसम्पन्न, तपःप्रभावसे निष्पाप ब्राह्मण द्विजकुमारका उपनयन करा सकते हैं । अब इस प्रकार योग्य ब्राह्मण आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार कार्य कैसे अनुष्ठित होना चाहिये उसकी संक्षेप-विधि क्रमशः नीचे बताई जाती है ।

उपनयनके पूर्व दिन यजमान तथा यजमान पत्नी बालकके साथ मंगल स्नान करके प्रथमतः संकल्प, गोदान और ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप करावे, तदनन्तर गणपतिपूजन, स्वस्तिपुराहवाचन, मातृकापूजन और नान्दीश्राद्धादि विधिपूर्वक करने होते हैं । उसके बाद उपनयनके दिन प्रथमत बालकका तौर कर्म कराकर स्नानान्तर आचार्यके पास लाना होता है । वहांपर ब्राह्मणोंके द्वारा 'आब्रह्मच' इत्यादि मन्त्रोंसे आशीर्वाद हो जानेके बाद आचार्य अपनी दक्षिण दिशामें स्थित बालकसे 'ब्रह्मचार्यसानि' इस वाक्यको कहलावे और स्वयं 'ॐ येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यध्वादमृतम् । तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुष्टाय वलाय वर्चसे ।' इस मन्त्रको पढ़कर बालकको कटिसूत्र तथा कौपिन वस्त्र पहनावे, ब्राह्मण ब्रह्मचारीको शणके, क्षत्रियको अतसीके और वैश्यको ऊनके वस्त्र देने होते हैं और वेही वस्त्र ब्रह्मचर्याश्रममें रहते हैं । तदनन्तर आचमन कराके आचार्य—ॐ-इयं हुरुक्त परिवाधमानां वर्षं पवित्रं पुनर्तीम आगात् । इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्मचारीके जितने प्रवर हों उतनी गांठवाली मूज आदिकी मेखलाको ब्रह्मचारीके कटि भागमें प्रदक्षिण क्रमसे तीन बार लपेटकर बांधे और तत्पश्चात् देशाचारानुकूल यज्ञोपवीतका एक एक जोड़ा और अन्नादि दक्षिणा सहित चौबीस जलपात्र संकल्प करके ब्राह्मणोंको देवे । इसके बाद निम्नलिखित प्रकारसे यज्ञोपवीतका संस्कार करे । प्रथम 'आपोहिष्ठा' आदि तीन मन्त्रोंसे उपवीत पर जलसेचन करके 'ब्रह्मजज्ञानं' इत्यादि तीन मन्त्र पढ़ता हुआ उस पर अग्रुष्ठ घुमावे, पुनः नौ तन्तुओंमें ॐकारादि नौ देवताओंका विन्यास करके यज्ञोपवीतको देखता हुआ दस बार 'तत्सवितुः' आदि गायत्री

मन्त्र पढ़े, और उपयाम मन्त्र पढ़कर सूर्यनारायणको उपवीत दिखावे । तब आचार्य अपने हाथसे ब्रह्मचारीको यज्ञोपवीत देवे और बालक यज्ञोपवीतको अपने हाथ में लेकर—

ॐ—यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् ।

आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनेहामि ।

इस मन्त्रको पढ़कर यज्ञोपवीतको पहने । तत्पश्चात् चिरेदार कपासका वस्त्र 'ॐ युवा सुवासाः' आदि मन्त्र पढ़ते हुए यज्ञोपवीतके तुल्य ब्रह्मचारीको धारण कराना होता है । तदनन्तर आचार्य ब्रह्मचारीको ऊपरसे ओढ़नेके लिये मृगचर्म देवे और—

ॐ मित्रस्य चक्षुर्वरुणं बलीयस्तेजो यशस्विस्थविरं समिद्धम् अनाह-
तस्यं वसनं जरिष्णु परीदं बाह्यजिनं दधेऽहम् ॥'

इस मन्त्रसे ब्राह्मणादिके बालक मृग आदिके चर्मको धारण करें । तदनन्तर आचार्य ब्रह्मचारीको विद्व या पलाशादिका दण्ड देवे और वह ब्रह्मचारी 'ॐ धो मे दण्डः' इत्यादि मन्त्रको पढ़कर आचार्यके हाथसे दण्डको लेवे । दण्ड लेनेके बाद आचार्य अपनी अङ्गलिको जलसे भरकर ब्रह्मचारीको अङ्गलिको उसी जलसे 'आपोहिष्ठा' आदि तीन मन्त्रोंसे तीन बार भरे और आचार्यके पठित प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें शिष्य सूर्यनारायणको अपने अङ्गलिजलसे तीन बार अर्प्य देवे । तदनन्तर 'सूर्यमुदीक्षस्व' कहकर आचार्य ब्रह्मचारीको सूर्य देखनेकहे और ब्रह्मचारी—

ॐ—तच्छत्रुर्देवहितं पुरस्तात् इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ सूर्यनारायणका दर्शन करे । तब आचार्य बालकके दहिने कन्धके ऊपरसे हाथ ले जाकर—

ॐ—मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु ।

मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्या नियुनक्तु मह्यम् ॥'

इस मन्त्रसे उसके हृदयका स्पर्श करे । फिर आचार्य बालकके दहिने हाथको अंगुष्ठसहित पकड़कर कहे—को नामासि—और ब्रह्मचारी—अमुकशर्माः, ॐ भोः—पैसा, प्रत्युत्तर देवे । इसी प्रकार तीन बार दोनों उक्त प्रकारसे कहे । फिर ब्रह्मचारीसे आचार्य कहे—कस्य ब्रह्मचार्यसि, उसपर—ममताः

पेसा उत्तर वालक कहे । तब आचार्य—‘ॐ इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्य-
स्तवाहमाचार्यस्तवासौ’ इस मन्त्रको पढे । मन्त्रके अन्तमें ‘आचार्यस्तव
देवशर्मन्’ इत्यादि प्रकार असौके स्थानमें शर्माद्यन्त ब्रह्मचारीका नाम लेवे ।
तदनन्तर आचार्य—

ॐ प्रजापतये त्वा परिददामि । ॐ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि ।

इत्यादि मन्त्रोंसे हाथ जोड़े हुए बालकको पूर्वादि दिशाओंमें उपस्थान
करावे, मन्त्रोंको आचार्य स्वय पढ़े । पश्चात् कुमार बालक अग्निकी प्रदक्षिणा
क्रमसे पर्युत्क्षण करके आचार्यसे उत्तरमें बैठकर पुष्प चन्दन ताम्बूल और
वस्त्रोंको लेकर ‘ॐ अद्य’ इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्माका वरण करे और पुष्पादि
ब्रह्माके हाथमें देवे । ब्रह्मा पुष्पादिको लेकर ‘वृतोऽस्मि’ कहे । इसके बाद
उपनयन संस्कारमें अनेक कृत्य किये जाते हैं, जो विस्तारभयसे यहांपर नहीं
दिया गया, वे सब संस्कारसम्बन्धीय ग्रन्थोंमें द्रष्टव्य हैं । संस्कारकी समाप्ति
होनेपर आचार्यके लिये ब्रह्मचारीको—तुम ब्रह्मचारो हो, अबसे तुम वेदोक्त
कर्म करनेके अधिकारी हुए हो, तुम ज्ञान, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन, भिक्षा-
चर्यादि अपने शास्त्रोक्त कर्म करोगे, तुम दिनमें नहीं सोया करोगे इत्यादि
इत्यादि उपदेश देनेका और ब्रह्मचारीके लिये प्रतिज्ञापूर्वक उन सबको स्वीकार
करनेका नियम है । इसके बाद आचार्य ब्रह्मचारीको सावित्रो मन्त्रका उप-
देश देते हैं । इसमें आचार्य प्रथमावृत्तिमें प्रणव और व्याहृतियों सहित एक
एक पादका उपदेश करते हैं । द्वितीयावृत्तिमें ऊपर लिखे अनुसार प्रथम
आर्धा ऋचाके साथ प्रणव व्याहृति लगाकर कहलावे, द्वितीयतः पेसे ही तृतीय
पादका उच्चारण करावे और तृतीयावृत्तिमें प्रणव व्याहृतियों सहित पूरे मन्त्र-
का उच्चारण आचार्य करावे, शिष्य साथ साथ कहता जावे । पेसा तीन
बार कहलाकर आचार्य और शिष्य दोनों ‘ॐ स्वस्ति’ कहे । इसके अनन्तर
कुल हवनादि कृत्य किये जाते हैं और सबके अन्तमें प्रथमतः ईश्वर, देवता,
वैश्वानर तथा सूर्यनारायणको अभिवादन करके पश्चात् आचार्यको और तद-
नन्तर क्रमशः माता-पिता तथा अन्यान्य मान्य स्त्री-पुरुषोंको अभिवादन करने-
की विधि है । इसके पश्चात् भिक्षापात्र लेकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो ‘भवति ।
भिक्षां देहि’ क्षत्रिय हो तो ‘भिक्षां भवति । देहि’ और वैश्य हो तो ‘भिक्षां देहि
भवति ।’ पेसा कहकर गृहस्थ स्त्रियोंसे भिक्षा मांग लावे और आचार्यके आगे

उस भिक्षात्रको धरकर उनकी आज्ञानुसार भोजन करे। भोजनकालसे लेकर सूर्यास्त होनेतक मौन रहे, उपनयन संस्कार समयके अग्निको ब्रह्मचारी तीन दिन अवश्य रक्खें, वृत्तने न दें। यही सब संक्षिप्त उपनयन विधि है।

उपनयन संस्कार बहुत ही गूढ़ रहस्यमय है। इसमें ब्रह्मज्ञानके मूल-स्वरूप ब्रह्मचर्यलाम, सत्यज्ञान तथा सदाचारलाम, सत्शिक्षालाम और आध्यात्मिक उन्नतिका सारा तत्त्व भरा हुआ है। नीचे संक्षेपसे इस तत्त्वका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

प्रथम अग्निदेवता, वायुदेवता, सूर्यदेवता, चन्द्रदेवता और इन्द्रदेवतासे सत्य वचन, सत्य सिद्धि, अध्ययन समृद्धि तथा सदाचार लामके लिये प्रार्थना और प्रतिज्ञा की जाती है। तदनन्तर आचार्य शिष्यके प्रति दृष्टिपात करते हुए कहते हैं—हे पञ्चदेव ! तुम इस सुन्दर माणवकको मुझसे मिला दो। हम दोनो बिना किसी विघ्नके परस्पर मिल सकें। गुरु-शिष्यका सम्मिलित होना ही शिक्षाका प्रथम तथा प्रधान अन्तुष्टान है, इस कारण ऐसा विधान है। तदनन्तर माणवक आचार्यसे कहता है—‘मैं ब्रह्मचारी—अर्थात् मैथुनरहित हुआ हूँ। मुझे उपनोत कीजिये, अपने समीप ग्रहण कीजिये’। तदनन्तर दोनों अपने अपने हाथोंमें तृप्तिसूचक जलाञ्जलि भरकर और आचार्य शिष्यको अपने साथ मिलानेके लिये प्रार्थना कर दोनों ही अञ्जलिके जलको एक ही स्थानमें छोड़ देते हैं। जल जैसे जलके साथ मिल जाता है ऐसा ही मानों गुरु-शिष्यका मिलन ही गया। फिर आचार्य अपने दाहिने हाथ से शिष्यके दाहिने हाथको पकड़ते हैं। शिष्य समझना है उसके हाथको जगत प्रसविता सूर्य, स्वास्थ्य विधायक अश्विनीकुमार और पोषणकारा पूषण देवताने ही अपने हाथमें लिया है। ऐसी दशामे आचार्य ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्य-विधायक और पोषक है यह स्पष्ट होगा। फिर आचार्य कहते हैं—‘अग्नि, सविता और अर्यमाने पहले ही हस्तधारण कर तुम्हे ग्रहण किया है। अग्नि-देव ही तुम्हारे आचार्य हैं, तुम मेरे अति प्रियकारी मित्र हो। इस समय सूर्यके आवर्तनके अन्तरूप तुम मेरी प्रदक्षिणा करते हो’। शिष्य जब आचार्यकी प्रदक्षिणा करके उपस्थित होता है, तब आचार्य उसकी नाभिको स्पर्श कर कहता है—‘हे नाभि ! तू विसृष्ट न होना अर्थात् स्थिर रहना। हे अन्तक ! इस ब्रह्मचारीको मैंने तुमको सौंपा है। (नाभिके ऊपरी भागको छूकर)’ हे

वाया । (वाम भागको छूकर) हे सूर्य ! (वक्षःस्थलको छूकर) हे अग्नि ! (दक्षिण अङ्गको छूकर) हे प्रजापति ! यह मेरा मैं तुमको सौंपता हूँ, यह जर-मरणादि किसी दोषको न प्राप्त हो । फिर आचार्य कहते हैं—तुम ब्रह्मचारी हुए हो, हवनके लिये लकड़ो लाओगे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक जलपान करोगे, गुरु शुश्रूपा करोगे, दिनमें शयन न करोगे इत्यादि इत्यादि । ब्रह्मचारीको इन सबके पालनका स्वोकार करना होता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी यथार्थ-ब्रह्मचारी का वेप धारण करता है अर्थात् अङ्गोंके बलय आदि अलङ्कारोंको त्यागकर मेखला, यज्ञोपवीत, अजिन धारण करके गायत्री पाठको ग्रहण करता है । गायत्री पाठके उपरान्त भिक्षाचर्या, गुरुको भिक्षान्न समर्पण और गुरु आह्लासे स्वयं भोजन आदि कर्तव्य विहित है ।

ऊपरके सभी कृत्य गूढरहस्यमय है । (१) जलमें जल मिलनेकी तरह गुरु-शिष्यका मधुमय सम्मिलन कैसा मधुर तथा शिष्यके लिये सर्वाङ्गति-प्रद है । (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकडकर कैसे सुन्दररूपसे जनकत्व, स्वास्थ्यविधायकत्व तथा पोषकत्वका परिचय दिया । (३) किन्तु गुरु अपनेमें इन सब अधिकारोंको स्वीकार करने पर भी स्वयं अभिमानी नहीं हुए, शिष्यके यथार्थ गुरु अग्निदेव है, सो स्पष्ट कह दिया और शिष्यको अपना प्रियकारी मित्र समझा । गुरुका हृदय शिष्यके प्रति जैसा होना चाहिये अर्थात् मिलन-सार, पितृतुल्य तथा निरभिमान मित्रभावापन्न, सो ही प्रकट हुआ । तदनन्तर शिष्यका कर्त्तव्य जो गुरुका ही आवर्त्तन अथवा अनुवर्त्तन करते रहना है, सो तत्कृत्यक सूर्यावर्त्तन द्वारा प्रकाशित हुआ । और यह भी प्रकाशित हुआ कि, शिष्य जैसे वेदोदय सूर्यके स्थानापन्न है वैसे ही गुरु भी सूर्यके आवर्त्तनीय विश्वमूर्ति परमेश्वरके रूप है । उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके शरीरमें विश्वके स्थापनमें प्रवृत्त होकर नाभिदेशमें यमको, नाभिके ऊर्ध्वभागमें वायुको, वाम-भागमें सूर्यको, मध्यभागमें अग्निको और दक्षिण भागमें प्रजापतिको स्थापन किया अर्थात् शिष्यका देह ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ और ऐसा होनेसे ही उपनयन संस्कार पूर्ण हो गया । उसी समय माणवक पूर्ण ब्रह्मचारी हुआ और ब्रह्मचारीका वेप धारण कर शास्त्रविहित अनुष्ठानमें प्रवृत्त हो गया । जो संस्कार ऊद्गुद्गुदेहको विश्वदेह बनाकर जीवत्वको शिवत्वकी ओर ले जानेमें परम सहायक बनता है, वह कितना महान् तथा रहस्यमय है, सो बुद्धिमानगण अवश्य ही समझ सकेंगे ।

यज्ञोपवीतमें जो नव तन्तु और तीन दण्ड होते हैं, उनके भी अतिगूढ़ तात्पर्य है । यथा—

ॐकारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयेऽग्निस्तथैव च ।
 तृतीये नागदैवत्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥
 पञ्चमे पितृदैवत्यं षष्ठे चैव प्रजापतिः ।
 सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च ॥
 सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तुदेवताः ।
 ब्रह्मणोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणीकृतम् ॥
 रुद्रेण दत्तो ग्रन्थिर्वै सावित्र्या चाभिमन्त्रितम् ॥

यज्ञोपवीतके नौ तन्तुओंमें नौ देवताओंका अधिष्ठान है । उनके नौ पृथक् पृथक् गुणोंके साथ यज्ञोपवीत धारण द्वारा द्विजबालक भूषित हो सकते हैं । प्रथम देवता ॐकार-गुण ब्रह्मज्ञान, द्वितीय देवता अग्नि-गुण तेज, तृतीय देवता अनन्त-गुण धैर्य, चतुर्थ देवता चन्द्र-गुण सर्वप्रियता, पञ्चम देवता पितृगण-गुण स्नेहशीलता, षष्ठ देवता प्रजापति-गुण प्रजापालन, सप्तम देवता वायु-गुण बलशालिता, अष्टम देवता सूर्य-गुण प्रकाश और नवम देवता सर्व-देवता-गुण सार्विकता । नवतन्तुयुक्त यज्ञोपवीत धारण द्वारा इन देवताओंका नित्य स्मरण तथा हृदयमें गुणाधान होता है । इसी कारण नवतन्तु धारण विधि है । ब्रह्माने यज्ञसूत्रको बनाया है, विष्णुने त्रिगुणित किया है, रुद्रेने ग्रन्थि दी है और सावित्री देवीने अभिमन्त्रित किया है । ग्रन्थि देते समय इनके स्मरण द्वारा भी शक्ति लाभ तथा ज्ञानलाभ होता है । यज्ञोपवीतका परिमाण ६६ अंगुल होता है, इसका अर्थ यह है कि मानवमान २४ अंगुलका और देवमान ६६ अंगुलका होता है । यज्ञोपवीत पहिन कर वेदव्रत, ब्रह्मव्रत आदिके अनुष्ठान द्वारा मनुष्यको देवत्व और अन्तमें ब्रह्मत्व प्राप्त हो । इसी भावको लक्ष्यमें रखकर देवमानका यज्ञोपवीत बनाया जाता है । इसके सिवाय तीन दण्डके द्वारा काय-दण्ड, वाग्दण्ड और मनोदण्ड, इन तीनों दण्ड अर्थात् संयमकी विधि बताई गई है । काय-संयमके द्वारा ब्रह्मचर्यधारण, तपस्यादि, वाक्संयम द्वारा वृथा-वाक्य या मिथ्यावाक्यपरिहार और मनःसंयम द्वारा त्रिषयोंसे मनको हटाना

यही सब यज्ञोपवीतधारी द्विजमात्रका कर्तव्य है। इस प्रकार उपनयनसंस्कार द्वारा द्विजगणको महान् लाभ होते हैं।

(६) उपनयनके बाद नवम संस्कार ब्रह्मव्रत कहलाता है। इसमें उपनीत अर्थात् आचार्य्यगृहमें आचार्यान्तेवासी द्विज ब्रह्मचर्यव्रतको ग्रहण करके ब्रह्म अर्थात् परमात्माके पथमें अग्रसर होनेके लिये प्रतिज्ञा तथा पुरुषार्थ करते हैं, इसी लिये इस संस्कारका नाम ब्रह्मव्रत है। इसमें ब्रह्मचारीका प्रधान कर्तव्य आचार्य्य-सेवा तथा ब्रह्मचर्य्य-धारण है। बिना गुरुसेवाके कोई भी विद्या फलीभूत नहीं होती है, इसलिये आर्य्यशास्त्रमें गुरुसेवाकी इतनी महिमा बताई गई है, यथा सनत्सुजात में—

आचार्य्योनिमिह ये प्रविश्य,
भूत्वा गर्भं ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।
इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति,
विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम् ॥

आचार्यके समीप जाकर उनकी सेवा द्वारा जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वे इहलोकमें सुपण्डित तथा मरणान्तर परमपदको प्राप्त होते हैं। और भी—

शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत ।
आचार्यतस्तु यज्जन्म तत्सत्यं वै तथामृतम् ॥

पिता माता केवल स्थूल शरीरको उत्पन्न करते हैं, किन्तु आचार्यके द्वारा जो आध्यात्मिक देह उत्पन्न होता है, वही सत्य तथा अमृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद्में भी कहा है—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

परमात्मा तथा गुरुमें जिसकी पूरी भक्ति है, उसीके हृदयमें तत्त्व-ज्ञानका स्फुरण हो सकता है। इस प्रकार आचार्यके चरणोंमें रहकर जो ब्रह्मव्रत पालन किया जाता है, शास्त्रमें उसके चार पाद कहे गये हैं। यथा सनत्सुजातमें—

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव विद्यामाप्नोति यः शुचिः
ब्रह्मचर्यव्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥

भीतर बाहर श्रुति अवलम्बन करके शिष्यवृत्ति द्वारा आचार्यसे जो विद्याजन करना है वही ब्रह्मव्रतका प्रथम पाद है ।

यथा नित्यं गुरौ वृत्तिर्गुरुपत्न्यां तथा चरेत् ।

तत् पुत्रे च तथा कुर्वन् द्वितीयः पाद उच्यते ॥

गुरुके समान गुरुपत्नी तथा गुरुपुत्रमें भी सद्वृत्तिका पालन करना ब्रह्मव्रतका द्वितीय पाद है ।

आचार्येणात्मकृतं विजानन् ,

ज्ञात्वा चार्थं भावितोऽस्मीत्यनेन ।

यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः ,

स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥

आचार्यके द्वारा अपने प्रति उपकारको सम्झकर तथा उनके द्वारा प्राप्त वेदविद्यासे अपनेको सम्भावित जानकर, जो हृदयकी हृष्टता और कृतार्थता है, वही ब्रह्मव्रतका तृतीय पाद है ।

आचार्याय प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि ।

कर्मणा मनसा वाचा चतुर्थः पाद उच्यते ॥

प्राण, धन, मन, वाणी तथा कर्मके द्वारा आचार्यका प्रियानुष्ठान ही ब्रह्मव्रतका चतुर्थ पाद है । इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें ब्रह्मव्रतके चार पाद बताये गये हैं ।

ऊपर कथित चार पादोंकी पूर्तिके लिये आर्यशास्त्रमें ब्रह्मव्रत संस्कारके भीतर उपनीत ब्रह्मचारीके कर्त्तव्यरूपसे अनेक उपदेश किये गये हैं । सब नीचे उनमेंसे कुछ उपदेश उद्धृत किये जाते हैं । महर्षि यमने कहा है—

मेखलाभिनं दण्डमुपवीतं च सर्वदा ।

कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत् ॥

अग्नीन्धनं भैक्षत्र्य्यामधः शय्यां गुरोर्हितम् ।

आसमावर्त्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः ॥

उपवीत ब्रह्मचारी मेखला, कटिसूत्र, कौपीन और कटिसूत्र-सदा धारण करे और इस प्रकारसे समावर्त्तनकालपर्यन्त अग्निसेवा,

भिक्षाचर्या, भूमिशय्या और गुरुका हितानुष्ठान करे । मेखला, कौपीन आदिसे ब्रह्मचर्यरक्षा होती है ।

श्रीभगवान् मनुने कहा है—

वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥

वेदयज्ञशील तथा वर्णाश्रमोचित कर्ममें निष्ठावान् सदाचारसम्पन्न द्विजगणके गृहमें ही ब्रह्मचारी भिक्षाटन करे । महर्षि यमने कहा है—

आहारमात्रादधिकं न क्वचिद्भैक्षमाहरेत् ।

युज्यते स हि दोषेण कामतोऽधिकमाहरन् ॥

आहारके लिये जितना प्रयोजन हो उससे अधिक भिक्षात्र सग्रह नहीं करना चाहिये । इच्छाके वशवर्ती होकर अधिक संग्रहकारी ब्रह्मचारीको दोष लगता है । महर्षि दक्षने कहा है—

न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन ।

एतैः सर्वैः सुनिष्णातो यतिर्भवति नान्यथा ॥

ब्रह्मचारीको स्त्रियोंके विषयमें न चिन्ता करनी चाहिये, न बोलना चाहिये और न सुनना चाहिये । ऐसा होनेसे ही यति हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

यही सब सन्नेपसे वर्णित ब्रह्मव्रतकी विधियाँ हैं । इसका विस्तारित वर्णन किसी दूसरे प्रबन्धमें किया जायगा ।

(१०) षोडश संस्कारोंमें, दशम संस्कारका नाम वेदव्रत है । इसको वेदारम्भ संस्कार भी कहते हैं । ज्योतिषोक्त शुभ दिनमें अपनी शाखाका आरम्भ करके इस संस्कारका अनुष्ठान होता है । महर्षि वशिष्ठने कहा है—

पारम्पर्यागतो-येषां वेदः-सपरिट्टं हणः-।

यच्छाखाकर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा ॥-

जिस कुलमें जो शाखा तथा गृह्यसूत्र व्यवहारपरम्परासे चला आता है, उस कुलमें उसी शाखासे वेदारम्भ होना चाहिये । महर्षि पराशरने कहा है—

वेदस्याध्ययनं सर्वं धर्मशास्त्रस्य चैव हि ।

अजानतोऽर्थं तद्व्यर्थं तुषाणां कण्डनं यथा ॥

साङ्गवेद तथा धर्मशास्त्रोको अर्थसहित पढ़ना चाहिये । अर्थ न समझकर पाठमात्र पढ़ना भ्रूषी कूटनेके समान निष्फल है ।

अब वेदव्रतकालीन शास्त्रोल्लिखित कुछ कर्त्तव्योंके निर्देश किये जाते हैं । शास्त्रमें वेदपाठ तथा अर्थसहित वेदाभ्यासकी भूरि भूरि प्रशंसा पाई जाती है । महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।

यं यं क्रतुमधीयीत तस्य तस्याऽऽप्नुयात् फलम् ॥

वेद ही द्विजातिका परम मुक्तिदायक शास्त्र है । प्रतिशास्त्राके पाठसे अमरोग फलकी उत्पत्ति होती है । स्मृतिसारसमुच्चयमें लिखा है—

वेदो यस्य शरीरस्थो न स पापेन लिप्यते ।

वेदात्मा स तु विज्ञेयः शरीरैः किं प्रयोजनम् ॥

वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ।

तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः ॥

यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपुरुषम् ।

स वै दुर्ब्राह्मणो नाम सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्चान्यत्कर्म वैदिकम् ।

अनधीतस्य विप्रस्य सर्वं भवति निष्फलम् ॥

अनधीतो द्विजो यस्तु शास्त्राणि तु बहुन्यपि ।

शृणोत्याब्रह्मणो नाशं नरकं स प्रपद्यते ॥

नाधीतवेदो यो विप्र आचारेभ्यः प्रवर्त्तते ।

नाऽऽचारफलमाप्नोति यथा गूद्रस्तथैव सः ॥

जिसके शरीरमें वेद है वह पापसे लिप्त नहीं होता है, वह वेदात्मा है, उसके शरीरका क्या प्रयोजन है ? वेदके जितने अक्षर द्विज पढ़े, उतना हरिनाम ही उसने कीर्त्तन किया इसमें सन्देह नहीं । जिस कुलमें तीन पुरुषतक

वेदपाठ नहीं हुआ था कोई वेदज्ञ उत्पन्न नहीं हुए, उसको कर्महीन कुब्राह्मण कुल जानना चाहिये । वेदस्वाध्यायविहीन ब्राह्मणका नित्य, नैमित्तिक, काम्य सभी कर्म निष्फल होता है । जो द्विज अन्यान्य अनेक शास्त्र पढ़नेपर भी वेदका स्वाध्याय नहीं करता है, उसको अधोगति मिलती है । वेदपाठ न करके जो विप्र आचारका अनुष्ठान करता है, उसको उस अनुष्ठानका फल नहीं मिलता है, वह शूद्रतुल्य ही है । इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें वेदपाठकी परम-महिमा वर्णित की गई है ।

मनुसंहिताके चौथे अध्याय तथा अन्यान्य संहिताओंमें वेदपाठमें अनध्यायके दिन बताये गये हैं ।

प्रतिपत्सु चतुर्दश्यामष्टम्यां पर्वणोर्द्वयोः ।

श्वोऽनध्यायेऽद्य शर्वर्या' नाधीयीत कदाचन ॥

दोनों प्रतिपदा, चतुर्दशी तथा अष्टमीमें कदापि वेदपाठ नहीं करना चाहिये । जिस दिन अनध्याय होने वाला है, उसके पूर्वदिन रात्रिकालमें कदापि वेदपाठ नहीं करना चाहिये ।

इन विधियोंके साथ कुछ अपवादविधि भी है, यथा कूर्मपुराणमें—

नैत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च ।

उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चैव हि ॥

अनध्यायस्तु नाङ्गेषु'नेतिहासपुराणयोः ।

न धर्मशास्त्रेष्वन्येषु पर्वाण्येतानि वर्जयेत् ॥

अधीयीत सदा सर्वा' ब्रह्मविद्यां समाहितः ॥

सावित्रीं शतरुद्रोयं वेदान्तांश्च विशेषतः ॥

नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं है, सन्ध्योपासन, उपाकर्म या होममन्त्रपाठमें भी अनध्याय नहीं माना जाता है । वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण या धर्मशास्त्र-पाठमें भी अनध्याय नहीं है । अन्यत्र इन पवों का वर्जन होना चाहिये । ब्रह्मविद्या, वेदान्त, गायत्री तथा शतरुद्रोपाठमें कदापि अनध्याय नहीं होता है । यही सब अनध्याय प्रकरणमें अपवादविधि है । इस प्रकारसे वेदादि शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार वेदव्रत संस्कारका पूर्ण परिपालन होनेपर ब्रह्मचारी

वेदव्रती, अखिलशास्त्रपारंगत तथा इहलोक परलोकमें परमकृत्याणका अधिकारी हो सकता है।

शास्त्रमें वेदपाठके विषयमें इतने अनध्याय क्यों माने गये हैं, इसके वैज्ञानिक तथ्यपर विचार करनेसे साधारणतः तीन मुख्य हेतु जान पड़ते हैं। यथा—चन्द्रादि ग्रहोपग्रहोंका आकर्षण, उत्तम या अधम शुकुन तथा शारीरिक या मानसिक अशुचिता। वेद श्रोत्रोगवान्का वाक्य है, इस कारण आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विविध शक्ति वैदिक मन्त्रोंमें पूर्णरूपसे विद्यमान है। अतः देशकाल या स्वाध्यायकारी छात्रकी शारीरिक मानसिक स्थिति जबतक उसके अतुकूल न हो तबतक वेदपाठ, और स्वरादि हस्तचालनादिके साथ वेदमन्त्रोच्चारण करनेसे नाना प्रकार आधि व्याधि या दैवी विपत्तियां हो सकती है। इसी कारण आर्यशास्त्रमें ऊपर लिखित निषेध बताये गये हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या या उसके आसपासकी तिथियोंमें सूर्य चन्द्रादि ग्रहोंका आकर्षण और तज्जन्य शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता प्रत्यक्ष सिद्ध है। श्वान, शृगाल, गर्दभ, हस्ती आदि जन्तुओंके साथ अपशुकुनका विशेष सम्बन्ध शुकुनशास्त्रसे स्पष्ट है और तज्जन्य दैवी असुविधाय सभी मनुष्यों पर होनी भी शास्त्रसिद्ध हैं। राहुग्रासादिजन्य सूतक, प्रेतश्राद्ध आदि भोजनजन्य तपोनाश और अशुचिता, कृतघ्न, पापी आदि के साक्षिजन्य अपवित्रता इत्यादि इत्यादि सब शारीरिक मानसिक अशुचिताके दृष्टान्त हैं। अतः इन सब आधिभौतिक तथा आधिदैविक बाधाओंके भयसे त्रिविध शक्तिपूर्ण वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करना हानिजनक होनेसे शास्त्रोंमें अनध्यायका निर्देश किया गया है। वेदान्तादि शास्त्रोंके साथ आध्यात्मिक सम्बन्धकी प्रधानता और दैवीशक्ति सम्पर्ककी न्यूनता रहनेसे उनके स्वाध्याय अनध्यायमें विधিনিषेधका इतना प्रावल्या नहीं माना गया है। यही अनध्यायनिर्देशके मूलमें वैज्ञानिक तथ्य है।

(११) ग्यारहवें संस्कारका नाम समावर्त्तन है। आचार्यगृहमें विद्या समाप्त करके गृहस्थाश्रममें प्रवेशार्थ गृहप्रत्यागमनके समय समावर्त्तन संस्कारका अनुष्ठान होता है। श्रुतिमें लिखा है—

‘आचार्योय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातनुं मा व्यवच्छेत्सी।’

आचार्य्यको दक्षिणारूपसे यथेप्सित धन देकर प्रजातन्तुकी रक्षाके लिये स्नातक द्विजको गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये । जो विद्या आचार्य्यसे मिलती है, धन द्वारा उसका परिशोध तो हो नहीं सकता है जैसा कि महर्षि हारीतने लिखा है—

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये नियोजयेत् ।

पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वाऽप्यनृणी भवेत् ॥

जो एक ओ अक्षर गुरु शिष्यको प्रदान करते है, पृथ्वीमें ऐसा कोई धन नहीं है, जिसको देकर शिष्य उस ऋणसे उन्मूण हो सकता हो । तथापि लौकिक विधिके अनुसार व्रतसमाप्तिरूपसे गुरुदक्षिणा देनेकी आज्ञा है । कूर्मपुराणमें भी लिखा है:—

वेदान् वेदांस्तथा वेदौ वेदं वाऽपि समाहितः ।

अधीत्य चाधिगम्यार्थं ततः स्नायाद्द्विजोचमः ॥

समाहितचित्त होकर चार वेद, तीन वेद, दो या एक वेद पढ़कर तथा उसमें जानने योग्य विषयोको जानकर पश्चात् द्विजको समावर्त्तन स्नान करना चाहिये । महर्षि याज्ञवल्क्यने लिखा है:—

वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा ।

अविप्लुतव्रह्मचर्यो लक्ष्ण्यां त्रियमुद्भवहेत् ॥

(१२) वारह्वे संस्कारका नाम विवाह है । इसके विषयमें आगेके अध्यायोंमें बहुत कुछ कहा जायगा । तथापि प्रसङ्गात्परोक्षसे संक्षेपमें कुछ कहा जाना है । उद्वाहसंस्कारमें जो कुछ वैदिक कृत्य किये जाते हैं उनका विस्तारित वर्णन यहाँ पर करना निष्प्रयोजन प्रतीत होता है । इस कारण समस्त विधियोंका वर्णन न करके उनमें अन्तर्निहित भावोंका वर्णन किया जाता है । उन भावोंपर सयम करनेसे विचारवान् मनुष्यमात्र ही समझ सकेंगे कि, अन्यदेशीय विवाह-पद्धतिके साथ आर्यजातीय विवाहपद्धतिका आकाश पाताल जैसा अन्तर है । अर्थात् अन्यदेशीय विवाह केवल स्थूल इन्द्रियसेवाके लिये स्त्रीपुरुषका स्वल्पकाल स्थायी लौकिक सम्बन्ध मात्र है, किन्तु आर्यजातीय विवाह दम्पतिके आत्मा, मन, प्राण, शरीर सभीके पारस्परिक प्रगाढ़ आध्यात्मिक सम्बन्ध द्वारा दोनोंहीके मोक्षलाभार्थ चिरस्थायी प्रयत्न है । दृष्टान्तरूपसे अन्यदेशीय विवाह रीतिके कुछ दिग्दर्शन कराये जाते हैं ।

[१] एक आसनपर बैठकर एक पात्रसे स्त्रीपुरुष दोनोंके भोजन करने-सेही ब्रह्मदेशीय लोग उनके पतिपत्नीभावको स्वीकृत करते हैं, एक नीबू या अन्य किसी फलको काटकर उसका आधा भाग पति पत्नीके मुखमें और दूसरा आधा भाग पत्नी पतिके मुखमें खिलानेके लिये देनेसे ही चीन और जापानके लोग उनका विवाह हो जाना स्वीकृत करते हैं ।

[२] मुसलमानोंमें भी एक आसनपर बैठकर एक पात्रसे पति और पत्नी परस्पर एक दूसरेको खानेकी सामग्री खिलाते हैं और तभी विवाहकार्य सम्पन्न समझा जाता है । किन्तु मुसलमानोंमें कन्याकी स्वीकृति ही विवाहका मूलमन्त्र है ।

[३] स्त्रीयानोंमें भी स्वीकृति, पुरोहितका मन्त्र पढ़ना और मुखमें मुख लगाना—इन्हींके द्वारा वैवाहिक सम्बन्धका प्रकाश होता है । अतः स्त्रीपुरुषका परस्पर उच्छिष्ट भोजनरूप एक अति जुद्ध व्यापार ही अन्य जातियोंमें विवाहका प्रधान अङ्ग समझा जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ । इसके साथ आर्यजातीय शुभ विवाहका धर्मजगतमें कैसा महान् प्रभेद है, सो निम्नलिखित दिग्दर्शनसे अनायास ही मालूम हो जायगा ।

आर्यविवाहमें जल और अग्निका सम्बन्ध विशेष रहता है । प्रथमतः वर वधूका हाथ मिलाकर शहसे अविच्छिन्न जलकी धारा डालनेकी विधि है । हाथके द्वारा विद्युत्प्रवाह चलता है इसका प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है । जल विद्युत्का बड़ा भारी संचालक है यहभी विज्ञानजगतमें सिद्ध हो चुका है । शहके साथ नाद और मोक्षका सम्बन्ध है यहभी पहिले बताया जा चुका है । अतः इस जलधारा डालनेमें पतिपत्नीकी प्रेमधारा-विनिमय और प्रेमकी विद्युत्-शक्तिके दृढ़ होनेमें बड़ी सहायता मिली । और शह्रूपी-मोक्षका सम्बन्ध रहनेसे दाम्पत्यप्रेम विषय विलासमें परिणत न होकर अन्तमें भगवत्प्रेमको ही उत्पन्न करेगा और स्त्री-पुरुष गृहस्थधर्मको पालते हुए अन्तमें मोक्षप्रद निवृत्ति मार्गके अधिकारी बन सकेंगे यही इसमें तथ्य निकलता है । किसी आकारहीन कमजोर चीजको ठीक आकार देकर मजबूत बनानेके लिये जल और अग्निकी सहायता ली जाती है । दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि मिट्टीसे घड़ा मजबूत तभी बनता है जब मिट्टीके परमाणुओंको जलसे भिगोकर पहिले घड़ेका आकार दिया जाय और कच्चे घड़ेको आगमें तपाकर दृढ़ किया जाय । कमजोर मिट्टीसे

मजबूत ईंटें बनानेकी, कितनेही वर्तन तथा जलपात्र आदि बनानेकी यही विधि है। अतः विछड़ो वस्तुओंका सम्बन्ध मिलाना ओर उस सम्बन्धको बलवान् तथा स्थायी बनाना जल और अग्निकी सहायतासे उत्तम रूपसे हो सकता है। विवाहविज्ञानमे भी पतिपत्नीके सम्बन्धको अति दृढ तथा जन्मजन्मान्तर स्थायी बनानेके लिये इसी कारण जल और अग्निका इतना सम्बन्ध माना गया है। इसके सिवाय देवताओंमें ब्राह्मण अग्निदेवके पास साक्षीरूपसे सकल्प आदि करानेका तथा वरुणदेवसे कृपालाभ करनेका भी बहुत कुछ अदृष्ट फल है।

उद्वाह संस्कारमें अन्यान्य कृत्योंके अनन्तर कन्यादान सङ्कल्पके समय समस्त देवताओंसे आशीर्वाद लेकर विवाहकार्यको शुभभावमय बनाया जाता है, यथा—

ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यो ग्रहाणां पतिः ।
शक्रो देवपतिर्हविर्हुतपतिः स्कन्दश्च सेनापतिः ॥
विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपतिः शक्तिः पतीनां पतिः ।
सर्वे ते पतयः सुमेरु सहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥

इस प्रकार मङ्गलसूचक ब्रह्मादि देवताओंके नामोच्चारणके बाद दश महादान किये जाते हैं, जिनके भीतर भी विशेष पवित्रता तथा आस्तिकता पाई जाती है, यथा सुवर्णदानमे—

हिरण्यगर्भसंभूतं सौवर्णं चांगुलीयकम् ।
सर्वप्रदं प्रयच्छामि प्रीणानु कमलापतिः ॥

यह कमलापति विष्णुके प्रीत्यर्थ स्वर्णदान है। तदनन्तर धेनुदानमे—

यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघौघनाशिनी ।
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥

गोमाता यज्ञकी साधनरूपिणी तथा ससारकी पापनाशिनी है। विश्वरूपधारी देवताके प्रीत्यर्थ इनका दान होता है। तदनन्तर पृथिवीदानमें—

सर्वेषामाश्रया देवी वराहेण समुद्भृता ।
अनन्तशस्यफलदा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

बसुमती देवी वराह भगवान्के द्वारा उद्भूता, सकलजीवो की आश्रय-

दात्री तथा अनन्तशस्यफलदायिनी है । उनके दान द्वारा देवीसे शान्ति मांगी जाती है, यही सब विवाहविधिमें दान माहात्म्य है । तदनन्तर वर कन्या दोनोंके एक आसनपर बैठकर एक साथ आज्याहुति देते समय जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उनके भी बड़े ही पवित्र तथा महान् भाव है ।

[१] देवताओंमें श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करे । वह इस कन्याके भविष्यत् सन्तानोंको मृत्युमयसे बचावे और आवरण देवता ऐसी आज्ञा करें कि, यह स्त्री पुत्रसम्बन्धीय व्यसनसे पीड़ित न हो ।

[२] गार्हपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहें, इसके पुत्र वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहें, यह जीवित पुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करे, और सत्पुत्रजनित आनन्दका उपभोग करे ।

[३] हे कन्ये ! द्युलोक तेरे पृष्ठ देशकी रक्षा करें, वायु और अश्विनी-कुमार दोनों ऊरुओंकी रक्षा करे, सूर्यदेव तेरे दुधसुंहे पुत्रोकी रक्षा करें, इत्यादि ।

इस प्रकार आज्याहुतिके वाद लाजाहुति दी जाती है, जिसमें पत्नीकी ओरसे पतिके शतायु होनेकी प्रार्थना और पतिकी ओरसे अभिन्न दाम्पत्य प्रेमकी प्रार्थना है । लाजाहुतिके साथ साथ जो लौकिक गाथा कहनेकी विधि है, वह भी अपूर्व रसपूर्ण है । यथा—

राघवेन्द्रे यथा सीता विनता करयपे यथा ।

पावके च यथा स्वाहा तथा त्वं मयि भर्त्तरि ॥

सुदक्षिणा दिलीपेषु वसुदेवे च देवकीं ।

लोपामुद्रा यथाऽगस्त्ये तथा त्वं मयि भर्त्तरि ॥

अत्रौ यथाऽनसूया च यमदग्नी च रेणुका ।

श्रीकृष्णे रुक्मिणीं यद्वत्तथा त्वं मयि भर्त्तरि ॥ इत्यादि ॥

जिस प्रकार रामके प्रति सीताका, कश्यपके प्रति विनताका, अग्निके प्रति स्वाहाका, दिलीपके प्रति सुदक्षिणाका, वसुदेवके प्रति देवकीका, अगस्त्यके प्रति लोपामुद्राका, अत्रिके प्रति अहस्त्याका, यमदग्निके प्रति रेणुकाका और श्रीकृष्णके प्रति रुक्मिणीका पवित्र भाव है, ऐसा ही वरकन्यामें मयुर पवित्र दाम्पत्य भावके लिये यह प्रार्थना है ।

लाजाहुतिके समाप्त होनेपर सप्तपदी गमन होता है । पति एक एक वाक्य कहता है और कन्या एक एक वार पदनिक्षेप करती हुई कुछ कहती है । ये सब वाक्य 'निम्नलिखित है । वरके कहने योग्य वाक्य, यथा—ॐ एकमिवे विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ श्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ षड् ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामहृमता भव विष्णुस्त्वा नयतु ।

हे कन्ये ! विष्णुने अन्नलाभके लिये एक पद, बललाभके लिये द्वितीय पद, पञ्चमहायज्ञादि नित्यकर्मके लिये तृतीय पद, सौख्यके लिये चतुर्थ पद, पशुलाभके लिये पञ्चम पद, धनरक्षाके लिये षष्ठ पद और ऋत्विक्लाभके लिये सप्तम पदका अतिक्रमण कराया । इस समय प्रति पदक्षेपमे कन्या एक एक श्लोक कहती है, यथा—

धनं धान्यं च मिष्टान्नं व्यञ्जनाद्यं च यद्गृहे ।
 मदधीनं च कर्त्तव्यं वधूराद्ये पदे वदेत् ॥
 कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते मञ्जुभाषिणी ।
 दुःखे धीरा मुखे हृष्टा द्वितीये साऽब्रवीद् वचः ॥
 पतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्वया सह ।
 त्वदन्यं न नरं मंस्ये तृतीये साऽब्रवीदिदम् ॥
 लालयामि च केशान्त गन्धमाल्यानुलेपनैः ।
 काञ्चनैर्भूषणैस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत् ॥
 आर्ते आर्ता भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी ।
 तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत् ॥
 यज्ञे होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह ।
 धर्मार्थकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत् ॥
 अत्रांशे साक्षिणीं देवा मनोभावप्रबोधिनः ।
 वञ्चनं न करिष्यामि सप्तमे सा पदे वदेत् ॥

धन धान्य मिष्टान्न व्यञ्जन आदि जो कुछ घरमें है सो सब मेरे अधीन रहेगा । मैं मिष्टभाषिणी, कुटुम्बियोकी रक्षिका, दुःखमें धीर तथा सुखमें हृष्ट रहूंगी । पतिपरायणा होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी, अन्य किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन न करूंगी । गन्ध, माह्य, लेपन, भूषण आदिके द्वारा तुम्हारा सदा आदर सत्कार करूंगी । मैं तुम्हारे दुःखमें दुःखिनी तथा सुखदुःखकी अशभागिनी होकर सदा तुम्हारी आत्माका पालन करूंगी । यज्ञ होम दानादिमें तथा सकल प्रकार धर्मार्थकामकार्यमें तुम्हारी साथिनी बनूंगी । मेरी इन प्रतिज्ञाओंमें अन्तर्यामी देवतागण साक्षी रहें, मैं कभी तुम्हें वञ्चना नहीं करूंगी । यही सब सप्तपदीगमनकालमें स्त्रीकी ओरकी प्रतिज्ञा है, जिसके द्वारा स्त्री अपना गोत्र बदलकर पतिकी ही हो जाती है और विवाहसम्बन्ध दृढ़बद्ध हो जाता है । केवल गोत्र ही नहीं बदलता है, डाक्टरोंने परीक्षाकर देखा है कि स्त्रीशरीरके खूनमें भी भावके अनुसार परिवर्तन होकर वह पतिके खूनके अनुरूप बन जाता है । इसके अनन्तर वरके द्वारा वधूके सिरपर अभिषेक और वधूके द्वारा ध्रुवदर्शनके बाद वर वधूके दाहिने कन्धेपरसे हाथ ले जाकर:—

ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचिर्त्तं तेऽस्तु ।

मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजाप्रतिष्ठा नियुनक्तु महाम् ॥

अर्थात् अपना हृदय मेरे काममें लगाओ, अपना चित्त मेरे चित्तके अनुरूप करो । तुम मेरे मनमें अपना मन मिलाकर मेरे वचनकी सेवा करो । बृहस्पति तुमको मुझे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त करें, इस मन्त्रको पढ़कर वधूके हृदयका स्पर्श करे । तदनन्तर वधूकी ओर देखता हुआ:—

ॐ सुमङ्गलिरियं, वधूरिमां समेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥

इस मन्त्रको पढ़े । तदनन्तर देशाचारानुसार वधूको वरके वामाङ्गमें बैठाना होता है । तदनन्तर वरके वामाङ्ग हुई वधू सात श्लोकोंके द्वारा प्रतिज्ञा वचन कहती है । यथा:—

तीर्थव्रतोद्यापनयज्ञदानं मया सह त्वं यदि किञ्च कुर्याः ।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी ॥

हव्यप्रदानैरमरानपितृंश्च कव्यप्रदानैर्यदिपूजयेथाः ।
 वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम् ॥
 कुटुम्बरक्षाभरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च ।
 वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम् ॥

इत्यादि ।

मै तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्मकार्योमे तुम्हारी वामाङ्गरूपिणी रहेंगी । हव्यदान द्वारा देवपूजन अथवा कव्यदानद्वारा पितृपूजनमे तुम्हारी वामाङ्गिनी रहेंगी । कुटुम्बरक्षा, पशुपालन आदि सभी कार्योमे तुम्हारी वामाङ्गरूपिणी रहेंगी । इत्यादि इत्यादि प्रतिज्ञा करनेपर वर उन प्रतिज्ञाओंके स्वीकाररूपसे कहे :—

मदीयचित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञापरीपालनञ्च ।
 पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं कुर्याः सदा सर्वमिमं प्रयत्नम् ॥

तुम पातिव्रत्यधर्मपरायणा होकर सदा मद्गतचित्ता, मदाज्ञाकारिणी और प्रतिज्ञानुरूप कार्य करनेमें तत्पर रहो । इस प्रकारसे परस्पर प्रतिज्ञा होनेके बाद 'ॐ वाममुद्य सवितव्वामिमश्वो' इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए वर बधूके सीमन्तमें सिन्दूर लगावे । इसके अनन्तर और कुछ माङ्गलिक कृत्य होनेके बाद [उद्वाह संस्कार समाप्त हो जाता है । यही सब इहलोक परलोकमें तथा निःश्रेयस लाभपर्यन्त धर्मजीवनलाभके श्रेष्ठकारणरूप उद्वाहसंस्कारका परमपवित्रतामय निगूढ़ रहस्य है, जिसके ऊपर सामान्य चिन्तासे ही विचारवान् पुरुष समझ सकेंगे कि, आर्यजातीय विवाहविधिके साथ अन्यजातीय विवाहविधिका कितना अन्तर है और किस महान् लज्यको सामने रखकर पूज्यपाद महर्षियोने विवाहविधिका प्रवर्त्तन किया है ।

मन्वादि स्मृतिकारोंने ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच ये आठ प्रकारके विवाह बताकर प्रथम चार विवाहोंकी प्रशंसा और अन्तिम चार विवाहोंकी निन्दा की है । ब्राह्मविवाहमें ब्रह्मलंकारभूषित कन्याका वरको, ब्रह्मकर दान, दैवविवाहमें ऋत्विक्को कन्यादान, आर्ष-विवाहमें धरपक्षसे गौ मिथुन-लेकर कन्यादान, आसुर विवाहमें धन लेकर

कन्यादान, गान्धर्व विवाहमें परस्पर प्रणय द्वारा परिणय, राजस विवाहमें हनन आघात आदिके बीचमेंसे कन्याग्रहण इत्यादि इत्यादि सब बताये गये हैं। अब कालप्रभावसे अन्य सब विवाहप्रथा नष्ट होकर केवल ब्राह्मविवाह की रीति ही अधिक प्रचलित देखनेमें आती है और कहीं कहीं आसुर विवाहकी रीति रहनेपर भी उसकी प्रशंसा न होकर निन्दा ही होती है। मनु कश्यपादि ऋषियोंने तो आसुर विवाहको बहुत ही निन्दा की है, यथा :—

क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यभिधीयते ।

न सा दैवे न सा पितृये दासीं तां कवयो विदुः ॥

(कश्यप)

मूल्य देकर जो स्त्री लाई जाती है उसको पत्नी नहीं कहा जा सकता है। उसके द्वारा दैवकार्य या पितृकार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको विद्वान्गण पत्नी न कहकर दासी ही कहते हैं। और भी :—

कन्याविक्रयिणो मूर्खा रहः किन्विषकारिणः ।

पतन्ति नरके घोरे दहन्त्यासप्तमं कुलम् ॥

कन्याविक्रयकारी लोग मूर्ख तथा प्रच्छन्न पापकारी हैं उनको और नरक तथा सात कुल दग्ध होता है। इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें आसुर विवाहकी निन्दा की गई है। राजस, पैशाच आदि विवाहकी निन्दा तो शास्त्रमें है ही। किन्तु इतना होनेपर भी 'नाभावो विद्यते सतः' वस्तुसत्ताका नाश न होकर केवल रूपान्तरमात्र होता है, इस सिद्धान्तके अनुसार गौणरूपसे ब्राह्मविवाहके भीतर भी देशाचार लोकाचार आदि परम्परासे अन्य सब विवाहके भी कुछ कुछ लक्षण देखनेमें आते हैं। आजकल विवाहकालमें ऋत्विक्के समान जो वरपूजाकी विधि प्रचलित है, उसे ब्राह्मविवाहमें दैव-विवाहका अन्तर्निवेश कह सकते हैं। ब्राह्मविवाहके अर्हणभागमें विवाहके स्थानमें जो एक गऊ बांध रखनेकी आज्ञा है, उसे आर्य विवाहका अन्तर्निवेश जानना चाहिये। इसी प्रकार स्थूल उपवास, गाली देना, पत्थर मारना आदि रीति राजसविवाहका ही कंकालमात्र है। शुभदृष्टि, स्त्री-आचार, वासर-जागरण, आमोद प्रमोद आदि गान्धर्वविवाहका लक्षण है और पितृपक्षसे कन्याके लिये आभूषणादि लेनेकी चेष्टा आसुरविवाहका लक्षण है। इत्यादि

रूपसे अष्ट विवाहविधि किसी न किसी प्रकारसे अनुष्ठित हुआ करती है और ब्राह्मणविवाहविधि ही सर्वोत्तम है, जिसके लिये उद्वाहसंस्कारके अपूर्व रहस्यका दिग्दर्शन ऊपर कराया गया ।

(१३) तेरहवें संस्कारका नाम अग्न्याधान है । इसमें सखीक साथ प्रातः श्रौताग्नि या स्मार्त्ताग्निमें हवनादि करनेकी विधि है । पहिले ही कहा है कि, हवन, संस्कार, यज्ञ आदिके नित्यानुष्ठान द्वारा 'ब्राह्मीयं क्रियते तद्गुः' अर्थात् यह शरीर ब्रह्मबोधालुक्कूल गुणयुक्त हो जाना है । अग्नि परमपवित्र ऊर्ध्वशिखायुक्त तथा देवताओंमें ब्राह्मण है । अतः इसी अग्निकी सेवा करनेसे 'ब्राह्मीतलु' प्राप्तिकी विशेष सम्भावना रहनेके कारण आर्यशास्त्रमें ऋजोंके लिये सखीक अग्निपरिचर्याका विधान क्रिया गया है । अग्नि परम-पवित्र तथा तेजोमय है । इधर विवाहके अनन्तर कामिनीससर्गसे विषयवृत्ति बलवती होकर आध्यात्मिक अधोगतिकी सम्भावना भी बलवती हो सकती है । इसी कारण उसी कामिनीके साथ तेजोमय भगवान् पावककी सेवा, सङ्ग तथा आराधनाकी आत्मा आर्यशास्त्रमें दी गई है, जिससे विषयसङ्ग द्वारा विषयस्पृहा बलवती न होकर प्रवृत्तिक्षय द्वारा दिन पर दिन निवृत्ति संस्कारकी ही पुष्टि हो सके । प्रवृत्ति मार्गमें धनसम्पत्ति, अन्न, सन्तान, शक्ति, सुख, स्वास्थ्य, बौर्य आदिकी विशेष आवश्यकता रहती है । इन सब वस्तुओंकी प्राप्तिमें देवताओंकी कृपा सापेक्ष है । यथा गीता में—

‘इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

यज्ञके द्वारा सम्बद्धित होकर देवतागण प्रार्थित भोगोंको प्रदान करते हैं, जिनसे गृहस्थाश्रमका अनायास निर्वाह होता है । शास्त्रमें 'अग्निमुखा वै देवाः' अर्थात् अग्नि ही देवताओंके मुख है, अग्निमें-आहुति देनेसे ही वह आहुति देवताओंको पहुँच कर भेष, वृष्टि, अन्न, प्रजा आदि सम्पत्तियों की उत्पत्तिका कारण बनती है, ऐसा कहा गया है । श्रीभगवान् मनुने भी—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्दृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

अर्थात् अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यदेवको प्राप्त होती है और उससे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न तथा अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है, ऐसा कहकर 'अग्नि-

मुखा वै देवाः' इस सिद्धान्तकी ही पुष्टि की है । अतः अग्न्याधान संस्कारके साथ प्रवृत्तिमार्गमें सुविधा, निवृत्तिमार्गकी पोषकता तथा निःश्रेयसका परम्परा सम्बन्ध रहनेके कारण विवाहके अनन्तर ही इस संस्कारका विधान किया गया है ।

(१४-१५) षोडश संस्कारान्तर्गत चौदहवें तथा पन्द्रहवें संस्कारोंके नाम दीक्षा और महाव्रत हैं । गृहस्थाश्रमके नित्य नैमित्तिक कर्म, भावशुद्धिपूर्वक विषयसेवा तथा सखीक अग्निपरिचर्याके द्वारा प्रवृत्तिसंस्कार जितना जितना समाप्त होता जाता है, उतना ही गृहस्थाश्रमीके चित्तमें मुमुक्षुताका उदय, निवृत्तिमार्गके प्रति स्पृहा तथा परमात्मभावकी प्रबलता होने लगती है । उस समय यही आवश्यकता होती है कि, कोई सद्गुरु प्रकृति, प्रवृत्ति तथा अधिकारको समझकर दीक्षा प्रदान करें, जिससे साधक क्रमशः निवृत्तिपथका पथिक बनकर नित्यानन्दमय ब्रह्मराज्यमें प्रवेश कर सके । इसी कारण अग्न्याधानके अनन्तर प्रथमतः दीक्षा नामक संस्कारका विधान आर्यशास्त्रमें किया गया है । जब गुरुदेव कृपा करके शिष्यको देवता तथा मन्त्रका उपदेश देते हैं, तब उस प्रक्रियाको दीक्षा कहते हैं । और दीक्षाके अनन्तर जब साधकको वानप्रस्थका अधिकार हो जाता है तब महाव्रत संस्कार और तदनुकूल साधनाके उपदेश किये जाते हैं । इन दोनों ही संस्कारों द्वारा मलविद्धेपनाशमें विशेष सुविधा होती है । इस प्रकारसे दीक्षा तथा महाव्रत लाभ करके आध्यात्मिक राज्यमें द्रुतपद अग्रसर होते होते अन्तमें जब साधक निवृत्तिकी पराकाष्ठा तथा योगारूढ़ पदवीपर प्रतिष्ठित होने लगता है, तभी आवरण नाशकारी सोलहवें अर्थात् अन्तिम संस्कार संन्यासका अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है । दीक्षा और महाव्रतके विषय सब साधन सम्बन्धीय होनेसे बहुत ही गोपनीय तथा केवलमात्र गुह्यमुखवेद्य होते हैं, इस कारण यहाँपर इनके विस्तारित वर्णन नहीं किये गये ।

(१६) अन्तिम अर्थात् सोलहवें संस्कारका नाम संन्यास है । श्रुतिमें लिखा है—'पुत्रैषणाया वित्तैषणाया लोकैषणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरति ।' सन्तानादि वासना, सम्पत्तिकामना तथा यशोलिप्साके आमूल नाशको प्राप्त होनेपर साधकमें संन्यासकी योग्यता होती है । पहिले ही कहा गया है कि, षोडश संस्कारोंमेंसे प्रथम आठ प्रवृत्तिरोधक और द्वितीय आठ निवृत्तिपोषक हैं । निवृत्तिपोषकताकी पराकाष्ठामें ही संन्यास है । यथा श्रुतिमें—'न कर्मणा

न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः । सकामकर्म, प्रजोत्पत्ति या धनके द्वारा नहीं, किन्तु त्यागके द्वारा ही अनेक साधकोंने अमृतपद प्राप्त कर लिया है । संन्यासकी सिद्धिमें इसी अमृतपदकी प्राप्ति होती है । सो कैसे होता है, इसके लिये श्रीभगवान्‌ने गीतामें कहा है । यथा—

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ (५म अध्याय)

पुण्यसस्कारोंके उदयसे पापसंस्कार क्षीण हो जाते हैं । इन्द्रिय तथा मनके संयमसे अन्तःकरण आत्मामें लवलीन हो जाता है । भूतकल्याणमें रति रहनेसे स्वार्थनाश उदारताकी वृद्धि और जीवसेवारूपसे व्यापक ब्रह्मकी पूजा द्वारा अन्तःकरणभी व्यापक परमात्मामें प्रतिष्ठित हो जाता है । इस प्रकारसे हृदयका द्विधाभाव नाश होकर अद्वैत भावमें साधककी चिरप्रतिष्ठा जब हो जाती है, तभी योगारूढ़ जीवन्मुक्त महात्मा ब्रह्मनिर्वाणपदको लाभ करते हैं । यही श्रीगीतामें भगवान्‌का उपदेश है । संन्यास दशामें अवाङ्मनसोऽगोचर अव्यक्त अनिर्वचनीय निर्गुण निराकार देशकाल वस्तुसे अपरिच्छिन्न सर्वतोव्याप्त ब्रह्मकी ही राजयोगोक्त उपासना है और क्रमशः उपास्य उपासकभावके एकीकरण द्वारा, ज्ञाताज्ञानज्ञेयरूपी त्रिपुटिके लयसाधन द्वारा निर्विकल्पसमाधिमें स्थिति है । वह कैसे सम्भव हो सकता है, इसका रहस्य वर्णन गीताके द्वादशाध्यायमें किया गया है, यथा—

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥

सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

जो साधक निर्देशसे अतीत, चिन्तासे अतीत, सर्वव्यापक, अव्यक्त, कूटस्थ, निश्चल, ध्रुव, अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे भी उन्हींको पाते हैं । किन्तु उनकी उपलब्धिके लिये इन्द्रियोंका विशेष निरोध, चित्तवृत्तिनिरोध सर्वत्र समबुद्धिता और सकल जीवोंके हितमें रतिकी आवश्यकता होती है । उपासना अर्थात् योगके द्वारा इन्द्रियनिरोध तथा चित्तवृत्तिनिरोध होता है, ज्ञान द्वारा समबुद्धिता उत्पन्न होती है और निष्काम कर्मयोग द्वारा भूतसेवा

तथा ब्रह्मपूजा होती है। अतः कर्म उपासना ज्ञान तीनोंके सामञ्जस्यानुसार प्रयोग द्वारा ही निर्गुण ब्रह्मकी उपलब्धि, निर्विकल्प पदवीपर आत्यन्तिकी स्थिति तथा शिवपदप्राप्ति श्रीभगवान्के वचनानुसार सिद्ध हुई। यही संन्याससंस्कारका अन्तिम लक्ष्य तथा मनुष्यजीवनका भी अन्तिम लक्ष्य है। संन्यासके विषयमें और भी वर्णन अन्य प्रबन्धमें किया जायगा। यही आर्यशास्त्रसम्मत सोलह संस्कारोंकी परम महिमा है।

शक्तिसञ्चय और आश्रमधर्म ।

सग्रामके बिना जीवन नहीं (Life is struggle) और शक्तिके बिना सग्राममें विजयलाभ नहीं, अतः छोटे बड़े, सत्कारमें सभी शक्तिलाभके लिये लालायित बने रहते हैं। सर्वशक्तिमान् भगवान्का अंश सभीके भीतर भरपूर है इसलिये नियमित प्रयत्न करनेपर उनसे तथा उनकी भिन्न भिन्न विभूतियोंसे शक्तिका मिलना असम्भव नहीं होता है। इसी नियमित प्रयत्नके लिये ही आश्रमधर्मका विधान है। सकल प्रकार शक्तिका आकर कौन है और उस आकरसे शक्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इस विषयमें पश्चिमी विद्वानोंने भी बहुत कुछ चिन्ता की है। एफ्. बिस्चफ् (Fred. F. Bischoff) साहबने कहा है—
 “Man is the greater Radio and is able to connect himself with the Higher Force. When this is once rightly demonstrated and understood, it will turn him from slave to Master. Then man comes to himself and comprehends the fact that he is the Son of Man and knows that in himself lies all force. He is a Master Force and all the elements will hear his voice.”
 (Master Force—Kalpaka) मनुष्यमें सामर्थ्य है और वह अपना सम्बन्ध श्रीभगवान्की अलौकिक शक्तिके साथ कर सकता है। इस प्रकारका सम्बन्ध एकबार भी हो जाय और इसका रहस्य भी समझ लिया जाय, तो मनुष्य फिर मायाका दास नहीं बना रहता है, वह स्वयं ही प्रभु बन जाता है। उस समय मनुष्यके अनुभवमें आजाता है कि सब शक्तिका खान अपने भीतर ही विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान्से मिल कर अपने भीतर भी सम्पूर्ण

शक्तिको भर लेता है और उस समय प्रकृतिके सभी तत्त्व उसके वशमें आ जाते हैं । श्रीभगवान्ने गीतामें भी कहा है—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

महाशक्तिरूपिणी त्रिगुणमयी दैवी मायाके चक्ररसे निस्तार पाना बड़ा ही कठिन है । केवल जो मायाके पति सर्वशक्तिमान् परमात्माकी शरण लेता है वही इस मायाके साथ संग्राममें विजयलाभ कर सकता है । उसको संग्राम करनेकी शक्ति श्रीभगवान् ही देते हैं । माया किससे दबती है इस विषयमें महामायाने सप्तशतीमें स्वयं ही कहा है—

“यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति ।
यो मे प्रतिवलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥”

“मेरे साथ संग्राममें जो विजयी होता है, मेरे दर्पको जो दबा सकता है, मेरी स्पन्दोंके सामने प्रतिस्पन्दों होकर जो खड़ा रह सकता है, वही मेरे ऊपर प्रभुत्व करने योग्य है ।” चार आश्रमोंमें इस प्रकारसे शक्ति सचयके उपाय पूज्य महर्षिचौने बताये हैं जिनके द्वारा क्रमशः प्रचुर शक्ति लाभ करके मनुष्य जीवनसंग्राममें सम्पूर्णरूपसे विजयी हो सकता है और मायाके पति सर्वशक्तिमान् परमात्माको पाकर विधिनिषेधसे अतीत हो सकता है । अरियेल् बुचानन् (Uriel Buchanan) साहबने कहा है—

The Universal Mind is continually seeking an outlet. It is like a vast reservoir of water, perennially replenished by mountain springs. Open a channel to it and the water will flow in ever increasing volume. Open your consciousness to the current of Universal Mind, it will express itself through you and its gifts will flow in ever increasing abundance. You are a part of the Universal Mind. You have access to it. If you have faith in your powers initiative and courage to start, you can call upon it for all you need. Whatever of good you may desire, whatever attainment, you

have only to work for it whole-heartedly, with perfect faith and singleness of purpose and success will crown your efforts

The brain is a plastic medium for the use of the mind. When concentration is perfectly attained, the mind is the master, it rules supreme, beholding yet unmoved. True illumination comes only to the one who has risen above the narrow horizon of the personal self and has become consciously united with the Infinite. The outer dies daily and the inner becomes manifest. Human progress is the continual unfolding and revealing of the inner self.

(Secrets of the Ages—Kalpaka)

परमात्माकी विश्वव्यापिनी शक्ति जीवसत्ताके द्वारा सदा ही प्रकट होना चाहती है । यह पहाड़ी भरनेसे पुष्ट विशाल जलराशिकी तरह है । थोड़ा रास्ता मिलते ही विपुल वेगसे लगातार वह चलती है । इसी शक्तिस्रोत के सामने अपने हृदयको उन्मुक्त करदो, तुम्हें भूरि भूरि भगवत्शक्ति प्राप्त होने लगेगी । तुम उसी पूर्णशक्तिके अंशरूप हो, अतः उसे पानेमें तुम्हें स्वाभाविक अधिकार है । यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास तथा आगे बढ़नेका साहस हो, तो इस महती शक्तिसे तुम सब कुछ मांग ले सकते हो । जो कुछ उत्तम वस्तु तुम्हें प्राप्त करना हो, जो कुछ आध्यात्मिक उन्नति तुम्हें इष्ट हो, सभी निश्चित रूपसे तुम्हें मिल जायेंगे केवल पूर्ण विश्वास और एकान्तरतिके साथ अग्रसर होनेकी देर है ।

मनकी क्रिया मस्तिष्कके द्वारा हुआ करती है । मनको जब पूर्ण एकग्रता प्राप्त होजाती है तो मन इन्द्रियों तथा शरीरका प्रभु बनकर उनमें पुनः फँसता नहीं । यथार्थ प्रकाश उसी महान् व्यक्तिको मिलता है, जिसने अपनी सत्ताको व्यक्तिगत स्वार्थकी सीमासे अलग कर व्यापक सत्तामें मिला दिया है । ऐसे पुरुषोंके बाहिरि स्थूल भाव सब नष्ट होजाते हैं और भीतरके सब प्रकाश फैलने लगते हैं । भीतरी आत्मसत्ताका इस प्रकारसे निरन्तर विकाश होना ही मनुष्य जीवन्की यथार्थ उन्नति है । ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, व्रानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमोंमें परमात्मा तथा उनकी भिन्न भिन्न शक्ति और विभूतियोंसे मिलकर

आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इन तीनों प्रकारकी शक्ति प्राप्त करनेके सुन्दर वैज्ञानिक उपाय बताये गये हैं, जिनके वर्णन क्रमशः नीचे किये जाते हैं ।

प्रथमतः ब्रह्मचर्याश्रममें शक्तिलाभ तथा स्वास्थ्यवीर्यलाभके विषयमें कहा जाता है ।

क्या हमने बनके पशु या पक्षियोंको कभी रोगी देखा है ? बन के पशु-पक्षी वर्षाकालमें न कभी सिरपर छाता लगाते और न शीतकालमें कभी ऊनी कपड़े ही पहिनते या शाल दुशाले ही ओढ़ते हैं, फिर उन्हे रोग क्यों नहीं होता ? माताको सन्तान माताकी ही गोदमें रहनेसे, माताकी प्रेम भरी करुण-दृष्टि उसपर सदा बनी रहनेसे, मातृशक्तिकी अमृतधारामें अवगाहन कर परि-तुष्ट होना सीख लेनेसे, उसे संसारमें कोई कष्ट सहन करना नहीं पड़ता । चिरजीवन उस आनन्दमयीमें समर्पित होकर आनन्दमें ही कट जाता है । जिसने हमें जन्म दिया वह तो हमारी माता है ही, किन्तु जो सबको जननी है, वही सर्वत्र विराजमान रहती है । उसका हास्य पुष्पोंके हास्यमें विकसित होता है, उसकी प्रेमधारा गंगाकी धारामें प्रवाहित होती है, उसकी करुणा चन्द्रकलामें प्रकाशित होती है । वही सर्वव्यापिनी माता महाप्रकृति है । उसीकी गोदमें हम और हमारे माता पिता आदि सभी प्रतिपालित हुए हैं । बनके पशु पक्षी भी उसी महाप्रकृतिकी गोदमें हैं । हमारी तरह वे -महाप्रकृतिकी सन्तान अवश्य हैं, परन्तु उन्होंने अस्वाभाविक आचरण कर माताकी गोदको छोड़ा नहीं है । वे प्रकृतिमाता पर निर्भर रहना जानते हैं । महाप्रकृति छः ऋतुओं-में छः भावोंके अपूर्व माधुर्यका जो विकाश करती है उसे खुले बदन भरपूर ग्रहण करना उन्होंने सीखा है । वे अपने शरीरके साथ ऋतुशक्तिको पूर्णतया मिला लेते हैं, सब ऋतुओंके वेगको सह लेते हैं । इसीसे वे स्वभावतः द्वन्द्व सहिष्णु और शीत ग्रीष्म वर्षाओंमें एकरूप रहते हैं और उन्हे कभी रोगग्रस्त होना नहीं पड़ता । बचपनसे ही सब ऋतुओंके वेगको सहन करनेका अभ्यास करना संसारमें नीरोग बने रहने का प्रधान उपाय है । जो सदा सर्दी या पानीसे बचे रहनेकी चेष्टा करते हैं, उन्हें थोड़ी सर्दी लगने या कुछ भी ऋतुविपर्यय होनेसे नाना प्रकारके रोग हो जाते हैं, किन्तु जिन्हें बचपनसे ऋतुतारतम्य और परिवर्तनमें उसके वेगके सहन करनेका अभ्यास है, उन्हें ऋतुओंके हेरफेरके समय कोई रोग नहीं होता । हम स्वभावतः देखते हैं कि हमारे मुखकी त्वचा शरीरके

अन्यान्य अङ्गोंकी त्वचाकी अपेक्षा अधिक उज्वल और लाल रहती है इसका कारण यह है कि हम अपने अन्यान्य अंग प्रत्यङ्गोंकी तरह मुखको निरन्तर ढाँके नहीं रखते, मुखको हम सदा खुला रखते हैं, इससे उसकी त्वचा अन्य अंगोंकी अपेक्षा कोमल रहने परभी उसमें ऋतुओंके वेगको सहन करनेकी शक्ति अधिक रहती है। इसी तरह बाल्यकालसे सब अंगोंको द्वन्द्व सहिष्णु बनाया जाय, तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। माताके साथ विरोध कर सन्तान कभी सुखी रह नहीं सकती। माताकी छातीसे चिपक कर प्राणप्रदायिनी मातृस्तन्यधाराका पान करनेसे ही सन्तान चिर अमरताको प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि दूरदर्शी महर्षियोंने ब्रह्मचर्याश्रमकी सृष्टि की है और उस आश्रममें बालकोंको नाना प्रकारसे महाप्रकृतिमें मिला देनेकी व्यवस्था की है। शारीरिक अनेक प्रकारके तप उनसे कराना, शीत ग्रीष्मादिके वेगको सहन करनेके लिये उन्हें खुले बदन, खाली पांव और खुले सिर रखना, अग्निमें नित्य होम, सूर्योपस्थान, पुष्पचयन इत्यादि कार्य उनपर सौंपना, ये सब उपाय महाप्रकृतिमें सखि मिलन करनेके ही हैं। पृथ्वीमें जो विद्युत् शक्ति है उसके साथ पार्थिव शरीरका नैसर्गिक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध शिशुकालसे ही खाली पैर रहनेका अभ्यास कर अटूट रक्खा जाय तो पार्थिव विद्युत् परिपुष्ट मनुष्य अवश्यही सबलकाय और नीरोग रहेगा। इसी तरह छाताके द्वारा सूर्यतेजका सम्बन्ध न रोक कर यदि शरीर और मस्तक पर धूप सह लेनेका अभ्यास किया जाय, तो सूर्यसे बानेवालो प्राणशक्ति प्राप्त होता है, जिससे शरीर स्वस्थ और वलिष्ठ रहता है। मनुसंहितामें इसीलिये ब्रह्मज्वारीको 'उपानच्छत्रधारण' करना निषिद्ध बताया है। इसी प्रकार गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रममें भी जितने आचार बताये गये हैं सभीके मूलमें महाप्रकृतिके साथ सामञ्जस्य का विज्ञान रक्खा गया है। कालप्रभावसे ये सब स्वास्थ्य सम्बन्धीय नैसर्गिक विधियाँ लुप्तप्राय होगई हैं। इसीसे आजकलके मनुष्य प्रायः रुग्ण रहकर समस्त जीवन दुःखमें काटते हैं। उनका यौवन बुढ़ापा सभी रोगमय रहता है और उनकी सन्तान भी रुग्ण और दुर्बल होती है। अतः बचपनसे महाप्रकृतिके साथ मिलना सीखना चाहिये, जिससे माताका प्रेम और माताका प्राण प्राप्त होकर जीवन आनन्दमें खीत सके ! शिवाके अभावसे और सन्मानके अनुरोधसे आजकल मातापिता अनेकवार उक्त तथ्यका अनुसरण नहीं करने पाते, धनी मातापिताके बच्चे प्रकृति माताकी गोदमें रहते हुए बड़े ब्रांपके बड़े बेटे बन जाते हैं। उक्तके साथ

पैर होते हुए भी मातापिता उन्हें पंगु बनादेते हैं। उनमें चलनेकी शक्ति नहीं, गाड़ी चाहिये, थोड़ा बोझ उठानेकी शक्ति नहीं, मजदूर चाहिये ; अपना काम करने की शक्ति नहीं, नौकर चाहिये, अर्थात् जो सबके लिये सरल वह इनके लिये कष्टकर और जो स्वाभाविक वह उन्हें लज्जाजनक बोध होता है। वह सरल शिशु महा-प्रकृतिके आदरका धन धूलिधूसरित होकर माताको छातीपर छोटपोट करता है, धूप पानी और हवाका मनमाना सेवन और निर्लज्ज नग्न होकर ताराडव नृत्य करता हुआ अपने शरीर मन प्राणको परिपुष्ट बनाता है, परन्तु धनी पिता-माता धनके मदसे, कृत्रिमलोकलज्जाके संकोचसे महाप्रकृतिके उस सरल शिशुको बाल्यजीवनके सरलसुखसे वचित रखकर चिरदुःखी और चिररोगी बना देते हैं। बच्चेको जूता, कुरता, मोजा, पाजामा, आदि पहिरादेनेसे उसे इस बनठनके लिये अकारण सावधानता रखनी पड़ती है। उसका वह प्रफुल्लहृदय माताके साथ मिल नहीं सकता, उसका जीवन बचपनसे ही कृत्रिमतामय हो जाता है। 'यह कपड़ा फटा, धूलसे यह कुरता मैला होगया, पेड़पर चढ़ने-कबड्डी खेलने से धोनी फट गई, कपड़ेमें कहांसे स्याहीके दाग लगा आया', इत्यादि तिरस्कारयुक्त ताडनासे उसके बाल्यकालके सब खेल ही नष्ट कर दिये जाते हैं। थोड़ा जाड़ा पड़ते ही सिरसे पाँव तक गरम कपड़ों से उसे ढाद कर उसके जीवनको कुल्लसे कुल्ल बना दिया जाता है। यह सब अज्ञान तथा उनपर अत्याचार है। इन सब अज्ञानमय अत्याचारोंसे बालकोंको बचाना चाहिये। ऐसा करनेसे आनन्दमय शिशु, आनन्दमयीके साथ अकृत्रिमभावसे मिलकर अपने शैशवकालको सुखमय, यौवनकालको जीवन संग्राममें विजयी और वार्धक्यको मुनिवृत्तिके योग्य बनानेमें स्वाभाविक रूपसे समर्थ होंगे और महाप्रकृतिके मधुर मिलनसे मधुमय आध्यात्मिक जीवन लाभ कर चिरधन्य हो सकेंगे। महाप्रकृतिकी स्वाभाविक गति ब्रह्मकी ओर है। जीव अपने अहंकारसे व्यष्टि प्रकृतिको महाप्रकृतिसे पृथक् करके ही बन्धन-प्राप्त तथा रोगग्रस्त हो जाता है। ब्रह्मचर्याश्रमका यह सब सदाचार जीवकी व्यष्टि प्रकृतिको धीरे धीरे समष्टि प्रकृतिके साथ मिला देता है। और इसी धर्मके पालन द्वारा स्थूल शरीरकी स्वास्थ्यसिद्धिके साथ ही साथ जीव आध्यात्मिक उन्नतिको भी अवश्य ही लाभ करता है, जिसका अन्तिम परिणाम सर्वज्ञासाश्रममें व्यष्टिप्रकृतिकी महाप्रकृतिमें मिलकर ब्रह्मसमुद्रमें विलीन हो जाना है। इसी भावका थोड़ासा अनुभव करके विसृज्य साहबने क्या ही

अच्छा कहा है—The laws of nature are the laws of health and he who lives according to these laws is never sick. He who obeys the laws maintains an equilibrium in all its parts and thus insures true harmony and harmony is health; while discord is disease and shortens life. महाप्रकृतिके नियम ही स्वास्थ्यके नियम हैं, इन्हें नियमोंके अनुसार रहनेसे कभी रोग नहीं होता है। जो इन नियमोंको मान कर चलता है, वह सब भाव, सब धातु तथा सब तत्त्वोंमें समता और सामञ्जस्य रख सकता है, समता ही स्वास्थ्य है और वैषम्य रोगका निदान तथा आयुःक्षयकर है। महाभारतमें भी लिखा है—

सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेः स्युस्त्रयो गुणाः ।

तेषां गुणानां यत् साम्यं तदाहुः स्वस्थलक्षणम् ॥

सत्त्व, रज, तम प्रकृतिके ये तीन गुण होते हैं, इनके साथ आयुर्वेद शास्त्रानुसार वात, पित्त, कफका भी सम्बन्ध है। सत्त्वगुणके साथ पित्तका, रजोगुणके साथ वातका और तमोगुणके साथ कफका सम्बन्ध है। इन तीनोंकी समतामें ही स्वास्थ्य है और विषमतामें रोग उत्पन्न होता है। विस्वचफ साहवने और भी कहा है—A durable body can be obtained by non-resistance and by letting the good nature take its own course. Most diseases are created by resistance and self-abuse, such as anger, worry, fear, overwork or no work at all. Healthy beautiful body is obtainable by giving the great, good nature a chance to do its work. Expose your body to the sunshine and air as much as possible. By this practice and no resistance, all sickness can be avoided.

(Master Force, Fred. F Bischoff—Kalpaka.)

महाप्रकृतिके नियमोंमें तथा स्वाभाविक गतिमें बाधा न देनेसे ही स्वास्थ्य तथा आयुसे युक्त, दृढ़ शरीर मिल सकता है। अधिकांश रोगोंकी उत्पत्ति इस प्रकार बाधा देनेसे, कामक्रोधादिके वेगके वशीभूत होनेसे और अतिश्रम या आलस्यसे हुआ करती है। सुन्दर, नीरोग शरीर महाप्रकृतिके प्रवाहमें अपनेको बहने देनेसे ही मिलता है। सूर्यभगवान्के प्राणप्रद किरण तथा

वायुके तरङ्गमें अपने शरीरको जितना होसके डूबा रखवो । इसी तरह अभ्यास करनेसे और महाप्रकृतिकी गतिमें बाधा न देनेसे, समस्त रोगोंसे जीव मुक्त हो सकता है । इसी कारण स्थूलशक्तिलाभके लिये ब्रह्मचारी बालकको महर्षि-गण शारीरिक तपका उपदेश करते थे । इस प्रकार द्वन्द्व सहिष्यु, तपोवत्से वलीयान् शरीर ही भागे जाकर ससारसिन्धुके प्रबल वेगको सहनकर सकता है ।

अब ब्रह्मचर्याश्रममें शक्तिलाभके अन्यान्य उपाय भी बताये जाते हैं । शक्ति एकान्तमें मिलती है यह प्राकृतिक नियम है । माताके गर्भमें दस महीने तक एकान्त निवास करने पर ही गर्भस्थ भ्रूणको पूर्णशरीर जीव बनकर पृथ्वीमें उत्पन्न होनेकी शक्ति प्राप्त होती है । जमीन के भीतर एकान्तमें छिपे रहनेसे ही जमीनमें बोये हुए बीजमें वृक्षरूपमें उत्पन्न होनेकी शक्ति आती है । महा-प्रलयके एकान्त गर्भमें कितनेही कल्प तक रहनेसे ही प्रलयविलीन जीवोंमें पुनः प्रकट होनेकी शक्ति आती है । निद्रादेवीके एकान्त अङ्गमें विश्राम करनेसे ही दिनमें कार्य्य करनेकी शक्ति आती है । इसी कारण महर्षिगण ब्रह्मचर्याश्रममें ब्रह्मचारी बालकको शक्तिमान् बनानेके लिये गर्भधारिणी माताके मोहमय अङ्गसे अतिदूर आचार्य्यकी एकान्त सेवामें रहनेकी आज्ञा दे गये हैं । श्रीभग-वान्की आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानमय वेदके द्वारा, अधिदैवशक्ति सूर्यात्माके द्वारा तथा अधिभूत शक्ति पार्थिव अग्निके द्वारा प्रकट होती है । इसलिये ब्रह्मचर्याश्रम-में वेदान्ध्यास द्वारा अध्यात्मशक्तिलाभ, सूर्योपस्थान द्वारा अधिदैवशक्तिलाभ तथा अग्निसेवाद्वारा अधिदैव, अधिभूतशक्तिलाभ ब्रह्मचारी बालकको हुआ करता है । और त्रिसन्ध्या गायत्री उपासना द्वारा वरेण्य बुद्धिधेरक आदि देवताका तेजोलाभ हुआ करता है । उपानच्छत्रधारण त्याग द्वारा पार्थिव शक्ति तथा सूर्य्यशक्तिके साथ सम्बन्ध स्थापन होनेसे उभय शक्तिका ही सग्रह होता है और मधुमांस त्याग, अष्टविध मैथुन त्याग आदि द्वारा इन्द्रिय संयम शक्तिका लाभ होता है । प्रतिगृह भिक्षाचर्यापूर्वक गुरुसेवा द्वारा दीनता, निरहंकार और परमगहन सेवाधर्मका नित्याद्युष्ठान होता है । मां शक्तिको देती है और स्त्री पुरुषसे शक्तिको लेकर सन्तानरूपसे नवीन सृष्टिको बनाती है । इसलिये ससार-में अधिक मां बनानेवाले शक्तिको पाते हैं और अधिक स्त्री बनानेवाले शक्तिको खोते हैं । ब्रह्मचारीको बचपनसे ही 'मां' कहकर शक्तिपानेकी शिक्षा मिलती है । भिक्षा मांगते समय "भवति भिक्षां देहि मातः" इस प्रकारसे प्रत्येक स्त्रीकी माता कहने-

का संस्कार संग्रह होनेसे 'मातृवत् परदारेषु' इस जितेन्द्रियतामूलक देवभावका तथा महती शक्तिका अनायास ही लाभ हो जाता है। केवल अपने पिता-माताके अक्षसे शरीर-पुष्ट न होकर समस्त स्वदेशवासियोंके अक्षसे शरीर प्रतिपालन होनेके कारण समग्र देशके प्रति ममत्व उत्पन्न होकर देशसेवापरायणताकी पवित्र बुद्धि स्वतः ही प्रकट हो जाती है। ब्रह्मचर्यधारण, गुरुसेवा आदि द्वारा विशेष शक्तिलाभके विषयमें अधिक कहना ही क्या है। इत्यादि इत्यादि समस्त विधियोंके द्वारा ब्रह्मचर्याश्रममें गार्हस्थ्योपयोगी धर्ममूलक प्रवृत्तिकी शिक्षा आत्माकी ओर गति तथा प्रवृत्तिके साथ संग्राम द्वारा निवृत्ति लाभके उपयुक्त शक्ति प्राप्त होती है। जिस ब्रह्मचारीका प्राकृत संस्कार अति उत्तम है, वह ब्रह्मचर्याश्रमसे एक बार ही संन्यासाश्रममें प्रवृत्त हो सकता है। किन्तु जिसका संस्कार इतना उच्चकोटिक नहीं है, उसको धर्ममूलक प्रवृत्तिकी सहायतासे क्रमशः निवृत्तिलाभके लिये गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होना पड़ता है। यद्यपि ज्ञानहीन भावशुद्धिहीन धर्महीन प्रवृत्ति घृताहुत वह्निको नाई उत्तरोत्तर बुद्धिगत ही होती है, तथापि प्रवृत्ति धर्ममूलक होनेसे और उसके साथ ज्ञान तथा भावशुद्धिका नित्य सम्बन्ध रहनेसे कालान्तरमें जाकर वह निवृत्तिप्रसविनी अवश्य ही हो जाती है। गृहस्थाश्रममें इसीका साधन होता है। गृहस्थाश्रमके प्रधान कर्त्तव्य अतिथिसेवा द्वारा नररूपमें नारायणकी नित्यपूजा होती है, जिससे हृदयकी उदारता, पुण्यलाभ और भगवत् शक्तिलाभ यथेष्ट होता है। पञ्चमहायज्ञके क्रियालक्षण द्वारा विराट् शक्तिसे एकता, तथा ऋषि-देवता-पितरोंकी त्रिविध शक्ति प्राप्त होती है। परिवारादि सभीके लिये आत्मसुखत्याग करनेका अभ्यास करते करते स्वार्थसङ्कोच, त्याग, संयम आदि सभी उन्नत वृत्तियाँ आने लगती हैं। धर्मपत्नीके सामने होते हुए भी शास्त्रविचार, तिथिविचार, गर्भमें सन्तान विचार आदि विचारोंसे संयम करने पर पुरुषको बहुत कुछ शक्तिलाभ हुआ करता है। एकपत्नीव्रत और शास्त्रनियमालुसार स्त्रीसेवाद्वारा प्रवृत्ति-संस्कार क्रमशः ज्ञान होकर निवृत्तिभावका उदय होने लगता है। सन्तानके प्रति स्नेह, पितृ-मातृ-भक्ति, दाम्पत्यप्रेम आदि मधुर दिव्य गुणावली स्वतः ही उन्मेषित होने लगती है। विषयसुखकी लज्जमङ्कुरता तथा परिणाम तापादि दुःखका उसके साथ अचञ्चल सम्बन्ध अनुभव करके चित्तमें धीरे धीरे विषयके प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इष्टीपासना द्वारा आत्माके प्रति गति और इष्टदेवसे शक्तिकी प्राप्ति अवश्य ही जाती है। बहु आत्मियोंका एक परिवारसे सम्बन्ध

होनेसे, कई परिवारका एकाग्रवर्त्ती होनेसे अनेक नरनारियोंका एक ही पारिवारिक स्वार्थमे सम्बन्धयुक्त रहनेसे और उस परिवारके नरनारियोंमे यथायोग्य अधिकारके अनुसार यथायोग्य आचरण करके निःस्वार्थ भाव प्राप्त करनेसे मनुष्यके चित्तकी उदारभूमिका उदारतर विस्तार होना है । और ऐसा ही भाग्यवान् गृहस्थ स्वधर्मसेवा, स्वजातिसेवा और स्वदेशसेवाके लिये कालान्तरमे यथार्थ उपयोगी बन सकता है । पृथिवी भरमें और किसी जातिमें भी इस प्रकार गृहस्थधर्मकी उदारता नहीं दिखाई पड़ती है । हिन्दुगृहस्थधर्मकी महिमाका यह एक ज्वलन्त दृष्टान्त है । इत्यादि इत्यादि विधियोंके द्वारा गृहस्थाश्रममे प्रचुर शक्तिलाभ तथा धर्ममूलक प्रवृत्तिकी चरितार्थतासे निवृत्तिका परिपोषण होनेपर वानप्रस्थ आश्रममे प्रवेश हो जाता है । वानप्रस्थाश्रममें निवृत्तिका विशेष अभ्यास होता है । विषयसे शिथिल गार्हस्थ शरीर वानप्रस्थाश्रममें कठिन तपस्या द्वारा परिपक्व होकर अग्निदग्ध काञ्चनकी तरह निर्मल हो जाता है, ऐसे निष्पाप शरीर तथा अन्तःकरणमे परमात्माकी उपासना द्वारा असीम शक्तिलाभ तथा निवृत्तिकी प्रतिष्ठा स्वतः ही होने लगती है, जिसके फलसे संयमशील, तपस्वी, क्षीणपाप, वैराग्यवान् साधक निवृत्तिके पाराकाष्ठाप्रद संन्यासाश्रमको लाभ कर सकते हैं । इसी तुरीयाश्रममें निवृत्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा होती है और शक्तिकी भी पूर्ण प्रतिष्ठा होती है । क्योंकि निवृत्तिपरायण संन्यासी विषयसे चित्तको एकवारगी हटाकर सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान् परमात्माके ध्यानमे निरन्तर मग्न रहते हैं । और इसी ध्यानके फलसे समाधिलाभ होकर जब वे ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं, तब अध्यात्मशक्तिकी पराकाष्ठा उन्हें प्राप्त हो जाती है । वे विधिनिषेधसे अतीत होकर स्वयं ब्रह्मभावमे निमग्न रहते हैं और दूसरे मुमुक्षुको भी परमात्माके पथमें जानेके लिये योग्य सहायता किया करते हैं । इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमोंके द्वारा क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण सभी शक्तिकी प्राप्ति आर्यजानिके योग्य पुरुषोंको हुआ करती है ।

प्रसङ्गोपात्त आश्रमोंमें शक्तिसंचयके साथ स्पर्शास्पर्श विचारका सम्बन्ध दिला देना अशुचित न होगा । आचारके प्रबन्धमे स्पर्शदोषके विषयमें जो कुछ लिखा गया है उससे यही तथ्य निकलता है कि अपनी नैसर्गिक या कमाई हुई शक्तिकी रक्षाके लिये ही स्पर्शास्पर्शके विचार रखनेकी आज्ञा आर्यशास्त्रमें दी गई

है । परमहंस दशामें सदा सर्वशक्तिमान् ब्रह्ममें लवलीन रहनेके कारण ऐसे महात्माकी शक्ति किसी स्पर्शदोषसे विगड़ नहीं सकती है, बल्कि कितनी ही विगड़ी शक्तिको वे सुधार दिया करते हैं । यही कारण है कि परमहंस विधि-निषेधसे अतीत होते हैं जैसा कि श्रीभगवान् शंकराचार्यने कहा है—

‘भेदाभेदे सपदि गलिते पुण्यपापे विशीर्णे ।

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥’

त्रिगुणमयी मायासे परे परब्रह्ममे विराजमान परमहंसको भेद, अभेद, पुण्य, पाप आदि द्वैत भाव स्पर्श नहीं करता । अतः उनके लिये विधिनिषेध भी नहीं है । इससे नीचेकी स्थितिमें जो संन्यासी है, जिनको परमहंसभावकी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उनको अपनी स्थितिके अनुसार स्पर्शास्पर्श, विधिनिषेध अचश्य ही मानना पड़ेगा, अन्यथा अधम, विपयी जीवोंकी बुरी शक्ति (Magnetism) के प्रभावमे आकर वे विगड़ जायेंगे, उनका निवृत्ति भाव छूट जायगा और वे विषयपकमे पुनः लिप्त हो जायेंगे । उससे नीचे वानप्रस्थाश्रममें, जब कि गृहस्थ सम्बन्ध हालहीमें छूटा है, अभी तक शक्तिकी विशेष प्राप्ति हुई भी नहीं है, केवल शक्तिलाभके लिये साधन, तप आदिका अनुष्ठानमात्र होरहा है, इस दशामे मनुष्यको स्पर्शास्पर्श, विधिनिषेध आदिका बहुत कुछ विचार रखना पड़ेगा, नहीं तो वानप्रस्थाश्रममे कोई भी उन्नति नहीं हो सकेगी । उससे नीचे गृहस्थाश्रममे तथा ब्रह्मचर्याश्रममे तो पद पद पर पतनको और शक्ति-क्षयकी आशङ्का है । इसी कारण वर्णधर्म, आश्रमधर्म, सदाचार आदि रूपसे इन दोनो अधिकारोमे स्पृश्यास्पृश्य, विधिनिषेध, हेय-उपादेय, धर्म-अधर्म आदि सब कुछ मानकर बहुत सम्हाल कर तब आगे पांव रखना पड़ता है, अन्यथा मर्यादा-विरुद्ध आचरणके द्वारा गृहस्थका तथा ब्रह्मचारीका पतन अवश्य होजाता है । यही कारण है कि भारतके सर्वत्र आर्यजातिमें वर्णधर्मानुसार स्पृश्यास्पृश्य विचारका प्रचलन है और विधिनिषेधसे अतीत अवस्थाके नमूनेके तौर पर जगन्नाथक्षेत्रका दृश्य दिखाया गया है । पुरीमें जगन्नाथका मन्दिर जिसने देखा है उसको यह रहस्य ज्ञात हो सकेगा । इस रहस्यका ठीक पता लगानेमें असमर्थ होकर कोई कोई नवीन खोज करनेवाले उसे बौद्धयुगके बाद तन्त्रयुगका वाममार्ग मन्दिर कह देते हैं और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि कामकलाके चित्र मन्दिर पर इसलिये दिये गये हैं कि सबको आंखें उसपर

अधिक पढ़ेंगी और आंखोंसे विद्युत् शक्ति एकत्रित होनेके कारण मन्दिर पर वज्रपातकी आशका नहीं रहेगी । किन्तु यथार्थ रहस्य यह है कि जगन्नाथ मन्दिरका दृश्य स्वल्पाधारमें संसारका दृश्य है, अर्थात् मन्दिरके बाहर मायाका राज्य है, जिसमें स्त्री-पुरुषोंके कामकला विकाशके चित्र हैं । किन्तु मन्दिरके भीतर, मायाके सब दृश्यसे परे परमात्मा जगन्नाथदेव विराजमान रहते हैं । परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई द्यवस्थित आकार नहीं है, इसलिये जगन्नाथका कलेवर भी किसी भी अङ्गको पूर्णतासे हीन विचित्र सा ही बनाया गया है । जो मन्त्रुष्य मन्दिरके बाहिरी चित्रमें ही फँसे रहते हैं, मायाके दृश्य देखनेमें ही जिनका मन लवलीन होजाता है, उसीके प्रति जिनके अन्तःकरणका आकर्षण है, वे मन्दिरके भीतर श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके योग्य नहीं होते । 'रथस्थ वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते' देहरूपी रथमें परमात्माको देखलेने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, इस सिद्धान्तके वे अधिकारी नहीं हैं । किन्तु जो भाग्यवान् मुमुक्षु साधक मन्दिरके बाहिरी दृश्योंमें नहीं फँस जाते, उस मायाकी परीक्षामें जो उत्तोर्य हो जाते हैं, उन्हें ही माधामन्दिर या ससार मन्दिरके भीतर विराजमान जगन्नाथदेवके यथार्थ दर्शन होते हैं और उनका दर्शनकर वे मुक्त होजाते हैं, त्रिगुणमयी मायासे परे होजाते हैं, विधिनिषेध, स्पृश्यास्पृश्य, धर्म अधर्म सभी द्वैतभावसे परे होजाते हैं । उस समय 'महाप्रसाद' ग्रहणका उनको अधिकार होजाता है, जिसमें कोई भी जातिविचार, वर्णविचार, स्पर्शा-स्पर्शविचार नहीं रहता, बल्कि उस दशामे ऐसा विचार करना ही अपराध समझा जाता है । आनन्दवाजारमें परमानन्द लुटनेका भी मौका उन्हें उसी समय मिल जाता है । यही विधिनिषेधहीन परमहंसदशा है । अतः यह सिद्ध हुआ कि अपनी शक्तिके तारतम्यानुसार तथा शक्ति रक्षाके लिये ही सकल आश्रममें स्पृश्यास्पृश्यादि विधिनिषेध आर्यशास्त्रमें बताये गये हैं ।

अब ऊपर लिखित त्रिविध शक्तिकी प्राप्तिके लिये अवश्य पालनीय चतुराश्रम धर्मकी सन्निप्त विधियाँ बताई जाती हैं । जीवनसंग्राम और वैयक्तिक भावके बढ़ जानेसे तथा देशकालके भिन्नरूप हो जानेसे महर्षियोंके द्वारा विहित चतुराश्रमधर्मका ठीक ठीक पालन करना आजकल बहुतही कठिन हो गया है । तथापि महर्षियोंकी दूरदर्शिता मायामुग्ध जीवोंके लिये सदा ही कल्याणकर होनेसे मनुष्योंका कर्त्तव्य है कि, उनके द्वारा विहित आश्रमधर्मका जहाँतक हो सके वे पालन करते रहें ।

पहिलेही कहा गया है कि मनुष्योनिमें स्वतन्त्रता और अहङ्कारके बढ़ जानेसे इन्द्रियलालसा तथा भोगप्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी प्रवृत्तिको धीरे धीरे घटाकर मोक्षफलप्रद निवृत्तिमार्गकी ओर ले जाना ही मनुष्यका परम कर्त्तव्य है। आश्रमधर्म इसी कर्त्तव्यके उपायोंको बताता है। ब्रह्मचर्याश्रममें धर्ममूलक प्रवृत्तिके लिये शिक्षालाभ होता है, गार्हस्थ्यमें धर्ममूलक प्रवृत्तिको चरितार्थता होती है। वानप्रस्थ आश्रममें निवृत्तिमार्गके लिये शिक्षालाभ होता है और संन्यास आश्रममें निवृत्तिकी पूर्ण चरितार्थता होती है। पूर्वकर्म बलवान् होनेसे ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा साधारण रीतिके अनुसार प्रवृत्तिमार्गसे ही धीरे धीरे निवृत्तिमार्गमें जाना चाहिये।

प्रथम आश्रमका नाम ब्रह्मचर्याश्रम है। मनुसंहिताके द्वितीयाध्यायमें इसके विषयमें विशेष वर्णन है। द्विज पिताका कर्त्तव्य है कि यथासमय पुत्रका उपनयन करके उससे पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करावे। उपनयन कालके विषयमें मनुजाने कहा है कि :—

गर्भाऽष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।
 गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥
 ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य्यं विप्रस्य पञ्चमे ।
 राज्ञो बलाऽर्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहाऽर्थिनोऽष्टमे ॥
 आपोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नाऽतिवर्त्तते ।
 आद्वाविंशात् क्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥
 अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।
 सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥

गर्भसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मणका उपनयन होना चाहिये, एकादश वर्षमें क्षत्रियका और द्वादश वर्षमें वैश्यका उपनयन होना चाहिये। यदि यह इच्छा हो कि ब्राह्मणमें ब्रह्मतेज उत्पन्न हो, क्षत्रियको बल प्राप्त हो और वैश्यको धन प्राप्त हो तो यथाक्रम पांच, छः और आठ वर्षमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यका उपनयन होना चाहिये। सोलह वर्ष पर्यन्त ब्राह्मणका, चाईस वर्ष पर्यन्त क्षत्रियका और चौबीस वर्ष पर्यन्त वैश्यका उपनयनकाल अतीत नहीं होता है। इतने वर्ष तकमें भी यदि उपनयन नहीं हो तो द्विज उपनयन

भ्रष्ट होकर ब्राह्म्य कहलाते हैं और आर्यजनोंमें उनकी निन्दा होती है, अतः यथासमय उपनयन संस्कार करना उचित है । तदनन्तर ब्रह्मचारीका वेष्ट, दण्ड, मेखला आदि धारण कराकर गुरुके आश्रममें बालकको भोजना चाहिये या और तरहसे ब्रह्मचर्य व्रतका पालन कराना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य व्रत पालनके लिये जितने कर्त्तव्य शास्त्रोंमें बताया गये हैं उन सबको तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । यथा—वीर्यधारण, गुरुसेवा और विद्याभ्यास ।

नैष्टिक ब्रह्मचर्यका सयम, गृहस्थाश्रमकी धार्मिक प्रवृत्ति, वानप्रस्थाश्रमकी तपस्या और संन्यासाश्रमका ब्रह्मज्ञान सभी ब्रह्मचर्याश्रमकी वीर्यरक्षा पर निर्भर करते हैं । मनुसंहितामें लिखा है कि :—

सेवेतेमोस्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरौ वसन् ।
 सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः ॥
 वर्जयेन्मधुमांसश्च गन्धं मान्यं रसान् स्त्रियः ।
 शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चैव हिंसनम् ॥
 अभ्यङ्गमञ्जनञ्चाऽक्षणोरूपानच्छत्रधारणम् ।
 कामं क्रोधश्च लोभश्च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥
 द्यूतश्च जनवादश्च परीवादं तथाऽनृतम् ।
 स्त्रीणाञ्च प्रेक्षणात्मभ्युपघातं परस्य च ॥
 एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।
 कामाद्धि स्कन्दयन्नू तो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥
 स्वप्ने सित्त्रा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः ।
 स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥

ब्रह्मचारी गुरु-आश्रममें वास करनेके समय इन्द्रियसयम करके तपोबल बढ़ानेके लिये नीचे लिखे हुए नियमोंको पालन करें । उनको मधु, मांस, गन्धद्रव्य; मांस्य, रस आदिका सेवन और स्त्रीसम्बन्ध त्याग करना चाहिये । जो वस्तु स्वभावतः मधुर है परन्तु किसी कारणसे अम्ल हो गया है, इस

प्रकारकी वस्तु ब्रह्मचारी कदापि स्वेन न करे और किसी जीवकी हिंसा न करे । तैलमईन, आँखोंमें अञ्जन, पाँदुका व छत्रधारण, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, वाद्य, अक्षक्रीड़ा, मनुष्योंके साथ वृथा वाकलह या दोषदर्शन, मिथ्यावचन, स्त्रियोंके प्रति कटाक्ष या आलिङ्गन, दूसरोंका अपकार, ये सभी ब्रह्मचारीके लिये त्याज्य है । ब्रह्मचारी एकाकी शयन करें, कभी रेतःपात न करें, इच्छासे रेतःपात करनेपर ब्रह्मचारीका व्रत भङ्ग हो जाता है, यदि इच्छा न होनेपर भी कभी स्वप्नमें शुक्रनाश हो जाय तो स्नान और सूर्यदेवकी पूजा करके तीन बार "पुनर्मांमेत्विन्द्रियम्" अर्थात् मेरा वीर्य मेरेमें पुनः लौट आवे, इस प्रकारका वेदमन्त्र पढ़ना चाहिये । यही सब ब्रह्मचर्यरक्षाकी विधि है ।

संसारमें देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तुमें प्रधानतः आधिभौतिक या आधिदैविक या आध्यात्मिक उन्नति करनेकी शक्ति विद्यमान है, परन्तु यदि किसी वस्तुमें एकाधारमें ही तीनों प्रकारकी उन्नति करनेकी शक्ति है तो वह परमवस्तु ब्रह्मचर्य ही है । अब ब्रह्मचर्यके द्वारा आध्यात्मिकादि त्रिविध उन्नति कैसे होती है सो बताया जाता है ।

मुण्डकोपनिषद्में लिखा है कि :—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा ।

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥

सत्य, तपस्या, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके द्वारा आत्माकी उपलब्धि होती है । ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप प्रदीपके लिये तैलरूप है, और संसारसमुद्रमें पथभ्रान्त जीवोंके लिये ध्रुवतारारूप है । इसीको ही आश्रय करके आध्यात्मिकादि त्रिविध उन्नति-साधन करता हुआ जीव परमात्माका साक्षात्कार लाभ कर सकता है । छान्दोग्योपनिषद्में लिखा है कि :—

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येषो यो
ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण
ह्येषेष्ठात्मानमनुविन्दते ।

ब्रह्मचर्य ही यज्ञ और इष्टरूप है जिससे मनुष्य आत्माको प्राप्त हो सकता है । श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है कि :—

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति,
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥

वेदवित् ज्ञानिगण जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वासनारहित यतिगण जिस परमपदको प्राप्त करते हैं, जिस परमपदकी इच्छासे साधक ब्रह्मचर्य्य पालन करते हैं, उसके विषयमें मैं सक्षेपसे कहता हूँ । श्रीभगवान्ने इस श्लोकमें ब्रह्मचर्य्यके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्माकी उपलब्धि होती है ऐसा बताया है । जिस शक्तिके द्वारा महर्षिगण प्राचीनकालमें ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करके दिग्विद्वान्तमें उसकी छुटाको फहराते थे, और जिस शक्तिके द्वारा उनके समाधिशुद्ध अन्तःकरणमें वेदकी ज्योति प्रतिफलित हुआ करती थी वह शक्ति ऊर्ध्वरेता महर्षियोंमें ब्रह्मचर्य्यकी ही शक्ति है । आज हीनवीर्य्य भारतवासियोंमें ब्रह्मचर्य्यकी शक्ति नष्ट होनेसे वेद देखना तो दूर रहा उसका अर्थ करना तथा उच्चारण करना भी असम्भव हो गया है और हजारों प्रकारके सन्देहपूर्ण वेदके अर्थ हो रहे हैं । छान्दोग्योपनिषद्में इन्द्रविरोचनसम्वादमें इस सिद्धान्तको स्पष्टतया दिखाया गया है कि केवल ब्रह्मचर्य्यके द्वारा ही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है । वहाँ ब्रह्माजीने दोनोंको ही बत्तीस बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य-पालनकी आज्ञा की है । समाधिके समय शरीरके भीतर जो वैद्युतिकशक्ति भर जाती है उसका धारण केवल ब्रह्मचर्य्य द्वारा ही योगी कर सकते हैं । अन्यथा—अल्पवीर्य्य साधक योगानुष्ठान करे तो कठिन रोगसे आक्रान्त हो सकता है । मानवशरीर भगवान्का पवित्र मन्दिर है परन्तु इस मन्दिरकी भित्ति ब्रह्मचर्य्य ही है जिसके बिना भगवान् कभी हृदयमन्दिरमें सुशोभित नहीं हो सकते हैं । उपनिषदोंमें लिखा है कि:—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयाऽऽसक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥

मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण मन ही है । विषयासक्त मन बन्धनका और निर्विषय मन मोक्षका कारण है । योगशास्त्रका सिद्धान्त यह है कि मन वायु और वीर्य्य तीनों एक सम्वन्धसे युक्त है । इनमेंसे एक भी

वशीभूत हो तो और दो वशीभूत हो जाते हैं। जिसका वीर्य वशीभूत ब्रह्मचर्यके द्वारा है उसका मन वशीभूत होता है और मनके वशीभूत होनेसे निर्विषय अन्तःकरणमें ब्रह्मज्ञानका स्फुरण होता है। यही सब ब्रह्मचर्यके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होनेके प्रमाण है।

इसी प्रकार ब्रह्मचर्यके द्वारा आधिदैविक उन्नति भी होती है। महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें लिखा है कि:—

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।

ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा होनेसे परमशक्ति प्राप्त होती है। योगदर्शनके विभू-
तिपादमें जितने प्रकारकी सिद्धियोंका वर्णन है, यथा—सूर्यमें संथमसे भुवन-
ज्ञान और संस्कारोंमें संथमसे परचित्तज्ञान आदि, ये सभी ब्रह्मचर्यके द्वारा
दैवीशक्ति प्राप्त करनेके फल हैं। महर्षिगण जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करके संसारमें
सभी दैवी बातोंको कर दिखाते थे जिनकी शक्तियोंको स्मरण करनेसे दीन हीन
भारतवासियोंके मृतकङ्कालमें आज भी प्राणका सञ्चार होने लगता है और
संसारमें जो बड़े बड़े कर्मवीर और धर्मवीर महापुरुष अपनी शक्तिके प्रतापसे
अलौकिक कार्योंको कर गये हैं यह सब ब्रह्मचर्यके द्वारा आधिदैविक शक्ति
प्राप्त करनेका ही फल है। छान्दोग्योपनिषद्में लिखा है कि:—

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणाऽनुविन्दति तेषामेवैष

ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

ब्रह्मचर्यके द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और उस लोकमें सिद्ध पुरुष
कामचारी होते हैं। यह सब ब्रह्मचर्यके द्वारा दैवीशक्तिलाभका ही फल है।
इसी शक्तिके प्राप्त होनेसे ही भीष्मपितामहको इच्छा-मृत्यु-लाभ हुआ था
और शरशय्या पर शयन करके भी उन्होंने पवित्र ब्रह्मज्ञानका धर्मोपदेश
किया था। मनुसंहितामें उत्तरायणगतिकी बात जो लिखी है कि परिव्राजक
योगी और युद्धमें वीरकी तरह प्राण समर्पण करनेवाले महापुरुष, ये दोनों ही
सूर्यमण्डलमें दूध करके उत्तरायण गतिको प्राप्त करते हैं उसके भी मूलमें
ब्रह्मचर्यकी ही महिमा प्रकट होती है।

तीसरी ब्रह्मचर्यसे आधिभौतिक उन्नति होती है। शास्त्रोंमें कहा है कि:—

शरीरमार्धं खलु धर्मसाधनम् ।

स्थूलशरीरकी रक्षा किये बिना मनुष्य किसी प्रकारकी उन्नति नहीं कर सकता है । मानसिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक स्वास्थ्यके ऊपर निर्भर करती है । शरीरमें सबसे उत्तम धातु वीर्य है जिसकी रक्षासे स्वास्थ्यकी रक्षा हुआ करती है । चिकित्साशास्त्रका यह सिद्धान्त है कि भुक्त अन्न पाकस्थलीमें जाकर पहले रस बनता है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे वीर्य बनता है । इस प्रकार अन्नके रससे एक महानेमे वीर्य बनता है और ४० चालीस विन्दु रक्तसे एक विन्दु वीर्य होता है । इसीसे समझ सकते हैं कि शरीरकी रक्षाके लिये वीर्यका कितना प्राधान्य है । वीर्य ही समस्त शरीरका प्राणरूप है । वीर्यके स्तम्भनसे प्राणको पुष्टि, समस्त शरीरमें कान्ति और मानसिक शान्ति रहती है । वीर्यके नाशसे प्राणनाश और सकल प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । शरीरकी नौरोगताके विषयमें पहिले ही कहा गया है कि वायु, पित्त और कफकी समतासे शरीर नौरोग रहता है और अन्तःकरणमें भी आनन्द तथा शान्ति रहती है । वीर्यके साथ वायुका सम्बन्ध होनेसे वीर्यके स्थिर रहनेपर वायु भी शान्त रहता है जिससे मन भी शान्त रहता है । अन्तःकरणके शान्त रहनेसे मनुष्य परम सुखी और आध्यात्मिक उन्नतिशाल होता है । अतः सिद्धान्त हुआ कि ब्रह्मचर्यरक्षा ही सकल आनन्दका निदान है । महाभारतमें लिखा है:—

मध्ये सा हृदयस्यैका शिरा तत्र मनोवहा ।

शुक्रं संकल्पजं नृणां सर्वगान्त्रैर्विद्युश्चति ॥

शरीरके भीतर मनोवहा नामकी एक नाड़ी है जो कि मनुष्यके चित्तमें कामभाव होते ही दूधको मथन करके माखन निकालनेकी तरह शरीर और रक्तको मथन करके वीर्यको निकालती है । मनोवहा नाड़ीके साथ शरीरकी सब नाड़ियोंका सम्बन्ध है इसलिये शुक्रनाशके समय शरीरकी सब नाड़ियां कांप उठती हैं, शरीरके सब धन्त्र हिल जाते हैं जिसकी प्रतिक्रिया शरीर और मन पर इतनी होती है कि उस पाशविक क्रियाके अन्तमें शरीर व मन अतिदीन, खिन्न, दुर्बल और मृतप्राय होकर दुःखके अनन्त समुद्रमें डूब जाता है । इसी लिये गीतामें लिखा है कि:—

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥

जिस प्रकार किसी मृत पुरुषके सामने काम या क्रोधका कोई विषय रखने पर भी उसके शरीर और मनमें कोई चाञ्चल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जीते ही जिसने शरीर और मनको ऐसा वशमें कर लिया है कि किसी प्रकार काम या क्रोधसे इन्द्रियां चञ्चल न हों वही योगी और सुखी है। चिकित्साशास्त्रका सिद्धान्त है कि प्रत्येक मनुष्यके खूनमें दो प्रकारके कीट होते हैं, एक सफेद (White corpuscle) और दूसरे लाल (Red corpuscle), इन दोनोंमेंसे सफेद कीट रोगके कीटोंसे लड़ कर शरीरकी रक्षा करते हैं क्योंकि हैजा, भेग, मलेरिया आदि सब रोगोंके कीट होते हैं जो कि शरीर पर आक्रमण करके उसे नष्ट करते हैं। अब यह बात निश्चय है कि रक्तको मथन करके वीर्य निकल जानेसे रक्त निःसार हो जायगा जिससे वे सब रक्तके कीट भी दुर्बल हो जायंगे और उनमें रोगके कीटोंसे लड़नेकी शक्ति नहीं रहेगी। इसका फल यह होगा कि शरीर बहुत प्रकारके रोगोंसे आक्रान्त हो जायगा, शारीरिक आरोग्यता नष्ट हो जायगी और मनुष्य जीता ही मुर्देकी तरह बन जायगा। यही सब शुक्रनाशका फल है। जिस प्राणके साथ शरीरका इतना सम्बन्ध है कि उसके अभावसे शरीर मृत हो जाता है, वीर्यके नाशसे उस प्राणशक्तिका भी नाश होने लगता है जिससे मनुष्य अल्पायु और चिररोगी हो जाते हैं। योगशास्त्रमें श्वास प्रश्वास पर संयम करके लिखा गया है कि मनुष्योंकी नियमित आयुके लिये नियमित श्वासकी भी आवश्यकता होती है। साधारणतः दिन और रातमें प्रत्येक मनुष्यके श्वास २१६०० बार निकलते हैं। योगशास्त्रमें लिखा है कि:—

देहाद्बहिर्गतो वायुः स्वभावाद्द्वादशांगुलिः ।
गायने षोडशांगुल्यो भोजने विंशतिस्तथा ॥
चतुर्विंशांगुलिः पान्थे निद्रायां त्रिंशद्गुलिः ।
मैथुने षट्त्रिंशदुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम् ॥
स्वभावेऽस्य गते न्युने परमायुः प्रवर्द्धते ।
आयुःक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चाऽन्तराद्गते ॥
तस्मात्प्राणे स्थिते देहे मरणं नैव जायते ॥

जो दिवारात्रमें इक्कीस हजार छः सौ बार श्वास निकलता है उसी हिसाबसे निकला करे तो प्रत्येक श्वासका वायु १२ बारह अंगुलि तक नासिका-से बाहर जायगा । यही स्वाभाविकरूपसे निकलते हुए श्वासकी पट्टन है । यही श्वास गाते समय १६ अंगुलि, भोजन करते समय २० अंगुलि, रास्ता चलने समय २४ अंगुलि, निद्रामें ३० अंगुलि, मैथुनके समय ३६ अंगुलि और व्यायाममें उससे भी अधिक दूर तक पहुँचता है । श्वासकी इस स्वाभाविक गतिको घटानेसे आयु बढ़ती है और अधिक श्वास जानेसे आयु क्षय होता है । व्यायाममें श्वास अधिक निकलनेपर भी व्यायामके द्वारा शरीर सबल तथा नीरोग रहता है, परन्तु इससे आयुकी वृद्धि नहीं होती है । प्राणायाम करनेपर शरीर सबल तथा नीरोग रहता है और आयु भी बढ़ती है । इसीलिये शास्त्रमें कहा है कि—“प्राणायामः परं बलम्” प्राणायाम परम बल है । इस तरहसे प्राणायामकी स्तुति और उसके करनेकी आज्ञा की गई है । परन्तु मैथुनमें व्यायामका कोई फल नहीं होता है, उल्टा श्वास ३६ छत्तीस अंगुलि तथा अधिक निकलनेसे विशेषरूपसे आयुःक्षय होता है । स्वाभाविक श्वास जो कि १२ बारह अंगुलि है उससे तीन गुण अधिक जोरसे श्वास निकलने पर मनुष्य बहुत ही अल्पायु हो जाता है और प्राणरूप वीर्यके निकलनेसे अत्यन्त दुर्बल तथा रुग्णदेह हो जाता है । यही सब ब्रह्मचर्यनाशका विषम फल है । इसीलिये योगशास्त्रमें कहा है कि—“मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात्” अर्थात् वीर्यनाशसे मनुष्यकी मृत्यु और वीर्यधारणसे मनुष्यका जीवन-है ।

शरीरके समस्त यन्त्रोंमेंसे स्नायु, पाकस्थली, हृदय तथा मस्तिष्क ये चार यन्त्र मुख्य हैं । वीर्यनाशसे इन चारों यन्त्रोंपर कठिन आघात पहुँचता है । कामका तुच्छ सुख केवल इन्द्रियके स्नायुओंके चाञ्चल्यसे ही होता है, परन्तु पुनः पुनः चाञ्चल करनेसे वे सब नसँ दुर्बल हो जाती हैं और साथ ही साथ समस्त शरीरके स्नायुओंमें आघात होनेसे वे सब भी दुर्बल हो जाते हैं । फल यह होता है कि स्नायुओंके दुर्बल होनेसे उनमें वीर्यधारण करनेकी शक्ति नहीं रहती है जिससे सामान्य काम सङ्कल्प तथा चाञ्चल्यसे ही वीर्य नष्ट होने लगता है और धातुदौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन कठिन रोग हो जाते हैं । और शरीरके स्नायुओंपर धक्का अधिक लगनेसे पक्षाघात, ग्रन्थिवात, अपस्मार (मृगी) आदि भीषण रोगोंकी उत्पत्ति होती

है । द्वितीयतः अपानवायुके साथ प्राणवायुका और प्राणवायुके साथ वीर्यका सम्बन्ध रहनेसे अपानवायुके साथ भी वीर्यका सम्बन्ध है और अपानवायुके साथ पाकयन्त्र, पायु तथा उपस्थयन्त्रका सम्बन्ध है । अपानके ठीक रहनेसे अन्नका परिपाक भी ठीक ठीक होता है जिससे अजीर्ण रोग नहीं होता है । परन्तु वीर्यके नाश या चाञ्चल्यसे जब अपानकी क्रियामें भी खराबी हो जाती है तो पेटमें अन्न नहीं पचता है, अजीर्ण रोगसे शरीर आक्रान्त हो जाना है, और संसारमें ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि अजीर्णरोगके परिणामसे नहीं हो सकता है । बहुमूत्र, शिरोरोग, धातुरोग, दृष्टिहीनता, रक्तधिकार, अर्श आदि सभी रोग अजीर्णरोगके परिणामसे होते हैं और मनुष्यके जीवनको भारभून तथा अशान्तिमय कर देते हैं । अपानवायुके खराब होनेसे पायुयन्त्रके भी सब रोग हो जाते हैं । यथा—समय पर शौच न होना, अधिक दस्त होना, दस्त बन्द हो जाना, पेटमें आम होना आदि बहुत रोग हो जाते हैं । जिस उष्णताके रहनेसे पेटमें अन्न पचता है, वीर्यनाशसे वह उष्णता नष्ट हो जाती है जिससे पिच्छप्रकृति नष्ट होकर कफप्रकृति होता है और पित्त दुर्बल होनेसे अजीर्ण होता है । तृतीयतः वीर्यके निकलते समय कलेजेमें धक्का बहुत लगता है क्योंकि जब हृदय ही रक्तका मूलस्थान है तो जितने वार दुग्धके सारभूत मक्खनकी तरह रक्तके सारभूत वीर्य नष्ट होंगे उतनी ही वार दुर्बल रक्तको पुष्ट करनेके लिये हृद्यन्त्रसे रक्तका प्रवाह होगा जिसका फल यह होगा कि हृद्यन्त्र पर चोट लगेगी जिससे क्षय, कास, यक्ष्मा आदि कठिन रोग उत्पन्न होकर अकाल मृत्युके प्रासमें मनुष्यको डाल देंगे । ओर चतुर्थतः वीर्यनाशसे मस्तिष्क पर बहुत ही धक्का लगता है । शरीरका सर्वोत्तम अङ्ग मस्तिष्क है उसमें शरीरके सारभूत पदार्थ भरे रहते हैं और समस्त स्नायुओंका केन्द्रस्थान भी मस्तिष्क ही है, इसलिये वीर्यके नाशसे मस्तिष्क निस्सार व दुर्बल होजाता है जिससे स्मृति, बुद्धि, प्रतिभा सभी नष्ट होने लगती है, मनुष्य सामान्य दिमागी परिश्रमसे ही थकजाता है, सिर घूमने लगता है, आध्यात्मिक विषयोंपर विचार नहीं कर सकता है, बहुत देरतक किसी बातको चिन्त लगाकर सोच नहीं सकता है, कोई बात बहुत देरतक स्मरण नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ी बातमें घबराहट होने लगती है, वैर्य सम्पूर्ण नष्ट होजाता है, प्रकृति रूखी क्रोधी व भीरु हो जाती है और अन्तमें उन्मादरोग तक होजाता है । पागलखानोंमें जितने उन्मादी देखे जाते हैं, अनुसन्धान करने पर कई वार पता लगा है कि, उनमेंसे फीं सैकड़ा

नव्ने व्यभिचार द्वारा वीर्यहीन होकर पागल बन गये हैं । मस्तिष्क सब स्नायुओंका केन्द्रस्थान होनेसे मस्तिष्कके दुर्बल होनेपर स्नायु भी दुर्बल होजाते हैं जिससे सब इन्द्रियोंमें दुर्बलता होती है क्योंकि प्रत्येक स्थूल इन्द्रियका जो मस्तिष्कसे स्नायुओंके द्वारा सम्बन्ध है उसीसे इन्द्रियोंका कार्य ठीक ठीक चलता है इसलिये मस्तिष्क जब दुर्बल होता है तब इन्द्रियोंका कार्य भी विगड़ जाता है । आंखमें, कानमें, सबसे कमजोरी आने लगती है । यही सब वीर्यनाशका फल है ।

आज तो भारतवर्षमें सब्बे ब्राह्मण और सब्बे क्षत्रिय आदि विरल ही मिलते हैं, ब्राह्मणोंकी वह शक्ति और क्षत्रियोंका वह तेज कुछ भी नहीं है, जो ऋषि पहले अमोघवीर्य होते थे उनके पुत्र आज निर्वीर्य हो रहे हैं, आर्यसन्तान आज तेजोहीन होकर भारतमाताके मुख पर फलङ्क आरोपण कर रही है, ऋषियोंके दिव्यनेत्र और ज्ञाननेत्र सब नष्ट होकर आज उपनेत्रके विना देखा नहीं जाता है, हमारा शरीर और मन स्मशानके दृश्यको स्मरण करा रहा है, वेदके मन्त्रोंको देखना और शुद्ध उच्चारण करना दूर रहा वेदके अर्थ पर भी हजारों लड़ाइयाँ चलपडी है, तपस्याके फलरूपसे ज्ञान अर्जन करके ब्रह्मका साक्षात्कार दूर रहा आज अज्ञानकी घनघोरघटा भारत-आकाशको आच्छन्न कर रही है, ये सब दुर्भाग्य और दुर्दशाएँ आर्यजातिमें ब्रह्मचर्यहीनताके ही फलरूप हैं । इसलिये ब्रह्मचर्य आश्रमकी पुनः प्रतिष्ठा करके द्विजवालकोंको उपनयन स्वरूपके बाद अवश्य ही ब्रह्मचर्यव्रत पालन कराना चाहिये जिससे उनका समस्त जीवन शान्त, सुखमय और देश धर्मके लिये फल्याणकर होजाय । ब्रह्मचर्य पालनके विषयमें दक्षसहितामें लिखा है कि:—

ब्रह्मचर्यं सदा रत्नेदष्टधा मैथुनं पृथक् ।

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ॥

सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

स्मरण, कीर्तन, केलि, दर्शन, गुप्तवात, सङ्कल्प, चेष्टा और क्रियासमाप्ति ये ही मैथुनके आठ अङ्ग हैं, इनसे विपरीत ब्रह्मचर्य है जो कि सदा पालन करने

योग्य है । इसके पूरे पालनके लिये शरीर मन बुद्धि तोंनोंको ही संयत रखना ब्रह्मचारीका कर्त्तव्य है । इस विषयमें मनुजोंको आज्ञा पहिलेही बताई गई है । प्रथम शरीरको संयत रखनेके लिये अन्यान्य उपायोंके अनिश्चित खानपानका भी विचार अवश्य रखना चाहिये, जैसा कि 'सदाचार' प्रबन्धमें बताया गया है ।

ब्रह्मचारीको सात्त्विक आहार करना चाहिये । प्याज, लहसुन, लालमिरच, खटाई आदि राजसिक तामसिक पदार्थ और गरिष्ठ मसालेदार अन्न और उत्तेजक अन्न ब्रह्मचारीको कभी नहीं खाना चाहिये । तमाखू भाँग आदि मादक द्रव्योंका सेवन कदापि नहीं होना चाहिये । कोमल शय्या, जैसे पलँग आदि पर नहीं सोना चाहिये । भूमिशय्या पर सोना चाहिये । खराब पुस्तक पढ़ना, कुसंग, कुचिन्ता, खराब चित्र देखना, आपसमें कामविषयक बातचीत कभी नहीं करनी चाहिये । एकाहार करना चाहिये अथवा रातको बहुत कम हलका अन्न खाना चाहिये । सोते समय ठंडा जल पीना, प्रातःकाल निद्रा टूटने पर फिर सोना, पान खाना, अशुभ्रंगमें वृथा हाथ लगाना, दिनमें सोना, मछली या मांस खाना, प्रातःकाल तक सोते रहना आदि ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध है । दूसरा-ब्राह्ममुहूर्त में उठकर शौचादिसे निवृत्त हो प्रातःसन्ध्या और देवता ऋषि एवं पितरोंका तर्पण करना चाहिये । सन्ध्याके साथ साथ गुरुकी आज्ञानुसार कुछ कुछ पूजा, प्राणायाम मुद्रा आदि भी करना चाहिये । प्राणायाम मुद्राओंके करनेसे चित्त शान्त और एकाग्र होगा, स्नायु भी सतेज रहेंगे जिससे ब्रह्मचर्यकी रक्षा और शारीरिक नीरोगता रहेगी । पूजा करनेसे मानसिक उन्नति तथा भक्ति बढ़ेगी । मनको संयत रखनेके लिये सदा ही ब्रह्मचारीको यत्न करना चाहिये ।

श्रीमद्भागवतमें कहा है किः—'असङ्कल्पाजयेत्कामम्' असङ्कल्पसे काम को जीतना चाहिये । कभी कामका संकल्प चित्तमें उदय हो उसी वक्त चित्तको उससे हटाकर और चिन्ता या शास्त्र-पाठमें लगाना चाहिये । तीसरा-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये बुद्धिको भी सहायता लेनी चाहिये । बुद्धिके द्वारा विचार करके सत्यासत्य निर्णय करना चाहिये । संसारमें त्यागका सात्त्विक सुख भोगके राजसिक सुखसे कितना उत्तम है, विषयसुखके अन्तमें किस प्रकार परिणामदुःख मनुष्यके चित्तको दुःखी करता है, इन्द्रियोंके साथ विषयका सम्बन्ध पहिले मधुर होने पर भी परिणाममें किस प्रकार अत्यन्त दुःख उत्पन्न करके सब सुखको मिट्टीमें

मिला देता है और निवृत्तिका आनन्द किस प्रकार मनुष्यके लिये प्रवृत्तिसे उत्तम व नित्यानन्दमय है, इन बातोंका विचार सदा ही ब्रह्मचारीको हृदयमें धारण करके अपने व्रतके पालनमें पूर्ण होना चाहिये । महाभारतमें लिखा है कि :—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णा क्षयसुखस्यैते नाऽर्हतः षोडशी कलाम् ॥

संसारमें जो कामसुख या स्वर्गमें जो महान् दिव्यसुख है, ये कोई भी सुख वासनानाशसुखके सोलह अंशमेंसे एक अंश भी सुख देनेवाले नहीं है । भगवान्ने गीतामें भी आज्ञा की है कि :—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥

विषयके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेसे जो कुछ सुख होता है वह दुःखका ही उत्पन्न करनेवाला है । विषयसुख आदि अन्तसे युक्त है अतः विचारवान् पुरुषको विषयसुखमें फँसना नहीं चाहिये । श्रीभगवान्की इस आज्ञाको हृदयमें धारण करके ब्रह्मचारियोंको सदा ही सयत होना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य्य दो प्रकारका है । यथा—नैष्ठिक और उपकुर्वाण । नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये गृहस्थाश्रमकी आज्ञा नहीं है, आजन्म ब्रह्मचर्य्य रखनेकी आज्ञा है । यदि शिष्यका अधिकार इस प्रकार उन्नत होवे तो गुरु उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनावे । श्रुतिमें नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये संन्यासकी आज्ञा लिखी है । यथा—जावालश्रुतिमें :—

ब्रह्मचर्य्यं परिसमाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा वनी भवेत् ।

वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्

गृहाद्वा वनाद्वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् ॥

ब्रह्मचर्य्य-आश्रम समाप्त करके गृही होवे । गृहस्थाश्रमके बाद वानप्रस्थ होवे । वानप्रस्थाश्रमके बाद संन्यास लेवे । अथवा ब्रह्मचर्याश्रमसे ही संन्यास आश्रम ग्रहण करे या गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रमसे संन्यास लेवे । वैराग्यका उदय होते ही संन्यास लेवे । इस प्रकारसे श्रुतिने वैराग्यवान् नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये संन्यासकी आज्ञा दी है । इस प्रकारकी आज्ञा

प्रारब्धवान् उत्तम अधिकारीके लिये है। जिसका इस प्रकारके नैष्ठिक ब्रह्म-
चर्यमें अधिकार नहीं है उसके लिये मनुजीने उपकुर्वाण ब्रह्मचर्यकी आज्ञा
की है। ऐसे ब्रह्मचारी गुरुके आश्रममें कुछ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण
पूर्वक विद्याभ्यास करनेके बाद गुरुको यथाशक्ति दक्षिणा देवें और
उनकी आज्ञा लेकर व्रतसमाप्तिका स्नान करके गृहस्थाश्रम ग्रहण करे।
यथा—मनुसहितामें :—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।
तदद्धिकं पादिकं वा ग्रहणाऽन्तिकमेव वा ॥
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् ।
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाऽऽश्रममावसेत् ॥ (३ य अध्याय)

ब्रह्मचारी तीन वेद समाप्त करनेके लिये गुरुके आश्रममें ब्रह्मचर्य धारण-
पूर्वक ३६ छत्तीस वर्ष, १८ अट्ठारह वर्ष या ६ नौ वर्ष तक निवास करें
अथवा निज शाखा-अध्ययनके अनन्तर वेदकी तीन शाखा, दो शाखा, या एक
शाखा मन्त्रब्राह्मणक्रमावृत्तिसार अध्ययन करके अस्खलित ब्रह्मचर्यके साथ गृहस्था-
श्रममें प्रवेश करें। और भी :—

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।
उद्देहेत द्विजो भाट्यो सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥

गुरुकी आज्ञासे यथाविधि व्रतस्नान समावर्त्तन करके द्विज सुलक्षणा
सवर्णा कन्याका पाणिग्रहण करे। विवाहसंस्कार गृहस्थाश्रमका सर्वप्रधान
संस्कार है। इसके तीन उद्देश्य हैं। अनर्गल प्रवृत्तिका निरोध, पुत्रोत्पादन
द्वारा वंशकी रक्षा और भगवत्प्रेमका अभ्यास।

मनुष्य योनि प्राप्त करके जीवके स्वतन्त्र होनेसे इन्द्रियलालसा अत्यन्त
बढ़ जाती है। प्रत्येक पुरुषके चित्तमें सभी स्त्रियोंके लिये और प्रत्येक स्त्रीके चित्तमें
सभी पुरुषोंके लिये भोगभाव प्राकृतिकरूपसे विद्यमान है। उसीका सङ्कोच
करके एक पुरुष और एक स्त्रीके परस्परमें प्रवृत्तिको बाँधकर धर्मके आश्रयसे,
भावशुद्धिसे तथा बहुत प्रकारके नियमोंसे उस प्रवृत्तिको भी धीरे धीरे घटाकर
अन्तमें महाफला निवृत्तिमें ही मनुष्यको लेजाना विवाहका प्रथम उद्देश्य है।

विवाहका दूसरा उद्देश्य प्रजोत्पत्ति द्वारा वंशरक्षा और पितृ-ऋण शोध करना है । श्रुतिमें लिखा है कि:—

प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।

पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे प्रजाका सूत्र अटूट रखना चाहिये । मनुजीने कहा है कि:—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यथः ॥

अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण तानो ऋणोंको शोध करके मोक्षमें चित्तको लगाना चाहिये । ऋणत्रयसे मुक्त न होकर मोक्षधर्मका आश्रय लेनेसे पतन होता है । स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण और यज्ञसाधन द्वारा देव-ऋणसे गृहस्थ मुक्त होते हैं । नैष्ठिक ब्रह्मचारीके सब ऋण ज्ञानयज्ञमें लय होते हैं । उसको उक्त प्रकारसे ऋणत्रयसे मुक्त नहीं होना पड़ता है, परन्तु गृहस्थके लिये पितृ-ऋणादि शोध करनेके लिये पुत्रोत्पादनादि धर्म है ।

ऊपरलिखित विवाहके उद्देश्योंकी पूर्णताके लिये पाणिग्रहण बहुत विचार-पूर्वक होना चाहिये । अन्यथा, संसारमें अशान्ति, दाम्पत्यप्रेमका अभाव और अधम सन्तानकी सम्भावना रहती है । अतः विवाहसंस्कारके विषयमें नीचे लिखी हुई बातें ध्यान रखने योग्य हैं:—

(१) परस्पर विभिन्न रूप और गुणवाले दम्पतिके मेलसे न दाम्पत्य प्रेम होता है और न अच्छी सन्तानोत्पत्ति होती है ।

(२) स्त्री पुरुषमें प्रेमकी पूर्णता न होनेसे अच्छी सन्तान नहीं होती है ।

(३) कन्या सुलक्षणा न होनेसे संसारका अकल्याण होता है ।

(४) पिता माताका शारीरिक, मानसिक दोष गुण और रोग सन्तानको स्पर्श करता है ।

(५) वर कन्यामें एक भी अङ्गका दोष नहीं रहना चाहिये, उससे सन्तान खराब होती है । शारीरिक और मानसिक गुणोंके मेलसे सन्तान अच्छी होती है ।

(६) कन्याको उमर पुरुषसे कम होनी चाहिये, नहीं तो पुरुषका पुरुषत्वनाश, कठिन रोग तथा अकालमृत्यु होती है और सन्तान भी रोगी तथा दुर्बल होती है ।

महर्षि याज्ञवल्क्यने लिखा है कि :—

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्रहेत् ।

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥

गृहस्थ होनेके लिये अनुरूपा, भिन्नगोत्रीया, अपनेसे अल्पवयस्का व पहले किसीके साथ अविवाहिता कन्याका पाणिग्रहण करे । मनुसहितामें लिखा है कि:—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाऽविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशौतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निरञ्जन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपस्मारि-शिवत्रि-कुष्ठिकुलानि च ॥

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकार्ङ्गीं न रोगिणीम् ।

नाऽल्लोमिकां नाऽतिलोमां न वाचालां न पिङ्गलाम् ॥

अव्यङ्गार्ङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्रहेत् स्त्रियम् ॥

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेत यत्पिता ।

नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाऽधर्मशङ्कया ॥

जो कन्या माताकी सपिण्डा और पिताकी सगोत्रा नहीं है, वही विवाह-कार्य व संसर्गके लिये प्रशस्ता है । गो, जग, मेघ व धन धान्यसे समृद्धि-सम्पन्न होनेपर भी स्त्रीग्रहणके विषयमें दश कुल त्याज्य हैं । जिस कुलमें नीच क्रिया होती है, जिसमें पुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें वेदाध्ययन नहीं है, जिसमें लोग बहुत रोमयुक्त हैं और जिस कुलमें अर्श, क्षय, मन्दाग्नि, अपस्मार, श्वित्र और कुष्ठरोग हैं उस कुलमें विवाहसम्बन्ध नहीं करना चाहिये । जिस कन्याके केश पिङ्गल वर्ण हैं, छः अंगुलि आदि अधिक अङ्ग हैं, जो चिररुणा,

रोमहीना या अधिक रोमवालो, अधिक वाचाल व जिसके चक्षु पिङ्गलवर्ण है, ऐसी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये । जिसके किसी अङ्गमें विकार नहीं है, सोम्य नामवालो, हंस या गजको नरह चलनेवालो, सूत्रम रोम केश व दन्तवालो और कोमलाङ्गी कन्यासे विवाह करना चाहिये । जिसका भ्राता नहीं है और पिताका वृत्तान्त भी ठीक नहीं मिलना है ऐसी कन्यासे पुत्रिका प्रसव करनेकी व अशुभकी आशङ्काके कारण विवाह नहीं करना चाहिये । कन्याकी तरह वरका भी लक्षण देखना कन्याके पिता-माताका अवश्य कर्त्तव्य है । रूप, गुण, कुल, शील, स्वास्थ्य, विद्वत्ता, नीरोगिता, सञ्चरित्रता, ब्रह्मचर्य्य, मर्यादा, सुलक्षण, दीर्घायुः, नम्रता, सत्याचार, आस्तिकता, धर्म-भीरुता आदि पुरुषके जितने गुण होने चाहिये उन सबको अवश्य ही कन्याके पिता-माता देख लेवे ।

वर कन्याके निर्वाचनमें वर कन्या या अध्यापककी अपेक्षा पिता-मातापर निर्भर करना उत्तम विवाह और भविष्यत्में गृहस्थाश्रमकी शान्तिके लिये अधिक हितकर होगा । अध्यापकसे इतनी आशा ही नहीं की जा सकती है कि वे पिता-माताकी तरह हार्दिकभावसे इतनी जांच करेंगे । जिनको वर वधूको लेकर जीवन-यात्रा निर्वाह करना है, ऐसे माता-पिता ही हृदयके साथ इसमें यत्न कर सकते हैं । द्वितीयतः वर कन्याके ऊपर इसका भार छोड़ना तो सम्पूर्ण ही अविचारका काम है । विचार व दूरदर्शिता वृद्धत्वके साथ सम्बन्ध रखती है, युवावस्थाके साथ नहीं । युवावस्थामें मानसिक वृत्ति बलवती होनेसे प्रायः विचार दब जाया करते हैं और खास करके जहां इन्द्रियसुख या कामका सम्बन्ध हो, वहां तो ज्ञान और विचारका सम्बन्ध ही नहीं रहता है । अतः वर और कन्यासे इस दूरदर्शिताकी आशा कभी नहीं की जा सकती है । पिता-माताका ही कर्त्तव्य है कि पुत्र कन्याकी भविष्यत् शुभ कामनासे लक्षणोंको ठीक ठीक जाँचकर विवाहसंस्कार करें । और जो विवाह इस प्रकार उभय पक्षके पिता-माताके द्वारा सम्पादित होता है वही विवाह सब प्रकारसे श्रेष्ठ है इसमें सदेह ही नहीं । और यह भी बात सत्य है कि हिन्दूशास्त्रमें कन्याका दान होता है, देय वस्तुके देनेमें दाताका ही अधिकार है अन्य किसीका अधिकार नहीं है ।

इस विषयमें कतिपय पश्चिमी विद्वानोंने भी अच्छा विचार प्रकट किया है । यथा फ्रेडरिक पिन्कट की सम्मति है :—

In England we are prepared to think it a shocking thing that parents would give their children in marriage to whomsoever they please. Our feelings are due to our own habits. In India the parental choice is regarded as necessary and as a grave responsibility; a father will hamper his future life with pecuniary liabilities in order to secure a suitable husband for his daughter. This is sufficient to prove that marriage is not, in India, the frivolous thing it has been in the West. By the Hindu system every girl has a natural guardian, who is solemnly bound to see her properly married, at any expenditure of trouble and money. The absence of self-choice in India obviates the fluttering uncertainty under which English girls live; it imparts to marriage a sense of destiny which has a beneficial effect on the after-life. A boy and a girl in India, grow up to the knowledge that they are destined for each other and from their earliest years they have to adapt themselves to their future condition.

पिता-माता जिसके साथ चाहेंगे अपने लड़के लड़कीका विवाह कर देंगे, यह बात इंग्लैण्डनिवासी हम लोगोंको बड़ी ही भयानक मालूम पड़ती है। किन्तु ऐसा भाव अपने अभ्यासके कारण हमें होता है। भारतवर्षमें पिता-माताके लिये यह बहुत ही आवश्यक तथा दायित्वपूर्ण कार्य है कि वे अपनी कन्याको योग्य घरके हाथमें सौंप दें और इस दायित्वको पूरा करनेके लिये पिता-माता अर्थ-क्लेश आदि कितने ही क्लेशोंको सहन करते हैं। इसीसे प्रमाणित होता है कि भारतवर्षमें पश्चिमदेशकी तरह विवाह कोई नगण्य मामूली वस्तु नहीं है, हिन्दु सामाजिक विधिके अनुसार प्रत्येक कन्याके नैसर्गिक रत्नक उनके पिता-माता हैं, जिनका धार्मिक अवश्य कर्त्तव्य है कि कितना ही क्लेश या अर्थ-क्लेश क्यों न सहना पड़े अपनी लड़कीको सुपात्रमें प्रदान करें। इस प्रकारसे स्वयं वर ढूँढ़नेकी आवश्यकता नष्ट होने पर विवाहके विषयमें अनिश्चित भाव जो कि

पश्चिमी लड़कियोंमें है वह भी नष्ट हो जाता है। इस विधिमें विवाह सस्कारके साथ 'अहृष्ट' का सम्बन्ध मिल जाता है, जिसका फल भविष्यत् जीवनमें बहुत ही उत्तम होना है। भारतके वरवधू विवाह सस्कारके समयसे ही यह समझने लगते हैं कि पूर्वकर्मानुसार उनका सयोग हुआ है और उसी धर्मसम्बन्धको अटूट रखनेके लिये वे पहिलेसे ही प्रयत्न करने लग जाते हैं।

हमारे शास्त्रोंमें विवाह आठ प्रकारके लिखे हैं। मनुसंहितामें लिखा है कि :—

ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽऽर्ष प्राजापत्यरतथाऽऽसुरः ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाऽष्टमोऽधमः ॥

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच ये आठ तरहके विवाह हैं। इन आठ प्रकारके विवाहोंके लक्षणोंके विषयमें मनु-जीने कहा है कि कन्याको वस्त्र अलङ्कार आदिसे सज्जित करके विद्या और श्रीलवान् वरको चुलाकर जो कन्यादान किया जाता है उसको ब्राह्मविवाह कहते हैं। ज्योतिषोमादि यज्ञोंके होनेपर उस यज्ञमें कर्मकर्ता ऋत्विक्को अलङ्कारादि द्वारा सज्जिता कन्याका दान दैवविवाह है। यज्ञादि धर्मकार्यके लिये एक या दो जोड़ा बैल या गौ लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करनेको आर्ष-विवाह कहते हैं। "तुम दोनों मिलकर गृहस्थधर्मका आचरण करना" इस प्रकार कहकर विधिके साथ वरको पूजा करके कन्यादानका नाम प्राजापत्य विवाह है। स्वेच्छासे कन्याके कुटुम्बियोंको वा कन्याको धन देकर जो कन्या-ग्रहण करे उसे आसुरविवाह कहते हैं। कन्या और वर दोनोंका परस्परके अहृ-रागसे जो सयोग है उरको गान्धर्वविवाह कहते हैं, यह विवाह काममूलक है, परन्तु इसमें होम आदिके द्वारा पीछे शास्त्रीयसस्कार हुआ करता है। कन्याके पक्षके लोगोंको मारकर, काटकर और उनका घंर तोड़कर रोती हुई और किसी रत्नको पुकारती हुई कन्याको धलपूर्वक हरण करके जो विवाह किया जाता है-उसको राक्षसविवाह कहते हैं। निद्रिता, मद्यपानसे विह्वला अथवा और तरहसे उन्मत्ता स्त्रीके साथ एकान्तमें सम्बन्ध करके जो विवाह होता है वह अधम और पापजनक विवाह पैशाचविवाह कहा जाता है। इनमेंसे प्रथम चार विवाहोंकी प्रशंसा शास्त्रमें की गई है और बाकी चार विवाहोंकी निन्दा की गई है। यथा मनुसंहितामें लिखा है कि :—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवाऽनुपूर्व्वशः ।
 ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्भवाः ॥
 रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।
 पर्याप्तभोगा धर्मिभ्यो जीवन्ति च शतं समाः ॥
 इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसाऽनृतवादिनः ।
 जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥
 अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।
 निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत् ॥

ब्राह्म, वैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चार विवाहोंसे जो सन्तान उत्पन्न होती हैं वे ब्रह्मतेजसे युक्त और शिष्टप्रिय होती हैं। ऐसी सन्तान सुन्दर स्वरूप, साद्विक, धनवान्, यशस्वी, पर्याप्तभोगवान् और धार्मिक होकर शतवर्ष तक जीवित रहती हैं और वाकी चार प्रकारके विवाह अर्थात् आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच विवाहोंसे क्रूर, मिथ्यावादी, धर्म और वेदके विद्वेषी पुत्र उत्पन्न होते हैं। अनिन्दित स्त्रीविवाहसे अनिन्दित सन्तान और निन्दित स्त्रीविवाहसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती है इसलिये निन्दित विवाहको त्याग देना चाहिये।

शास्त्रोंमें धन लेकर कन्यादानकी बड़ी निन्दा की गई है। यथा मनु-संहितामें लिखा है कि:—

न कन्यायाः पिता विद्वान् गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि ।
 गृह्णन् शुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥
 स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ।
 नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥

विचारशील पिता कन्यादान करनेके लिये सामान्य भी धन वरपक्षसे न लेवे, क्योंकि लोभसे धन लेलेनेपर अपत्यविक्रयका पाप होता है। पिता आदि आत्मीयगण मोहके कारण स्त्री-धन उसकी दासी वाहन या बख्रादि जो कुछ लेते हैं वा जो कुछ भोग करते हैं उससे उनकी अधोगति होती है। किसी किसीने गोवध और अपत्य-विक्रय, दोनोंका ही समान पाप कहा है। आर्षविवाहमें

जो गोमिथुन लिया जाता है उसको शुल्क नहीं कहना चाहिये, क्योंकि वह धर्म-कार्यार्थ लिया जाता है, भोगार्थ नहीं लिया जाता है । और ऐसी ही मनुजीकी सम्मति है कि धर्मकार्यार्थ यज्ञादिके लिये वह लिया जाता है । वरपक्षके लोग स्वेच्छासे प्रीतिके साथ कन्याको कुछ धन देवें, यदि कन्याका पिता उस धनको न लेकर कन्याको देदे तो उसको भी कन्याचिक्रय नहीं कहना चाहिये, क्योंकि वह एक प्रकारका उपहारमात्र है । स्त्रीजातिकी पूजाके लिये शास्त्रोंमें आह्वा भी है । यथा—मनुसंहितामें लिखा है कि :—

यत्र नार्यस्तु पूष्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्व्वस्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥

जिस कुलमें स्त्रियोंका समादर है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं और जहां ऐसा नहीं है उस परिवारमें समस्त योगादि क्रिया बृथा होती है ।

कन्याचिक्रयकी तरह पुत्रके विवाहमें भी कन्याके माता-पितासे दबाकर धन लेना एक प्रकारका पुत्रविक्रय है । कन्याके पिताका यह कर्त्तव्य है कि कन्याको कुछ अलङ्कारादि देकर वरके हाथमें समर्पण करे, क्योंकि पुत्रकी तरह कन्याका भी अधिकार पिताके धनपर है और यह अधिकार प्राकृतिक है । अलङ्कारादिके द्वारा उस प्रकृतिकी पूजा करनी चाहिये, अर्थात् उस प्रकृतिसिद्ध अधिकारका पालन करना चाहिये । परन्तु पूजा भी अपनी शक्ति और अपने अधिकारके अनुसार हुआ करती है इसलिये वरके पिताको कन्याके पितासे उसकी शक्तिके अतिरिक्त दबाकर धन कभी नहीं लेना चाहिये । कन्या सुन्दरी है, उसका स्वभाव नम्र है, उसके पिता धर्मशील और उसकी माता धर्मपरायणा है इत्यादि बातोंका विचार पहले करना चाहिये । यदि ये सब बातें ठीक ठीक मिल जायें तो कन्यारत्नको अवश्य ही ग्रहण करलेना चाहिये । इतना होनेपर भी धनके लिये पीड़न करना नीचता और पाप है । इसी पापसे भारतके बहुतसे समाजोंका आजकल अधःपतन होरहा है । पुत्रका भावी सुख और वंशकी उन्नतिपर पिताका लक्ष्य होना चाहिये । अर्थलोभसे कुटुम्बमें विरोध और अशान्ति उत्पन्न करना अधर्म और अविचारका कार्य्य है । सामाजिक नेताओंकी दृष्टि इसपर अवश्य आकृष्ट होनी चाहिये ।

विवाहसंस्कारके बाद दाम्पत्यप्रेमके साथ पति-पत्नीको संसार चलाते रहना चाहिये । इसके लिये मन्वादि शास्त्रोंमें बहुत कुछ कर्त्तव्योंका निर्णय

किया गया है । विवाहका मुख्य उद्देश्य प्रजाको उत्पत्ति करना है इसलिये शास्त्रके अनुकूल गर्भाधान संस्कारके अनुसार सन्तानोत्पत्ति करना चाहिये । इस विषयमें मनुजीने कहा है कि :—

ऋतुकालाऽभिगामी स्यात् स्वदारनिरतः सदा ।

एकपत्नीव्रत होकर ऋतुकालमें अपनी स्त्रीसे गर्भाधान करना चाहिये । और भी लिखा है कि :—

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्द्धमहोभिः सद्दिगर्हितैः ॥

तासामाद्याश्रतसस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविदोदात्तवे स्त्रियम् ॥

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।

समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥

निन्द्यास्वष्टासु चाऽन्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्यैव भवति यत्र तत्राऽश्रमे वसन् ॥

पहली चार रात्रि सहित स्त्रियोंका स्वाभाविक ऋतुकाल १६ सोलह रात्रियां हैं । इनमें पहली चार रात्रियां, एकादश और त्रयोदश रात्रियां ये ३ निषिद्ध हैं, बाकी १० दस रात्रियां स्त्रीगमनके लिये प्रशस्त हैं । इन दसोंमेंसे भी छठी आठवी दसवी आदि युग्म रात्रियोंमें गर्भ होनेपर पुत्र होता है और पांचवी सातवी नवी आदि अयुग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे कन्या होती है इसलिये पुत्रके लिये ऋतुकालकी युग्म रात्रियोंमें ही गमनका विधान किया गया है । अयुग्म रात्रि होनेपर भी पुरुषका वीर्य अधिक होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और युग्म रात्रि होने पर भी रजके आधिक्य होनेसे कन्या उत्पन्न होती है । और दोनोंके समान होनेसे क्लीब अथवा यमज कन्या-पुत्र उत्पन्न होते हैं । और यदि दोनोंके ही रजवीर्य असार हों तो गर्भ ही नहीं होता है । इस प्रकार निन्दित छः रात्रि और अनिन्दित दस रात्रियोंमेंसे कोई

भी आठ रात्रियां अर्थात् कुल १४ चौदह रात्रियोंमें सम्बन्ध त्याग करके बाकी दो रात्रियोंमें जिनमें कोई पर्व न हो, जो पुरुष स्त्री गमन करते हैं वे आश्रममें रहने पर भी ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं । पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी और संक्रान्तिको पर्वदिन कहा जाता है इस लिये इन दिनोंमें भी स्त्री सम्बन्ध करना मना है । दिनमें ससर्ग अत्यन्त दोषयुक्त है । यथा प्रश्नोपनिषद्में—

प्राणां वा एते प्रस्कन्दन्ति
ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ॥

दिनमें रतिके द्वारा प्राणमें हानि होती है । सन्ध्याकालमें भी ससर्ग नहीं करना चाहिये । यमसहितामें लिखा है कि :—

चत्वारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् ।
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायञ्च चतुर्थकम् ॥

सन्ध्याकालमें आहार, मैथुन, नीद और स्वाध्याय, ये नहीं करने चाहिये । इसी प्रकार प्रातःकालके समयमें भी ससर्ग प्राणान्तकर है । ऋतुकालकी तो बात ही क्या कहना है, ऋतुकालमें संसर्ग सर्वथा त्याग करना उचित है उससे स्त्री पुरुष दोनोंको ही कठिन पीड़ा, आध्यात्मिक अवनति और प्राणनाश होता है । रजःसंयमका काल साधारणतः चार दिन होने पर भी स्वास्थ्यके व्यतिक्रमसे और अधिक भी हो सकता है । इसलिये नियम होना चाहिये कि जबतक रजःसंयम न हो तबतक ससर्ग न हो । उदरमें आहारार्थं द्रव्य अपक रहते स्त्री पुरुषका सयोग नहीं होना चाहिये । स्त्री अथवा पुरुष किसीके शरीरमें किसी प्रकारकी ग्लानि रहने पर भी स्त्रीसंयोग होना निषिद्ध है । गर्भिणी स्त्रीके साथ सम्बन्ध या रजोदर्शनसे पहले सम्बन्ध महा पाप है । गर्भिणी स्त्रीके चित्तमें किसी प्रकारके कामभावके उत्पन्न होनेसे गर्भस्थ सन्तान कामुक व खराब होती है इसलिये हिन्दुशास्त्रमें उस दशामें पुरुषका सम्बन्ध निषेध किया गया है और बहुत प्रकारके स्स्कार तथा धर्मभाव बढ़ानेकी आज्ञा की है । और स्त्रीसम्बन्ध जब सन्तानके लिये है तो उस समय अर्थात् गर्भके समयमें सम्बन्ध बुरा है । किसी किसी निरक्षय व्यक्तिकी सम्मति है कि स्त्रीसम्बन्धसे निवृत्त रहने पर पुरुषको रोग हो जाता है यह सम्पूर्ण मिथ्या है । भीष्मदेवने ब्रह्मचर्यसे इच्छामृत्यु लाभ किया था, बीमार नहीं होगये थे । अवश्य चित्तमें कामभाव रहनेसे, उसके दमन

करनेकी इच्छा न करके जो लोग मानसमैथुन किया करते हैं उनको रोग हो सकता है परन्तु संयमी ब्रह्मचारी वीर्यके बलसे सकल प्रकारकी उन्नति कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर नीरोग और दृढ़ होता है, उनमें दृन्डसहिष्णुता और परिश्रम करनेकी शक्ति बढ़ती है, आयु और मस्तिष्ककी शक्ति, चित्तकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ती है, उनको रोग नहीं होता है ।

सकल परिवार ही एक राज्यकी तरह है । जिस प्रकार राजाकी योग्यता और न्यायपरताके बलसे राज्यमें शान्ति रहती है उसी प्रकार परिवारकी भी शान्ति और उन्नति गृहकर्त्ता और गृहकर्त्रीकी न्यायपरतापर निर्भर करती है । परिवारोंके बीचमें वैमनस्य, लड़ाई व वाग्वितण्डा आदि अशान्तिकर विषय जिससे न होसकें इस विषयमें कर्त्ता व कर्त्रीको सदा ही सावधान रहना चाहिये और कभी हो भी जाय तो निष्पक्षविचारसे शीघ्र ही शान्त कर देना चाहिये । परिवाररूपी छोटा राज्य समाजरूपी बृहद्राज्यके अन्तर्गत है इसलिये सामाजिक शान्ति व उन्नतिके साथ प्रत्येक परिवारकी शान्ति व उन्नतिका सम्बन्ध है । प्रत्येक गृहस्थका कर्त्तव्य है कि सामाजिक अनुशासनको मानकर चले, उसकी कदापि अवज्ञा न करे अधिकन्तु सामाजिक उन्नतिके लिये अपना स्वार्थ त्याग भी करे । ज्ञाति और कुटुम्बको अपने गौरवका अंशभागी करके उनके साथ सदा ही प्रेमके साथ मेल रखना चाहिये । प्रत्येक सार्वजनिक कार्योंमें उनके परामर्श लेने चाहिये । उनकी उन्नतिमें ईर्ष्यालु न होकर अपनेको सुखी व गौरवान्वित समझना चाहिये । अपनी उन्नतिके साथ साथ सन्तानोंकी उन्नति व सत्शिक्षाके लिये पिता-माताको सदा ही सचेष्ट रहना चाहिये । स्मरण रहे कि पिता-माता जिस संसारमें आदर्श चरित्र हैं उसमें सन्तान भी अच्छी होती है । गर्भाधानसंस्कार ठीक ठीक शास्त्रानुकूल होनेसे धर्मपुत्र उत्पन्न होता है और कामज सन्तति नहीं होती-है क्योंकि गर्भाधानके समय दम्पतिके चित्तका जैसा भाव होता है उसीके ही अनुरूप पुत्रका भी चित्त होता है । सात्त्विक भावसे उत्पन्न पुत्र सात्त्विक होता है । अत्यन्त पशुभावके द्वारा उन्मत्त होकर सन्तान उत्पन्न करनेसे सन्तान भी तामसिक होती है । दुर्बल शरीर, दुर्बल चेतन और कामुक पुत्र जो कि आजकल देखनेमें आते हैं इसका कारण गर्भाधानसंस्कारका बिगड़ जाना ही है । पिता-माताको इन बातोंका विचार अवश्य रहना चाहिये, नहीं तो कुसन्तान उत्पन्न होकर उन्हींको

दुःख देगी और वंशमर्यादाको नष्ट करेगी । दूसरी बात विचार रखनेकी यह है कि सन्तानकी सकल प्रकारकी उन्नतिके लिये माता पिताको आदर्श चरित्र होना चाहिये । गृहस्थाश्रममें सन्तान होना विशेष सौभाग्यकी बात है क्योंकि पुत्र माता-पिताका नरकसे ब्राह्मण करना है यह जो शास्त्रमें कहा गया है इसकी चरितार्थता इहलोक परलोक दोनोंमें ही देखनेमें आती है । श्राद्ध तर्पण आदि द्वारा पुत्र परलोकमें शान्ति व उन्नति तो माता पिताकी करते ही है, अधिकन्तु मायामय संसारमें बद्ध पिता-माताकी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये इहलोकमें भी पुत्र निमित्तरूप होते हैं । जीवभाव स्वार्थमूलक है । सन्तान होनेसे पिता-माताके इस स्वार्थमें बहुतही सङ्कोच हुआ करता है । सन्तानके सुखके लिये पिता माता अपनी सुखेच्छा तथा स्वार्थबुद्धिको तिलाञ्जलि देते हैं इससे उनकी उन्नति होती है । शास्त्रोंमें कहा है कि :—

सर्वत्र विजयं हीच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम् ।

सर्वत्र विजय चाहने पर भी लोग अपने पुत्रसे पराजय चाहते हैं । अपने पुत्रको अपनेसे भी गुणवान् देखनेको इच्छा पिता-माताकी हुआ करती है । यह भाव अहङ्कारका नाश करके गृहस्थकी आध्यात्मिक उन्नति करता है । अपने चालचलनमें खराबी होनेसे पुत्र भी विगड़ जायगा और अपने-में मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरक्षा प्रवृत्ति आदि गुण न होनेसे पुत्र भी अमितव्ययी कदाचारी व रोगी होगा, ये सब भाव माता-पिताको सञ्चरित्र मितव्ययी सदाचारी तथा नोरोग बननेमें सहायता करते हैं । इस प्रकारसे सन्तान इहलोकमें भी पिता-माताके नरकत्राणमें निमित्तरूप होती है । प्रत्येक गृहस्थ पिता-माताका कर्त्तव्य है कि अपनी सन्तानके सामने ये ही सब आदर्श रखें जिनसे अपनी उन्नतिके साथ साथ सन्तानकी भी उन्नति हो और दिन पर दिन वंशगौरवकी प्रतिष्ठा हो । सन्तानके शिक्षाविषयमें पिता-माताको ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा पूर्व संस्कारोंके अलुक्कूल होनेसे ही ठीक ठीक उन्नति हो सकती है । शास्त्रोंमें लिखा है कि :—

पूर्वजन्माऽर्जिता विद्या पूर्वजन्माऽर्जितं धनम् ।

पूर्वजन्माऽर्जितं पुण्यमग्रे धावति धावति ॥

पूर्वजन्ममें अर्जित विद्या, धन व पुण्योंके संस्कारालुक्कूल ही इस जन्ममें उन वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । इसलिये विद्या वही पढ़ानी चाहिये

जिसका संस्कार सन्तानमें पूर्वजन्मसे है । आजकल कई माता-पिता अपनी ही इच्छा तथा संस्कारके अनुसार पुत्रको शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है । अवश्य, पुत्रका संस्कार पिता माताके संस्कारके अनुकूल ही बहुधा पाया जाता है, परन्तु सब विषयोंमें ऐसा नहीं भी होता है । इस विषय पर लज्ज रखकर पुत्रकी शिक्षा, खासकरके उसकी व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिये । उसका संस्कार जिस विद्या या विभागके सीखनेका हो उसे वही पढ़ना चाहिये और साथ ही साथ आदर्शचरित्र व धार्मिक होकर पिताको पुत्रके लिये धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये जिससे बालकपनसे उसके चित्तमें धर्मसंस्कार जम जायँ । ऐसा होनेपर भविष्यत्में सन्तान सच्चरित्र, धार्मिक, गुणवान् और विद्यावान् अवश्य होगी । यही गृहस्थाश्रमका धर्म सत्सेपसे बताया गया, इसके ठीक ठीक अनुष्ठानसे गृहस्थ देव, ऋषि और पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर तृतीय अर्थात् वानप्रस्थाश्रमके अधिकारी बनायास ही हो सकते हैं ।

अथ वानप्रस्थाश्रमधर्मका वर्णन किया जाता है । मनुसंहितामें लिखा है कि:—

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

दने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्पनः ।

अपत्यस्यैव चाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥

सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भाव्यानि निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥

इस प्रकारसे स्नातक द्विज गृहस्थाश्रम-धर्मका पालन करके यथा विधि जितेन्द्रिय होकर वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण करे । गृहस्थ जब देखे कि, वार्द्धक्यका लक्षण हो रहा है और पुत्रका पुत्र होगया है तो उसी समय वानप्रस्थी होजाय । ग्रामके आहार परिच्छेद परित्याग करके स्त्रीको पुत्रके पास रखकर अथवा स्त्रीके साथ ही वनमें जावे । ये सब आचार्य मनुजीने की हैं । पहिले ही कहा गया है कि प्रत्येक धर्मविधिके लक्ष्यको दृढ रखकर देशकाल पात्रके अनुसार विधिका नियोजन होनेसे ही यथार्थ फल मिल सकता है ।

आजकल देश काल इस प्रकारका होगया है कि प्राचीन रीतिके अनुसार वानप्रस्था-
श्रमविधिका पालन करना बहुत ही कठिन है और पात्रके विषयमें भी बहुत
कठिनना होगई है क्योंकि वानप्रस्थमें जिस प्रकार तपस्या या व्रत आदि करने-
की आज्ञा शास्त्रमें पाई जाती है उन सब तपस्या या व्रतोंका आचरण कामज
शरीरके द्वारा नहीं होसकता है इसलिये वनमें जाकर कठिन तपस्या, भृगुपतन,
अग्निप्रवेश आदि करना असम्भव हो गया है। इन्ही सब बातों पर विचार
करके भगवान् शङ्कराचार्य्यने वानप्रस्थ व सन्यास दोनोंकी सहायताके
अर्थ मठस्थ ब्रह्मचर्य्य-आश्रमकी नवीन विधिकी सृष्टि की थी। अतः देशकाल-
पात्रानुसार लज्यको स्थिर रखते हुए वानप्रस्थाश्रमका निवाहना ही विचार
तथा शास्त्रसङ्गत होगा।

वानप्रस्थ-आश्रम निवृत्तिमार्गका द्वार है। पूर्वजन्मोंके कर्मोंके प्रभावसे
कोई भाग्यशाली व्यक्ति कदाचित् यथार्थ संन्यासी बन सकते हैं, परन्तु ऐसे
भाग्यशाली मनुष्य संसारमें बहुत ही कम होते हैं इस कारण वानप्रस्थाश्रमकी
स्थापना किसी न किसी स्वरूपमें अवश्य होनी चाहिये। किसी प्राचीन तीर्थको
अथवा किसी प्राचीन तीर्थके किसी भागको सत्सङ्ग व सच्चर्चाके द्वारा आदर्श-
स्थान बनाकर वही यदि निवृत्तिसेवी व्यक्ति अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति व
निवृत्तिमार्गमें जानेके विचारसे प्रतिज्ञा करके गुरु और शास्त्रके आश्रयसे उक्त
आदर्शतीर्थमें वास करें और क्रमशः साधुसङ्ग, वैराग्यचर्चा, अध्यात्मशास्त्रोंका
पठन पाठन और योगसाधनादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी अनुष्ठानोंको करते हुए
अपने जीवनको कृतकृत्य करे तो वे इस कराल कलियुगमें वानप्रस्थ-आश्रमका
बहुतसा फल प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्रकारसे ऐसे निवृत्तिसेवी भाग्यवान्
तपस्वी क्रमशः अच्छे संन्यासी बन सकेंगे। और यदि वे कठिन सन्यासाश्रममें
न भी पहुँचना चाहें तो भी अपनी बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे एव
जगत्का भी कल्याण कर सकेंगे।

उक्तप्रकारसे संयत होकर वानप्रस्थ-आश्रमका पालन करनेसे क्या गति
होती है सो मुण्डकोपनिषद्में लिखा है। यथा :—

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये,
शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति,
यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥

भिक्षावृत्तिका आश्रय करके जो विद्वान् शान्तस्वभाव वानप्रस्थ, अरण्यमें निवास करते हुए तपस्या और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पुण्य पापसे मुक्त होकर उत्तरायण पथसे अमृत अव्यय पुरुषके लोकमें अर्थात् ब्रह्मलोकमें जाते हैं। यही वानप्रस्थाश्रमका संक्षेपसे रहस्य वर्णन किया गया। इसका अपने अपने अधिकार और देश कालसे मिलाकर अनुष्ठान करनेपर त्रिविध तप व संथमके द्वारा निवृत्तिभावका अभ्यास होगा जिससे द्विजगण चतुर्थाश्रमके अधिकारी बन सकेंगे।

अब संक्षेपसे चतुर्थ अर्थात् संन्यासाश्रमका कुछ वर्णन किया जाता है। मनुसंहितामें लिखा है:—

वनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः ।

भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य वर्द्धते ॥

इस प्रकारसे आयुका तृतीय भाग वानप्रस्थाश्रममें बिता करके चतुर्थ भागमें निःसंग होकर संन्यास ग्रहण करे। एक आश्रमसे आश्रमान्तर ग्रहण करते हुए अग्निहोत्रादि होम समाप्त करके जितेन्द्रियताके साथ जब भिक्षा वलि आदि कर्मोंसे श्रान्त हो तब संन्यास ग्रहण करनेसे परलोकमें उन्नति होती है। यह संन्यासका साधारण क्रम है। असाधारण दशामें ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही प्रारम्भचलसे एकवारगी संन्यासाश्रम ग्रहण होता है जैसा कि पहिले कहा गया है। श्रुतिमें लिखा है कि :—

न कर्मणा न प्रजया धनेन

त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः ।

सकाम कर्म, सन्तति या धन किसीसे भी अमृतत्वलाभ नहीं होता है, केवल त्यागसे ही अमृतलाभ होता है।

संन्यासाश्रममें निवृत्तिकी पूर्ण चरितार्थता होती है। जो महाफल निवृत्ति-व्रत ब्रह्मचर्याश्रममें प्रारम्भ हुआ था, संन्यासाश्रममें उस महाव्रतका उद्यापन होता है जिससे जीवको मोक्षरूप फलप्राप्ति होती है।


ब्रह्ममे अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीन भाव हैं, इसलिये कार्यब्रह्मरूपी इस संसारकी प्रत्येक वस्तुमें भी तीन भाव हैं अतः जीवमें भी तीन भाव हैं। इन तीनों भावोंकी शुद्धि व पूर्णता द्वारा ही साधक ब्रह्मरूप बन सकता है। निष्काम कर्मके द्वारा आधिभौतिक शुद्धि, उपासनाके द्वारा आधिदैविक शुद्धि और ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इसलिये सन्यासाश्रममे निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञानका अनुष्ठान शास्त्रोंमें बताया गया है।

निष्काम कर्मके विषयमे श्रीगीतामें कहा है:—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाऽक्रियः ॥
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥

कर्मफलकी इच्छा न करके जो कर्त्तव्य कर्म करता है वही संन्यासी व योगी है, निरग्नि व अक्रिय होनेसे ही संन्यासी नहीं होता है। काम्य कर्मोंका त्याग ही संन्यास है और सकल कर्मोंका फलत्याग ही त्याग है। कर्मत्याग त्याग नहीं। इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर कार्य्य संन्यासीका अवश्य कर्त्तव्य है। जीवभाव स्वार्थमूलक है। जबतक यह स्वार्थभाव नष्ट नहीं होता है तबतक जीव भाव भी नष्ट नहीं हो सकता है। निःस्वार्थ जगत्सेवा द्वारा स्वार्थशुद्धि नष्ट होकर जीवभावका नाश होता है तभी संन्यासी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकते हैं। संन्यासी निष्काम कर्मद्वारा अपनी सत्ताको विराट्की सत्तासे मिलाकर ही सद्भावकी पूर्णताको प्राप्त होसकते हैं क्योंकि परमात्मामे जब सत् चित् व आनन्दभाव है तो परमात्माके अशरूप जीवोमे भी ये तीनों भाव विद्यमान हैं। जीव में ये तीनों भाव परिच्छिन्न हैं। जबतक ऐसी परिच्छिन्नता है तब तक जीव बद्ध है। मुक्तिके लिये अपनी सत्सत्ताको उदार करके विराट्की सत्तामे विलीन करना पड़ता है, अन्यथा सद्भावकी पूर्णता नहीं होसकती है। संसारको भगवान्का रूप मानकर निष्काम जगत्सेवामे प्रवृत्त होनेसे साधक अपने जीवनको विश्वजीवनके साथ सहजही मिला सकते हैं और इसीसे उनकी सत्सत्ता विराट्की सत्तासे मिल सकती है। यही संन्यासाश्रममे मुक्तिका प्रथम

साधन है। मुक्ति का द्वितीय साधन उपासना और तृतीय साधन ज्ञान है। उपासना के द्वारा परमात्मा की आनन्दसत्ता और ज्ञान के द्वारा परमात्मा की चित्सत्ता का अनुभव पुत्र-धन-यशरूपी एषणात्रयमुक्त महात्मा को होजाता है, तभी वे पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कर ब्रह्मरूप होजाते हैं। यही तुरीयाश्रम का अन्तिम अनुभव है और यही मनुष्य जीवन की अन्तिम चरितार्थता है।



सतीधर्म रहस्य ।

अर्थजातिकी सामाजिक रीतियों की श्रेष्ठता को समझ कर फ्रेडरिक पिनकोट (Frederic Pincott) साहबने कहा है—

It may with safety be assumed that, when millions of intelligent people practise certain customs for thousands of years, there must be something in these customs to redeem them from the charge of folly or criminality. This should be frankly admitted in the case of the Hindus, who have been not inappropriately called by Prof. Max Muller, 'a nation of philosophers' It is certain that the whole religious and social system of the Hindus is the outcome of centuries of profound thought and carefully recorded experience. Whatever we English people may be able to teach them in mechanical arts and in experimental science, we have very little to teach them in matters of social philosophy. Every thing tending to the peace and well-being of society has been long since reduced by the Hindus to well-ordered rules, deduced from the unchanging facts of nature. Any introduction among them of our crude ideas can only result in mischief and tend to bring the Hindus to the same chaotic scramble of antagonistic interest which is the characteristic of our own disgraceful social muddle.

“इस प्रकार विचार करनेमें कोई भी शंका नहीं हो सकती कि करोड़ों बुद्धिमान् मनुष्य हजारों वर्षोंसे जिन सामाजिक रीतियोंको वर्त्तव्यमें ला रहे हैं उनके भीतर ऐसा कोई तत्त्व अवश्य होगा जिसे मूर्खता या अत्याचार कह कर हम दोष नहीं दे सकते । हिन्दुओंके विषयमें ठीक यही बात निःसंकोच रूपसे कही जा सकती है, जिसे मैक्स मूलर साहबने ठीक ही कहा है कि यह ‘दार्शनिक जाति’ है । यह निश्चय है कि हिन्दुओंकी समस्त धार्मिक तथा सामाजिक विधियां उनके शतशत वर्षव्यापी गभीर चिन्ता तथा सत्य अनुभवके फलस्वरूप हैं । हम अङ्गरेज लोग उन्हें शिल्पकला तथा सायन्सके विषयमें जो कुछ सिखा सके, किन्तु सामाजिक विज्ञानके विषयमें हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते । जिससे सामाजिक जीवनमें पूर्ण उन्नति तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा हो, ऐसी सभी विधियोंको हिन्दुओंने प्रकृतिके स्थिर सिद्धान्तोंसे संग्रह करके अपने सामाजिक संगठनमें लगा दिया है । इन सब उत्तम विधियोंके भीतर हम अपनी जातिके भद्दे भावोंको मिलावेगे तो फायदेके बदले उनकी हानि ही करेगे, और उन्हें परस्परविरोधी स्वार्थके तुच्छ भगड़ेमें प्रवृत्त हो जाना पड़ेगा जैसा कि हमारे यहांके अतिहीन सामाजिक विधिका स्वरूप है ।” इस प्रकारसे पश्चिमदेशके विद्वान् पुरुषोंने हिन्दुसामाजिक रीतियोंकी भूरिभूरि प्रशंसा की है । अब सतीधर्मके द्वारा आर्यजातिके सामाजिक जीवनकी उत्तमता कैसे सिद्ध हो सकती है, उसीका वर्णन किया जाता है ।

पूर्वप्रबन्धमें आश्रमधर्मकी उपयोगिता बतानेके प्रसङ्गमें यह दिखाया गया है कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमोंमें क्रमशः शक्तिलाभ करते हुए द्विजगण मोक्षपदवी पर पहुँच सकते हैं । उनकी सहधर्मिणी गृहस्थाश्रममें उनके किये हुए पुण्यकी अर्द्धांशभागिनी होती है । अन्य तीन आश्रमोंमें स्त्रीके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता है, अतः उन आश्रमोंमें किये हुए पुण्यका कोई भी अंश स्त्रीको नहीं प्राप्त होता है । इधर श्रुतिने मनुष्यजीवनका उद्देश्य यही बताया है कि—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥

(केनोपनिषत्)

इस संसारमें आकर यदि परमात्माको जान लिया तभी मनुष्यजन्म पाना सार्थक है, अन्यथा मनुष्यजन्म बृथा तथा उसका नाश ही जानना चाहिये । इस लिए धीर योगिगण घट घटमें आत्माको जानकर इहलोक त्यागनेके अनन्तर अमृतत्वलाभ किया करते हैं । इस अमृतत्वकी प्राप्ति स्त्रीजातिको किस प्रकारसे हो इसीका समाधान सतीधर्मरहस्य है । अनेक तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य, योगसाधन, आत्मानुसन्धान आदि कठिन उपायोंसे कितने ही जन्मोंमें पुरुष जिस परमपदको प्राप्त करता है, उसीकी अनायास प्राप्ति बिना किसी त्याग या योगसाधनके स्त्रीजाति केवल सतीधर्मके पूर्ण आचरण द्वारा कर ले सकती है, इसी कारण सतीधर्मकी इतनी महिमा वेद तथा स्मृतिशास्त्रमें गाई गई है । यथा अथर्ववेद १८ । ३ । १ में—

- इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उपत्वा मर्त्यं प्रेतम् ।

धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्मै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥

दाहके समय देवर आदिका मृतकको लक्ष्यकर कथन है कि (मर्त्य) हे मनुष्य ! (पतिलोक) जहां पति गया हो उस लोककी (वृणाना) इच्छा करती हुई (पुराण) उस जन्ममें भी यही पति मिले इस सनातन (धर्म) धर्मका (अनुपालयन्ती) पालन करती हुई (इयं) यह (नारी) स्त्री (प्रेतं) मृतक हुए (त्वा उपनिपद्यते) तुम्हारे समीप निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात् सहमरणार्थ निश्चय कर चुकी है । (तस्मै) उसके लिये (प्रजां द्रविणं धेहि) पुत्रादि और धनको धारण करो । और भी मनुसंहिता ५म अध्यायमें—

नास्ति स्त्रीणां पृथग् यज्ञो न व्रतं नाऽप्युपोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गं महीयते ॥

स्त्रियोंको पृथक्पृथक् कोई यज्ञ, व्रत या उपवासादि करनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल पतिसेवाके द्वारा ही वह उत्तमगतिको पा सकती है । इन तत्त्वोंके समझनेमें पूर्ण समर्थ न होने पर भी पश्चिमी विद्वानोंने अच्छी चीज जान कर सतीधर्मकी कितनी ही प्रशंसा की है । यथा—

Nothing makes a woman more esteemed by the opposite sex than chastity. Chastity with its collateral attendants truth, fidelity, and constancy gives the man a property in

the person he loves and consequently endears her to him above all things. (Addison). It is proper to leave abundance of chastity rather than gold to children (Plato). I do not deem that a dowry, which is called a dowry, but chastity and subdued desire. (Plautus) Nothing can atone for the want of modesty, without which beauty is ungraceful and wit detestable (Steele).

सतीधर्मके द्वारा ही स्त्रीजाति पुरुषके पास सबसे अधिक सम्मानयोग्य बन सकती है । स्त्रीमें सतीत्व, सत्य, विश्वास और दृढ़ता इन्हीको परम सम्पत्ति रूपसे पाकर पुरुष सबकी अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करते हैं । अपनी सन्तानोके लिये धनरत्न छोड़ जानेकी अपेक्षा सतीत्व छोड़ जाना ही पितामाताका कर्त्तव्य है । जिसको 'दहेज' कहा जाता है, उसे मैं 'दहेज' नहीं समझता हूँ, पातिव्रत्य और संयमको ही मैं यथार्थ दहेज समझना हूँ । स्त्रियोंमें शील और सतीत्व नष्ट होजाय तो इस पापका कोई प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है, इसके बिना उनको सुन्दरता, शोभाविहीन और चतुराई घृणाजनक होजाती है ।

(एडिशन, प्रेटो, मोटस् स्टील)

अब सतीधर्मके साथ नारीजातिके मोक्षपदलाभका अच्छेय सम्बन्ध बताया जाता है । पश्चिमदेश तथा इस देशके विद्वानोंने अनेक विचार कर स्त्रीप्रकृति और पुरुषप्रकृतिके निम्नलिखित भेद निर्णय किये हैं:—

There are deep-seated, essential differences, the result of ages of evolution between boy-nature and girl-nature both physically and psychically. These manifest physically in height, weight, blood corpuscles, brain volume, brain structure, and as only recently discovered, in ductless glands—a study of these latter showing, how intimate and delicate is the interaction between our mental life and our bodily functions. (An up-to-date and impartial summing up of the main sex differences is to be found in Dr. Heilbroonn's 'The Opposite Sexes' published by Methuen) In the course of evolution the

the male of the species has had occasion to develop his cerebro-spinal nervous system more, while the female has developed her sympathetic nervous system more specially. Women excel in the subjective, instinctive, intuitional aspects of human life, while men on the other hand are objective, rational, abstract and analytical. Man is Apollonian. - He is interested in form, in abstract thought. Woman is Dionysian. She is rooted in nature, in the elemental and life-giving. Hence Nature's working is through this law of human Bi-polarity; for a division of labour between the sexes is part of the scheme of evolution. Hence has been felt the age-long need of woman by man and of man by woman, the search for the self-complimentary opposite Hence the right social ideal is that, which aims at helping the sexes to complement and aid each other.

(Dr. Meyrick Booth's Woman and Society, George Allan and Unwin Ltd.)

शत शन वर्षतक क्रमोन्नतिके फलसे स्त्रीप्रकृति और पुरुष प्रकृतिमें स्थूल, सूक्ष्म दोनों ही भावोंमें गभीर मार्मिक पार्थक्य हो जाता है। स्थूलरूपसे यह पार्थक्य शरीरकी ऊँचाई, वजन, रक्तके कीट, मस्तिष्कका आकार, मस्तिष्कका गठन और नलविहीन पेशीके रूपमें प्रकट होता है और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि शारीरिक भेदके अनुसार मनोवृत्तिमें भी किस किस प्रकारके भेद हुआ करते हैं। (डा. हिल ब्रूनकी पुस्तकमें स्त्रीपुरुषभेदके और भी अनेक वर्णन मिलते हैं) । उन्नतिके क्रममें पुरुषको मस्तिष्क और मेरुदण्डसम्बन्धीय स्नायुओंको उन्नत करनेका मौका मिलता है और स्त्रीको मनोवृत्ति पुष्ट करने वाली संहयोगी स्नायुओंके उन्नत करनेका विशेष मौका मिलता है । महत्त्वपूर्णजीवनके जिन अंशोंमें मन-तथा मानसिक वृत्तियाँ और नैसर्गिक बुद्धि विचारहीन भावोंका सम्बन्ध है उन सभीमें स्त्रियाँ अधिक निपुण होती हैं, दूसरी ओर जिन अंशोंमें बुद्धि, विचार, प्रत्यक्ष व्यवहार या वस्तुविश्लेषणका सम्बन्ध है उन पर पुरुषों-

का विशेष अधिकार रहता है। बुद्धिके प्रेरक सूर्यकी प्रकृति मनुष्यकी है, वह बुद्धिजीवी, प्रत्यक्षदर्शी, विचारप्रधान जीव है, किन्तु स्त्रीमें मायाका भाव अधिक है, बल्कि स्त्रीप्रकृतिको जड़मे ही मायाशक्ति है, वह मनोवृत्ति तथा नैसर्गिकभावप्रधान जीव है। प्रकृतिका क्रमोन्नति कार्य इन दोनों विपरीत केन्द्रोंको लक्ष्य करके इनमें श्रमविभाग द्वारा सम्पादित होता है। यही कारण है कि परस्परमें पूर्णता लानेके लिये अनादिकालसे पुरुषको स्त्रीकी चाह और स्त्रीको पुरुषकी चाह रहती है। अतः यथार्थ सामाजिक आदर्श वही कहलावेगा जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार उन्नतिलाभ कर सकें और विवाहसूत्रमे बद्ध होकर पारस्परिक श्रमविभाग तथा सहायता द्वारा पूर्णताको प्राप्त कर सकें।

(डा० मेरिक बुथ)।

इसी विचारधाराको अनुभव करके अन्यान्य वैज्ञानिक परिदृष्टीने और भी विचार किया है। यथा :—

As the Sun, the great manifestation of day, typified the creative force, the positive male element, so the moon, signifying the supernal feminine principle ranked equally with the forms in talismanic popularity

(Artie Mae Blackburn—The Alchemy of precious

Stones—Kalpaka)

The mind has two poles, a negative and a positive. The emotional side is the negative and the intellectual side is the positive Likewise the body has two poles The right hand is positive and the left negative in all right handed people

(The Nature and Cultivation of Personal Magnetism

by Dr Sheldon Leavitt—Kalpaka)

सूर्यशक्ति 'पजिटिभ' (सम) पुरुषशक्ति है जिसके द्वारा सृष्टिशक्ति प्राप्त होती है, चन्द्रमे 'नेगेटिभ' (विषम) स्त्रीशक्ति है, जिसका उपयोग यन्त्रधारणमें बहुधा किया जाता है। (आर्टि मी ब्लैकवर्न)। अन्तःकरणकी दो परिधियाँ हैं, एक पजिटिभ और दूसरी नेगेटिभ। मनका अंश नेगेटिभ और बुद्धिका अंश पजि-

दिग्भ है। इसीप्रकार शरीरकी भी दो परिधियां हैं, उसमें दाहिना भाग पजिटिभ और वाम भाग नेगेटिभ है। (डा० शेल्डन लिभिट)।

It is a significant coincidence that the lunar month exactly tallies with woman's Catamenia from menses to menses.

(The Sacrament of Marriage Ceremony.)

चन्द्रमाके साथ स्त्रीप्रकृतिकी स्वाभाविक एकता होनेके कारण ही स्त्रियोंका ऋतुधर्म चन्द्रमासके हिसाबसे हुआ करता है। और भी—

Man and woman are evolved on divergent lines from the original impregnated ovum, differing in their metabolic ratio as more katabolic and more anabolic respectively. These metabolic impressions can be studied in the anatomical, physiological and even psychological differences of the male and the female. The costal prominence of man and the pelvic superiority of woman, the greater muscular activity of man and the less of it in woman, and the grander masculine cerebrations in the one and the deeper retentivity and application to details in the other are respectively among the famous illustrations of the three sets of sexual demorphism. (Cf. Ernest Haeckel's Evolution of Man and Havelock Ellis' Man and Woman).

उत्पत्तिके समयसे ही स्त्री और पुरुषकी प्रकृतिमें भेद है, पुरुषमें 'कैटाबलिक' और स्त्रीमें 'एनाबलिक' भाव अधिक है। शरीरका गठन, शारीरिक क्रिया, मानसिक भाव-सभीमें यह पार्थक्य प्रकट हुआ करता है। अस्थि पञ्जरकी विशेषता पुरुषमें और गर्भाशयकी विशेषता स्त्रीमें है। मज्जा और पेशीकी क्रिया पुरुषमें अधिक और स्त्रीमें कम है। मस्तिष्क तथा बुद्धि सम्बन्धीय क्रिया पुरुषमें अधिक और धारणा तथा ज्ञानवीनकी क्रिया स्त्रीमें अधिक है। इस प्रकारसे प्राशस्मसे ही नरनारीभेद बनाया गया है।

(अर्नेष्ट हेकेल और हैभ्लक इलिस)

और भी :—

Consequent upon primary sexual dimorphism and causing its numerous results as secondary sexual characteristics, there are also many important mental and temperamental peculiarities in man and differently in woman, constituting the final list of psychic differences between him and her and serving to bring them together on a moral and mental basis. Greater cerebral variability and appreciation of generalisations with lesser attention to the details of things are masculine. Greater memory and appreciation of details and lesser cerebration are truly feminine. Courage, impetuosity and knocking about in the world for ideals or otherwise are in line with the katabolic nature of man. Greater patience, endurance and sacrifice mark the anabolic nature of the female sex. The maintenance of this fundamental difference is indispensable for the evolution of Species

(Ernst Haekal).

Variation and preservation are the two important functions of evolution. Being incongruous, they remain divided between man and woman with comparative preponderance. In view of the further possibilities of evolution, a union between them has been therefore made the sine qua non for the propagation of species

(A. A. Phillip)

प्रारम्भसे ही दोनों लिङ्गोंके भेद तथा उसीके अनुसार लक्षणभेद होनेसे स्त्रीपुरुषोंके अन्तःकरण और मनोवृत्तिमें बहुत कुछ भेद होजाते हैं । और इसी भेदके कारण ही विवाह बन्धनके द्वारा दोनों मिलकर परस्परकी पूर्णता सम्पादन करते हैं । मस्तिष्क सम्बन्धीय अनेक विषयोंसे लगे रहना और अधिक ज्ञान-बीनमें न पड़कर मौलिक सिद्धान्तों पर दृष्टि रखना पुरुष प्रकृतिके लक्षण है ।

अधिक स्मरणशक्ति, अधिक ज्ञानवीन और मस्तिष्कसे काम कम लेना स्त्री-प्रकृतिके लक्षण है । साहस, उद्यम, जोशके साथ भिड़ जाना, लक्ष्यसिद्धिके लिये सर्वत्र विचरण—ये सब पुरुषकी 'कैटावलिक' प्रकृतिके अनुकूल कार्य हैं । अधिक धैर्य, सहनशीलता और त्याग तथा समर्पण भाव—ये सब स्त्रीजातिकी 'एनावलिक' प्रकृतिके अनुकूल कार्य हैं । सृष्टिप्रवाहकी क्रमोन्नतिके लिये इस मौलिक भेदकी रक्षा करना नितान्त आवश्यक है । (अर्नष्ट हेकेल)

अनेकरूपता और रक्षा, क्रमविकाशके ये दो आवश्यक कार्य हैं । इनमें एक दूसरेसे पृथक होनेके कारण, एक पुरुषमें और दूसरा स्त्रीमें अधिकताके साथ बना रहता है । क्रमविकाशकी सम्भावना पर विचार करके सृष्टिप्रवाहके विस्तारार्थ विवाहके द्वारा इन दोनोंका मेल करा दिया जाता है । (५०-५० फिलिप) ।

नरनारियोकी प्रकृतिमें इस प्रकार स्वाभाविक भेदकी दृशमें भी यदि कहीं पर नरके गुण नारीमें और नारीके गुण नरमें देखनेमें आजाय तो इस विषयमें कैसा सिद्धान्त करना चाहिये इसपर प्रसिद्ध विद्वान् हर्वर्ट स्पेन्सरने कहा है—

The most serious error usually made in drawing these comparisons (*i e* between the minds of man and woman) is that of overlooking the limit of normal mental power. Either sex, under special stimulations is capable of manifesting powers ordinarily shown only by the other; but we are not to consider the deviations so caused as affording proper measures. Thus to take an extreme case, the mammae of men will, under special excitation, yield milk, there are various cases of gynaecomatsy on record and in famines infants whose mothers have died have thus been saved. But this ability to yield milk, which, when excited, must be at the cost of masculine strength, we do not count among masculine attributes. Similarly, under special discipline, the feminine intellect will, yield products higher than the intellects of most men can yield. But we are not to count this productivity as truly feminine, if it entails decreased fulfilment of

the maternal function. Only that mental energy is normally feminine which can co-exist with the production and nursing of the due number of healthy children.

स्त्री और पुरुषकी मानसिक शक्तिके विषयमे तुलना करते समय प्रायः यह भारी गलती हो जाती है कि उनकी मानसिक शक्ति साधारणतः कहां तक है इसे हम देखना भूल जाते हैं । किसी खास उच्चेजनाके वशीभूत होकर इनमेसे एक दूसरेके अधिकारकी शक्तिको प्रकट कर सकता है किन्तु ऐसे असाधारण कारणसे शक्तिकी ठीक परीक्षा नहीं होती है । एक असाधारण कारणका दृष्टान्त यह है कि खास उच्चेजनाको पांकर पुरुषके स्तनसे भी दूध निकल आवेगा । स्त्रीजातिसुलभ गुणोंका इसप्रकार विकाश और भी अनेक मौके पर देखा गया है, जिससे दुर्भिक्षके दिनोमे मातृहीन शिशुकी प्राणरक्षा हो सकी है । किन्तु इस प्रकार उच्चेजनावश दूध देनेकी शक्तिको पुरुषकी स्वाभाविक शक्ति हम नहीं कह सकते, वलिक पुरुषशक्तिको नष्ट करके यह स्त्रीजातिसुलभ शक्ति उसमे आगई, यही कहना चाहिये । ठीक इसी प्रकारसे खास प्रयत्नके द्वारा किसी समय किसी स्त्रीकी बुद्धि पुरुषसे भी अधिक विभूतिका विकाश कर सकती है, किन्तु यदि ऐसे विकाशसे किसी प्रकार मातृगुणका अपचय हो तो इसे यथार्थ स्त्रीबुद्धि विकाश नहीं कहना चाहिये । स्त्रीजातिकी उतनी ही मनोवृत्ति तथा बुद्धिवृत्ति स्वाभाविक है, जिसके रहनेसे सन्तानोत्पादन और सन्तानके पालनमे किसी प्रकारका विघ्न न हो ।

इस प्रकारसे पश्चिमदेशके माने हुए विद्वानोंने स्त्रीप्रकृति तथा पुरुष प्रकृति पर सयम करके बहुत कुछ भेद निर्णय तथा दोनोका कर्तव्य निर्णय किया है । अब इस विषयमे आर्यशास्त्रमे कैसे कैसे विचार प्रकट किये गये हैं उसीका वर्णन क्रमशः किया जाता है । बृहदारण्यक श्रुतिमे लिखा है—

सोऽनुवीक्ष्य नाऽन्यदात्मनोऽपश्यत् । स वै नैव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छत् स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ सम्परिष्वक्तौ । स इममेवाऽऽत्मानं द्वेषाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाऽभवताम् । तस्मादिदमर्द्ध-वृगलमिव स्व इति स्माऽऽह याज्ञवल्कः । तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ।

सृष्टिसे पहिले आत्मा एक ही थे इसलिये रमण न कर सके, क्योंकि एकाकी रमण नहीं हो सकता है। इसलिये उन्होंने द्वितीयकी इच्छा की और स्त्री-पुरुष जैसे एकसाथ मिलकर रहते हैं ऐसा सङ्कल्प किया। परमात्माने संकल्पके अनुसार अपनेको दो भागमें विभक्त किया—आधेमें पुरुष और आधेमें स्त्री होगये। इसलिये यह शरीर अर्द्धचणककी तरह रहता है। विवाहके द्वारा स्त्री इसे पूर्ण करती हैं और इसीसे सृष्टिका प्रवाह चलने लगता है। मनुसंहितामें भी ठीक इसी प्रकार लिखा है—

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥

सृष्टिके समय परमात्माने अपनेको द्विधा विभक्त कर दिया और आधेमें पुरुष तथा आधेमें नारी हो गये, उसी नारीमें परमात्माने विराटकी सृष्टि की। इन दोनोंमेंसे कौन किस भागमें है, इसका वर्णन देवी भागवतमें आता है। यथा:—

स्वेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधारूपो बभूव ह ।

स्त्रीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान् स्मृतः ॥

सृष्टिकी इच्छा करके परमात्मा द्विधा विभक्त होगये। वामभाग स्त्री और दक्षिण भाग पुरुष हुआ। और भी सप्तशती तथा देवीभागवतमें—

‘स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।’

‘सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः’

‘कलांशांशसमुद्भूताः प्रतिविरवेषु योषितः’

संसारकी समस्त स्त्रियां प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न हुई हैं। उत्तम, मध्यम, अधम सबमें प्रकृतिकी ही भिन्न भिन्न कला है। इनमें मायाका अंश होनेसे मनोवृत्ति मायाका भाव, क्रोध ममता आदि नैसर्गिक भाव अधिक होते हैं। इन सब विचारोंसे यही सिद्ध होता है कि स्त्री पुरुषकी अर्द्धाङ्गिनी है, वामाङ्गी है और इसलिये पूर्ववर्णनके अनुसार ‘नेगेटिव’ है, पुरुष ‘पजिटिव’ है। सृष्टितत्त्व पर-विचार करनेसे यही पता लगता है कि जहां पर नेगेटिव पजिटिवमें लय है वह निष्क्रिय दशा है। यही आधुनिक सायन्सका भी सिद्धान्त है। प्रलयमें निष्क्रिय परमात्मा एकाकी रहते हैं, उनमें प्रकृति लवलीन रहती है। सृष्टिके समय दोनों

अलग अलग होकर आधे आधे हो जाते हैं जिससे सृष्टि होती है। आधे आधे होनेसे दोनोंमें समान शक्ति है, शक्ति बराबरकी होनेसे सघर्ष भी उत्तम और सृष्टिभी उत्तम हो सकती है। और सृष्टिके अवसानमे नेगेटिव पजिटिवमे पुनः लय होकर शान्तिदशाको भी ला सकती है। यही कारण है कि आर्यशास्त्रमे स्त्रीको better half अर्थात् उत्तमतर अर्द्धाङ्गिनी न कह कर ओर इसी कारण पुरुषको worse half अर्थात् अधमतर अर्द्धाङ्गि न कहकर दोनोको ठीक आधा आधा कहा गया है। जिस देशके मनुष्य स्त्रीको better half कहते हैं, वहां मायाका प्राधान्य है, ऐसा समझना होगा, अतः वहांकी जानिका लक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति न होकर मायाकी अर्थात् अर्थकामकी ही प्राप्ति होगी। यह लक्ष्य शास्त्रानुकूल तथा प्रशंसा योग्य नहीं है। और इससे न सघर्ष ही ठीक होगा, सृष्टिविस्तार ही ठीक होगा और अन्तमे नेगेटिवका पजिटिवमे लय होकर शान्तिकी ही प्राप्ति हो सकेगी। वहां तो पजिटिव नेगेटिवकी ओर खींचता ही रहेगा और मायाके आकर्षणसे बद्ध होकर जीव शिवभाव प्राप्त नहीं हो सकेगा, उत्तरोत्तर बन्धन दशाको ही प्राप्त करेगा। और ऐसी दशामें न पजिटिवकी ही मुक्ति है और न नेगेटिवकी ही मुक्ति है, क्योंकि नेगेटिव पजिटिवमें लय होने पर ही क्रियाहीन समता और शान्तिकी दशा आती है, अन्यथा अनन्तकाल तक मायाका ही चक्र चलता रहता है। अतः पजिटिवके लिये कर्त्तव्य यही है कि वह नेगेटिवमे न फल कर उसे ही अपनेमे लय कर ले और नेगेटिवका भी यह कर्त्तव्य है कि वह पजिटिवकी सहायतासे सृष्टिविस्तार करती हुई अन्तमें उसीमे लय को प्राप्त होजाय। अर्थात् पुरुषका यह धर्म है कि वह स्त्रीमे न फँस कर मायाशक्तिको ही अपनेमे लय कर ले और अपने नित्य शुद्धबुद्धमुक्त स्वभावको पहिचान जाय। और स्त्रीका यह धर्म है कि वह पुरुषकी सहायतासे सृष्टिविस्तार करनी हुई अन्तमे पुरुषमे ही लय होकर मुक्त हो जाय। इसलिये जो धर्म स्त्रीको शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब तरहसे पुरुषमें लय होना सिखावे वही स्त्रीजातिका एकमात्र धर्म है। और इसीको पातिव्रतधर्म या सतीधर्म कहते हैं। इसी सतीधर्मके विना स्त्रीजाति कदापि मुक्ति लाभ नहीं कर सकती। यथा विष्णुस्मृति मे—

नारी भर्त्सरमासाद्य यावन्न दहते तनुम् ।

तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात् कथञ्चन ॥

पतिमें सब तरहसे लवलीन होकर जब तक स्त्री उनके साथ सहस्रता नहीं होनी है अथवा अपनी सत्ताको उनमें समाप्त नहीं कर देती है तब तक न स्त्रीशरीरसे उनका छुटकारा ही होता है और न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है । यही स्त्रीजोवनमें सतीधर्मकी परम आवश्यकताका कारण है । और इसी कारण ज्ञानदृष्टिसम्पन्न महर्षियोंने स्त्री जातिके लिये सतीधर्म पालन पर इतना जोर दिया है । जिन जातियोंमें इतनी उच्च कक्षाके ज्ञानका अभी तक विकास नहीं हुआ है वे अपनी जातिकी स्त्रियोंके लिये इस प्रकार मोक्षसाधन धनानेमें अवतक असमर्थ ही देख पड़ती हैं ।

पहिले ही पश्चिमी तथा एनदेशीय विद्वानोंके प्रमाण देकर बताया गया है कि स्त्रीजाति महामायाकी अंशरूपिणी होनेके कारण उनमें स्नेह, ममता, प्रेम, सन्तानपालन आदि मायाके भाव अधिक होते हैं और ऐसा हुए बिना मांका मांपन ही वृथा है जैसा कि हर्षट स्पेन्सर साहबने लिखा है । अतः प्रेम, ममता आदि मधुर भावोंको किसी केन्द्रमें डालकर उसके द्वारा ही स्त्री जाति मोक्षमार्गमें अग्रसर हो सकती है । किसी निराकार वस्तुमें स्नेह, प्रेम आदिका डालना सम्भव नहीं है, साकार स्वरूपमें ही स्नेह प्रेम आदि डाले जा सकते हैं । पुरुष संसारसे वैराग्य लाभ कर, ज्ञानके आश्रयसे निराकार, अव्यक्त ब्रह्ममें लवलीन हो सकता है, इसके लिये पुरुषका संन्यासाश्रम शास्त्रमें बताया गया है । किन्तु स्त्रीप्रकृतिमें स्नेह, ममता, प्रेम, भक्ति आदि स्वाभाविक भावोंके होनेसे भगवान्का साकार रूप ही उनकी पूजाके लिये उनकी प्रकृतिके अलुक्ल है । वही साकार रूप पतिभगवान्का उनके लिये पूज्य महर्षियोंने उनकी प्रकृतिके देखकर बता दिया है । पतिको भगवान् समझ कर उन्हींकी सेवामें शरीर मन प्राणको स्त्री समर्पण कर दें, उनका शरीर, शरीरका वेशभूषण, प्राणधन, समस्त गृहकार्य, मनकी सारी चिन्ता, प्राणका सभी व्यापार पति भगवान्की पूजाके लिये नैवेद्यरूपसे उन्हींमें समर्पित हो जाय तो जिस प्रकार भक्त भगवान्में शरीर-मन प्राण सौंपकर अपनी स्वतन्त्र सत्ताको भगवान्में लय होकर, उन्हींमें समाधि लाभ कर उन्हींका रूप बन जाता है, ऐसे ही सती स्त्री पतिभगवान्में सब कुछ लवलीन कर उन्हींके कमलचरणोंमें समाधिलाम कर स्त्री शरीरसे मुक्त तथा संसारसे मुक्त हो सकती है । इस द्रष्टामें उनके लिये पुरुषकी तरह कठिन ज्ञानप्रधान, वैराग्यप्रधान मोक्षपथको आवश्यकता नहीं रहती है । वह प्रेम, स्नेह,

ममता आदि सभी मायिक वृत्तियोंको रखती हुई केवल तीव्र एकाग्रता और भावशुद्धिके द्वारा अतिदुर्लभ मोक्षपदको पा सकती है । यही पुरुषधर्मसे नारीधर्मकी उत्तमता तथा सहजसाध्य सीधापन है । इसी कारण श्रीभगवान् मनुने कहा है —

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत् पतिः ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत् किञ्चिदप्रियम् ॥ (५ अ०)

भुङ्क्ते भुङ्क्तेऽथ या पत्यौ दुःखिते दुःखिता च या ।

मुदिते मुदितात्यर्थं प्रोषिते मल्लिनाम्बरा ॥

सुप्ते पत्यौ च या शेते पूर्वमेव प्रबुध्यते ।

नाऽन्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया प्रतिव्रता ॥

शील, चरित्र या गुणोसे हीन होने पर भी देवता समझ कर सती स्त्रीको अपने पतिकी सेवा करनी चाहिये । पति जीवित हो या मृत हो पतिलोककी चाहने वाली सती स्त्रीको कदापि उनका अप्रिय आचरण नहीं करना चाहिये । पतिके भोजनके बाद भोजन करनेवाली, उनके सुखमें सुखिनी और दुःखमें दुःखिनी, प्रवासमें मल्लिनवस्त्रधारिणी, उनके सोनेके बाद सोनेवाली और जागनेसे पहिले जागनेवाली और मनमें भी अपने पतिके सिवाय अन्य किसी पुरुषको न चाहनेवाली स्त्री पतिव्रता और सती कहलाती है ।

प्रसङ्गोपात्त यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि इस साधारण नियमके साथ कुछ असाधारण नियम भी हैं जैसा कि महर्षि हारीतने कहा है—

द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्व ।

स्त्रियां दो प्रकारकी होती हैं—ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू । उनमेंसे सद्योवधू स्त्रियां अपने पतिको ही भगवान् मान कर उन्हींमें आत्मसमर्पण कर मुक्तिलाभ करती हैं । किन्तु विदुषी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां सबके पति, पतियोंके भी पति, परमात्मामें ही आत्मसमर्पण कर मुक्तिलाभ करती हैं, उनमेंसे बहुत सी तो वेदके मन्त्रोंको भी देखती हैं । उनकी कोटि असाधारण है और इसी लिये इसे

प्रकार लोकविरुद्ध धर्माचरणमें उन्हें दोष भी नहीं लगता है । गार्गी, मैत्रेयी आदि इसी असाधारण कोटिकी स्त्रियां थी । महर्षि याज्ञवल्क्यने संन्यास लेनेके समय जब मैत्रेयीको घरमें रहने कहा तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि 'येनाऽहं नामृता स्यां किं तेनाहं कुर्याम्' जब संसारकी धन सम्पत्तिसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती है तो मुझे संसारकी आवश्यकता नहीं है । ब्रह्मवादिनी गार्गीका राजर्षि जनककी सभामें उपस्थित होकर महर्षियोंके साथ शास्त्रार्थ करना तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार ज्ञानाधिकारकी तरह भक्ति अधिकारमें भी ब्रजगोपियोंका दृष्टान्त, कृष्णप्रिया मीराबाई आदिके दृष्टान्त इतिहासपुराणमें प्रसिद्ध है, जिन महिलाओंने समस्त लौकिक धर्म त्याग कर परमात्माकी शरण ली थी और परमात्माने भी उन पर कृपाकर मोक्षप्रदान किया था जैसा कि उन्होंने श्रीगीतामें कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥

वर्णाश्रमातृकूल समस्त लौकिक धर्मोंको त्याग कर परमात्माकी शरण लेने पर परमात्मा ही लौकिकधर्मत्यागजन्य पापोंसे अपने भक्तोंको बचाकर उनका उद्धार कर देते हैं । उन्होंने और भी कहा है—

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी यदि वैराग्यवान् होकर अनन्यमनके साथ परमात्माकी उपासना करेगा तो शीघ्र ही उसका दुराचार छूट जायगा, और धर्मात्मा साधु बन कर, परमात्माकी कृपा पाकर वह नित्य शान्तिका अधिकारी हो जायगा । भगवद्भक्तका कभी नाश नहीं होता है क्योंकि उसके रज्जक स्वयं श्रीभगवान् है । इसी असाधारण दृष्टान्तमें श्रीभगवान्के प्रति ब्रजगोपियोंकी मधुर उक्ति भी ध्यान देने योग्य है । 'पतिसेवा उनका धर्म है' ऐसा उनके प्रति श्रीभगवान्का उपदेश होने पर उन्होंने यही उत्तर दिया था—

यत् पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग
स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।
अस्त्वमेतदुपदेशपदे त्वयीशे
प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥

(भागवत १०म स्कन्ध)

पतिसेवा, सन्तानपालन आदि स्त्रीजातिका स्वधर्म है, यह जो धर्मतत्वज्ञ आपने हमें उपदेश किया है, यह उपदेश सकल उपदेशके आश्रयस्थान आपमें ही रह जाय, क्योंकि पति पुत्र आदि प्रिय हो सकते हैं, किन्तु सबके आत्मा हानेके कारण आप सबके बन्धु तथा प्रियतम है। उपनिषद्में भी लिखा है—न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि। अर्थात् पतिके लिये पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु आत्माके लिये ही पति प्रिय होता है, आत्मा प्रियवस्तु है, इसलिये जहां जहां पर आत्माका अलुकूल अभिमान है वह सभी आत्माके कारण ही प्रिय हो जाता है। अतः जिसका मन सबके मूलभूत आत्मामें रम गया है उसके लिये सांसारिक कोई भी कर्त्तव्य नहीं रहता है। यथा भागवतमें—

यथा तरोर्मूलनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः ।
प्राणोपहारैश्च यथेन्द्रियाणि तथैव सर्वाह्णमच्युतेज्याः ॥

जिस प्रकार वृक्षके मूलमें जल देनेसे स्कन्ध शाखा आदिको तृप्ति हो जाती है, उनको अलग सींचनेकी आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार प्राणको तृप्त कर देने पर इन्द्रियां स्वयं ही तृप्त होजाती हैं, ऐसे ही परमात्माकी पूजासे सबकी पूजा हो जाती है। किन्तु ये सब ज्ञानाधिकार तथा भक्ति-अधिकार असाधारण हैं। गोपियां पूर्वजन्ममें ऋषि थीं, बहुत सी देवियां थीं, और बहुत-सी श्रुतियां थीं, अतः उनके लिये यह असाधारण धर्म सम्भव था, सबके लिये असाधारण व्यवस्था होने पर धर्म ही धिगड़ जायगा और स्त्रियां 'इतो नष्टास्ततो भ्रष्टाः' हो जायेंगी। अतः सबको मैत्रेयी, गार्गी बनाना या गोपी बनाना ठीक नहीं है। स्त्रीजातिका आदर्श गार्गी नहीं है, किन्तु सीता, सावित्री है। इन रमणी-रत्नोंने उपास्य-उपासक भावके अन्तुसार वास्तवमें ही अपनेको पति भग-

वानमें लवलीन कर अपना उद्धार साधन तथा जगत्के इतिहासमें अलौकिक परमपवित्र आदर्श स्थापन किया था । इस विषयमें आदर्शसती सीताके जीवनकी एक घटना हनुमन्नाटकमें लिखी गई है । लंकापुरीकी अशोकवाटिकामें एक दिन सीतादेवीने त्रिजटाको बुलाकर कहा—

कीटोऽयं भ्रमरी भवत्यतिनिदिध्यासैर्यथाऽहं तथा ।

स्यामेवं रघुनन्दनोऽपि त्रिजटे दाम्पत्यसौख्यं गतम् ॥

जिस प्रकार तिलचट्टा नामक कीट भ्रमरकीटकी तीव्र चिन्ता करता हुआ भ्रमरकीट बन जाता है, ऐसी ही मुझे आशंका है कि रामकी रातदिन चिन्ता द्वारा किसी समय राममें तन्मय होकर मैं राम बन जाऊंगी तो मेरा दासी-भावका आनन्द जाता रहेगा, यही मुझे बड़ा दुःख है । इसके उत्तरमें त्रिजटाने जो कुछ कहा था, सो भी ध्यान देने योग्य है । यथा—

शोकं मा वह मैथिलेन्द्रतनये ! तेनाऽपि योगः कृतः ।

सीता सोऽपि भविष्यतीति सरले ! तन्नो मतं जानकि !

सीते ! आपको शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि जैसी तन्मयता आपकी राममें है, ऐसी ही रामकी भी आपमें है, इसलिये यदि आप राममें तन्मय होकर राम हो जायेंगी तो राम भी आपमें तन्मय होकर सीता बन जायेंगे, जिससे सीतारामका दाम्पत्यप्रेम संसारमें अटूट रहेगा, यही मेरी सम्मति है । यही आदर्श सतीधर्म और उसके द्वारा स्त्रीजातिका मोक्षलाभ है । इसी कारण सतीधर्मकी इननी आवश्यकता आर्यशास्त्रमें बताई गई है ।

सृष्टितत्त्व पर विचार करनेसे निश्चय होता है कि स्त्रीजातिका अलग सृष्टि प्रथम नहीं थी, बल्कि सृष्टिकी चौथी दशामें जाकर तब उसकी अलग सृष्टि हुई है । प्रथम सृष्टि मानसी सृष्टि कहलाती है जिसमें भगवान् ब्रह्माने सनक, सनन्दन आदि तथा सात ऋषियोंको उत्पन्न किया था । यथा गीतामें—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः ॥ १०

सात महर्षि, सनकादि चार, मनुगण—यह सब मानसी सृष्टि है, जिससे सब प्रजा उत्पन्न हुई है । महाभारतमें भी लिखा है—

आदिदेवसमुद्भूता ब्रह्ममलाऽक्षयान्वया ।

सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा ॥

आदिदेव ब्रह्मासे उत्पन्न अक्षय, धार्मिक सृष्टि मानसी सृष्टि कहलाती है । उपनिषद्मे भी लिखा है—‘मनसा साधु पश्यति मानसाः प्रजा असृजन्त’ ब्रह्माने मनके बलसे प्रजाओकी मानसी सृष्टि की थी । यह बात आधुनिक सायन्ससे भी विरुद्ध नहीं है बल्कि अद्भुतरेजी creation और pro-creation शब्दके द्वारा इसकी सार्थकता स्पष्ट प्रतीत होती है । मानसी सृष्टि ही वास्तवमे सृष्टि या creation है और सब pro-creation अर्थात् असली सृष्टिके स्थानमे कमजोर सृष्टि है । लिखा भी है—When one remembers the case of ‘Yalandi’ in modern psychical science—how a plant with flowers could be evolved by spirit agency merely the above mind-born sons may not appeal to one as improbable’

(The Philosophy of Marriage)

आधुनिक सूक्ष्म सायन्स विद्यामे यह देखा गया है कि पुष्पसहित वृक्ष आत्माओकी सहायतासे एकदम उत्पन्न होगये है । इसीसे मानसी सृष्टि असम्भव नहीं मालूम होती है । सृष्टिकी द्वितीय दशामे लिङ्गभेद विचारके बिना ही जहां तहां सृष्टि होती है । और सृष्टिकी तृतीय दशामे एक ही शरीरमें स्त्री-पुरुष दोनोंकी सृष्टि होती है । इन दोनों सृष्टियोंके विषयमे भी आधुनिक विज्ञानने बहुत कुछ पता लगा लिया है । यथा—

Then came the bodily procreation, but without the condition of sex comparable to the multiplication of an amoeba and to the parts of the bodies of spiders, grasshoppers, crabs, etc , that are restored by nature, if the original ones happen to be lost Sex was developed later on as a precondition of procreation but sexes were undivided Science also, recognises androgynous and hermaphroditical species. The ideal of this is emblemed in the half Devi (female) form of Shiva.

(The World's Eternal Religion)

A Greek legend describes that a bi-sexual god was split into two by the Almighty. From then the male or the female, always seeks the company of the other. This conception is not strange to modern science. Dr. Arthur Torrance, an authority on tropical diseases, maintains that the human race originated in a dual-sex tribe. Believing that examples of this tribe are still to be found he set out on expedition to Africa. He says he has already encountered some of these peculiar people who are supposed to live near Lake Chad, on a previous expedition. (Hindu 27-1-31)

मानसी सृष्टिके बाद शरीरसम्बन्धसे सृष्टि प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमें लिङ्गभेदका विचार नहीं रहता है। जैसा कि मकड़ी, ककड़ा, भिड़ुर या वह सब जीव जिसे 'एमिवा' कहते हैं—जिनका कितनी ही श्रेणियाँ प्रकृतिके द्वारा लिङ्गभेदविचारके बिना ही बनाई जाती हैं। इसके बाद की सृष्टिमें लिङ्गभेद मालूम होता है, किन्तु प्रथमतः एक ही शरीरमें स्त्री-पुरुष दोनों लिङ्ग देखनेमें आते हैं। सायन्सने भी ऐसी 'एण्ड्रोजिनस' सृष्टि मानी है। आर्यशास्त्रमें इसीके आदर्शरूप अर्द्धनारीश्वर मूर्ति प्रसिद्ध ही है। वृत्तोंमें भी ऐसी स्त्रीपुरुषमयी सृष्टि देखी जाती है। एकही वृत्तके फूलमें परागकेशर और गर्भकेशर होते हैं। गर्भकेशरमें स्त्रीशक्ति होती है, जो कि पुष्पके नीचेके अंशमें होता है, और ऊपरके अंशमें परागकेशर होता है, जिसमें पुरुषशक्ति होती है। भ्रमर या वायुके द्वारा परागकेशर गर्भकेशरमें जा मिलता है और उससे सृष्टि होती है। ग्रीसदेशकी पौराणिक गाथामें वर्णन है कि परमात्माने किसी स्त्रीपुरुषमयी देवताको दो भागमें विभक्त कर दिया था, जिससे स्त्री और पुरुष अलग अलग होगये और तभीसे एक दूसरेसे मिलनेके लिये लालायित रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जगत्में यह कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है। डाक्टर अर्थर टरेन्स, जो कि एतद्देशीय चिकित्साशास्त्रमें भी विशेष पारदर्शी है, उनका सिद्धान्त है कि इस प्रकार सम्मिलित-लिङ्ग जीवसे ही पृथक् लिङ्ग विशिष्ट जीवोंकी उत्पत्ति हुई है और अब भी पृथिवीके कई स्थानोंमें ऐसे जीव विद्यमान हैं। आपका कहना है कि अफ्रिकाके अन्तर्गत चाद हृदके समाप ऐसे अनेक विचित्र जीव रहते हैं और उधर यात्राके समय आपने ऐसे जीव देखे हैं। (हिन्दु २७-१-३१)

इसके बाद चौथी दशामें पुरुषशरीरसे अपने योग्य उपादान लेकर स्त्रीशरीर अलग होजाता है और तभीसे स्त्री और पुरुष अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं और क्षेत्ररूपसे पुरुषका बीज लेकर स्त्री सन्तान प्रसव करने लगती है । इस प्रकार बहुत देरमें तथा सृष्टिकी परिणत दशामें उत्पन्न होनेके कारण और पुरुषदेहसे ही उपादान लेकर उत्पन्न होनेके कारण स्त्रीशरीरमें बल, वीरना, शूरना आदिके वे सब चिह्न नहीं प्रकट होते हैं, जैसा कि पुरुषशरीरमें पाया जाता है । प्राकृतिक शोभा, शौर्य और विशेषताके भी कोई चिह्न स्त्रीशरीरमें नहीं होते हैं । सिंहका केशर सिंहिनीमें नहीं है, मयूरके पंखकी विचित्र शोभा मयूरीमें नहीं है, पांडूके शरीरके वीरत्वके चिह्न गायमें नहीं हैं, कोकिलकी मनप्राणमुग्धकर मधुर ध्वनि कोकिलामें नहीं है, हाथीका वीरत्वसूचक दांत हाथिनीमें नहीं है, पुरुषकी वीरताभरी डाढ़ी और मूंछ स्त्रीमें नहीं हैं । इसीसे एकाएक वही सिद्धान्त सत्य मालूम होता है जैसा कि ब्रुक साहबने कहा है—

A division of physiological labour has arisen during the evolution of life, the function of reproductive elements has become specialised in different directions. The males are as a rule more variable than the female, the male leads and the female follows, in the evolution of new races.

(Brooks)

जीवनके क्रमविकाशमें स्त्रीपुरुषके अवयव भेदानुसार श्रमके भी भेद हो जाते हैं । विभिन्न श्रेणिके अर्द्धोंका कार्य विभिन्न रूपसे होने लगता है । साधारणतः स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंमें विशेषता तथा प्रकारभेद अधिक होता है । सृष्टिके क्रमविकाशमें पुरुषशक्ति सञ्चालन करती है और स्त्रीशक्ति उसे मान कर पीछे पीछे चलती है, यही प्राकृतिक नियम है । इसी प्राकृतिक नियमका अनुसरण करने पर यही युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुषकी वशम्बद रह कर उनकी सेवा करती हुई उन्हींमें शरीर मन प्राण सौंप देनेका प्रयत्न करे और जब पुरुषसे ही स्त्री निकली है तो इसी उपाय द्वारा वह पुनः पुरुषशक्तिमें लय होकर पुरुषके द्वारा परमपुरुष परमात्मा तक पहुँच सकती है । यही कारण

है कि पातिव्रत्य धर्मको स्त्रीजातिकी मुक्तिके लिये उनका एकमात्र धर्म बताया गया है। यही शास्त्रवर्णित सतीधर्मका मधुर रहस्य है।

अब इस सतीधर्मकी रक्षा तथा पूर्ण परिपालनके लिये स्त्रीजातिको कन्यापनसे लेकर वृद्धावस्था पर्यन्त किस तरहसे अपना जीवन बिताना चाहिये उसी पर क्रमशः विचार किया जाता है। कन्यापनके साथ शिक्षाका बहुत कुछ सम्बन्ध है, 'कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीयानियन्ततः' कन्याको यत्नसे पालना तथा शिक्षा देना चाहिये, ऐसा शास्त्रप्रमाण भी है। अब यह शिक्षा कैसी होनी चाहिये सो ही विचार करने योग्य है। पहिले ही कहा गया है कि स्त्रीजातिकी उत्पत्ति महाशक्तिके अशसे हुई है। यथार्थ उन्नति बीजवृक्षन्यायसे होती है, अर्थात् वटबीजकी उन्नति घटका वृक्ष बन कर ही हो सकती है, आम या पीपलका वृक्ष बन कर नहीं हो सकती है। ऐसी उलटी उन्नतिमें तो घटका नाश ही कहा जायगा, उन्नति नहीं कही जायगी। इसी सिद्धान्तके अनुसार स्त्रियोंको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वे अपने भीतरकी महाशक्तिभावको जाग्रत कर सकें। महाशक्ति जगदम्बा—पूर्ण पतिव्रता सती, स्नेहमयी माता और उत्तमा गृहिणी है। अतः कन्याकी शिक्षामें इन तीन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे वह शिक्षिता होकर पूर्ण सती, पूर्ण माता और उत्तमा गृहिणी बन सके। आजकल पश्चिमियोंने इन बिषयोंमें बहुत कुछ विचार करना प्रारम्भ किया है। क्योंकि उन देशोंमें उलटी शिक्षासे बड़ी हानि हुई है। यथा—

Socially Life's wastage among millions,—a large army of young men and of young women eager to satisfy sex-craving, but unwilling to bear the responsibilities of family life and parentage—net result bemoaned by Dr. Booth —“What is happening to the domestic life of the Anglo-Saxon race? It is the same tale wherever the English tongue is spoken — more hotels, fewer homes, more divorces fewer children” Physically—The growing unfitness of the Anglo-Saxon girl for maternity on account of her increased physical exercises and out-door sports Say experts like Dr. Stanley Hall, author of Adolescence, Dr. Arabella Keneally authoress

Feminism and Extinction and others —“It does not at all follow that because a girl plays hockey well or because she develops a heavy muscular system she will for this reason be really healthy Some of the worst cases of hysteria and other serious nervous disorders occur among physically powerful, sport-loving girls ” According to Dr. Englemann “women who develop their muscular system highly suffer in child birth ” According to a recent Vienna calculation the birth rate amongst women predominant in athletic life in Austria was less than one-fifth of the rate amongst others of the same class who were not notably athletic. On these evidences Dr Booth rightly warns — “Let those who believe that the athletic activities of our young women are going to give us a higher race ponder these facts carefully, and also ponder the useful tale told by the figures that from 1922 to 1928 the birth-rate in England has gone down by 16 per cent ” इङ्गलैण्डके प्रसिद्ध डाक्टर बुथ साहबकी सम्मतिमें “नवीन शिक्षाके द्वारा वहांके सामाजिक जीवनकी बड़ी अवनति हुई है । वहांपर दलके दल ऐसे स्त्री-पुरुष देखनेमें आरहे है जो कि कामसम्बन्धके लिये सदा लालायित रहते हैं, किन्तु सन्तान उत्पन्न कर गृहस्थाश्रम करना नहीं चाहते । जहां जहां अङ्गरेजी विद्या पढ़ाई जाती है वहांपर सर्वत्र ही यह कथा है । होटेलोंकी संख्या बढ़ रही है और गृहस्थों के घरकी संख्या घट रही है, विवाह विच्छेद बढ़ रहा है और सन्तानोंकी संख्या घट रही है” । सामाजिक हानिके साथ ही साथ शारीरिक हानि भी यथेष्ट हो रही है । जो स्त्रियां शिक्षाके नवीन आदर्शके अनुसार पुरुषोंकी तरह व्यायाम, खेल आदि करती हैं, उनमें ‘मां’ बननेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । डाक्टर टैनले हाल, अरविता कैनेली आदिकी सम्मति है कि—“किसी स्त्रीने पुरुषकी तरह व्यायाम करके अपनी मांशपेशी या मज्जाको मजबूत कर लिया है अथवा किसी स्त्रीको ‘हाकी’ खेलना बहुत अच्छा आता है, इसके द्वारा यह नहीं समझना चाहिये कि उसके स्वास्थ्यकी यथार्थ उन्नति होगई । क्योंकि अपस्मार (हिस्टिरिया) तथा अन्यान्य कई एक

स्नायुदौर्बल्य सम्बन्धीय कठिन रोग ऐसी ही स्त्रियोंमें देखनेमें आते हैं जो पुरुषों-की तरह फुटबाल, हाकी, टेनिस आदि खेलोंको खेलती रहती हैं"। डाक्टर एड्लमैनकी सम्मति यह है कि ऐसी स्त्रियोंको प्रसवके समय भी बड़ा कष्ट होता है। आस्ट्रियाके अन्तर्गत भायेना नगरमें देखा गया है कि ऐसी स्थूल व्यायाम-वाली स्त्रियोंकी सन्तानसंख्या अन्य स्त्रियोंकी सन्तानसंख्याका पञ्चमांश भी नहीं है। इन्हीं प्रमाणों पर डाक्टर बुथ चेतावनी देते हैं कि "जो लोग यह समझते हैं कि नवीन शिक्षासूकूल युवतियोंके व्यायाम द्वारा हमारी जाति उन्नत हो जायगी उन्हें सावधान होकर इन विषयों पर सोचना चाहिये और यह भी दुःखद विषय सोचना चाहिये कि सन् १६२२ से १६२८ के भीतर इंग्लैण्डमें सोलह प्रति सैकड़ा सन्तान उत्पत्ति कम हो गई है।" इन्हीं बातों पर विचार कर लेडी इरविन साहेबाने अखिलभारतीय स्त्री कान्फरेन्स, देहलीके व्याख्यानमें कहा था:—

In one respect, India is favoured as she comes to close quarters with a problem of which other countries have been pioneers and have made mistakes by which India, if she is wise, may profit.

"They have been slow to recognise the necessity for differentiating between the education of the boys and girls, It is of course true that they both have to live in the same world, that they both have to share it between them, but their functions in it are largely different. In many countries today they see girls' education developing on lines which are a slavish imitation of boys' education.

"We must, therefore, do all in our power to set a different standard and to create desire in the public mind and in the girls themselves, for an education which will allow girls to develop in other lines

"What I feel, we should aim to give them, is a practical knowledge of domestic subjects and the laws of health which

will enable them to fulfil one side of their duties as wives and mothers, reinforced by the study of those subjects which will help most to widen their interests and outlook."

“स्त्रीशिक्षाके विषयमें भारतवासियोंको अच्छा मौका मिला है, कि अन्यदेशके लोग इसमें जो गलती कर रहे हैं उससे फायदा उठावे । अन्यदेशके लोग स्त्री और पुरुषकी शिक्षामें क्या क्या भेद होना चाहिये अभीतक इसको ठीक तरहसे मान नहीं सके हैं । यह बात सत्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही संसारमें समान दायित्वके साथ निवास करते हैं, किन्तु इसमें दोनोंका कार्य बिलकुल एक दूसरेसे भिन्न है । बहुतसे देशोंमें स्त्रीशिक्षाको केवल पुरुषशिक्षाकी नकल बनाई गई है यह ठीक नहीं है । अतः हमें प्रयत्न करना चाहिये कि स्त्रीजातिके लिये उसकी प्रकृतिके अनुसार पृथक् शिक्षादर्श कायम किया जाय, जिससे वह अपने ही ढङ्ग पर पूर्ण शिक्षिता बन सके । इसमें मेरा अनुभव यह है कि उन्हें अच्छी स्त्री और अच्छी माता बनने लायक कर्तव्योंकी व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिये, जिससे पारिवारिक समस्त विषय और गार्हस्थ्य स्वास्थ्यरक्षा-मूलक सब विषय उन्हें आसक्त हो सके । और साथही साथ ऐसे विषयोंको भी उन्हें पढ़ाना चाहिये जिससे उनका दृष्टिकोण उदार बन जाय और सामाजिक जीवनके प्रति उनकी हार्दिक सहानुभूति प्रकट हो सके ।” अतः निश्चय हुआ कि ‘मां’ को ‘मां’ बनाने लायक शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है । उसको पिता बनानेके लिये यत्न करना उन्नतता और अधर्म है । इससे फलसिद्धि न होकर “इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः” हो जायगा, क्योंकि स्त्रीको पुरुषकी तरह शिक्षा देनेका यही विषमय फल होगा कि प्रकृतिविरुद्ध होनेसे वह पुरुषभावको तो कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी, अधिकन्तु कुशिक्षाके कारण स्त्रीभावको भी खो देगी जिससे उसके और संसारके लिये बहुत ही हानि होगी । पतिभावमें तन्मयता ही स्त्रीकी पूर्णोन्नति होनेके कारण, पुरुषके अधीन होकर ही स्त्री उन्नति कर सकती है, स्वतन्त्र होकर नहीं कर सकती है और ऐसा करना भी स्त्रीप्रकृतिसे विरुद्ध है । इसीलिये मनुजीने कहा है कि :—

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ।

विषयेषु च सज्जन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥

पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

(६म अ०)

पुरुषोंका कर्तव्य है कि स्त्रियोंको सदा ही अधीन रखे । उन्हे स्वतन्त्रता न देवे । गृहकार्यमें प्रवृत्त करके अपने वंशमें रखे । स्त्री कन्यावस्थामें पिताके अधीन रहती है, यौवनकालमें पतिके अधीन रहती है और वृद्धावस्थामें पुत्रके अधीन रहती है । कभी स्वतन्त्र करने योग्य स्त्रीजाति नहीं है । किन्तु इसके द्वारा यह नहीं समझना चाहिये कि आर्यशास्त्रमें स्त्रीजातिको हर तरहसे जज़ोरमें जकड़ रखनेको ही धर्म कहा गया है, जैसा कि आजकल स्वतन्त्रतावादिगण हिन्दुसभ्यता पर दोष लगाया करते हैं । सत्यदर्शी पश्चिमी विद्वानोने भी इस बातकी पुष्टि की है । यथा :—

At no age should a woman be allowed to govern herself as she pleases
(Harace Maun)

To obey is the best grace of woman. (Lewis Morris)

The superficial observer, who applies his own standard to the customs of all nations, laments with an affected philanthropy the degraded condition of the Hindu female. He particularly laments her want of liberty and calls her seclusion imprisonment. From the knowledge I possess of the freedom, the respect, the happiness which Rajput women enjoy, I am by no means inclined to deplore their state as one of captivity
(Colonel Tod)

Their state is not one of slaves to their husbands, they have as much influence in their families as, I imagine, the women have in this country.
(Sir Thomas Munro).

The women of the East are not so much in evidence as those of Europe, but their influence within the legitimate circle of their domestic relations is quite as great,

their manners are as good and their morality is as high
Those who know most of the results of this freedom of
women in the West, may well doubt whether the occidental
or the oriental method of treating the fair sex is more in
accord with practical wisdom. (Sir Lepel Griffin)

In no nation of antiquity were women held in so much
esteem as amongst the Hindus (Prof H H Wilson)

स्त्रियोको स्वेच्छानुसार अपनेको चलाने देना कदापि उचित नहीं है ।
(हरेस मैन्) । पुरुषोंकी वशम्बदा होनेमे ही स्त्रियोकी सर्वोत्तम शोभा है । (लिबिस्
मरिस) । स्थूलदर्शी पुरुष, जो कि अपने ही आदर्शसे सब जातिको सामाजिक
रीतियों पर विचार करते हैं, प्रायः हिन्दुजाति पर कपटदया दिखाते हुए
उनकी स्त्रियोकी हीन दशाको रोते हैं, कि उन्हें स्वतन्त्रता नहीं दी जाती और
जेलखानेकी तरह उन्हें पर्देमे रख दिया जाता है । किन्तु राजपूत स्त्रियोकी
स्वतन्त्रता, सम्मान तथा गार्हस्थ सुखके विषयमे मुझे जो कुछ ज्ञान है उससे
मुझे तो कभी यह अफसोस नहीं होता है कि वे जेलखानेकी तरह बन्धनमे
रक्खी जाती हैं । (कर्नेल टाड) । जैसा कि प्रायः कहा जाता है हिन्दु स्त्रियां
पराधीनकी तरह नहीं रहती हैं, क्योंकि अपने घरमे उनकी स्वतन्त्रता और
प्रभुता पूरी ही है जैसा कि इस देशमे है । (सर टोमस मनरो) । पूर्वदेशकी
स्त्रियां यूरोपकी स्त्रियोकी तरह जहां तहां घूमती नहीं रहती हैं किन्तु
अपने परिवारकी मर्यादायुक्त सीमामे उनका बहुत ही प्रभाव रहता है
और इसी प्रकार उनका आचरण तथा नैतिक जीवन बहुत ही उत्तम होता है ।
पश्चिमी स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका भीषण परिणाम जिन्हें मालूम है वे लोग
सन्देह करने लगे हैं कि वह रीति अच्छी है या पूर्वी रीति यथार्थ विचार-
सम्मत है । (सर लेपेल ग्रिफिन) । हिन्दुओमे स्त्रियोको जितना सम्मान दिया
जाता है, इतना ससारकी और किसी जातिमे नहीं दिया जाता । (एच. एच.
विलसन) ।

पतिभगवान्के साथ स्त्रीका उपास्य उपासक भाव है । उपासक भक्त
उपास्य देवताके वशमें होकर उनमे भक्तिके द्वारा लय हो जानेसे ही मुक्ति
लाभ कर सकता है । उनसे स्वतन्त्र होनेपर नहीं कर सकता है । यही पातिव्रत्य

धर्म है । स्त्रीको पुरुषकी तरह शिक्षा देनेसे उसमें स्वतन्त्र भ्रमण, स्वतन्त्र प्रेम और स्वेच्छाचार आदि स्वतन्त्रताके भाव आ जायगे जिससे पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जायगा । वह यदि ग्रेजुयेट, एम्० ए० या शास्त्री हो जाय किन्तु माता या सती होना भूल जाय तो उसकी शिक्षा तीन कौड़ीकी भी नहीं होगी । जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान् गेटे (Goethe) ने कहा है—

We love a girl for very different things other than understanding We love her for her beauty, her confidence, her character but we do not love her for her understanding. Her mind we esteem and it may greatly elevate her in our opinion, but her understanding is not that which awakens and inflames our passion.

स्त्रियोंके प्रति पुरुषका प्रेम उनके ज्ञानको देखकर नहीं होता है । उनकी सुन्दरता, श्रद्धा, विश्वास, चरित्रबल यही सब उनके प्रति प्रेमका कारण है । उनका उच्च मनोभाव पुरुषहृदयमें पूज्यबुद्धि उत्पन्न कर सकता है, किन्तु उनका ज्ञान बल पुरुषहृदयमें प्रेमोत्पत्तिका कारण कदापि नहीं बन सकता है । अतः विचार कर कन्याको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिससे वह भविष्यत्में पतिके अधीन रहकर अच्छी माता, चतुरा गृहिणी और पतिव्रता सती बन सके, क्योंकि अपनी उन्नति और सन्तानोंकी पहली शिक्षाके लिये पितासे भी माताका सम्बन्ध अधिक रहता है । वीर माताकी वीर सन्तान और धार्मिक माताकी धार्मिक सन्तान प्रायः हुआ करती है । अतः वर्तमान देशकालके विचारसे यदि स्त्रीको शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी जाय तो पिता माताको सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि उनकी शिक्षामें ऊपर लिखित लक्ष्य अटूट रहे, क्योंकि पातिव्रत्यके द्वारा ही स्त्रीजातिको उन्नति और मुक्ति मिलती है । इसलिये शिक्षाका वही उद्देश्य होना चाहिये ।

इस प्रकार शिक्षादर्शकी प्रशंसा पश्चिमी विद्वानोंने भी की है यथा :—

Mr. Arthur Mayhew in his 'Education of India'

"Woman as she presents herself to Hindu imagination is the priestess of the home, watering the sacred plant, keeping the sacred fire, guarding sacramentally the purity of

the food by her ablution and prayers. Her household service is an act of Bhakti (personal devotion), she goes abroad only for pilgrimage But within the house, she is the centre of all activity not shut off in any way from the males of varying ages and generations but influencing vitally their home talk, thought and action.

“She has never been regarded as unfit for arts and accomplishments. Sanskrit literature has many examples of learned ladies and there are women poets Does not a Sanskrit educationist draw up a list of sixty four arts for young ladies ? Did not Sankara design to argue with a woman Pandit? Sita and Draupadi, Savitry and Damayanti knew how to retain love by other arts than those of the toilet and were real companions, as is the Hindu wife of today ”

सर अर्थर मेहिऊकी सम्मति है कि “हिन्दु आदर्शके अनुसार स्त्री गृह-देवी है, वह घरके तुलसी आदि पवित्र वृक्षोंको प्रेमसे सींचती है, अग्निहोत्रकी अग्निको जगाये रखती है, ज्ञानसे शुद्ध होकर अन्नको भी शुद्ध रखती है, गृह कार्य उनके लिये पतिभक्तिका विलासमात्र है और बाहर उनका भ्रमण केवल तीर्थयात्राके लिये है । घरके समस्त व्यापारोंकी वह केन्द्ररूपिणी है और भिन्न भिन्न देशकालके पुरुषोंसे अलग न रहकर वह उनकी चिन्ता तथा क्रियाओं पर प्रभाव विस्तार किया करती है ।

किसी प्रकार कला विद्यामें भी वह अयोग्या नहीं समझी गई है । संस्कृत साहित्यमें अनेक विदुषी महिलाओं तथा स्त्रीकवियोंके प्रमाण मिलते हैं । स्त्रियोंके लिये ही तो ६४ कला विद्याके प्रमाण संस्कृत शास्त्रमें मिलते हैं । श्रीशंकराचार्यने एक विदुषी महिलाके साथही तो शास्त्रार्थ किया था । सीता, द्रौपदी, सावित्री, दमयन्ती आदि आदर्श आर्य महिलाओमे कलाविद्याकी बहुत कुछ योग्यता थी जिससे वे अपने अपने पतिकी यथार्थ सङ्गिनी बन सकी थी ।” यही हिन्दु आदर्श है ।

विवाहके अनन्तर नारोजीवनकी दूसरी अर्धात् गृहिणी अवस्था प्रारम्भ होती है। कन्यावस्थामें पति देवतामें तन्मयतामूलक पवित्रतामय सती धर्मकी जो शिक्षा हुई थी, गृहिणी अवस्थामें उसी सतीधर्म या पातिव्रत्यका पालन होता है। जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्त भगवान्के चरणकमलोंमें अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा सभीको समर्पण करके भगवद्भावमें तन्मय होकर भगवान्को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सती स्त्री पतिदेवताके चरणकमलोंमें अपना जो कुछ है सभी समर्पण करके उन्हींमें तन्मय होकर मुक्ति प्राप्त करती है।

सतीत्वकी महिमाको वर्णन करते हुए परम पूज्यपाद महर्षियौने बहुत बातें लिखी हैं। मनुजीने कहा है कि:—

प्रजनार्थं महाभागा पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

द्वियः श्रियश्च गोहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥

पतिं या नाऽभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥

सन्तानप्रसव करनेके कारण महाभाग्यवती, सम्मानके योग्य और संसारको उज्ज्वल करने वाली स्त्रीमें और श्रीमें कोई भेद नहीं है। जो स्त्री शरीर, मन और धाणीसे अपने पतिके सिवाय और किसी पुरुषसे सम्बन्ध नहीं रखती वही सती कहलाती है। उसको पतिलोक प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्यजीने कहा है कि:—

मृते जीवति वा पत्यौ या नाऽन्यमुपगच्छति ।

सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोभया सह ॥

पतिकी जीवितावस्थामें या मृत्युके बाद भी जो स्त्री अन्यपुरुषकी कभी इच्छा नहीं करती है उसको इहलोकमें यश मिलता है और परलोकमें उमाके साथ सतीलोकमें वह आनन्दसे रह सकती है। दक्षसंहितामें लिखा है कि:—

अनुकूल न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा ।

आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥

जो स्त्री पतिके अनुकूल आचरण करती है, कटु वचन नहीं कहती है, गृहकार्योंमें दक्षा सती, मिष्टभाषिणी, अपने धर्मकी रक्षा करने वाली और

पतिभक्तिपरायणा है वह मानवी नहीं परन्तु देवी है। ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमे कहा है कि:—

सर्वदानं सर्वयज्ञः सर्वतीर्थनिषेवणम् ।

सर्वं व्रतं तपः सर्वमुपवासादिकञ्च यत् ॥

सर्वधर्मञ्च सत्यञ्च सर्वदेवप्रपूजनम् ।

तत्सर्वं स्वामिसेवायाः कलां नाऽर्हन्ति षोडशीम् ॥

समस्त दान, समस्त यज्ञ, सकल तीर्थोंकी सेवा, समस्त व्रत, तप और उपवास आदि सब कुछ और सब धर्म, सत्य और देवपूजा ये पतिसेवाजनित पुण्यके षोडशांश पुण्यको भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमें सतीधर्मकी महिमा बताई गई है जिसके सम्यक् पालन द्वारा स्त्रीजाति अनायास ही उत्तम गति लाभ कर सकती है।

आर्यजातिकी महिलाओंके इस प्रकार आदर्श जीवनकी भूरि भूरि प्रशंसा पश्चिम देशके विद्वानोंने भी की है। यथा—

“What is the kind of marriage that will preserve the integrity and keep the stable equilibrium of society—that is what Hinduism tried to discover Just as the Royal Houses of Europe used to arrange marriages for reasons of state, just as Eugenics bids men sacrifice personal sentiment to human progress, so the Hindu does the same to withhold the seductions of the life Force in the interests of social good—that is the idea. The mother is encouraged to undergo voluntary penance for the elevation of the human race and to keep her natural instinct in rigorous subordination to the dictates of mind and soul. The sense of degradation some women feel in submitting to the tyranny of nature over their sex is avoided not by adjuring motherhood but by making it subserve an impersonal ideal.”

(Rev. J. Tyssul Devis.)

“The person of a Hindu woman is sacred, She can not be touched in public by a man even with the ends of the fingers. How abject soever may be her condition, she is never addressed by any body, not excepting the persons of the highest rank, but under the respectful name of Mother ”
(Father Abbe Dubois)

“The ideal which the wife and mother makes for herself, the manner in which she understands duty and life, contains the fate of the community. Her faith becomes the star of the conjugalship and her love the animating principle that fashions the future of all belonging to her. Woman is the salvation or destruction of the family. She carries its destinies in the folds of her mantle ”
(Amiel)

“Perfect daughters, wives and mothers, after the severely disciplined, self-sacrificing Hindu ideal, remaining modestly at home, as the proper share of their duties, unknown beyond their families, and seeking in the happiness of their children their greatest pleasure and in the reverence of their husbands the amaranthene crown of a woman's truest glory.”

(Sir George Birdwood in the Asiatic Quarterly Review)

किस विधिसे विवाह होने पर समाजमें तथा व्यक्तिगत जीवनमें शान्ति और समता रह सकती है—हिन्दु जातिने इसीके पता लगानेका प्रयत्न किया था । जिस प्रकार यूरोपके राजघरानेके लोग राज्यके विचारसे विवाह सम्बन्ध करते थे और यूर्जिनिक लोग मानवीय प्रगतिके लिये व्यक्तिगत स्वार्थत्यागका उपदेश करते थे, ऐसा ही हिन्दुजातिमें भी विवाहविधिकका उपयोग किया गया है जिससे सामाजिक जीवनकी समुन्नति तथा सुखके विचारसे स्त्रीपुरुष व्यक्तिगत वैयधिक सुखमें न फंस जाय और उस सुखलालसाका उदारतर सामाजिक

जीवनमे विनियोग कर सके । माता इसी लिये गृहस्थाश्रममें तपस्विनीका जीवन विताया करती है और विचारकीं जज़ीरमें मनोवृत्तियोंको जकड़ देती है कि उनके जीवनादर्शसे समग्र जातिका कल्याण हो । 'उनपर प्रकृतिने अत्याचार किया है' ऐसा समझकर कही कही जो स्त्रियां 'भां' बननेसे घबड़ाती है इस हीनताकी चिन्ताको आर्यमाता अपने मातृभावको और भी उन्नत अलौकिक भावमे धिलीन कर परित्याग करती है । (जे. टिसल डेविस) ।

हिन्दुजाति अपनी स्त्रियोंके शरीरको पवित्र मानती है । प्रकाश्य स्थानमे श्रद्धालियोंके अग्रभागसे भी कोई उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता । कितनी ही हीन दशा उनकी क्यों न हो, बड़े बड़े आदमी भी उन्हें 'माता' कहकर ही सम्बोधन करते हैं । (फादर अब्ने ड्यूयो) ।

स्त्री और माता अपने लिये जिस प्रकार आदर्शको रखती हैं, जिस तरहसे वे अपने जीवन और कर्त्तव्यको समझती हैं, उससे समग्र जातिका भाग्यनिर्णय होता है । उनका विश्वास दाम्पत्यप्रेमका उज्ज्वल तारा है, उनका प्रेम उनके आत्मीय जनोंके जीवनमें प्राणशक्तिका सञ्चारक है । स्त्री ही गृहस्थ जीवनमे उद्धार या नाशका कारण है । गृहस्थके समग्र भाग्यको मानो वह अपने उत्तरीय वसनमे (ओढ़नीमें) बांधे ही फिरती है । (एमियेल) ।

त्यागमय, सयमपूर्ण हिन्दु आदर्शके अनुसार उनकी स्त्रियां आदर्श कन्या, आदर्श सती और आदर्श माता होती हैं । वे मर्यादा और शीलताके साथ गृहकार्यको करती हुई उसी अन्तःपुरमे प्रच्छन्न रहा करती हैं, सन्तानोके सुखमे ही उनका सर्वोत्तम सुख है और पतिके प्रति पूजा तथा श्रद्धाभावप्रदर्शनमें ही उनकी चिर अमर महिमा है । (सर जार्ज बर्डेउड) ।

नारीजीवनकी तृतीय दशा वैधव्य है । प्रारब्ध कर्मके चक्रसे यदि सतीको विधवा होना पडे तो इस वैधव्य दशामे पातिव्रत्यकी पूर्ण परीक्षा होती है । सतीत्वके परम पवित्र भावमे भावित सतीका अन्तःकरण वैधव्यरूप संन्यास दशामें परमदेवता पतिके निराकार रूपमे तन्मय होकर पातिव्रत्य धर्मकी पूर्णताका साधन और उद्यापन कराता है । इसीलिये यह तृतीय दशा परमगौरवान्वित तथा पवित्रतामय है । यह बात पहिले ही सिद्ध की गई है कि भगवच्चरणकमलोंमें मर्दोंकी तरह पतिके चरणकमलोंमें लवलीन होनेसे ही

स्त्रीकी मुक्ति होती है । पतिव्रता सती पातिव्रत्यके प्रभावसे पतिलोक अर्थात् पञ्चमलोकमें जाकर पतिके साथ आनन्दमें मग्न रहती है । इस प्रकारकी तन्मयता द्वारा पातिव्रत्यकी पूर्णता होनेसे ही पुनर्जन्मके समय उनको स्त्रीयोनिमें नहीं आना पड़ता है । वह अपनी योनिसे मुक्त हो उत्तम गतिको प्राप्त करती है । आर्य्यमहर्षियोंने जो स्त्रीजातिको सकल दशाओंमें ही एकपतिव्रतका उपदेश दिया है उसका यही कारण है । क्योंकि बिना एकपतिव्रतके तन्मयता नहीं हो सकती । अनेकोंमें जो चित्त चञ्चल होता है उसमें तन्मयता कभी नहीं आ सकती है और बिना तन्मयताके पातिव्रत्यकी पूर्णता नहीं हो सकती है एव बिना पातिव्रत्यकी पूर्णताके स्त्रीयोनि समाप्त होकर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है । इसलिये गृहिणी और विधवाकी सकल दशाओंमें ही महर्षियोंने एकपतिव्रतरूप धर्मपर इतना जोर दिया है । इस धर्मके बिना स्त्रीका जन्म ही व्यर्थ है । कन्याकालमें इस धर्मकी शिक्षा और गृहिणीकालमें इसका अभ्यास होकर विधवाकालमें इसकी समाप्ति होती है । इसलिये वैधव्यदशामें भी पातिव्रत्यका पूर्ण अनुष्ठान होकर मृत पतिकी आत्मामें अपनी आत्माका लयसाधन करना ही विधवाका एकमात्र धर्म है ।

आर्य्यशास्त्रोंमें विवाह स्थूल शरीरके भोगमात्रको लक्ष्य करके नहीं रक्खा गया है; क्योंकि इस प्रकार करनेसे भोगस्पृहा बलवती होकर आर्य्यत्व मनुष्यत्व तकको नष्ट कर देगी और मनुष्यको पशुसे भी अधम बना देगी । आर्य्यजातिका विवाह भोगको बढ़ानेके लिये नहीं है, किन्तु स्वाभाविक और अनर्गल भोगस्पृहाको घटानेके लिये है । स्त्री अपनी स्वाभाविक पुरुषभोगेच्छाको एक ही पतिमें केन्द्रीभूत करती हुई उन्हींमें पातिव्रत्य द्वारा तन्मय हो मुक्त हो जायगी इसलिये स्त्रीका विवाह है । पुरुष अपनी स्वाभाविक अनर्गल भोगेच्छाको एकही स्त्रीमें केन्द्रीभूत करके उसी प्रकृतिको देखकर उससे अलग हो मुक्त हो जायंगे इसलिये पुरुषका विवाह है । स्त्रीके लिये एक ही पतिमें तन्मय होना धर्म है, उसमें एकके सिवाय दूसरा होनेसे एकाग्रता नहीं रहेगी, अतः तन्मयता नहीं होगी और मुक्तिमें बाधा हो जायगी इसलिये एकपतिव्रत स्त्रीके लिये परम धर्म है । स्त्रीके लिये इस प्रकारका द्वितीय विवाह धर्म नहीं हो सकता । वैधव्य क्यों होता है इस विषयमें स्कन्द पुराणमें अरुन्धती आख्यानमें निम्न-
लिखित प्रमाण मिलता है । यथा :—

यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां कुलसंभवाम् ।
 परदाररतो हि स्यादन्यां वा कुरुते स्त्रियम् ॥
 सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! स्त्री भूत्वा विधवा भवेत् ।
 या नारी तु पतिं त्यक्त्वा मनोवाक्कायकर्मभिः ॥
 'रहः करोति वै जारं' गत्वा वा पुरुषान्तरम् ।
 तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत् ॥

पार्वतीके प्रति महादेवकी उक्ति है, जो पुरुष अपनी निर्दोषा कुलीन स्त्री-को छोड़कर परस्त्रीमें आसक्त या अन्य स्त्री ग्रहण करता है वह दूसरे जन्ममें स्त्रीयोनि पाकर विधवा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषमें रत हो जाती है उसको भी जन्मान्तरमें वैधव्य होता है। अतः वैधव्य जब स्त्री या पुरुष दोनोंको ही किसी प्राक्तन दोषके कारण होता है तो तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना ही धर्म होगा। पुनः विवाह करनेपर यह दोष नष्ट नहीं हो सकेगा, बल्कि एक दोषपर अन्य दोष बढ़ जायगा, यही कारण है कि महर्षियोंने नारी जातिके लिये निवृत्तिके साथ वैधव्य धर्म पालनेकी ही आज्ञा दी है।

आर्य्य स्त्रीके विवाहमें पतिके साथ सम्बन्ध स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर और आत्माका भी होता है। इसलिये पतिके परलोक जानेपर भी स्त्रीके साथ सम्बन्ध नहीं टूटता है। क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीरका परिवर्तन मात्र है। सूक्ष्म तथा कारण शरीर और आत्मामें परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। अतः आर्य्यविवाह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्माके साथ होनेके कारण पतिके परलोक जानेसे भी नष्ट नहीं हो सकता है।

मनुसंहितामें लिखा है कि :—

कामन्तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।
 न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यौ म्रते परस्य तु ॥
 आसीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।
 यो धर्म एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम् ॥
 अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।
 दिवं गतानि विभ्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥

मृते भूर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य्यव्रते स्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ (५म अ०)

पतिकी मृत्युके अनन्तर सती स्त्री पुष्प, मूल और फल खाकर भी जीवन धारण करे परन्तु कभी अपने पतिके सिवाय अन्य पुरुषका नाम तक नहीं लेवे । सती स्त्री मृत्यु जब तक नहीं हो तब तक क्लेशसहिष्णु, नियमवती तथा ब्रह्मचारिणी रहकर एकपतिव्रता सती स्त्रीका ही आचरण करे । अनेक सहस्र आकुमार ब्रह्मचारी प्रजाकी उत्पत्ति न करके भी केवल ब्रह्मचर्य्यके बलसे दिव्य लोकमें गये है । पतिके मृत होनेपर भी उन कुमार ब्रह्मचारियोंकी तरह जो सती ब्रह्मचारिणी बनी रहती है उसको पुत्र न होनेपर भी केवल ब्रह्मचर्य्यके ही बलसे स्वर्गलाभ होता है ।

भारत यूरोप होकर उन्नत नहीं हो सकता और आर्य्य पुरुष अनार्य्य होकर उन्नत नहीं हो सकते और आर्य्य सतियां चिंतायतीं मेंमें बनकर उन्नत नहीं हो सकती, किन्तु सीता सावित्री बनकर ही उन्नत हो सकती है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । इन्हीं सब कारणोंसे मनुजीने स्त्रीके लिये द्वितीय बार विवाह करना मना किया है । यथा :—

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ (९म अ०)

पैतृक सम्पत्ति एक ही बार विभक्त होती है, कन्या एक ही बार पात्रमें दी जाती है और दान एक ही बार सकल वस्तुओंका हुआ करता है । सत्पुरुष इन तीनोंको एक ही बार करते हैं । और भी मनुस्मृतिमें—

“न विवाहविधावुक्तं विधावाऽऽवेदनं पुनः” (९म अ०)

अर्थात् विवाह विधिमें विधावाका विवाह कही नहीं बताया गया है ।

आर्य्यशास्त्रमें कहा गया है कि प्रकृतिरूपिणी स्त्रीजातिमें अष्टम धातु रज (जो कि पुरुषमें नहीं है) और अविद्याका अंश होनेके कारण पुरुषसे अष्टगुण अधिक काम होनेपर भी विद्याके अंशसे लजा और धैर्य्य बहुत कुछ है । यथा वृहत् पराशर ४-५३ में—

स्त्रीणामष्टगुणः कामः व्यवसायश्च षड्गुणः ।

लज्जा चतुर्गुणा, तासामाहारश्च तदर्धकः ॥

अतः विधवाजीवन इस प्रकार बना देना चाहिये कि जिससे उनमें अविद्याका अंश नष्ट हो जाय और विद्याका अंश पूर्ण प्रकट हो सके। आजकल जो विधवाएँ विगड़ती हैं उसमें शिक्षा तथा उनके साथ ठीक ठीक वर्तविका अभाव ही कारण है। विधवा होनेके दिनसे ही गृहस्थ लोग उनके लिये यह भाव उत्पन्न करने लगते हैं कि ससारमें उनके सदृश दुःखी और हतभाग्य कोई नहीं है। ऐसा करना सर्वथा भ्रमयुक्त है। यह केवल विचारके विरुद्ध ही नहीं किन्तु शास्त्रके भी विरुद्ध है। आर्यशास्त्रोंमें भोगसे त्यागकी महिमा अधिक कही गई है। महाभारतमें लिखा है:—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाऽर्हतः षोडशीं कलाम् ॥

ससारमें कामजनित सुख अथवा स्वर्गमें उत्तम भोग-सुख ये दोनो ही वासनाक्षयजनित अल्पम सुखके सोलह भागोंमेंसे एक भाग भी नहीं हो सकते। श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है:—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥

विषयोंके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध हो जानेसे जो कुछ सुख होता है वह दुःखयोनि होनेसे दुःखरूप ही है और इस प्रकारका सुख आदिअन्तसे युक्त और नश्वर है इसलिये विचारवान् पुरुष विषय-सुखमें मत्त नहीं होते। ससारमें वही सच्चा सुखी और योगी है जिसने आजन्म काम और क्रोधके वेगको धारण किया है। विधवाका जीवन सन्यासीका जीवन है। इसमें निवृत्तिकी शान्ति तथा त्यागका धिमल आनन्द है। फिर विधवा छी हतभागिनी क्यों कही जाती है? क्या त्याग करना हतभाग्य बननेका लक्षण है? सोचनेसे पता लगेगा कि निवृत्तिमें ही आनन्द है प्रवृत्तिमें नहीं। त्यागमें ही आनन्द है भोगमें नहीं और वासनाके क्षयमें ही आनन्द है वासनाके अधीन बननेमें नहीं। गृहस्थ विषयी होनेसे दुःखी है और संन्यासी विषय त्याग करनेसे सुखी है। जब यही अवस्था विधवाकी है तो विधवा हतभागिनी है या वास्तवमें सुखी है सो विचार-

शील पुरुष सोच सकेंगे। विधवाका पुरुषके साथ कामभोग छूट गया इसलिये विधवा दुःखिनी हो गई यह बात बड़ी ही कौतुकजनक है। क्या कामके द्वारा किसीको सुख भी होता है ? आजतक किसीको कामके द्वारा सुख मिला था ? या किसी शास्त्रमें ऐसा लिखा भी है ? गीतामें कामको नरकका द्वार कहा है, आनन्दका द्वार नहीं कहा है। काम चित्तका एक उन्माद मात्र है। मनुष्य उस उन्मादमें फँस जाया करता है। परन्तु फस जाकर सुखका भान होना और बात है और यथार्थ सुख प्राप्त होना और बात है। कामके द्वारा किसीको सुख प्राप्त नहीं होता इसको विषयवद्ध गृहस्थ भी स्वीकार करेंगे क्योंकि वे भी चाहते हैं कि वासना छूटकर शान्ति हो जाय। परन्तु पूर्वजन्मका संस्कार अन्यरूप होनेसे वासना नहीं छूटती, इसलिये वे विषयोंमें मत्त रहते हैं, अपिच चित्त दुर्बल होनेके कारण विषयोंमें मत्त होनेसे ही विषय सुखकर हो जायगे यह बात कोई नहीं कहेगा परन्तु विषयके छूट जानेपर ही सच्चा सुख होगा यही बात सब लोग कहेंगे। जब विधवाको विषयोंको त्याग करके निवृत्तिके परमानन्द प्राप्त करनेका सुयोग मिला है तो विधवा दुःखिनी नहीं है, गृहस्थ सधवा स्त्रियोंसे अधम नहीं किन्तु उनकी गुरु तथा पूज्या है। क्योंकि संन्यासी गृहस्थोंके गुरु तथा पूज्य होते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये पशु भी करता है, इसमें मनुष्यकी विशेषता क्या है ? लाखों जन्मोंसे यही काम होता आया है। यदि विधवा गृहस्थमें रहकर बालबच्चे उत्पन्न करती तो उन्हीं लाखों जन्मोंके किये हुए कामोंको और एक बार करती, परन्तु इसमें क्या रक्खा है ? इसलिये अनन्त जन्म तक संसारका दुःख भोगनेपर भी विषयी जीवको जो भगवान्का अलभ्य चरणकमल प्राप्त नहीं होता और जिसके लिये समस्त जीव लालायित होकर संसारचक्रमें घूम रहे हैं उसी चरणकमलमें यदि भगवान्ने विधवाको संसारसे अलग करके शीघ्र बुलाया है और निवृत्ति सेवन करके नित्यानन्द प्राप्त करनेका अवसर दिया है तो इससे अधिक उत्तम बात और क्या हो सकती है ?

जब गृहस्थमें कोई स्त्री विधवा हो जाय तो वहाँके सब लोगोंका प्रथम कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि विधवाको उनकी अवस्थाका गौरव समझा देवे। उनपर श्रद्धाके साथ पूज्यबुद्धिका बर्ताव करें। उनके पास गृहस्थाश्रमके अनन्त दुःख और विषय-सुखकी परिणाम दुःखताका वर्णन करें और साथ ही साथ निवृत्तिमार्गपरायण होनेके कारण उनको कितना आनन्द, कितनी शान्ति

और कितना सुख प्राप्त हो सकता है, इसका ध्यान दिलावे एवं उनकी स्थिति-को अपूर्वता तथा संसार बन्धन मोचनका सुयोग, जो कि उनकी सङ्गिनी गृहस्थ स्त्रियोंको न जाने कितने जन्ममें जाकर मिलेगा, सो उनको इसी जन्ममें मिल गया है अतः वे धन्य हैं तथा पूज्या हैं, इस प्रकारका भाव विधवाके हृदयमें जमा देवे । ऐसा समझा देनेसे विधवाको अपनी दशाके लिये दुःख नहीं होगा किन्तु सुख ही होगा, भोग न मिलनेसे दुःख नहीं होगा, सन्यासीकी तरह त्यागी बननेमें गौरव ज्ञात होगा, शम दमादि साधन क्लेशकर तथा दैव पीड़न ज्ञात नहीं होंगे परन्तु सयम और अनन्त आनन्दके सहायक प्रतीत होंगे । यही वैधव्य दशामें पातिव्रत्य रखनेका तथा अविद्याभावको दूर करके विद्याभावके बढ़ानेका प्रथम उपाय है । संसारमें सुख दुःख करके कोई वस्तु नहीं है । भिन्न भिन्न दशामें चित्तके भिन्न भिन्न भावोंके अतुसार सुख दुःखकी प्रतीति होती है । एक ही वस्तु एक भावमें देखनेसे सुख देने वाली और दूसरे भावमें देखनेसे दुःख देनेवाली हो जाती है । सांसारिकी लिए कामिनी, काञ्चन आदि जो सुख है, सन्यासीके लिये वही दुःख है और सन्यासीके लिये जो सुख है गृहस्थके लिये वही दुःख है । प्रवृत्तिकी दृष्टिसे देखने पर सांसारिक भोगकी वस्तुओंमें सुख प्रतीत होने लगता है परन्तु वे ही सब वस्तु निवृत्तिकी दृष्टिसे देखे जानेपर दुःखदायी होने लगती हैं इसलिये विधवाओंके भीतर ऐसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये कि वे सांसारिक सभी वस्तुओंको निवृत्तिकी दृष्टिसे अकिञ्चित्कर तथा दुःखपरिणामी देखे, यही वैधव्य दशामें पातिव्रत्य पालनका द्वितीय उपाय है । विधवाकी हृदयकन्दरामें निहित पवित्र प्रेमधाराको हृदयमें ही बद्ध रखकर सड़ जाने देना नहीं चाहिये, किन्तु सन्यासीकी तरह उसे 'वलुधैव कुटुम्बकम्' भावमें परिणत करना चाहिये । परिवारमें जितने बाल-बच्चे हैं सबकी माता मानों विधवा ही है इस प्रकारका भाव विधवाके हृदयमें उत्पन्न करना चाहिये । उनके हृदयमें निःस्वार्थ प्रेम तथा परोपकार प्रवृत्तिका भाव जगाना चाहिये । यही वैधव्य दशामें पातिव्रत्य रक्षाका तृतीय उपाय है । इसका चतुर्थ उपाय सबसे सहज और सबसे कठिन है । वह यह है कि पितृकुलमें यदि विधवा रहे तो उसके माना पिता और श्वशुरकुलमें रहे तो उसके सास ससुर जिस दिनसे घरमें थीं विधवा हो उसी दिनसे विलास-क्रिया छोड़ देवे । ऐसा होनेसे घरकी विधवा कभी नहीं विगड सकती । उसके सामनेका ज्वलन्त आदर्श उसके

चित्तको कभी मलिन नहीं होने देगा । इसका पञ्चम उपाय यह है कि जिस घरमें विधवा हो वहाँके सभी स्त्री पुरुष बहुत सावधानतासे विषयसम्बन्ध करे जिसका कुछ भी पता विधवाको न मिले । इसका षष्ठ उपाय सदाचार है । विधवा स्त्रियाँ आचारवती होवे, खान पान आदिके विषयमें सावधान रहें । विधवाको श्वेत वस्त्र पहिनना चाहिये और अलङ्कार धारण नहीं करना चाहिये, क्योंकि रगीन वस्त्र और धातुका अलङ्कार स्नायविक उत्तेजना उत्पन्न करके विधवाके ब्रह्मचर्य व्रतमें हानि पहुँचा सकता है । इसमें वैज्ञानिक कारण बहुत है जो कि पहिले ही कहा जा चुका है । उनको निर्लज्जा होकर इधर उधर घूमना नहीं चाहिये । नाटक देखना, जिरा तिसके मकान पर जाना और वैषयिक वाते करना और इस प्रकारकी तसवीर या पुस्तक देखना कभी नहीं चाहिये । विधवाके खानपानकी व्यवस्था परिवारके स्वामी ही करे अन्य कोई न करे । जिस प्रकार देवताके नामपर आई हुई वस्तु अन्य कोई नहीं खाते उसी प्रकार विधवाके लिये निर्दिष्ट वस्तुको कोई ग्रहण न करे । रातको एक दो शिशुके साथ विधवाको शयन करना चाहिये । विधवाको किसी वातकी आज्ञा करनी हो तो श्वशुरसास, माता पिता स्वयं ही करें, बहु कन्या आदिके द्वाराकभी न करावें । उनको गृहकार्यमें उन्मुक्त करके सधवाओंकी सहचारिणी तथा उनपर कृपा करने वाली बना देवे । विधवा कोई व्रत करना चाहे तो उसी समय करा देना चाहिये, उसमें कृपणता कभी नहीं करनी चाहिये । अन्यान्य सधवाओंकी अपेक्षा विधवाके व्रतोद्घापनमें अधिक व्यय तथा धूमधामसे कार्य होना चाहिये । इसका सप्तम उपाय यह है कि बालविवाह और वृद्धविवाह उठादेना चाहिये । आर्य-शास्त्रानुसार बालिकापनमें विवाह न कराकर रजस्वलासे पहिले ही करा देना चाहिये । पुत्र होनेपर पुरुषको अन्य कारणोंसे वृद्धावस्थामें या अधिक अवस्थामें विवाह नहीं करना चाहिये । अष्टम उपाय यह है कि ब्रह्मचर्य और सन्यासाश्रममें पुरुषके लिये शारीरिक, वाचनिक और मानसिक जितने तर्पोंका विधान किया गया है और सात्त्विक भोजन, मनःसंयम, सदाचारपालन आदि जितने नियम बताये गये हैं उन सबका ठीक ठीक अनुष्ठान विधवाके लिये होना चाहिये । भगवद्भजन, शास्त्रचर्चा, वैराग्यसम्बन्धी ग्रन्थोंका पठन और मनन, पातिव्रत्य-महिमाविषयक ग्रन्थोंका विचार और आध्यात्मिक उन्नतिकारी ग्रन्थों तथा उपदेशोंका श्रवण और मनन होना चाहिये । गृहस्थ दशामें पति देवताकी साकार मूर्त्तिकी उपासना थी, अब संन्यासकी तरह वैधव्य दशामें उनके निरा-

कार स्वरूपकी उपासना द्वारा तन्मयता प्राप्त करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, यह अवस्था तुच्छ विषयसुखमें मत्त गृहस्थ नरनारिथोकी अवस्थासे उन्नत और गौरवान्वित है, सदा ही उनके चित्तमें यह भाव विराजमान कराना चाहिये । जिस परमपति भगवान्की कृपासे प्रारब्धाहुत्सार यह उन्नत साधन दशा प्राप्त हुई है उनके चरणकमलमें भक्तिके साथ नित्य वार वार प्रणाम तथा उनका नियमित ध्यान करना सिखाना चाहिये । इन सब उपायोका अवलम्बन करनेसे घरमें विधवा स्त्री साक्षात् जगद्म्बास्वरूपिणी बन जाती है । उसकी अविद्याप्रकृति लय होकर विद्याप्रकृतिका पूर्ण प्रकाश हो जाता है । ऐसी विधवा स्वयं ही भोग-वासना आनन्दके साथ त्याग कर देती है, विषयका नाम लेनेसे उसको घृणा आती है, गृहकार्यमें परम निपुण होती है, अतिथि सत्कार, अभ्यागत, कुटुम्बी आत्मीय जनोकी सवर्धना आदि कार्यको परम प्रेमके साथ करने लगती है, सबल नीरोग तथा तेजस्विनी हो जाती है, ईर्ष्या आदि दोषोका त्याग करके सधवा स्त्रियोंके प्रति दयावती और गृहस्थकी सन्तानोके प्रति मातृवत्स्नेहशीला होती है । जिस ससारमें इस प्रकारकी विधवा विद्यमान है वहां एक प्रत्यक्ष देवीमूर्तिकी अधिष्ठान समझना चाहिये । वहां पर सभी लोक ऋषिचरित्रके द्रष्टा तथा फलभोक्ता है और जहां इस प्रकारकी दृष्टि, भाव और फल भोग है वहां अदूरदर्शी व्यक्तियोंकी पाप और भ्रूणहत्याकी शङ्का तथा कल्पना कभी नहीं आ सकती । आर्य्यजाति ऐसी ही थी और यदि भारतको यथार्थमें उन्नत करना हो तो ऐसे आदर्शकी ही प्रतिष्ठा करनी चाहिये । अन्य किसी आदर्शके द्वारा आर्य्यजाति अपने स्वरूप पर स्थित रहकर उन्नत नहीं हो सकती । अपने जातिगत आदर्शका त्याग करके अन्य देशके आदर्शके ग्रहण करनेकी चेष्टा करनेसे सस्कारविरुद्ध होनेके कारण 'इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः' हो जायगा । और आर्य्यजाति घोर अवनतिको प्राप्त हो जायगी । अतः आजकलके सभी नेताओंको इन सब नारीधर्मसम्बन्धीय विज्ञानोका रहस्य समझकर यथार्थ उन्नतिके पुरुषार्थमें सन्नद्ध होना चाहिये ।

शंका समाधान ।

नारीधर्मके विषयमें आजकल अनेक प्रकारकी शंकाएं प्रायः उठा करती हैं । अतः शंका समाधानरूपसे आगे कुछ विचार किया जाता है ।

मनुजीने पुरुषप्रकृति व स्त्रीप्रकृति पर सयम करके दोनोंका प्रभेद देख-
कर स्त्रीके लिये निम्नलिखितरूपसे संस्कारोंकी आज्ञा की है । यथा :—

अमन्त्रिका तु कार्य्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः ।

संस्काराऽर्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासो गृहाऽर्थोऽग्निपरिक्रिया ॥

(२५ अ०)

शरीरकी शुद्धिके लिये यथाकाल व यथाक्रम जातकर्मादि सभी संस्कार स्त्रियोंके लिये भी कराने चाहिये, परन्तु उनके संस्कार वैदिकमन्त्ररहित होने चाहिये । सभी संस्कार कहनेसे यदि स्त्रियोंके लिये उपनयन संस्कारकी भी आज्ञा समझी जाय, इस सन्देहको सोचकर मनुजी दूसरे श्लोकमें कहते हैं कि स्त्रियोंका उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिये । विवाहसंस्कार ही स्त्रियोंका उपनयन संस्कार है । इसमें परमगुरु पतिकी सेवा ही गुरुकुलमें वास है और गृहकार्य ही सन्ध्या वा प्रातः कालमें हवनरूप अग्निपरिचर्या है । यही स्त्रियोंके लिये उपनयन संस्कार है । द्विज बालकोंकी तरह उपनयन संस्कार स्त्रियोंके लिये नहीं है ।

स्त्रियोंके लिये वेदपाठका निषेध, इसलिये मनुजीने किया है कि 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा' इत्यादि महाभाष्यके प्रमाणानुसार, यदि स्वर या वर्णसे वेदमन्त्रका अशुद्ध उच्चारण हो तो वह मन्त्र यजमानका कल्याण न करके उल्टा उसका नाश करता है । स्त्रीशरीर कुछ असम्पूर्ण होनेके कारण स्त्रीके द्वारा स्वरतः वर्णतः वैदिक मन्त्रोंका ठीक ठीक उच्चारण असम्भव है, अतः जिस प्रकार शूद्रके वेदमन्त्रके उच्चारण करनेपर उसका हानि है ऐसा ही स्त्रीके भी वेदमन्त्रोच्चारणसे उसकी बहुत हानि होगी, इसीलिये मनुजीने स्त्रियोंके लिये उपनयन संस्कारका पूरा निषेध और जातकर्मादिमें वैदिक मन्त्रोच्चारणका निषेध किया है । साधारण विचारसे ही धात हो सकता है—कि स्त्रियोंका कण्ठ व जिह्वा असम्पूर्ण है । उनमें उदात्त और अनुदात्त आदि वैदिक स्वरोंका ठीक ठीक प्रकट होना असम्भव है । उनका स्वर प्रायः एकही ढङ्गका होता है उसमें गुरु लघुभेद कम होता है जो कि मन्त्रोंके उच्चारणके योग्य नहीं है । असम्पूर्णस्वर व शरीरके

द्वारा पूर्ण शक्तियुक्त मन्त्रोंके उच्चारण करनेसे कल्याण व शुभफलके वदले हानि व अशुभफल प्राप्त होता है इसलिये मनुजीने ऐसी आज्ञा स्त्रियोंके लिये की है। यथा—

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मव्यवस्थितिः ।

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्मृतिः ॥ मनु ९।१८

अर्थात् वागिन्द्रियकी असम्पूर्णताके कारण वैदिक मन्त्रोंसे स्त्रियाँका सस्कार नहीं होना चाहिये । और भी महाभारत अनु० ४०।१२ में—

‘निरिन्द्रिया ह्यशास्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति श्रुतिः’

अर्थात् वागिन्द्रियकी असम्पूर्णताके कारण उनका वेदाधिकार नहीं है ।

अब इस साधारण विधिका उल्लंघन केवल दो असाधारण दशामें हो सकता है । एक विवाह और दूसरी ब्रह्मवादिनी स्त्रीदशा है । स्त्रियोंके जातकर्म्मदि सस्कारोंमें वैदिक मन्त्रोच्चारण निषिद्ध होनेपर भी विवाहसंस्कारके समय जो मन्त्रोच्चारणकी आज्ञा की गई है उसका उद्देश्य बहुत गम्भीर है । मन्त्र दो प्रकारके होते हैं । यथा—एक शक्तिप्रधान और दूसरा भावप्रधान । निरुक्तमें भी वर्णन है कि :—

अथाऽपि कस्यचिद्भावस्याऽऽचिख्यासा ।

शक्तिप्रधान मन्त्रोंके अतिरिक्त कोई कोई मन्त्र भावप्रधान भी होते हैं । शक्तिप्रधान मन्त्रोंके साथ स्थूल शरीरका और भावप्रधान मन्त्रोंके साथ चित्तका सम्बन्ध प्रधानतः रहता है । जातकर्म्मदि सस्कारोंमें जो वैदिक मन्त्र आते हैं वे सब शक्तिप्रधान होनेके कारण उन्नत स्थूल शरीरवाले द्विजपुरुषोंके लिये ही विहित हो सकते हैं, अनुन्नत स्थूलशरीर स्त्रियोंके लिये विहित नहीं हो सकते हैं । परन्तु विवाहसंस्कारके जितने मन्त्र हैं वे सभी भावप्रधान हैं । विचारवान् पुरुष सप्तपदीगमनके जितने मन्त्र पढ़े जाते हैं उनपर ध्यान देनेसे ही इस बातको अच्छी तरह अनुभव करेंगे, अतः विवाहसंस्कारके मन्त्रोंमें भावप्राधान्य होनेसे स्त्री पुरुष दोनों ही उन मन्त्रोंको पढ़ सकते हैं । आर्यशास्त्रोंमें विवाहसंस्कार अन्य देशीय विवाहसंस्कारसे कुछ विलक्षण ही है । आर्य्य विवाह कामभोग द्वारा पशुभाव प्राप्त करनेके लिये नहीं है, परन्तु अद्वितीय परमात्माके वाम अङ्गसे जिस प्रकृतिने सृष्टिके समय निकलकर ससारमें स्त्रीपुरुषरूपी द्वितीयताको फैला दिया था, उस प्रकृतिका परमात्मामें पुनः लय साधन करके उसको उसी

अद्वितीय भावमे लानेके लिये है । विवाहके सब मन्त्र इसी भावको सूचित करते हैं । यजुर्वेदमे पाणिग्रहणका एक मन्त्र मिलता है, जिसका अर्थ यह है कि "मैं लक्ष्मीहीन हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना मैं शून्य हूँ तुम मेरी लक्ष्मी हो, मैं सामवेद हूँ तुम ऋग्वेद हो, मैं आकाश हूँ तुम पृथिवी हो और तुम व मैं दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं । तुम्हारा हृदय मेरा हो जाय और मेरा हृदय तुम्हारा हो जाय", "अन्नरूप पाश व मणितुल्य प्राणसूत्र द्वारा और सत्यरूप ग्रन्थिसे तुम्हारे मन व हृदयका मैं बन्धन करता हूँ", "तुम्हारे केश नेत्र हस्त व पद आदि शरीरके अङ्गोंमें यदि कोई दोष हो, तो मैं उसे पूर्णाहुति व आज्याहुतिके द्वारा नष्ट करता हूँ", इत्यादि इत्यादि विवाहसंस्कारके मन्त्रोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाहकालमें स्त्री पुरुष दोनोंकी ही विशेष भावशुद्धि और पातिव्रत्यके लक्षण व पतिमे तेन्मयताकी प्राप्ति स्त्रीकी उस समय होती है । अतः पुरुषकी तरह भावप्रधान वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण उस समय स्त्री कर सकती है । यही कारण है कि अन्य संस्कारोंमें स्त्रियोंके लिये वैदिक मन्त्रोच्चारण निषिद्ध होनेपर भी विवाहके समय वैवाहिक मन्त्रोंके उच्चारणके लिये आज्ञा की गई है ।

मन्त्रोच्चारणमे दूसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंका है । स्त्रीमे प्रकृति-का भाव अधिक होनेसे ज्ञानशक्तिके विकासकी अपेक्षा भक्तिभाव, ममताभाव आदि अधिक रहता है, परन्तु ब्रह्मवादिनी स्त्रीकी दशा एक असाधारण दशा है जिसमे ज्ञानशक्तिका विकास विशेष होता है । वर्णविज्ञान नामक अध्यायमे कहा जायगा कि आरूढ़पतित मनुष्यमे या पशु आदि तकमे भी साधारण प्राकृतिक नियमसे उन्नत मनुष्य या पशु आदिकी अपेक्षा विशेष योग्यता देखनेमे आती है । इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी स्त्रीकी दशाको भी आरूढ़पतित दशा समझनी चाहिये । साधारण रीतिसे प्रकृतिके प्रवाहमें क्रमोन्नतिप्राप्त स्त्रीमे ज्ञानशक्तिका इतना विकास कभी नहीं हो सकता है क्योंकि साधारण स्त्रीमे प्रकृतिभाव प्रधान रहता है । असाधारण ब्रह्मवादिनी स्त्रीकी दशा तभी प्राप्त हो सकती है जब किसी विशेष ज्ञानशक्तिसे युक्त पुरुषको पूर्वजन्मके किसी स्त्रीयोनियमप्रद प्रबल कर्मके कारण स्त्रीयोनियम प्राप्त हो । त्रिशुणमयी मायाके लीला विलाससमय ससारमें ऐसा होना असम्भव नहीं है क्योंकि भरत ऋषि आदि महत्पुरुषोंमें भी जब मोहके सम्बन्धसे भ्रूगयोनिकी प्राप्ति होना आदि देखा जाता है तो अच्छे

पुरुषके द्वारा भ्रान्तिसे स्त्री-संस्कार-प्रधान कर्म होना कुछ भी असम्भव नहीं है और इसी प्रकारके कर्मोंसे स्त्रीयोनिका प्राप्ति होना भी निश्चय है । कात्यायनसहितामे लिखा है कि :—

मान्या चेन्म्रियते पूव्व भार्या पतिविमानिता ।
 त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वमर्हति ॥
 यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्यां कथञ्चन ।
 सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्या वाऽस्य पुमान्भवेत् ॥

यदि निर्दोषा माननीया भार्या पतिके द्वारा अवमानिता होकर मरे तो तीन जन्मतक वह स्त्री पुरुषयोनिको और पुरुष स्त्रीयोनिको प्राप्त होते हैं । जो पुरुष अपने अग्निहोत्रके द्वारा किसी तरहसे अपनी पत्नीका दाह करता है वह स्त्री होता है और उसकी स्त्री पुरुषयोनि प्राप्त होता है । दत्तसहितामे भी लिखा है कि :—

अदुष्टाऽपतितां भार्यां यौवने यः परित्यजेत् ।
 स जीवनाऽन्ते स्त्रीत्वञ्च बन्ध्यात्वञ्च समाप्नुयात् ॥

निर्दोषा और निष्पापा भार्याको जो गृहस्थ यौवनकालमे परित्याग करता है वह मृत्युके अनन्तर दूसरे जन्ममे बन्ध्या स्त्री होता है ।

भागवतके पुराजनाख्यानमे भी प्रमाण मिलता है । यथा :—

शाश्वतीरनुभूयाऽऽर्चिं प्रमदासङ्गदूषितः ।
 तामेव मनसा शृण्वन् वभूव प्रमदोत्तमा ॥

पुराजना प्रमदासङ्गके कारण बहुत दिनों तक दुःख अनुभव करके मृत्युके समय अपनी पतिव्रता स्त्रीको स्मरण करना हुआ मरा और इसी कारण उसको उत्तम स्त्रीयोनि प्राप्त हुई । स्कन्दपुराणका अरुन्धती आख्यान पहिले ही कहा जा चुका है । इन सब प्रमाणोंके द्वारा पुरुषकी स्त्रीयोनिप्राप्ति सिद्ध होती है, अतः इस तरहसे यदि कोई ज्ञानराज्यमें उन्नत पुरुषको भावविकारके कारण स्त्रीयोनि प्राप्त हो जाय तो पूर्व संस्कार ज्ञानप्रधान होनेसे वह स्त्री साधारण स्त्रियोंकीसी नहीं होगी, परन्तु असाधारण ब्रह्मवादिनी स्त्री होगी और असाधारण होनेसे उसका अधिकार भी असाधारण होगा । इसलिये उन ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंके लिये शास्त्रोंमें उपनयनसंस्कार और वेदपाठका भी विधान किया गया है । यथा महर्षि हारीन-ने कहा है—

द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनी-
नामुपनयनमग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षाचर्या ।

दो प्रकारकी स्त्रियाँ होती हैं। यथा—ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू । इनमेंसे ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंके लिये उपनयन, अग्नीन्धन, वेदाध्ययन और निज-गृहमें भिक्षाचर्या विहित है। सद्योवधू स्त्रियोंके लिये ऐसी विधि नहीं है। उनके लिये विवाह ही उपनयनसंस्कार और पतिसेवा गुरुकुलवास आदि धर्म है जैसा कि मनुजीने बताया है। प्राचीन कालमें ज्ञानकी प्रधानता थी इसलिये ज्ञानोन्नत पुरुष अनेक थे और इसी कारण उस प्रकारकी आरूढ़पतिता ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ भी मिलती थी एवं उसीलिये उन स्त्रियोंके अर्थ उपनयन और वेदपाठ आदिका विधान भी था। अब इस युगमें ज्ञानका हास हो गया है अतः विशेष ज्ञानोन्नत पुरुष बिरले ही मिलते हैं और आरूढ़पतिता ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ भी नहीं मिलती हैं। इसी कारण स्त्रियोंके लिये कलियुगमें उपनयन और वेदपाठ आदि निषिद्ध है। महर्षि यमने भी लिखा है कि:—

पुरा कल्पे कुमारीणां मौञ्जीवन्धनमिष्यते ।
अध्यापनश्च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥
पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनामध्यापयेत्परः ।
स्वगृहे चैव कन्याया भैक्ष्यचर्या विधीयते ॥
वज्रयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च ॥

पूर्व कल्पमें कुमारियोंका मौञ्जीवन्धन, वेदाध्ययन व सावित्रीवचन इष्ट था। पिता पितृव्य या भ्राता उनको वेद पढ़ाते थे। दूसरे किसीका अधिकार-उनको वेद पढ़ानेका नहीं था। अपने ही घरमें भिक्षाचर्याकी व्यवस्था थी। उनके लिये मृगचर्म, कौपीन या जटाधारणकी आह्ला नहीं थी। यह सब पूर्वयुगके लिये व्यवस्था है जैसा कि महर्षि यमने कहा है। और यह भी व्यवस्था ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंके लिये है, सद्योवधू-साधारण स्त्रियोंके लिये नहीं है जैसा कि कारण बताकर पहिले कहा गया है। विधि साधारण प्रकृतिको देखकर ही हुआ करती है, असाधारणको देखकर नहीं हुआ करती है। कहीं एक दो स्त्री ब्रह्मवादिनी निकलें और वे वेदपाठ आदिकी शक्ति रखती हों, इससे यह नियम सबके लिये नहीं हो सकता है। सबके लिये असाधारण

नियमकी आभा होनेसे पूर्व सिद्धान्तानुसार अनधिकारी व्यक्तिने शक्तिमान् वैदिक मन्त्रादि पढ़नेपर कल्याण न होकर अकल्याण ही होगा । अतः विचारवान् पुरुषोंको इन सब सिद्धान्तोंपर विचार करके सावधान रहना चाहिये । मनुजीने जो उपनयन आदिका एकवारगी निषेध किया है सो साधारण विधिके विचारसे ही किया है और हारीन व यम ऋषिने साधारण व असाधारण दोनों अधिकारोंका ही विचार करके कलियुगकी स्त्रियोंके लिये साधारण विधि ही समीचीन बताई है ।

आजकल अवरोधप्रथा अर्थात् स्त्रियोंके पदोंके विषयमें अनेक शंकाएँ फैल गई हैं । अतः इस विषयमें विचार किया जाता है । सती-जीवनमें श्रीके साथ ही (लज्जा) का भी मधुर विकाश नयनगोचर होना है । चण्डी (सप्तशती) में कहा है कि :—

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता ।

मनुष्योंमें लज्जा देवीका भाव है । स्त्रीजातिमें देवीभाव नैसर्गिक होनेसे लज्जा भी नैसर्गिक है । सतीत्वके उत्कर्षके साथ साथ देवीभावका अधिक विकाश होनेसे हीकी भी पूर्णता होती है । सती स्त्री स्वभावतः ही विशेष लज्जा-शीला हुआ करती है । लज्जा का कारण अनुसन्धान करनेसे यही प्रतीत होता है कि पशुधर्मके प्रति मनुष्योंकी जो स्वाभाविकी घृणा है वही लज्जाका कारण है । मनुष्यप्रकृतिमें पशुत्वका आवेश अनुभव करनेसे ही लज्जाका उदय हुआ करता है । पशुप्रकृतिमें लज्जा नहीं है, पशु निर्लज्ज होकर आहार, निद्रा, मैथुनादि करना है । मनुष्य पशु नहीं है, इसलिये मनुष्यको स्वभावतः इन सब कार्यों को करते हुए लज्जा आती है । पुरुषमें देवीभाव (प्रकृतिभाव) से पुरुषभावकी अधिकता होनेसे पुरुषको इन सब कार्योंमें स्वभावतः लज्जा कम होती है, परन्तु स्त्रीमें पुरुषभावसे देवीभाव (प्रकृतिभाव) की अधिकता होनेसे स्त्रीको इन सब कार्योंमें स्वभावतः अधिक लज्जा होती है । पुरुषप्रकृतिके साथ स्त्रीप्रकृतिका यही प्रभेद है । इसी प्रभेदको रखते हुए दोनों अपने अपने अधिकारके अनुसार पूर्णताको प्राप्त कर सकते हैं । पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपकी ओर अग्रसर होता हुआ अन्तमें भेदभाव विस्मृत हो लज्जारूप पाशको काट सकता है, परन्तु स्त्रीकी पूर्णता तभी होगी जब स्त्री अपने लज्जामूलक देवीभावको पूर्णतापर पहुँचावेगी । देवीभावकी पूर्णता पातिव्रत्यकी पूर्णतासे

हाती है इसलिये लज्जाशीलता सतीधर्मका लक्षण है । निर्लज्जा स्त्री सती नहीं हो सकती है । लज्जा स्त्रीजातिका भूषण है, इसके न होनेसे स्त्रीका स्त्रीभाव ही नहीं रहता है । लज्जाके बलसे स्त्री अपने पातिव्रत्यधर्मको भी ठीक ठीक पालन कर सकती है । स्त्रीको पुरुषका अधिकार या पुरुषकी तरह शिक्षा देकर अथवा ऐसा ही आचार सिखाकर निर्लज्ज बनानेसे उसकी बड़ी भारी हानि होती है । ऐसी निर्लज्जा स्त्रियोंके द्वारा उत्तम सतीका धर्मपालन होना असम्भव हो जाता है क्योंकि जो आचार प्रकृतिसे विरुद्ध है उसके द्वारा कदापि किसीकी उन्नति नहीं हो सकती है । लज्जा जब स्त्रीजातिका स्वाभाविक भाव है तो इसके नष्ट करनेसे स्त्रीकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है, अधिकन्तु प्रकृतिपर बलात्कार होनेके कारण अवनति होना ही निश्चय है । इसमें और भी बहुतसे कारण हैं जो नीचे दिखाये जाते हैं ।

पाश्चात्य देशोंमें स्त्री पुरुषका साथ बैठकर भोजन, आलाप और एकत्र भ्रमण आदि आचार विद्यमान है, इसी कारण वहाँकी स्त्रियोंमें निर्लज्जता व पुरुषभाव अधिक है और पातिव्रत्यकी महिमापर भी दृष्टि कम है । उत्तम सतीका क्या भाव है और पतिके साथ सहभरण कैसा होता है, पाश्चात्य स्त्रियाँ स्वप्नमें भी इन बातोंका श्रुतभव नहीं कर सकती हैं । आर्यशास्त्रोंमें पातिव्रत्यके बिना स्त्रीका जीवन ही व्यर्थ है ऐसा सिद्धान्त सुनिश्चित किया गया है ; इसलिये अवरोधप्रथा (Purda System) आदिके द्वारा आर्य नारियोंमें लज्जाभावकी रक्षाके लिये प्रयत्न किया गया है और इसीलिये स्त्री पुरुषोंको एकत्र भोजन व भ्रमण आदिका आर्यशास्त्रोमे विधान नहीं किया गया है । यथा—मनु ४ । ४३—

‘नारनीयाद् भार्यया सार्द्धं नैनामीक्षेत चाश्नतीम्’

स्त्रीके साथ एकत्र भोजन और उनको भोजन करती हुई नहीं देखना चाहिये ।

आजकल धर्मभावहीन पाश्चात्य शिक्षाके द्वारा विकृतमस्तिष्क कोई कोई मनुष्य अवरोधप्रथाको नष्ट करके स्त्रियोंको निर्लज्ज बनाना, पुरुषोंके भीतर निरंकुशभावसे भ्रमण या नृत्य, गीत, वाद्य अथवा नाटकादि उनसे कराना और विदेशीय नर नारियोंकी तरह उनका हाथ पकड़कर डोलते रहना या हवाखोरी करने जाना आदि बातोंको सभ्यताका लक्षण और स्त्रियोंपर

दया समझते हैं और इससे विरुद्ध सनातन अवरोधप्रथाको उनपर अत्याचार, अन्याय व निर्दयता समझते हैं । विचार करनेसे स्पष्टरूपसे सिद्ध होगा कि उन उन लोगोंकी इस प्रकारकी धारणा नितान्त भ्रममूलक है । किसीपर दया करना सदा ही अच्छा है, परन्तु जिस दयाके मूलमें विचार नहीं है उससे कल्याण न होकर अकल्याण ही होता है । स्त्रीजातिपर दया करना अच्छा है, परन्तु जिस दयासे पातिव्रत्यका मूल ही कट जाय, स्त्रीभाव नष्ट होजाय और संसारमें अनर्थ उत्पन्न हो, वह दया दया नहीं है, अथवा वह महापाप है । ज्ञानमय आर्यशास्त्र इस प्रकारकी मिथ्या दयाके लिये आशा नहीं दे सकता है । और घरकी स्त्रियोंको निर्लज्ज बना कर बाहर न निकलनेसे निष्ठुरता होती है इसलिये सनातन अवरोधप्रथा निष्ठुरतासे भरी हुई है ऐसा लाल्छन जो लगाया जाता है वह भी सम्पूर्ण भ्रममूलक है, क्योंकि विचार करनेपर सिद्धान्त होगा कि आर्यशास्त्रोंमें स्त्रीजातिका जितना गौरव बढ़ाया गया है ऐसा और किसी देश या जाति या शास्त्रमें नहीं है । अन्य देशोंमें स्त्री पुरुषके विषयविलासमें सहचरी है और आर्यजातिमें भार्या समस्त गार्हस्थ्य धर्ममें सहधर्मिणी व अर्द्धाशभागिनी है । अन्य जातियोंमें स्त्रीशरीर कामका यन्त्ररूप है और आर्यजातिमें स्त्री जगदम्बारूपिणी है जिनकी प्रत्येक दशाकी दिव्यभावके साथ पूजा करनेसे साधकको मुक्तिलाभ हो सकता है । स्त्रियोंके प्रकृतिरूपिणी होनेसे उनकी प्रत्येक दशाको देवीभावसे पूजनेकी विधि आर्यशास्त्रोंमें बताई गई है । दशमहाविद्याकी दशमूर्ति दिव्यभावमें स्त्रीकी दश दशाकी ही सूचना करती है और प्रत्येक दशाकी पूजा हुआ करती है । दशमहाविद्याओंमेंसे कुमारी गौरी रूपिणी है, युवती गृहिणी षोडशी व भुवनेश्वरी आदिरूपिणी है और वृद्धा व विधवा धूमावतीरूपिणी है, यहां तक कि रजस्वला भी त्रिधारायती छिन्नमस्तारूपिणी है ऐसा सिद्धान्त आर्यशास्त्रोंका है । देवीभागवतमें लिखा है कि :—

सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाऽधममध्यमाः ।

योषितामवमानेन प्रकृतेश्च पराभवः ॥

रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती ।

प्रकृतिः पूजिता तेन वस्त्राऽलङ्कारचन्दनैः ॥

कुमारी चाऽष्टवर्षा या वस्त्राऽऽङ्कुरचन्दनैः ।

पूजिता येन विप्रेण प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥

कुमारी पूजिता कुर्व्याद्दुःखदारिद्र्यनाशनम् ।

शत्रुक्षयं धनाऽऽयुष्यं बलवृद्धिं करोति वै ॥

उत्तम मध्यम व अधम सभी स्त्रियों प्रकृतिके अशसे उत्पन्न होती हैं । प्रकृतिमाताकी ही रूप होनेसे स्त्रियोंके निरादर व श्रवमाननासे प्रकृतिकी अवमानना होती है । पतिपुत्रवती सतीकी पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती है । गौरी या कुमारीकी पूजासे प्रकृतिकी पूजा होती है जिससे गृहस्थका दुःखदारिद्र्यनाश, शत्रुनाश और धन, आयु व बलकी वृद्धि होती है । आर्यशास्त्रोंमें स्त्रियोंका यही स्वरूप वर्णन किया गया है और इसलिये उनकी रक्षा व गौरव वृद्धि करनेकी इतनी विधि बताई गई है । परन्तु जिनको जगदम्बाका रूप समझ कर पूजा करनेकी आज्ञा शास्त्र दिया करता है उनको निर्लज्जा होकर बाजारमें घूमनेकी आज्ञा या रूप बनाकर पुरुषोंके सामने नाटक करनेकी आज्ञा आर्यशास्त्र नहीं दे सकता है । ऐसी आज्ञा दया नहीं होगी, परन्तु स्त्रीधर्मकी सत्ताका नाश, पातिव्रत्यरूपी कल्पतरुके मूलमें कुठाराघात और जगदम्बापर मूर्खतामूलक अत्याचार होगा । प्रकृतिकी पूजा करनेकी आज्ञा देनेवाला आर्यशास्त्र ऐसी आज्ञा कभी नहीं कर सकता है । जो वस्तु जिसकी प्रिय होती है वह उसकी रक्षा भी यत्नसे करता है । धन और अलङ्कारादि प्रिय वस्तुओंको गृहस्थ लोग बहुत यत्नके साथ छिपाके ही रखते हैं, बाजारमें फेंक नहीं देते हैं । यदि आर्यजाति अपनी माताओंको निर्लज्जाकी तरह बाजारमें नहीं धुमाती है तो इससे आर्यजातिकी माताओंके प्रति उपेक्षा या निर्दयता प्रकट नहीं होती है बल्कि प्रेम और भक्तिभाव ही प्रकट होता है । द्वितीयतः उनको यदि पुरुष हाथ पकड़कर भ्रमण करावे तो इससे स्त्री तथा पुरुष दोनोंहीकी बहुत हानि होगी । यथा—It was discovered that certain subjects, more especially women, could produce changes in the aura by an effort of will, causing rays to issue from the body or the colour of the aura to alter, (Aurospect by Stanley Red grôve Kalpaka)—अर्थात् बहुत सी वस्तु, खास कर स्त्रियां पुरुषकी 'अरा' अपनी इच्छा शक्तिसे बदल

देती है, पुरुषके शरीरसे मनोवेगकी शिखाये निकलने लगती है, 'श्ररा' का रङ्ग भी बदल जाता है। शास्त्रमें भी कहा है—

“सङ्गात्सञ्जायते कामः”

“इविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवर्द्धते” ।

काम आदि वृत्तियां सङ्गके द्वारा अधिक हुआ करती हैं, घटनी नहीं है। अग्निमें प्रक्षिप्त घृतकी तरह सङ्गद्वारा काम बढ़ता जाता है। इसीलिये स्त्रीके साथ एकत्र रहनेका अवसर जितना अधिक होगा उतना ही दिव्यभाव नष्ट होकर पशुभावकी वृद्धि होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। और यह भी सिद्धान्त पूर्ण सत्य है कि जिस स्त्रीको अनेक पुरुष कामभाव व कामदृष्टिसे देखते हैं उसके पातिव्रत्यमें अवश्य ही हानि होती है। मानसिक व शारीरिक विजलीकी शक्ति आँखसे, स्पर्शसे या केवल चित्तके द्वारा ही अन्य व्यक्तिपर अपना प्रभाव डालकर कैसे उसको अभिभूत कर सकती है इसका वर्णन पहिलेही आ चुका है। अतः जिस स्त्रीके शरीरपर कामुक पुरुष कामशक्तिके द्वारा कामभावसे दृष्टि डालेंगे उसके पातिव्रत्यमें धीरे धीरे हानि हो सकती है। अन्य पुरुषके नेत्रकी या मनकी तामसिक शक्तिके प्रभावसे स्त्रीका चित्त-चाञ्चल्य होना व सतीधर्मका गाम्भीर्य नष्ट होना अवश्य निश्चित है। इसलिये अवरोधप्रथाको तोड़कर, स्त्रियोंको निर्लज्जा हो पुरुषोंके बीचमें रहनेकी और बाजारमें घूमनेकी आज्ञा देनेसे आर्य्यस्त्रियोंमेंसे पातिव्रत्यधर्म धीरे धीरे नष्ट हो जायगा, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। पाश्चात्य देशमें इस प्रकार निरङ्कुश घूमनेके कारण ही वहाँकी स्त्रियाँ पातिव्रत्यकी महिमाको नहीं जानती हैं। अतः विचारवान् पुरुषोंको इन सब अनर्थकर कदाचारोंसे सदा सावधान रहना चाहिये। देवीभागवतके तृतीयस्कन्धके २० वीसवें अध्यायमें इसी विषयका एक प्रमाण दिया गया है। वहाँ शशिकला नाम्नी एक कन्या अपने पिताको उसे स्वयंवर सभामें भोजनेके लिये मना कर रही है और कह रही है कि स्वयंवरसभामें राजाओंकी कामदृष्टिसे उसके पातिव्रत्यमें हानि होगी।

शोककी बात है कि एक क्षत्रिय-कन्या जिन बातोंको विचार करके निर्णय कर सकती थी आजकलके अनेक विद्याभिमानी उनपर सन्देह करने लग गये हैं। अवरोधप्रथाकी पुष्टि वेदादि शास्त्रोंमें भी की गई है। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके चौथे अध्यायके २६वें सूक्तमें लिखा है कि:—

यो वां यज्ञेभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव ।

वस्त्र द्वारा आवृता वधूकी तरह यज्ञके द्वारा जो आवृत है। इस प्रकार कहकर अवरोधप्रथाका ही समर्थन किया गया है। रामायणके कई एक स्थानोंमें अवरोधप्रथाकी बातें लिखी हुई हैं। यथा :—

या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि ।

तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥

श्रीभगवान् रामचन्द्रके साथ सीता सीताको वनवासके लिये राज-पथसे जाती हुई देखकर अयोध्यावासियोंने कहा कि “पहिले जिस सीतादेवीको खेचर जीव भी नहीं देखने पाते थे उसी माताको आज राजमार्गके पथिकगण भी देखने लगे।” मृतपति रावणको देखकर मन्दोदरी विलाप करती हुई कह-रही है कि :—

दृष्ट्वा न खल्वसि क्रुद्धो मामिहाऽनवगुण्ठिताम् ।

निर्गतां नगरद्वारात्पद्भ्यामेवाऽऽगतां प्रभो !

पश्येष्टदार ! दारांस्ते भ्रष्टलज्जाऽवगुण्ठनान् ।

वहिर्निष्पतितान्सर्वान्कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि ॥

हे स्वामिन् ! मैं तुम्हारी महिषी होनेपर भी अवगुण्ठन (घुड़ट) त्याग करके आज नगरसे बाहर पैदल यहां आई हूँ इसको देखकर भी क्या तुम्हें क्रोध नहीं होता है ? यह देखो तुम्हारी सब स्त्रियां आज लज्जा व अवगुण्ठनको त्याग करके बाहर आ गई हैं, ऐसा देखकर भी तुम्हें क्रोध क्यों नहीं हो-रहा है ? इन सब प्रमाणोंके द्वारा प्राचीनकालमें अवरोधप्रथा थी ऐसा निश्चय होता है। मालविकाग्निमित्र व मृच्छकटिक आदि काव्य और उपन्यास ग्रन्थोंसे भी हजार वर्षके पहले यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित थी ऐसा सिद्ध होता है। सीता, सावित्री व दमयन्ती आदि स्त्रियां जो अपने पतिके साथ बाहर गई थी उसका विशेष कारण था। घटनाचक्रसे उनको ऐसा करना पड़ा था। जैसा कि रामायण ६।११४ में श्रीरामचन्द्र भगवान्ने स्वयं कहा है—

व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयं वरे ।

न क्रतौ नो विवाहे च दर्शनं दुष्पति स्त्रियाः ॥

अर्थात् दृष्टविद्योग, राजविलस, युद्धक्षेत्र, स्वयम्बर, यज्ञशाला और विवाह/मण्डपमे पर्देकी आवश्यकता नहीं है। हां इतना तो मानना ही पड़ेगा कि आर्य्य-जातिमें स्त्रियोंकी शीलरक्षा व स्त्रियोंके लिये अन्तःपुरका निवास और अवरोध-प्रथा यथाविधि प्रचलित रहने पर भी इस समय जो भारतवर्षके किसी किसी देशमें कठिन पर्देकी रीति जेलखानेकी तरह प्रचलित है सो आर्य्यरीति नहीं है। यह कठिन रीति यवन-साम्राज्यके कठिन समयमें उनके ही अनुकरण पर प्रचलित हुई है सो उतनी कठिनता अवश्य त्याग करने योग्य है। और दूसरा आज कल भारतके किसी किसी प्रान्तमे जो अवरोधप्रथामें शैथिल्य देखनेमें/आता है वह सब आधुनिक व अनार्य्यभावमूलक है इसलिये वह भी अनुकरण करने योग्य नहीं है। अवरोधप्रथा सम्पूर्णरूपसे विज्ञानसिद्ध और सतीधर्मके अनुकूल है। इसके यथा शास्त्र पालन करनेसे भारतमहिलाओंकी सब प्रकारसे उन्नति और आर्य्यगौरवकी वृद्धि होगी इसमें अछुमात्र भी सन्देह नहीं है। और यही कारण है कि अपनी जातिमें प्रचलित न होने पर भी दूरदर्शी पश्चिमी विद्वानोंने अन्तःपुर प्रथाकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। यथा—

Their very aloofness, their seclusion gives them half their charm and they know it Not for them, for instance the dismal methods of American Schools where mixed classes and common play-ground rub away all the attraction of the sexes In India women are so much valued and attain half their power, because they are only occasionally seen and seldom met (Otto Rothfield)

The reputation of a woman is as a crystal mirror, shining and bright, but liable to be sullied by every breath that comes near it (Cervantes)

She is not made to be the admiration of every body but the happiness of one. (Burke)

A woman smells sweetest, when she smells not at all.

(Plautus.)

‡ Woman is a flower that breathes its perfume in the shade only (Lamennais.)

The flower of sweetest smell is shy and lovely.

(Wordsworth.)

अन्तःपुरमें छिपी रहनेसे ही हिन्दु स्त्रियोंकी शोभा बढ़ जाती है । उनके लिये अमेरिकाके स्कुलोंकी भद्दी प्रथा नहीं है, जहाँपर स्त्री पुरुषोंकी एक साथ पढ़ाई तथा खेल होनेसे उनकी आकर्षण शक्ति ही नष्ट हो जाती है । भारतवर्षमें स्त्रियाँ रत्नकी तरह मूल्यवान् वस्तु इसलिये हैं कि वे अन्तःपुरमें रहती हैं और कभी कभी दृष्टिपथमें आती हैं । (अटो रथफोल्ड) ।

स्त्रीजातिकी कीर्त्ति स्फटिक दर्पणकी तरह है, जो कितनी ही उज्ज्वल तथा चमकती हुई, दूसरेके श्वाससे भी मलिन होने लगती है । (सर् भान्टे) ।

स्त्रीका जन्म जगत्को मुग्ध करनेके लिये नहीं, किन्तु अपने पतिदेवताको सुख देनेके लिये ही होता है । (एडमांड वर्क) ।

स्त्रीजाति फूलकी तरह है जिसकी गन्ध एकान्तमें ही अच्छी फैलती है, और बहुत दूर तक नहीं फैलती है । उत्तम गन्धवती कुसुमकुमारी सदा लज्जावती ही होती है । (ट्रस, लेमेनिस, चार्डस्वर्थ) ।

अर्वाचीन पुरुषोंने नियोगविधिको सर्व-साधारण धर्म प्रमाण करनेके लिये बहुत ही क्लिष्ट कल्पना की है । कहीं कहीं उन्होंने वेद स्मृत्यादि शास्त्रोंसे भी प्रमाण उठाकर उनके मिथ्या अर्थ किये हैं परन्तु यदि उनको यह विचार होता कि “स्मृतियोंकी आज्ञा देश काल पात्रानुसार लक्ष्य स्थिर रखकर सामञ्जस्यके साथ ही मानी जासकती है और आज्ञा यथार्थ होने पर भी यदि देश काल व पात्र उपयोगी न हो तो उसका उपयोग, नहीं हो सकता है” तो उनको इस विषयमें इतना भ्रम नहीं होता । अब नीचे स्मृतिसम्मत नियोगका पालन-वर्त्तमान युगमें हो सकता है या नहीं इसीपर विचार किया जाता है । नियोगके विषयमें संहिताके ६म अध्यायमें कहा है कि:—

देवराद्वाऽसपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥

विधवायां नियुक्तस्तु घृताऽऽक्तो वाग्यतो निशि ।
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥

यदि अपने पतिके द्वारा सन्तानोत्पत्ति न हुई हो तो स्त्री देवर अथवा अन्य किसी सपिएड पुरुषसे नियोग कराकर सन्तान लाभ करे । रातको सर्वाङ्गमें घृत लेपन करके मोन हो सगोत्र नियुक्त पुरुष विधवा स्त्रीमें एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा पुत्र कभी उत्पन्न न करे । इस प्रकार नियोगकी विधि बताकर मनुजीने इसको पशु-धर्म कहकर इसको बड़ी निन्दा की है । यथा :—

नाऽन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।
अन्यस्मिन्ह नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।
न विवाहविधावुक्तं विधवाऽऽवेदनं पुनः ॥
अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

(६५ अ०)

द्विजगणको विधवा या निस्सन्ताना स्त्रीका नियोग कदापि नहीं कराना चाहिये क्योंकि पतिके सिवाय अन्य किसी पुरुषमें नियुक्त होनेसे सनातन एक-पतिव्रतधर्मकी हानि होती है । विवाहक्रियाके लिये जितने वैदिक मन्त्र हैं उनमें नियोगकी आज्ञा कहीं नहीं पाई जाती है और इसी प्रकार वैदिक मन्त्रोमे विधवाविवाह भी कहीं नहीं लिखा है । शास्त्रज्ञ द्विजगण नियोगको पशुका धर्म-कहकर निन्दा करते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य स्मृतियोंमें भी नियोगकी अत्यन्त निन्दा की गई है । मनुष्य पशु नहीं है, इसलिये पशुका जो धर्म है सो मनुष्योंके लिये विहित नहीं हो सकता है । इसके सिवाय मनुष्योंमें श्रेष्ठ जो आर्यजाति है उसमें पशुधर्मकी जो आज्ञा देता है उसके सदृश पापी ससारमें और कौन हो सकता है । इन सब विचारोंके अतिरिक्त नियोगकी विधि वर्त्तमान देशकाल व पात्रमें सम्पूर्ण असम्भव होनेसे सर्वथा परित्याज्य है । नियोगके लिये घृताक्त होकर सम्बन्ध करनेकी जो आज्ञा मनुजीने की है उसका कारण यह है कि, नियोगमें साधारण स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी तरह कामयोगका सम्बन्ध ही नहीं है, इसलिये गर्भाधानके अर्थ इन्द्रियके स्पर्श होनेके सिवाय

और किसी अङ्गका स्पर्श न हो इस कारण ही घृताक्त होनेकी आज्ञा की गई है । मनुजीने कहा है कि :—

भ्रातृज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥

देवरके लिये ज्येष्ठ भ्राताकी स्त्री गुरुपत्नीतुल्या है और कनिष्ठ भ्राताकी स्त्री ज्येष्ठ भ्राताके लिये पुत्रवधूतुल्या है । अतः मनुजीकी आज्ञानुसार इनमे कामभोग सम्बन्ध होना अतीव गर्हित व पापजनक है । इसलिये सन्तानके लिये नियोगकी आज्ञा होनेपर भी नियोगमे कामका घर्ताव होना सर्व्वथा पापजनक व निषिद्ध है । मनुसहितामें लिखा है कि :—

विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तेयातां परस्परम् ॥

नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्त्तेयातान्तु कामतः ।

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥

यथाविधि नियोगका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भ्राता व भ्रातृवधू पुनः पूर्व्व सम्बन्धके अनुसार वर्त्ताव करें । नियुक्त ज्येष्ठ व कनिष्ठ भ्राता नियोगविधिको छोड़करके यदि कामका घर्ताव करे तो पुत्रवधूगमन व गुरुपत्नीगमनके कारण दोनोंही पतित हो जाते हैं । अब विचार करनेकी बात है कि इन्द्रियोंका सम्बन्ध करते हुए भी और स्त्रीके सामने रहते हुए भी पुरुषको काम नहीं होगा ऐसा नियोग इस कलियुगमें सम्भव है या नहीं ?

कलियुगका देशकाल हीन है तथा गर्माधान आदि संस्कारोंके नष्ट होनेसे और पिता माताके पाशविक कामोन्मादके द्वारा सन्तानकी उत्पत्ति होनेसे कलियुगमें साधारणतः शरीर कामज होता है । अतः इस प्रकारके शरीरमें स्त्रीसे सम्बन्ध करते समय नियोगविधिके अतृकूल धैर्य्य रहना व कामभोगका अभाव होना सम्पूर्ण असम्भव है । इसलिये और युगोंमें नियोगकी विधि प्रचलित थी, ऐसा प्रमाण शास्त्रोंमे मिलनेपर भी कलियुगमें नियोग नहीं चल सकता है और इसीलिये महर्षियोंने नियोगकी निन्दा करते हुए कलियुगमें इसका पूर्ण निषेध किया है । यथा बृहस्पति कहते हैं कि :—

उक्तो नियोगो मुनिनानिषिद्धः स्वयमेव तु ।
युगक्रमादशक्योऽयं कर्तुमन्यैर्विधानतः ॥
तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतायुगे नराः ।
द्वापरं च कलौ तेषां शक्तिहानिर्हि निर्मिता ॥
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनैः ।
न शक्यन्तेऽधुना कर्तुं शक्तिहीनैरिदन्तनैः ॥

मनुजीने नियोगकी आज्ञा देकर पुनः उसकी निन्दा स्वय ही की है क्योंकि युगानुसार शक्तिके हास होनेसे मनुष्य पहिलेकी तरह नियोग अब नहीं कर सकते हैं । सत्य, त्रेता, द्वापर युगोमे मनुष्य तपस्वी ज्ञानी थे, परन्तु कलियुगमे त्रेतादि युगोंकी वह शक्ति नष्ट हो गई है इसलिये महर्षिगण पहिले जिस प्रकार नियोगादिसे सन्तान उत्पन्न करते करते थे वह अब शक्तिहीन कलियुगके मनुष्योसे नहीं हो सकता है ।

अतः आदित्यपुराणमे लिखा है कि :—

एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।
निवर्तितानि कार्याणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

महात्मागणने ससारकी रक्षाके लिये इसी कारण कलियुगके आदिमें व्यवस्थापूर्वक इन कार्योंका निषेध किया है । ऊपर लिखित युक्ति व प्रमाणोसे कलियुगमे नियोग सर्वथा असम्भव सिद्ध होनेसे परित्याज्य है ।

नियोगके ऊपर लिखित रहस्यको न समझकर अर्वाचीन पुरुषोने इस विषयमे अनेक महापापजनक कल्पनाएँ की हैं और अपनी पापमयी कल्पनाकी चरितार्थताके लिये वेदमन्त्र तथा स्मृतियोंके श्लोकोका बड़ा ही झूठा अर्थ किया है । उन्होंने एक स्थानपर लिखा है—‘गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम न करनेके समयमे पुरुषसे वा दीर्घरोगी पुरुषकी स्त्रीसे न रहा जाय तो किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे ।’ थोड़ी बुद्धिवाले मनुष्य भी समझ सकते हैं कि इससे अधिक व्यभिचारवृद्धिकारी महापापमयी व्यवस्था और कुछ भी नहीं हो सकती है । एक तो ‘न रहा जाय’ इन शब्दोंके द्वारा नियोगका लक्ष्य ही भ्रष्ट कर दिया गया, क्योंकि नियोग कामभावसे नहीं होता है, केवल सन्तानोत्पत्तिके लिये होता है, कामभावजन्य

नियोग, नियोग नहीं है प्रत्यक्ष व्यभिचार है, जैसा कि मनुजीने कहा है । और द्वितीयतः गार्हस्थ्यधर्म-पालनमें रत स्त्री पुरुष यदि इतना भी संयम न कर सके कि स्त्रीकी गर्भावस्थामें एक वर्षतक जितेन्द्रिय रहे और रोगी पति-को रूग्णावस्थामें फेंककर स्त्री उनके सामने परपुरुष गमन करे, तो इससे अधिक पशुभाव और घृणित नारकियोका भाव और क्या होगा । अतः अर्वाचीन पुरुषोंने इस पापमयी कल्पनाके द्वारा केवल नियोगविधिको ही भ्रष्ट नहीं किया है, अधिकन्तु अपने सम्प्रदाय, सम्प्रदायके माननेवाले तथा अपने ग्रन्थको भी कलकित किया है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । अब उनके दिये मन्त्रोपर विचार करते हैं । एक मन्त्र यह है—

इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥

ऋ० मं० १० सू० ८५ मं० ४५

यह मन्त्र विवाहमें आशीर्वाद देनेके लिये कहा जाता है, नियोगके लिये नहीं । इसका इस प्रकार अर्थ होता है—(मीढ्वः इन्द्र) समस्त सुखदायी पदार्थोंके देनेवाले इन्द्र, (त्वं इमां सुपुत्रां सुभगां कृणु) तुम इस विवाहिता स्त्रीको उत्तम पुत्रवती और सौभाग्यवती करो । (अस्यां दश पुत्रान् आधेहि) इस स्त्रीमें दस पुत्र धारण कराओ, (एकादशं पति कृधि) ग्यारहवें पतिको पुत्रोंके साथ दीर्घजीवी बनाये रखो । यही आशीर्वादसूचक इसका अर्थ है, नियोग द्वारा दस पुत्र उत्पन्न कराना या ११ पति कराना इसका अर्थ नहीं है । क्योंकि इस मन्त्रमें नियोगका कोई शब्द ही नहीं है । इसके सिवाय मनुजीने तो 'एकमुत्पादयेत् पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन' कहकर नियोगमें एकसे अधिक सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा ही नहीं दी है । फिर ऐसी मिथ्या कल्पनाकी गुञ्जायश ही नहीं हो सकती है । डाक्टरों सायन्सने आजकल यह प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिया है कि अनेक पुरुषोंके सम्बन्धसे ही स्त्रीशरीरमें सिफिलिस, गनोरिया आदिके भयानक विष उत्पन्न हो जाते हैं, जो पिता माता द्वारा वंशपरम्परा तक चलकर समस्त वंशको तथा इहलोक परलोकको बिगाड़ देते हैं । हैभलक ईलीस् आदि कई एक पश्चिमी विद्वानोंने इसपर पुस्तकें भी लिखी हैं और आर्यजातिके एक पतिव्रतधर्मको इसी युक्तिपर बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण कहा है । और यहाँ पर श्रेयमन्त्र उठाकर प्रमादका भरमार देखिये । अब दूसरा मन्त्र बताया जाता है ।

उदीर्घ्वं नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि ।

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूथ ॥

ऋ० मं० १ सू० १८ म० ८

इसका यह अर्थ है । (नारि) हे मृतकी पत्नी—(जीवलोकं अभि उदीर्घ्वं) जीवित पुत्र पौत्रादिके पालनार्थ—इस चितास्थानसे उठो, (एत गतासु उपशेषे एहि) इस मृतपतिके पास तुम लेटो डुई हो । (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम्हारे पाणिग्रहण तथा गर्भाधान करनेवाले (पत्युः तव इदं जनित्वं अभि सम्बभूथ) तुम्हारे इस पतिके पत्नीपनको लक्ष्य करके तुमने इसके साथ मरनेका निश्चय किया है । इस मन्त्रका भावार्थ यह है कि सती स्त्री मृतपतिके साथ सहमरणमें जाना चाहती है, किन्तु कुटुम्बी लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि घरमें छोटे छोटे बाल बच्चे हैं । इसमें नियोगसूचक एक भी शब्द न होनेपर भी अर्वाचीन पुरुष न जाने कहाँसे इसमें यह अर्थ देख रहा है कि श्मशानमें गये हुए लोग स्त्रीसे कह रहे हैं कि 'स्त्री तू उठ और हमारेमेसे किसीके साथ नियोग करके सन्तान पैदा करले ।' बुद्धिकी बलिहारी है, कहां तो स्त्री पतिवियोगसे रोदन कर रही है और कहां उसी समय श्मशानमें ही पाशविक क्रिया सूझने लगी ! इससे अधिक असभ्यता और क्या हो सकती है ? अब तीसरा मन्त्र कहा जाता है—

‘अन्यमिच्छंस्व सुभगे पतिं मत्’

ऋ० मं० १० अ० १, सू० १०, म० १०

पूरे मन्त्रका केवल इतना ही अंश उठाकर अर्वाचीन लोग अर्थ करते हैं कि पति पत्नीको आना दे रहे हैं कि उनसे सन्तान नहीं होती है, इसलिये स्त्री अन्य पतिके द्वारा सन्तान पैदा कर लेवे । अब पूरे मन्त्रके अर्थपर विचार करनेसे अर्वाचीन लोगोकी भुटाईका ठीक पता चल जायगा । पूरा मन्त्र यह है—

आघातागच्छानुत्तरायुगानि यत्र जामयः कृण्वन्नजामि ।

उपवर्द्धि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छंस्व सुभगे पतिं मत् ॥

इसका अर्थ निरुक्त अ० ४, ख० २० के अनुसार निम्नलिखितरूप होता है । यमयमी संवादमें यमी अपने भ्राता यमको उसके साथ कामसम्बन्ध

करनेको कह रही है, किन्तु यम उत्तर देता है कि “अभी पापमय कलियुग नहीं आया है जिसमें ऐसे अनाचार भी होंगे, इसलिये तुम अन्य किसीको पति बना लो, मुझसे कामसम्बन्ध नहीं हो सकता ।” (आघातागच्छान् उत्तरायुगानि) आगे ऐसा युग आने वाला है, (यत्र जामयः कृएवन् अजामि) जिसमें भगिनियां भगिनीधर्मके विरुद्ध कार्यको करेंगी, (वृषभाय वाहु उपवर्तुहि) अभी ऐसा युग नहीं आया है इसलिये योग्य पतिका प्राणिग्रहण करो, (सुभगे ! मत् अन्यत् पतिं इच्छस्व) हे भगिनि ! मुझसे भिन्न दूसरे पतिकी इच्छा करो । इस मन्त्रमें भ्राता भगिनीका सम्वाद है नियोग सूचक कोई भी मन्त्र न होने पर भी अर्वाचीन लोगोंने वृथा प्रसङ्ग बदलकर झूठा अर्थ किया है । और साथ ही साथ कुन्ती और माद्रीका दृष्टान्त देकर पक्ष-समर्थनकी चेष्टा की है । महाभारतके पढ़ने वाले जानते हैं, कुन्ती माद्रीने नियोग नहीं कराया था और न उसमें देवनाओंसे स्थूल मैथुनसम्बन्ध ही हुआ था । यह केवल दैवीशक्तिके प्रभावसे दैवीसृष्टि थी, इसके साथ स्थूल मैथुनी सृष्टिकी तुलना नहीं हो सकती । इस प्रकार मनुसंहिताके नवमाध्यायके दो श्लोकोंका मतलब बिगाड़कर अर्वाचीन लोगोंने स्वमतपुष्टिका प्रयत्न किया है । यथा :—

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामर्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥

इसमें पहिला श्लोक पुरुषके विषयमें और दूसरा श्लोक स्त्रीके विषयमें है और पूर्वापर श्लोकोंका सम्बन्ध मिलानेसे ‘नियोग’ का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है । इतना ही निकलता है कि विदेश जानेसे पहिले पति स्त्रीके आसाच्छादनकी व्यवस्था कर जावे । यदि धर्मकार्यके लिये पति विदेश गये हों तो आठ वर्ष, विद्या या यशके लिये गये हों तो छः वर्ष और कामसेवाके लिये गये हों तो तीन वर्ष तक पत्नी प्रतीक्षा करे और पश्चात् पतिके पास चली जावे । जैसा कि वशिष्ठ स्मृतिमें लिखा है—

प्रोषितपत्नी अष्टवर्षाण्युपासीत् उद्ध्वं पतिसकाशं गच्छेत् ।

प्रचासी पतिको स्त्री आठवर्ष प्रतीक्षा करके पतिके पास चली जाय । इस प्रकार दूसरे श्लोकका अर्थ प्रकरणानुसार यह होता है कि यदि बन्ध्या स्त्री हो तो विवाहकालसे आठ वर्षके बाद, मृतवत्सा हो तो दस वर्षके बाद, केवल कन्या प्रसव करनेवाली हो तो ग्यारह वर्षके बाद और पतिको दुःख देनेवाली हो तो शीघ्र ही पति दूसरा विवाह कर सकता है । इस श्लोकमें केवल बंशुरजा और सुसन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही ऐसी आशा दी गई है । इसमें नियोगका कोई वाक्य नहीं है । अर्वाचीन पुरुषोंने इसके साथ और भी एक असम्बद्ध बात यह लिखी है कि “यदि पुरुष दुःखदायी हो तो स्त्रीको उचित है कि उसे छोड़ दूसरे पतिसे नियोगकर उससे सन्तानोत्पत्ति कर उसी विवाहित पतिका दायभागी पुत्र बना देवे” । क्या यह सम्भव हो सकता है कि स्त्री पतिसे लड़कर दूसरे पुरुषसे यदि सन्तानोत्पादन करे तो उसे और उसके लड़केको पति धर्ममें धुसने देंगे और ऐसे व्यवहारसे उत्पन्न सन्तानका दायभागमें किस शास्त्रके अनुसार अधिकार दिया जा सकता है ? ये सब युक्तियां तथा प्रमाण बिलकुल व्यर्थ हैं और नियोगपर अर्वाचीन जनोंका विचार प्रारम्भसे अन्ततक सम्पूर्ण भ्रमात्मक है यही सिद्ध हुआ ।

नियोगके विषयमें शंका समाधान करके अब विधवाविवाहके विषयमें शंका समाधान किया जाता है । यह बात पहिले ही कही गई है कि स्त्रीजाति प्रकृतिका श्रंग होनेके कारण उसमें विद्या व अविद्या दोनों प्रकृति विद्यमान हैं । अविद्याभावके कारण पुरुषसे आठगुणा काम अधिक होने पर भी विद्याभावके कारण उसमें पुरुषसे धैर्य अधिक है । अतः जिस प्रकार किसीकी ऐसी प्रकृति यदि हो कि एक छटांक भोजनसे भी निर्वाह कर सकता है और लोभ बढ़ाया जाय तो मन मन भर खिलानेसे भी तृप्ति नहीं होता है, तो उसके लिये एक छटांकमें निर्वाह करानेका अभ्यास कराना ही बुद्धि व विचारका कार्य्य होगा और मनभर-खानेका लोभ दिलाना अविचारका कार्य्य होगा । ठीक उसी प्रकार जब स्त्रीजाति-की प्रकृति ही ऐसी है कि एकपतिव्रता होकर तपोधर्मके अनुष्ठान द्वारा उसीमें आनन्दके साथ निर्वाह करके मुक्ति पा सकती है और अनेक पुरुषोंके साथ सम्बन्ध करनेका लोभ दिलानेसे अज्ञान कामभोग करके संसार व अपनेको भ्रष्ट कर सकती है, तो स्त्रीके लिये वही धर्म व विचारका कार्य्य होगा जिससे उसमें

एकपतिव्रताका संस्कार बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषोंसे सम्बन्धका भाव कुछ भी न हो । विषयसुख एक प्रकार चित्तका अभिमानमात्र होनेसे पुरानेकी अपेक्षा नवीन वस्तुमें अधिक रुखबोध होने लगता है क्योंकि पुरानी वस्तु अभ्यस्त होनेके कारण उसमें ऐसा अभिमान भी कम हो जाता है । नवीनमें नवीन सौन्दर्य आदिका अभिमान होनेसे नवीन सुख व आग्रह होने लगता है । यह सब मायाकी ही लोला है । इसी सिद्धान्तके अनुसार जिसमें काम जितना होगा उसमें नवीन भोगकी लालसा भी उतनी ही होगी । अतः पुरुषसे स्वामें कामका वेग जब आठगुणा अधिक है तो स्त्रीमें नवीन नवीन पुरुषसम्भोग-लालसाभी पुरुषसे आठगुणा अधिक होगी । इसीलिये महाभारतमें कहा गया है कि:—

न चाऽऽसां मुच्यते कश्चित्पुरुषोहस्तमागतः ।

गावो नवतृणान्येव गृह्णन्त्येता नवं नवम् ॥

जिस प्रकार गौ नई नई घास खानेकी इच्छासे एकही स्थानपर न खाकर इधर उधर मुंह मारती रहती है उसी प्रकार नवीन नवीन पुरुषभोगकी स्पृहा स्त्रियोंमें स्वाभाविक है । उनके हाथमें आया हुआ कोई पुरुष खाली नहीं जा सकता है । यही स्वाभाविक नवीन नवीन भोगस्पृहा स्त्रीजातिमें अविद्याका भाव है । पातिव्रत्यके द्वारा इस अविद्याभावका नाश होकर विद्याभावकी वृद्धि होती है, परन्तु विधवा विवाहके द्वारा विद्याभावका नाश होकर अविद्याभावकी ही वृद्धि होगी जिससे स्त्रीजातिका सत्यानाश हो जायगा । जिस दिन विचारी अवला स्त्रियोंको यह आज्ञा दी जायगी कि उनके एक पतिके मरनेके अनन्तर नवीन पति उन्हें मिल जायगा और इस प्रकारसे अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध करती हुई भी वे धार्मिका रह सकेंगी, उस दिनसे उनके चित्तमें नवीन नवीन पुरुषोंसे सम्बन्धकी इच्छा कितनी बलवती हो जायगी इसको सभी लोग समझ सकते हैं । धर्मका लक्ष्य कामादि प्रवृत्तियोंको रोककर निवृत्तिकी पुष्टि करना है, परन्तु जब अज्ञान कामभोग करनेपर भी पतिव्रता व धार्मिका रह सकती हैं ऐसी आज्ञा उन्हें मिल जायगी तो कौन चाहता है कि कठिन तपश्चर्या व एकपतिव्रतका पालन करे, उस समय सभी स्त्रियोंके चित्तमें आठगुणा काम व नवीन पुरुषोंसे भोग करनेका दावानल धक्ककाकर जल उठेगा जिसके तेजसे संसारकी शान्ति व प्रेम आदि सब कुछ नष्ट

होकर ससार भीषण श्मशानरूपमें परिणत हो जायगा । इस प्रकार विधवा-विवाहकी आज्ञाके द्वारा सतीत्वरूपी कल्पतरु, जिसके अमृतफल श्रीभगवान् कृष्णचन्द्र, श्रीभगवान् रामचन्द्र, ऋषि, महर्षि व ध्रुव एवं प्रह्लाद आदि हैं और जिस कल्पतरुके मधुरफल भगवान् शङ्कर व महाराणा प्रताप आदि हैं उसके मूलमें कठिन कुठारका आघात होकर उसे नष्ट कर देगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । भारतसे सतीधर्मका गौरव, जिस गौरवके कारण आज भी भारत इतनी हीनदशा होनेपर भी समस्त संसारमें खानगुरु होकर इतने विप्लवोको सहन करना हुआ अपनी सत्ताके प्रतिष्ठित रखनेमें समर्थ हुआ है, वह भारत-गौरव-रवि चिरकालके लिये अस्त होकर भारतको घोर अज्ञानान्धकारमय नरकरूपमें परिणत कर देगा एवं दुःख, दारिद्र्य, अविद्या और अशान्ति आदि पिशाचिनी उस नरकमें नृत्य करेंगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । संसारमें कितनी ही जानियां कालसमुद्रपर बुद्बुद्की तरह उठकर पुनः कालसमुद्र में ही विलीन होगईं, आज उनका नाम निशान भी नहीं है, हमारे भारतने केवल माताओंको ही कृपासे व सतीधर्मके पलसे चिरजीवी आर्य्यपुत्रोको उत्पन्न करके आर्य्यजातिको जीवित रक्खा है । यह महिमा एवं आर्य्यजातिकी यह चिरायुता पातिव्रत्यके नाशसे पूर्ण नष्ट हो जायगी, जिससे आर्य्यजाति ही नष्ट हो जायगी । केवल आर्य्यजाति ही नहीं, परन्तु विधवा विवाहके प्रचार होनेसे घर घरमें घोर अशान्ति फैल जायगी । आर्य्यशास्त्रोमे सती चार प्रकार की कही गई है । उत्तम सती वह है, जो अपने पतिको ही पुरुष देखे और अन्य पुरुषोंको स्त्री देखे अर्थात् उनमें सतीत्वका भाव इतना उच्च है व धारणा इतनी पूर्ण है कि सिवाय पतिके और किसी मनुष्यमे पुरुषभावकी दृष्टि ही नहीं होनी है । मध्यम सतीका यह लक्षण है, कि जो अपने पतिको ही पति समझे एवं अपनेसे अधिक आयुवाले पुरुषोको पिता, समान आयुवाले पुरुषको भ्राता व कम आयुवाले पुरुषों को पुत्र समझे । तृतीय श्रेणीकी सती वह है, कि जिसमें धारणा इतनी पक्की न होनेपर भी धर्म व कुल मर्यादा आदिके विचारसे जो शरीर व अन्तःकरणको पवित्र रखे । और अधम सती वह है कि जो मनके द्वारा परपुरुषचिन्ताको न छोड़ सकने पर भी स्थूल शरीरकी पवित्रता रक्षा करे । इस प्रकारके पातिव्रत्यके प्रभावसे ही शास्त्रोमे कहा गया है कि :—

अर्द्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ।
 भार्यावन्तः क्रियावन्तो भार्यावन्तः श्रियाऽन्विताः ॥
 सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः ।
 पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्त्तस्य मातरः ॥

संसारमे स्त्री पुरुषकी अर्द्धाङ्गिनोस्वरूपिणी व परम मित्ररूपा है । जिनकी भार्या है उन्हीकी सब धर्मकार्य्यामे सफलता व श्रांतिवृद्धि हुआ करती है । एकान्तमें प्रियवादिनी सखी, धर्म कार्य्यामें पिताके सदृश सहायता देनेवाली और रोगादि क्लेशोंके समय माताकी तरह शुश्रूषा करनेवाली भार्या ही हुआ करती है । दुःखमय संसारमें गृहस्थ पुरुषोंको यदि कोई गार्हस्थ्य शान्ति है, तो यही है, कि उनके घरमे उनकी सम्पत्तिके समय अधिकतर आनन्ददायिनी और विपत्तिके समयपर अर्द्धांशभागिनीरूपसे विपत्तिके भारको कम करके हताश हृदयमें आशाभूतसिञ्चनकारिणी सहधर्मिणी है, जो कभी स्वप्ने भी परपुरुषको नहीं जानती है, परन्तु विधवा-विवाहके प्रचारके द्वारा पुरुषके हृदयमें बद्धमूल यह आशालतिका दग्ध होकर हृदयको भीषण मरुभूमिरूपमे परिणत कर देगी । क्योंकि पुरुषके चित्तमें सदा ही यह सन्देह उत्पन्न होता रहेगा कि “न जाने कब यह मेरी स्त्री मुझे मारकर दूसरेसे विवाह कर लेगी, क्योंकि स्त्रीप्रकृति नवीन नवीन पुरुषको चाहने वाली है, विधवा-विवाहके प्रचारसे नवीन नवीन पुरुष प्राप्त करना धर्मरूप होगया है इसलिये वह क्यों मेरे जैसे पुरानेके पास रहेगी, अनेक दिनोका सम्बन्ध होनेके कारण मैं पुराना होगया हूँ, मेरा शरीर भी नाना कारणोंसे उसकी पूर्ण तृप्ति करने लायक नहीं रह गया है” इत्यादि इत्यादि । और इस प्रकारकी चिन्ता उस दशामें स्वाभाविक भी है, क्योंकि विधवा विवाहकी आज्ञाको धर्म कहकर प्रचार करनेसे स्त्रीजातिके चित्तसे सतीत्वका संस्कार ही नष्ट हो जायगा, जिससे एक पतिमें ही सयमपूर्वक निश्चुक्त रहनेकी कोई आवश्यकता स्त्रियां नहीं समझेंगी और इसका यही फल होगा कि स्त्रीजातिकी स्वाभाविक काम-पिपासा व नवीन नवीन पुरुषभोगप्रवृत्ति अत्यन्त बलवती होकर स्त्रीचित्तकी सत्ताका नाश कर देगी । और जहाँ एक धार सतीत्वका बन्धन टूट गया, फिर कहना ही क्या है ? उसे कभी रोक नहीं सकते । शेरको नररक्तका स्वाद मिलने पर उसकी मनुष्य मारनेकी प्रवृत्ति कभी नहीं नष्ट हो सकती है । अतः

इस प्रकारकी आत्मा देनेका यही फल होगा कि गृहस्थाश्रममें बड़ी भारी अशान्ति फैलेगी, गृहस्थाश्रम श्मशान हो जायगा, उसकी गृहलक्ष्मी अपने स्वरूपको छोड़कर पिशाचिनी बनकर उसी श्मशानमें नृत्य करेगी, प्रेमकी मन्दाकिनी शुष्क हो जायगी, कामका हुताशन भीषणरूपसे जलने लग जायगा और पतिका पवित्र देह उसी हुताशनमें आहुतिरूप हो जायगा । ससारमें थोड़ी थोड़ी बातपर ही लड़ाई होगी, लड़ाईमें दाम्पत्यप्रेम नष्ट हो जायगा, पति सदा ही स्त्रीसे डरने लगेंगे, “क्या जाने कब मुझे मार न देवे, मेरा शरीर कुछ बृद्ध होगया है, बहुत सुन्दर भी नहीं है, मैंने आज धमकाया था, उसको क्रोध तो नहीं आगया, शायद क्रोध करके मुझे रातको मार न दे, किसी दूसरेसे गुप्त प्रेम करके मुझे दूधके साथ ज़हर देकर मार न डाले क्योंकि मेरेसे उसका चित्त नहीं भरता है, मैं पुराना व बूढ़ा हो गया हूँ” इत्यादि इत्यादि सब दुर्दशाएं गृहस्थाश्रममें होने लग जायेंगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । पुरुषको सामान्य रोग होते ही वह आधे रोगमें चिन्ताहीसे पूरा मर जायगा क्योंकि उधर तो आठगुणी कामकी अग्नि निशिदिन आहुतिके लिये लहलहाता है और इधर रोगसे विषय भोगकी शक्ति कम होगई है अतः इस दशामे व्यभिचारका भय व मार डाले जानेका भय सदैव पुरुषको सताया करेगा और वह सामान्य रोगसे ही दुश्चिन्ताके कारण मर जायगा, सब स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जायगी, पतिकी यात नहीं सुनेगी, पतिको रोटी मिलनी कठिन हो जायगी, वे कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि जहां कुछ कहे वही मरनेका डर, विषका डर और हत्याका डर लगेगा, वह स्त्री नाराज़ होकर सब कुछ कर सकती है, अन्य पुरुषसे मिलकर उसे मार डाल सकती है क्योंकि तब तो अन्य पुरुषसे मिलना धर्म हो जायगा । यही सब विधवा-विवाहका भारतको श्मशान बनानारूप विषमय फल है जिसको विचारवान् व दूरदर्शी पुरुष विचार कर देखनेसे अन्तरशः सत्य जान सकेंगे । क्या यही सब भारतवर्षकी उन्नतिका लक्षण है ? इसी प्रकार करनेसे भारतवर्षकी उन्नति होगी ? यही सब आर्यत्वका लक्षण है ? समुद्रके गर्भमें डूबजाय वह भारत और नष्ट हो जाय वह आर्यजाति जिसमें अपने आर्यभावको नष्ट करके इस प्रकारके अनार्य्य आचारको ग्रहण करना ही उन्नतिका लक्षण हो । प्रमादी हैं वे लोग जो इन सब विषयोंको बिना सोचे ही पवित्र आर्य्यजातिके मौलिक भावोंके उड़ा देनेमें अपना पुरुषार्थ और देशकी उन्नति समझते हैं । उन्नति अपने जातिगत संस्कारोंकी उन्नतिसे

हुआ करती है, अपनी सत्ताको नष्ट करके नहीं हो सकती है। भारत यूरोप होकर उन्नत नहीं हो सकता है, आर्य्य अनार्य्य होकर उन्नत नहीं हो सकते हैं और आर्य्यसतियां विलायती मेम बनकर उन्नत नहीं हो सकती हैं, परन्तु सीता सावित्री बनकर ही उन्नत हो सकती हैं, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है। इन्हीं सब कारणोंसे मनुजीने स्त्रोके लिये द्वितीयवार विवाह मना किया है।

अब जो वाग्दत्ता कन्याके विवाहका विषय है सो इस विषयमें भी मनुजीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा है। यथा :—

यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥

यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रताम् ।

मित्यो भजेताऽऽप्रसवात्सकृत्सकृदतादृतौ ॥

(६म अध्याय)

यदि विवाहसे पहिले वाग्दत्ता कन्याके पतिकी मृत्यु हो तो इस नियमानुसार देवरके साथ उसका संसर्ग हो सकता है, कि यथाविधि इस प्रकारकी स्त्रीको प्राप्त करके देवर सन्तान होनेतक प्रतिश्रुतमें उससे संसर्ग करे, परन्तु वह स्त्री शुभ्र वस्त्र पहिनी हुई व शुचित्रता होनी चाहिये। शुभ्र वस्त्र पहनना व शुचित्रत होना विधवाका धर्म है, सधवाका नहीं है। अतः इस प्रकारकी आज्ञाके द्वारा मनुजी वाग्दत्ताका विवाह नहीं बता रहे हैं, केवल सन्तानोत्पत्ति करना ही बता रहे हैं। अधिकन्तु यदि कोई मनुष्य ऊपरके श्लोकोंसे वाग्दत्ताका विवाह समझ लेवे तो इस सन्देहके निराकरणार्थं मनुजीने पुनः तीसरे श्लोकमें कहा है कि :—

न दत्त्वा कस्यचित् कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्नोति पुरुषोऽनृतम् ॥

एक बार वाग्दान करके ज्ञानी लोगोंको अपनी कन्याको अन्य पात्रमें समर्पण नहीं करना चाहिये क्योंकि एक पुरुषको दान करना अङ्गीकार करके दूसरेको देनेपर समस्त संसारको प्रसारणा करनेका पाप होता है। मनुजीकी यह आज्ञा उत्तम कोटिकी है। परन्तु भिन्न भिन्न देशकालके विचारसे अन्यान्य स्मृतियोंमें मध्यम कोटिकी भी आज्ञार्थ मिलती है तदनुसार वाग्दत्ता कन्याका अन्य पात्रमें समर्पण भी माना जाता है। उनका यह सिद्धान्त है कि मन्त्रसंस्कारके

अनन्तर सप्तपदीगमन होनेसे ही जब कन्या पर पूर्णतया वरका अधिकार होता है तो केवल वाग्दत्ता होनेसे पूरा दान नहीं हुआ अतः उसका विवाह हो सकता है । वशिष्ठसंहितामें लिखा है कि:—

अद्भिर्वाचा च दत्तायां भ्रियेताऽथो वरो यदि ।
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥
यावच्चेदाहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥

यदि ऐसा हो कि केवल जलसे या वाक्यसे दानमात्र हुआ है परन्तु मन्त्रोंके द्वारा सस्कार नहीं हुआ है, तो इस दशामे वरकी मृत्यु होनेसे वह कन्या पिताकी ही रहेगी । इसलिये मन्त्रसंस्कृत न होनेके कारण वह कन्या अन्य पात्रमें दी जा सकती है क्योंकि ऐसी अवस्थामें वाग्दत्ता कन्या और अवाग्दत्ता कन्या दोनों ही बराबर हैं । यही उत्तम तथा मध्यम कोटिका विचार है । इसी प्रकार महर्षि पराशरके 'नष्टे मृते' इत्यादि श्लोकोंमें भी 'अपतौ' शब्दके प्रयोगसे वाग्दत्ता प्रकरणका ही ग्रहण किया गया है । अर्वाचीन पुरुषोंने जो 'तामनेन विधानेन' इत्यादि श्लोकसे अज्ञनयोनि विधवाका विवाह बताया है यह उनकी भूल है । इसका प्रकरणानुसार अर्थ ऊपर बताया गया है ।

अन्तमें एक दो विषय और भी विचार करने योग्य हैं । ऊपरलिखित नियमोंके अनुसार विधवाओंकी रक्षा व शिक्षा होनेसे वैधव्य दशामें पातिव्रत्यधर्मका पूर्ण पालन हो सकेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्तु यदि प्रारब्ध मन्द होनेके कारण इतनी शिक्षा देनेपर भी कोई विधवा अपने धर्मका पालन न कर सके और अज्ञान व्यभिचार द्वारा कुलमें कलङ्क आरोपण करने लगजाय या विधर्मियोंके साथ भागने लगे तो उस दशामें असच्छूद्रजातियोंके सिवाय अन्यके लिये यही करना होगा कि अनेक पुरुषोंका सङ्ग व अज्ञान व्यभिचारको घटानेके लिये एक पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे जातिसे अलग कर देना होगा । इस प्रकारसे पुरुषसम्बन्ध करा देना आदर्शधर्म नहीं होगा या विवाह नहीं कहलावेगा, परन्तु अनेक पुरुषसङ्ग द्वारा अधिक व्यभिचारसे बचानेके लिये एक पुरुष सग्रहमात्र कहलावेगा । अतः ऐसी पतिता स्त्रीको घरमें सती स्त्रियोंके साथ कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि ऐसा होनेसे कुसङ्गके कारण सतियां भी बिगड़ जायगी, कमसे कम उनके चित्तसे पातिव्रत्यकी

गभीरता कम हो जायगी, ऐसी स्त्रियों तथा पुरुषोंकी एक जाति या कई एक जातियाँ अलग अलग बन सकती हैं । इस प्रकार सती व असती स्त्रियोंमें भेद रखने पर सती स्त्रियों पर बड़ा ही श्रद्धा प्रभाव पड़ेगा, वे मनसे भी सती धर्मसे च्युत नहीं होंगी और विधवा होनेपर भी व्यभिचार करनेकी इच्छा नहीं करेगी, कमसे कम शरीरको तो पवित्र रखेगी ।

मनुजीने अपनी संहिताके नवम अध्यायमें ऐसा ही एक वैदिक विवाह संस्कारके अतिरिक्त पुनर्भूस्कार लिखा है । यथा:—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागताऽपि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥

दोपी होनेसे पतिने त्याग कर दिया है अथवा विधवा हो गई है ऐसी स्त्री अपनी इच्छासे किसीकी स्त्री बनकर अर्थात् व्यभिचार द्वारा जो पुत्र उत्पन्न करे उसे पौनर्भव पुत्र कहते हैं । ऐसी कुलक्षणाक्रान्त कोई विधवा अक्षतयोनि हो अथवा कोई सधवा घरसे भागकर फिर लौट आई हो तो ऐसे ही किसी पौनर्भव पुरुषके साथ उसका विवाह हो सकता है । इस श्लोकमें पौनर्भव पति साधारण पुरुष नहीं है परन्तु घरसे भागी हुई या परित्यक्ता या विधवा स्त्रीके व्यभिचारके द्वारा उत्पन्न पुरुष है । अतः वर्तमान आपत्कालमें भी हिन्दुजातिके भीतर यदि ऐसा कोई पन्थ बन जाय जो ऐसे स्त्री पुरुषोंको विधर्मी होनेसे बचा ले तो हम उससे रोटी बेटोंका सम्बन्ध न रखनेपर भी उसको हिन्दु मान सकते हैं । और ऐसा माननेसे वर्तमान समयमें अनेक पतित स्त्री पुरुषोंकी रक्षा होगी तथा दूसरी ओर आर्य्य नर नारियोंका उच्चमादर्श बच जायगा । यही वर्तमान आपत्काल के अतुकूल विचार है । अर्वाचीन पुरुषोंने जो इस श्लोकके द्वारा प्रत्येक अक्षतयोनि स्त्रीका पुनर्विवाह लिखा है यह उनकी भूल है । क्योंकि शिक्षा पानेपर क्षतयोनिकी अपेक्षा अक्षत योनि स्त्री अपने ब्रह्मचर्य्यको अधिक सुविधासे रख सकती है । गृहस्थ होकर किसी वस्तुका स्वाद पाकर उसे छोड़नेकी अपेक्षा पहिलेसे ही छोड़ना अधिक सुविधाजनक अवश्य है । अतः इन्हीं सब विचारों द्वारा सावधान होकर सतीधर्मकी रक्षा करनी चाहिये ।

विवाहकाल निर्णय ।

हिन्दु नरनारियोंके लिये मौक्षप्रद धर्मका विचार करके अब किस उमरमें स्त्री पुरुषका विवाह होनेसे इस परम धर्मकी अन्यायास रक्षा हो सकती है इस पर विवेचन किया जाता है ।

विवाहके विज्ञानपर संयम करनेसे ज्ञात होगा कि पुरुषशक्तिके साथ स्त्रीशक्तिको मिलाकर नवीन पदार्थको उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह है । इन दोनों शक्तियोंका मेल एक प्राकृतिक व्यापार है इसलिये अणु-परमाणु-से लेकर परमात्मा पर्यन्त इस प्रकार दोनों शक्तियोंका सम्मेलन देखनेमें आता है । अणुओंमें (Positive and negative power) पुरुषशक्ति व स्त्रीशक्ति विद्यमान रहती है । द्रव्यणुक आदि क्रमसे स्थूल जगत्की सृष्टि इन दोनों शक्तियोंके सम्मेलनसे ही होती है । स्त्रीपरमाणु व पुंपरमाणु मिलकर स्थूल सृष्टिको बनाते हैं । साधारणतः गर्भाधानके समय भी रजोवीर्यके मेलके द्वारा दोनों ही शक्तियुक्त परमाणुओंका सम्मेलन सन्ततिके स्थूल शरीर उत्पन्न करनेके लिये होता है । इन्हीं दोनों शक्तियोंका सम्मेलन और उससे सृष्टि उद्भिज्ज जगत्में भी देखनेमें आती है । वृक्ष भी स्त्री व पुरुष दोनों प्रकारके होते हैं जिनके पराग या पुष्परेणु पृथक् पृथक् होते हैं । पुपरागके साथ वायु या भ्रमरके द्वारा स्त्रीपरागका प्राकृतिकरूपसे सम्बन्ध होनेसे ही उद्भिज्ज सृष्टि होने लगती है । कहीं कहीं एक पुष्पमें भी दो शक्ति रहती है । पुशक्तियुक्त पुपराग पुष्पके ऊपरके भागमें और स्त्रीशक्तियुक्त स्त्रीपराग पुष्पके गर्भ (बीज) में रहता है । भ्रमर अपने शरीरके ऊपर वह पुपराग लगाकर पश्चात् पुष्पगर्भस्थ स्त्रीपरागसे पुपरागको प्राकृतिक रीति पर ही मिलता है और इसी प्रकारसे उद्भिज्ज सृष्टि होती रहती है । इसी रीति पर स्वेदजयोनिके जीवोंके जो स्थूल शरीर है उनकी भी सृष्टि पुरुषपरमाणु व स्त्रीपरमाणुके सम्मेलनसे होती है । अण्डज व जरायुजमे तो इस प्रकार दो शक्तिके सम्मेलनसे सृष्टि प्रत्यक्ष ही है । सृष्टिधाराके विस्तारके लिये इन दोनों शक्तियोंका सम्मेलन करना विवाहका प्रथम उद्देश्य है ।

मनुष्ययोनि प्राप्त करके जीवके स्वतन्त्र होनेसे इन्द्रियलालसा अत्यन्त बढ़ जाती है । प्रत्येक पुरुषके चित्तमें सभी स्त्रियोंके लिये और प्रत्येक स्त्रीके

चित्तमें सभी पुरुषोंके लिये भोगभाव प्राकृतिकरूपसे विद्यमान है। उसीको सङ्कोच करके एक पुरुष व एक स्त्रीके परस्परमें प्रवृत्तिको बंधकर धर्मके आश्रयसे, भावशुद्धिसे तथा बहुत प्रकारके नियमोंसे उस प्रवृत्तिको भी धीरे धीरे घटाकर अन्तमें महाफला निवृत्तिमें ही मनुष्यको लेजाना विवाहका दूसरा उद्देश्य है।

विवाहका तीसरा उद्देश्य प्रजोत्पत्ति द्वारा वंशरक्षा और पितृ-ऋण शोध करना है। श्रुतिमें लिखा है कि:—

प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।

पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे प्रजाका सूत्र अटूट रखना चाहिये। मनुजीने कहा है कि:—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्ययः ॥

अधीत्य विधिवद्देदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

ऋषि-ऋण, देव-ऋण व पितृ-ऋण तीनों ऋणोंको शोध करके मोक्षमें चित्तको लगाना चाहिये। ऋणत्रयसे मुक्त न होकर मोक्षधर्मका आश्रय लेनेसे पतन होता है। स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण और यज्ञसाधन द्वारा देव-ऋणसे गृहस्थ मुक्त होते हैं। आकुमारब्रह्मचारीके सब ऋण ज्ञानयज्ञमें लय होते हैं। उसको उक्त प्रकारसे ऋणत्रयसे मुक्त नही होना पड़ता है, परन्तु गृहस्थके लिये पितृ-ऋणादि शोध करनेके लिये पुत्रोत्पादनादि धर्म हैं। यही विवाहसंस्कारका तीसरा उद्देश्य है।

विवाहका चौथा उद्देश्य भगवत्प्रेमके अभ्याससे आध्यात्मिक उन्नति करना है। जीवभाव स्वार्थमूलक है और ईश्वरभाव परार्थमूलक है। मनुष्य जितना ही स्वार्थका सङ्कोच करता हुआ परार्थताको बढ़ाता है उतना ही वह ईश्वरभाव और आध्यात्मिक उन्नतिको लाभ करता है। जिस कार्यके द्वारा इस प्रकार स्वार्थभावका सङ्कोच और परार्थभावकी पुष्टि हो वह धर्मकार्य और भगवत्कार्य है। विवाहसंस्कारके द्वारा मनुष्य इस परार्थ-भावकी शिक्षा प्राप्त करने लगता है क्योंकि पुरुषका जो स्वार्थ अपनेमें

ही बद्ध था वह विस्तृत होकर पहिले स्त्रीमें और पीछे पुत्र कन्या व समस्त परिवारमें बँट जाता है, इससे परार्थभाव बढ़कर आध्यात्मिक मार्गमें उन्नति होती है। यही परार्थभाव अपने घरसे प्रारम्भ होकर क्रमशः समाज, देश व समस्त संसारके साथ मिलजाता है, तभी जीव “वसुधैव कुटुम्बकम्” होकर मुक्त होजाते हैं। विवाहसंस्कारके द्वारा इस भावका प्रारम्भ होता है इसलिये यह प्रधान संस्कार है इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। द्वितीयतः इसके द्वारा भगवत्प्रेमका अभ्यास होता है। सकल रसोके मूलमे सच्चिदानन्दका आनन्द-रस ही भरा हुआ है। वही एकरस मायाके आवरणसे कही प्रेम, कही स्नेह, कही श्रद्धा, कही काम, कही मोह आदि नाना रसोंमे विभक्त होगया है। इन्हीं रसोंके प्रभावकी गतिको मोड़कर भगवान्की ओर लगानेसे ये ही सब भगवत्प्रेमरूप हो जाते हैं। विवाहसंस्कारके द्वारा इसी भगवत्प्रेमका अभ्यास होता है। पति पत्नी परस्परमे प्रीतिभावको बँध करके परोक्षरूपसे भगवत्प्रेमकी ही शिखालाभ करते हैं और उसी परस्परमें अभ्यस्त प्रेमको धीरे धीरे भगवान्की ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति और शुद्ध आनन्दको-लाभ करते हैं। यही विवाहका चौथा उद्देश्य है।

विवाहका अति महान् पञ्चम उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा दम्पतिका जीवन मधुरिमाय व दिव्यभाव पूर्ण होजाता है। प्रेमपाशवद्ध स्त्री पुरुष सदा ही परस्परको सन्तुष्ट रखनेके लिये उत्सुक रहा करते हैं और उसी कारणसे जो कुछ कार्य करते हैं सभीमें उदारता, भावशुद्धि व परार्थपरता बढ़ती है। अच्छी तरहसे पान भोजनादि करनेकी इच्छा सभीमें होती है परन्तु केवल अपने ही सुखके लिये पान भोजनादि करनेमें मनुष्यको लज्जा आती है और वह पान भोजनादि पापभोजनमात्र है। परन्तु यदि ऐसा हो कि एकके पान भोजनादिसे दूसरोंकी आत्मा सन्तुष्ट होगी तो वह पान भोजनादि पापभोजन न होकर देवसेवा होगी। विवाहके द्वारा यही दिव्यभाव दम्पतिके हृदयमे उत्पन्न होता है। इस नश्वर लक्षणभङ्ग शरीरका वेषविन्यास करते हुए किस स्त्रीको लज्जा नहीं आती? परन्तु प्रियतमके आनन्दके लिये शरीरका यत्न होरहा है, अपने लिये नहीं, इस प्रकारकी भावना रखनेसे वेषविन्यासमें लज्जा नहीं आती। अधिकन्तु उसमे यही भाव उत्पन्न होता है कि जितना सौन्दर्य अभी है उससे कोटिगुणा अधिक न होनेसे पति देवताके चरणकमलमे अर्पण करने योग्य

शरीर नहीं होगा । स्त्रीका शरीर, मन, शोभा, सौन्दर्य सभी पतिके सुखके लिये है, अपने लिये नहीं है । प्रकृतिका लीलाविलास उष्ट्रके कुङ्कुमचहनवत् पुरुषके भोग व मोक्षके लिये है यही सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त है । विवाहसंस्कारके द्वारा इस भावकी पुष्टि होकर उदारता व आत्मोन्नति होती है । धनसञ्चय करनेसे धनदान करनेमें आनन्द अधिक है । धनसञ्चय करनेसे जोग कृपण कहकर निन्दा करते हैं और आत्मग्लानि भी होती है, परन्तु पुत्र कन्यादिके पालनके लिये मितव्ययिता व धनसञ्चय आत्मग्लानि उत्पन्न न करके प्रशंसा व सन्तोष ही उत्पन्न करता है । एकके भोजनसे दूसरेकी तृप्ति होगी, एकके सौन्दर्यसे दूसरेको आनन्द मिलेगा, एकके धनसञ्चयसे दूसरेका भावी कल्याण होगा, इस प्रकार साधुजनोचित परार्थभावकी शिक्षा विवाहके द्वारा स्त्री पुरुष सहज ही पाते हैं । स्वार्थको धीरे धीरे परार्थमें मिलाकर लय कर देनेसे ईश्वरभाव उत्पन्न होता है और यही विवाहसंस्कारका उद्देश्य है, इसीलिये विवाहसंस्कार अति उत्तम है । ऊपरलिखित विवाहके उद्देश्योंकी पूर्णताके लिये विवाहकाल निर्णय बहुत विचारपूर्वक होना चाहिये, अन्यथा संसारमें अशान्ति, दाम्पत्य-प्रेमका अभाव और निकृष्ट प्रजोत्पत्तिकी सम्भावना रहती है ।

विवाहकालके विषयमें शास्त्रोंमें मतभेद पाया जाता है । मनुसंहितामें कहा है :—

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराऽधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥

सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, सेवा, उत्तम अन्नराग और पितरोंकी तथा अपनी स्वर्गप्राप्ति, ये सब स्त्रीके अधीन हैं । अतः विवाहकालके विचारमें भी उपर्युक्त दोनों उद्देश्य लक्ष्यभूत रखने होंगे, अन्यथा संसाराश्रममें स्त्री पुरुषको कदापि शान्ति नहीं मिलेगी । आर्यजातिकी और जातियोसे यही विशेषता है कि इसमें सभी विचार आध्यात्मिक लक्ष्यको मुख्य रखकर हुआ करते हैं । केवल स्थूलशरीरको ही मुख्य मानकर जो कुछ विचार हैं, वे आर्यभावरहित हैं अतः इस जातिके लिये हानिकर व जातित्वनाशक हैं । इसलिये बलवान् और स्वस्थशरीर पुत्र उत्पन्न हो और दम्पतिकी भी कोई शारीरिक हानि न हो, विवाहकालके विषयमें केवल इतना ही विचार आर्यजातिके अङ्गुल नहीं होगा परन्तु वह असम्पूर्ण विचार कहा जायगा । आर्यजातिके उपयोगी पूर्ण विचार

तभी होगा जब विवाहकालके विषयमें ऐसा ध्यान रखना जायगा कि विवाहसे उत्पन्न सन्तति स्वस्थ, सबलकाय और धार्मिक भी हो तथा दाम्पत्यप्रेम, संसारमें शान्ति व सबसे बढ़कर पातिव्रत्यधर्ममें किसी प्रकारका आघात न लगे । वर कन्याके विवाहकालके लिये इतना विचार करनेपर तभी वह विचार आर्य्यजातिके उपयोगी व पूर्ण विचार होगा ।

अब विवाहकालके विषयमें स्मृति आदिमें जो प्रमाण मिलते हैं उनपर विचार किया जाता है । मनुजीने कहा है कि :—

त्रिंशद्वर्षो वहेत् कन्यां हृद्यां द्वादशवर्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मं सीदति सत्वरः ॥

तीस वर्षका पुरुष अपने चित्तकी अतृकूला बारह वर्षकी कन्यासे विवाह करे, अथवा चौबीस वर्षका युवक आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करे और धर्महानिकी यदि आशङ्का हो तो शीघ्र भी कर सकते हैं । महर्षि देवलने कहा है कि :—

ऊर्ध्वं दशाब्दाद्या कन्या प्राग्रजोदर्शनात्तु सा ।
गान्धारी स्यात् समुद्राह्वा चिरं जीवितुमिच्छता ॥

दस वर्षसे ऊपर व रजोदर्शनके पहले तक कन्या गान्धारी कहलाती है । दीर्घायु चाहनेवाले माता पिताको इस अवस्थामें उसका विवाह कर देना उचित है । संवत्सहितामें लिखा है कि :—

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।
दशवर्षा भवेत् कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥
तस्माद्विवाहयेत् कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ।
विवाहोऽष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥

आठ वर्षकी अविवाहिता कन्या गौरी, नौ वर्षकी रोहिणी और दस वर्षकी कन्या कही जाती है । इससे अधिक वर्षकी कन्या रजस्वला कहलाती

है। इस प्रकारकी रजस्वला कन्या जिसके घरमें है वहां उसके माता, पिता व ज्येष्ठ भ्राता नरकमें जाते हैं। इसलिये रजस्वला होनेसे पहिले ही कन्याका विवाह करदेना उचित है। आठ वर्षकी अवस्थामें ही कन्याका विवाह प्रशस्त है। यमसहितामे लिखा है कि:—

प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ।

मासि मासि रजस्तस्याः पिता पितृति शोणितम् ॥

कन्याकी आयु बारह वर्ष की होने पर भी जो पिता उसका विवाह नहीं करते हैं उनको प्रतिमास रजोजनित रक्तपानका पाप होता है। पराशर-सहितामें भी ऐसा ही लिखा है। वशिष्ठसहितामे लिखा है कि:—

पितः प्रदानात्तु यदा हि पूर्व्वं,

कन्यावयो यः समतीत्य दीयते ।

सा हन्ति दातारमपीक्षमाणा,

कालाऽतिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥

प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयात्पिता ।

ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥

यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति,

तुल्यैः सकामामभियाच्यमानाम्

भ्रूणानि तावन्ति हतानि ताभ्याम्,

मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ॥

पिताके द्वारा कन्यादान होनेसे पहिले यदि कन्याकाल अतीत होजाय तो ऐसी कन्या कालातिरिक्त गुरुदक्षिणाकी तरह दृष्टिमात्रसे ही दाताको पापग्रस्त करती है। रजस्वला होनेके भयसे ऋतुसे पहिले ही पिता कन्यादान करे, क्योंकि ऋतुमती कन्या अविवाहिता रहनेसे पिताको दोष लगता है। कन्या चाहती है, योग्य वर भी मिल रहा है ऐसी अवस्थामें यदि ऋतुकाल के पहिले कन्यादान न किया जाय तो उस कन्याको जितनी बार ऋतु होगा उतनी बार माता पिताको भ्रूणहत्याका पाप लगेगा।

प्रदानं प्रागृतोरप्रयच्छन्दीषी (गौतमः)

अदृष्टरजसे दद्यात्कन्यायै रत्नभूषणम् (आरवलायनः)

अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रूणहत्यामृताट्टतौ (याज्ञवल्क्यः)

प्रदानं प्रागृतोः स्मृतम् (मनुः)

इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि रजस्वला होनेसे पहिले ही कन्यादानकी आज्ञा दी गई है । अतः इन सब प्रमाणोंसे कन्याकी आयुके विषयमें सामान्यतः आठ वर्षसे लेकर बारह वर्ष तककी आज्ञा और विशेषतः कही आठ वर्षमें विवाह होनेकी प्रशंसा, कहीं दस वर्षमें विवाह होनेकी प्रशंसा और उससे अधिक उमरमें विवाह होनेकी निन्दा तथा कही कही बारह वर्षमें विवाह होनेकी आज्ञा और उससे अधिक आयुमें विवाह होनेकी निन्दाकी गई है, परन्तु सर्वत्र ही एकमतसे ऋतुकालसे पहिले कन्यादानकी आज्ञा है- वास्तवमें कितने वर्षकी आयुमें कन्याका विवाह होना चाहिये इसका निश्चय कभी नहीं हो सकता है, केवल रजस्वला होनेके पहिले होना चाहिये यही साधारणतः निश्चय हो सकता है । इसका कारण क्या है सो बताया जाता है । मनुसंहितामें लिखा है कि:—

स्वां प्रसूतिं चरित्रञ्च कुलमात्मानमेव च ।

स्वञ्च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति ॥

स्त्रीकी सुरक्षासे निज सन्तति, चरित्र, वशमर्थ्यादा, आत्मा और स्व-धर्मकी रक्षा होती है इसलिये स्त्रीकी रक्षा सर्वथा करणीया है । अब यह रक्षा कैसे हो सकती है सो विचार करने योग्य है । पहिले ही कहा गया है कि प्रत्येक स्त्रीके साथ प्रत्येक पुरुषका जो भोग्यभोक्ता सम्बन्ध स्वाभाविक है, उसको अनर्गल होनेसे रोककर एक सम्बन्ध ही में संस्कार व भाव-शुद्धि द्वारा स्त्री पुरुषको बाँधकर प्रवृत्तिमार्गके भीतरसे निवृत्तिमें लेजाना ही विवाहका एक प्रधान लक्ष्य है । इसलिये स्त्रीका व पुरुषका विवाह उसी समय होना चाहिये जिस समय उनमें भोग्य व भोक्ता भावका उदय हो, क्योंकि उस समय विवाहसंस्कार न करानेसे प्रवृत्ति अनर्गल अर्थात् अनेकोंमें चञ्चल होकर अधोगति कर सकती है । यही स्त्री व पुरुष दोनोंके लिये साधारण धर्म है ।

अब उक्त सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखते हुए स्त्री व पुरुष दोनोंकी आयु समान होनी चाहिये या असमान होनी चाहिये और किसकी कितनी होनी चाहिये सो विशेषधर्मके विचारसे तत्त्व निर्णय किया जाता है। पहिले ही कहा गया है कि स्त्रीमें प्रकृतिभावकी प्रधानता और पुरुषमें पुरुषभावकी प्रधानता होनेसे स्वभावतः ही स्त्री अज्ञानमयी व पुरुष ज्ञानमय होता है। मनुजीने कहा है कि :—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।
 स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि पट् ॥
 नैता रूपं परीक्षन्ते नाऽऽसां वयसि संस्थितिः ।
 सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥
 पौश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैस्नेहाच्च स्वभावतः ।
 रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वन्ते ॥
 एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् ।
 परमं यत्प्रमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥

पान, दुर्जनका सङ्ग, पतिसे विरह, इधर उधर घूमना, असमयमें निद्रा व दूसरेके घरमें वास, स्त्रियोंके ये स्वाभाविक छः दोष हैं। स्त्रीजाति, रूप या उमरका कोई भी विचार नहीं करती है। सुन्दर हो या न हो, पुरुष मिल जानेसे ही सम्बन्ध करती है। पुरुषको देखते ही कामेच्छा, स्वाभाविक चित्तचञ्चल्य और स्नेहहीनताके कारण वे पतिके द्वारा सुरक्षित होने पर भी व्यभिचार करती है। विधाताने स्त्रीजातिकी प्रकृति ही ऐसी बनाई है, इस प्रकार जानकर उनकी रक्षा करनेमें पुरुषको सदा ही यत्नशील होना चाहिये। यही स्त्रीप्रकृतिमें तमोमयी अविद्याका भाव है। इसके अतिरिक्त उनमें सत्त्वगुणमयी विद्याका भी भाव है जिससे, जैसे कि पहिले कहा गया है, पुरुषसे भी अधिक धैर्य, पातिव्रत्य, तपस्या और तन्मयता आदि सद्गुण उनमें प्रकट होते हैं। अतः जिस आयुमें विवाह करनेसे स्वाभाविक अविद्याभावका उदय न हो और विद्याभावकी ही दिन-पर-दिन पुष्टि हो, उसी आयुमें कन्याका विवाह होना चाहिये। कन्याकालके विषयमें पहिले ही कहा गया है कि जबतक स्त्री पुरुषके

सामने लज्जिता होकर वस्त्रसे अपने अङ्गोंको आवृत न करे और कामादि विषयोंका ज्ञान जवतक उसको न हो तभी तक स्त्रीका कन्याकाल जानना चाहिये । इसी प्रमाणके अनुसार यही सिद्धान्त होता है कि जिस समय स्त्रीमें स्त्रीसुलभ चाञ्चल्य व स्त्रीभावका विकास होने लगता है और वह समझने लगती है कि “ मैं स्त्री हूँ, वह पुरुष है और हम दोनोंका भोग्यभोकासम्बन्ध विवाहके द्वारा होता है ” उसी समय कन्याका विवाह अवश्य होना चाहिये क्योंकि जिस समय स्त्री पुरुषके साथ अपना स्वाभाविक भोग-सम्बन्ध समझने लगती है, उसी समय विवाह कर देनेसे एक ही पुरुषके साथ नैसर्गिक प्रेम प्रवाहका सम्बन्ध बँध जायगा, जिससे पातिव्रत्यधर्ममें जोकि स्त्रीकी उन्नतिके लिये एकमात्र धर्म है, कोई हानि नहीं होगी । अन्यथा, स्वाभाविक चाञ्चल चित्तको निरङ्कुश छोड़ देनेसे बहुत पुरुषोंमें चाञ्चल्य होकर पातिव्रत्य की गभीरता नष्ट हो सकती है और ऐसा होनेका अवसर देना स्त्रीका सत्यानाश करना है । अतः विवाहका वय इन्ही विचारोंके साथ पिता माताको ठीक करना चाहिये । इसमें कोई नियमित वर्ष नहीं होसकता है क्योंकि देश, काल, पात्रके भेद होनेसे सभी स्त्रियोंके लिये स्त्रीभाव-विकाशका एक ही काल नहीं होसकता है । परन्तु साधारणतः ८ वर्षसे लेकर १२ वर्ष तक, इस प्रकार स्त्रीभाव-विकाशका काल है । इसीलिये मनु आदि महर्षियोंने ऐसी ही आज्ञा की है । विचारमें मतभेद होनेका कारण यह है कि जिस देश कालको मुख्य रखकर जिस स्यूतिमें विवाहके कालका विधान किया गया है उस देश कालमें कन्याभाव कब तक रह सकता है और नारीभाव कब होने लगता है उसीके ही विचारसे कन्याके लिये विवाहकालका निर्णय किया गया है । सात्त्विक स्थूलशरीरमें स्त्रीभावका विकास देरसे होता है परन्तु तामसिक कामज शरीरमें स्त्रीभावका विकास शीघ्र होता है । जिस प्रकार पुरुषशरीर कामज होनेसे उसमें ब्रह्मचर्य-धारणकी शक्ति कम होती है और थोड़ी उमरमें ही यौवन-सुलभ सभी बातें आजाती हैं उसी प्रकार स्त्रीका भी शरीर कामज होनेसे उसमें नारीभावका विकास व चाञ्चल्य शीघ्र होने लगता है । गर्भाधान सङ्कार ठीक ठीक होनेसे सात्त्विक शरीर होता है और उसमें नारीभाव भी देरसे उत्पन्न होता है । परन्तु जहाँ धार्मिक प्रजोत्पत्तिका लक्ष्य न होकर केवल पाश्विक सम्बन्धसे सन्तान होती है वहाँ स्त्री अथवा पुरुषका शरीर व मन भी निकृष्ट होगा इसमें सन्देह ही क्या है ? ये ही सब कारण है जिससे महर्षियोने कन्याके विवाह-

कालके विषयमें भिन्न भिन्न मत बताये हैं । परन्तु ऊपरके प्रमाणोंसे सिद्ध होगा कि विवाहकालके विषयमें महर्षियोंके मतोंमें भेद होने पर भी रजस्वला होनेके पहिले विवाह होना चाहिये इस विषयको सभी महर्षियोंने एकवाक्य होकर स्वीकार किया है और इसमें कभी किसीने मतभेद प्रकाश नहीं किया है । ऋग्वेदमें लिखा है कि :-

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ (मं० १० सू० ८५)

चन्द्र देवताने स्त्रीको प्रथमतः प्राप्त किया, द्वितीयतः गन्धर्व व तृतीयतः अग्निने प्राप्त किया और चतुर्थतः मनुष्यपतिने स्त्रीको प्राप्त किया । इस मन्त्रके भावार्थको न समझकर किसी किसी अर्वाचीन पुरुषने इसे नियोग पर ही लगा दिया है और किसीने इसको विवाहकालमें लगाकर रजस्वला होनेके बाद विवाह होना चाहिये ऐसा अर्थ करनेका यत्न किया है । परन्तु वास्तवमें इसका भावार्थ न नियोगका ही है और न विवाहकाल निर्णय करनेके लिये ही यह मन्त्र है । इसके द्वारा स्त्रीशरीरकी उन्नतिकी अवस्था और इसके करनेवाले तीन देवता बताये गये हैं । रजस्वला होने तक स्त्रीशरीरकी तीन अवस्था होती हैं जिनके करनेवाले तीन देवता हैं, सोम, गन्धर्व और अग्नि । इन तीनोंके द्वारा रजस्वला पथ्यन्त स्त्रीशरीर पूर्ण होने पर तब स्त्री गर्भाधानकी योग्या होती है जिसके करनेका भार मनुष्यपति पर है । इसमें विवाहकी उमरका कोई निर्देश नहीं है । केवल कन्यापनसे लेकर गर्भाधानकाल तक स्त्रीशरीरकी उन्नतिकी तीन दशाएँ बताई गई हैं । अतः इससे विवाहसंस्कारका कालनिर्णय नहीं करना चाहिये । विवाहसंस्कारका सम्बन्ध भावराज्य व सूक्ष्मशरीरके साथ है और गर्भाधानका सम्बन्ध स्थूलशरीरसे अधिक है । दोनोमे बहुत प्रभेद है । अब इस मन्त्रके द्वारा स्त्रीशरीरकी कौन कौन उन्नति किस किस देवताके अधिष्ठानसे होती है सो बताया जाता है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी संहितामें लिखते हैं :-

सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम् ।

पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितो हतः ॥

चन्द्र देवताने स्त्रियोंको शुचिता, गन्धर्वने मधुरवाणी और अग्निदेवताने सबसे अधिक पवित्रता दी है इसलिये स्त्री पवित्र है । इस ऋोकमें देवताओंके

अधिष्ठानसे स्त्रियोंको मधुरवाणी आदिका लाभ होना है ऐसा कहा गया है । गोभिलोय ब्रह्मसूत्रमें लिखा है कि :—

व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो भुञ्जीत कन्यकाम् ।
पयोधरैस्तु गन्धर्व्वो रजसाऽग्निः प्रकीर्त्तितः ॥

स्त्रोलक्षणोंके विकाश होते समय चन्द्रदेवका अधिकार, स्तनविकाशके समय गन्धर्व्वोंका अधिकार और रजस्वला होनेके समय अग्निका अधिकार रहता है । इन तीनों दैवीशक्तियोंके प्रभावसे ही कन्याकालके बाद रजस्वला तक स्त्रियोंकी सर्व्वार्ङ्गपूर्णता हुआ करनी है और इसके अनन्तर ही गर्भाधानसंस्कार होना है जो कि मनुष्यपत्निका कर्त्तव्य है । परन्तु विवाहसंस्कार इन तीनों लक्षणोंके विकाशसे पहिले ही होना चाहिये क्योंकि उसका सम्बन्ध पातिव्रत्य-भावसे है, शरीरसे नहीं है । और इसीलिये गोभिल ऋषिने पूर्व्वोक्त श्लोकके द्वारा स्त्रीशरीरकी उन्नतिकी दशाओंको बनाकर पश्चात् कटा है कि :—

तस्मादव्यञ्जनोपेतामरजामपयोधराम् ।
अभुक्ताञ्चैव सोमाद्यैः कन्यका तु प्रशस्यते ॥

इसलिये स्त्री लक्षण विकाशरूप पयोधर व रजस्वला होनेके पहिले ही या चन्द्रादि देवताओंके कार्थ्यके पहिले ही कन्याका विवाह होजाना प्रशसनीय है । यही सर्व्ववादिसम्मत शास्त्रीय सिद्धान्त है । स्मृतिशेमें कहीं कहीं रजस्वलाके बाद विवाहके वचन जा देखे जाते हैं वे सब आपद्धर्मविषयके हैं । यथा—मनु-संहितामें :—

त्रीणि वर्षाण्युदीकृत कुमार्य्यं तृमती सती ।
ऊर्द्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ (६ अ०)

ऋतुमती होने पर भी यदि माता पिता कन्याको योग्य पात्रमें दान न करें तो वह कन्या ऋतुके बाद तीन वर्षतक प्रतीक्षा करके पश्चात् स्वय ही योग्य पति निर्व्वान्चित कर सकनी है । इस श्लोकमें यदि पिता, माता या आत्मीय कोई विवाह न करावें तब तीन वर्षतक ऋतुके बाद रहनेकी और स्वयंवरा होनेकी आज्ञा मनुजीने की है । यह आपद्धर्म है । इसी आपद्धर्मके सिद्धान्तको और भी कई महर्षियोंने स्वीकार किया है । यथा—वशिष्ठसंहिता में :—

त्रीणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम् !

ततरचतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदृशं पतिम् ॥

अविवाहिता अवस्थामे ऋतुमती होनेपर कन्या तीन वर्षतक पिताकी प्रतीक्षा करके चौथे वर्षमें योग्य पति स्वयं देखलेसकती है। पिता माना यदि किसी स्वार्थवश अयोग्य घर या कन्याके साथ विवाह करानेकी कोशिश करें जैसा कि आजकल कहीं कहीं देखा जाता है तो भी स्त्री पुरुषके लिये स्वयं प्रयत्न करनारूप आपद्धर्मका मौका मिल सकता है। केवल इतना ही नहीं, आपद्धर्ममें तो मनुजी ने यावज्जीवन कुमारी रहनेकी भी आज्ञा दी है। यथा:—

उत्कृष्टायाऽभिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥

काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥

उत्तम कुल-शीलवान् योग्य घर मिलने पर विवाहयोग्या न होने पर भी कन्याको ऐसे पात्रमें यथाविधि दान करे और ऋतुमतीको यावज्जीवन घरमें रखना भी अच्छा है, तथापि गुणहीन पात्रमें समर्पण करना उचित नहीं है। इस प्रकार आपद्धर्मकी बातें अन्यान्य महर्षियोंने भी कही हैं अतः इन सब वचनोंको साधारण विवाह-विधिमें भी नहीं लगाने चाहियें। अब स्मृतिकारगणने कन्या-विवाहकालके विषयमें इतनी सावधानताका अवलम्बन क्यों किया है सो बताया जाता है। यदि महर्षिगण स्त्रीको केवल सन्तान उत्पन्न करनेका यन्त्रमात्र ही समझते तो इतनी बातें कभी नहीं बताते। परन्तु वे इस बातको निश्चित जानतेथे कि स्त्रीमें पतिभ्रम, पातिव्रत्य धर्म व तपस्याभावकी थोड़ी भी न्यूनता होनेसे सन्तति धार्मिक व आर्य्यभावापन्न नहीं होती। इसलिये उन्होंने बहुत विचार करके ऐसी ही विधि बताई है कि जिससे दाम्पत्यभ्रमके द्वारा संसारमें शान्ति रहे, दम्पतिकी शारीरिक व मानसिक कुल्ल भी हानि नहीं हो और सन्तति भी धार्मिक व स्वस्थशरीरवाली उत्पन्न हो।

अब महर्षियोंके द्वारा विहित विवाहसे उक्त बातोंकी सिद्धि कैसे हो सकती है सो बताया जाता है। यौवनके प्रथम विकाशके साथ ही साथ स्त्री पुरुषमें जो भोग्यभोक्ताका ज्ञान होता है यह स्वाभाविक बात है, परन्तु इस

स्वभावके अतिरिक्त स्त्रियोमें जो रजोधर्मका विकास होता है यह बात साधारण व विशेष है । रजोधर्म प्रकृतिकी विशेष प्रेरणा है । इसके द्वारा स्त्री गर्भधारणयोग्या होजाती है, यही प्राकृतिक इङ्गित है । और इसी इङ्गितके कारण रजस्वला होनेके समय अर्थात् ऋतुकालमें स्त्रियोकी कामचेष्टा बहुत ही चलवती हुआ करती है अतः उस समय स्त्रियोमें विशेष चाञ्चल्य होना स्वाभाविक है । यथा—

रजस्वला च या नारी विशुद्धा पञ्चमे दिने ।

पीडिता कामवाणेन ततः पुरुष मीहते ॥ (शाक्तानन्द तरङ्गिणी)

ऋतुस्नाता नारी पांचवें दिन कामपीडिता होकर पुरुषसम्बन्धको चाहती है । इसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये ही महर्षियोंने रजस्वलाके पहिले विवाहकी आज्ञा की है क्योंकि ऐसा न होनेसे नैसर्गिकी कामेच्छा अवलम्बन न पाकर जहां तहां फैलकर पातिव्रत्यमें बहुत हानि कर सकती है । और जहां एक वार निरकुशताका अभ्यास पडा, पुनः उसे रास्ते पर लाना बहुत ही कठिन होजाना है क्योंकि स्त्री-प्रकृति चञ्चल होनेसे थकती नहीं है, अविद्याभावके विकाशके लिये थोडा भी अवसर मिलनेसे उसी भावमें रमजाती है और उसमें पुनः विद्याभावका विकाश करना बहुत ही कठिन हाजाता है । परन्तु पुरुषकी प्रकृति ऐसी नहीं है, उसमें यौवन सुलभ साधारण काम-भाव रहता है, उसमें रजस्वला-दशाका विशेष भाव नहीं है अतः उस साधारण भावका विकाश भी साधारणतः ही होता है एव विशेष प्राकृतिक प्रेरणा स्त्रियोकी तरह नहीं होती है इसीलिये स्त्रियोकी तरह, यौवनके उदयसे भोग्यभोक्ताभाव होतेही, उसी समय विवाह करनेकी प्रबल आवश्यकता उनके लिये नहीं होती है । इसके सिवाय पुरुषके चाञ्चल्यकी सीमा है और उसमें थकान है जिससे स्वभावतः ही पुरुष निवृत्त होकर अपने स्वरूपमें आसकता है । इसी प्रकारकी विशेष धर्मकी विभिन्नताके कारण ही महर्षियोंने स्त्री व पुरुषके विवाहकालमें भी भेद रक्खा है । द्वितीयतः पुरुषमें ज्ञानशक्तिकी अधिकता होनेसे साधारण कामभावको विचार द्वारा पुरुष रोक सकता है, परन्तु स्त्रीमें अज्ञानभावकी अधिकता होनेसे साधारण प्राकृतिक प्रेरणाकी रोकना बहुत ही कठिन होजाता है । तृतीयतः यदि रोक भी न सके तथापि पुरुषके व्यभिचारसे समाजमें व कुलमें दानी हानि नहीं पहुँचती है जितनी स्त्रीके व्यभिचारसे पहुँचती है ।

पुरुषके व्यभिचारका प्रभाव अपने शरीर ही पर पड़ता है, परन्तु स्त्रीके व्यभिचारसे वर्षसङ्कर उत्पन्न होकर जाति, समाज और कुलधर्म सभीको नष्ट कर देता है। इन्हीं सब कारणोंसे स्त्रीके लिये रजस्वला होनेसे पहिले ही विवाहकी आज्ञा की गई है और पुरुषके लिये अधिक उमर पर्यन्त ब्रह्मचारी होकर विद्याभ्यास की आज्ञा की गई है। इसके सिवाय यदि पुरुष भी ब्रह्मचारी न रहसकें तो “धर्ममें सीदति सत्वरः” अर्थात् धर्महानिकी सम्भावना होनेपर शीघ्र भी विवाह कर सकते हैं ऐसी भी आज्ञा मनुजीने दी है। अतः इन सब आध्यात्मिक व सामाजिक बातोंपर विचार करनेसे महर्षियोंकी आज्ञा युक्तियुक्त मालूम होगी। पातिव्रत्यधर्मके पालन किये बिना स्त्रीका अस्तित्व ही वृथा है। इसलिये जिन कारणोंसे पातिव्रत्य पर कुछ भी धक्का लगनेकी सम्भावना हो उनको पहिलेसे ही रोककर जगदम्बाकी अंशस्वरूपिणी स्त्रीजातिकी पवित्रता व सस्वगुणमय विद्याभावकी मर्यादाकी ओर जब पूर्ण दृष्टि होगी तभी आर्यधर्मका पूर्ण पालन होसकेगा ।

आर्यशास्त्रोंमें आध्यात्मिक उन्नतिका साधन स्थूलशरीरको भी माना जाता है। स्थूलशरीरको रक्षाके बिना आध्यात्मिक उन्नतिमें भी असुविधा होती है इसलिये स्त्रीजातिके लिये पातिव्रत्यधर्मके साथ ही साथ स्थूलशरीरकी रक्षा व उन्नति हो इसमें ध्यान रखना योग्य है। माता पिताका शरीर स्वस्थ न होनेसे सन्ततिभी दुर्बल व रुग्ण होती है इसलिये जिससे सन्ततिभी अच्छी हो ऐसा यत्न होना चाहिये। गर्भाधान कालके विषयमें सुश्रुतमें लिखा है कि :—

ऊनपोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं गर्भस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ (अ० १०।४७।४८)

पच्चीस वर्षसे कम आयुका पुरुष यदि सोलह वर्षसे कम आयुकी स्त्रीमें गर्भाधान करे तो गर्भमें सन्तानको विपत्ति होती है और यदि इस प्रकारसे सन्तान उत्पन्न भी हो, तो भी या तो वह अल्पायु होती है या दुर्बलेन्द्रिय होती है, इसलिये कम आयुकी स्त्रीमें गर्भाधान नही करना चाहिये। इस

प्रकारसे सुश्रुतमें जो गर्भाधान कालका निर्णय किया गया है सो अवश्य माननीय है । किसी किसी अर्वाचान पुरुषने सुश्रुतके इस वचनको विवाहकालके लिये लगादिया है सो उनको भूल है क्योंकि इन श्लोकोंमें ही कहागया है कि यह विषय गर्भाधानका है । विवाहकालके विषयमें सुश्रुतके शरीराध्याय १० सू० ५३ में लिखा है—‘अथास्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षीयां पत्नीमावहेत्’ अर्थात् पञ्चोस वर्षके पुरुषको बारह वर्षकी कन्याका पाणिग्रहण करना चाहिये । अब विचार करनेकी बात यह है कि कम आयुमें विवाह व गर्भाधान करनेसे सन्तति दुर्बल होती है और रजस्वला होजानेके बाद विवाह करनेसे पातिव्रत्य धर्ममें बाधा होती है अतः ऐसा कोई उपाय होना चाहिये जिससे सन्तान भी अच्छी हो और पातिव्रत्यरूप विशेषधर्म भी पूरा बनारहे सो कैसे होसकता है यह बताया जाता है । साधारण रजःकालके विषयमें सुश्रुतमें कहा है कि :—

तद्वर्षाद्द्वादशात्काले वर्त्तमानमसूक् पुनः ।

जरापकशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥

साधारणतः १२ वर्षकी आयुसे रजोदर्शन प्रारम्भ होकर ५० वर्षकी आयुमें वार्द्धक्य आनेपर समाप्त होता है । बारह वर्षका काल रजोदर्शनका साधारण काल है । इससे कम आयुमें या अधिक आयुमें भी विशेषकारण होनेपर रजोदर्शन हो सकता है । गर्भाधान सस्कारके साथ इस प्रकारके विशेष कारणका क्या सम्बन्ध है सो पहिले बताया गया है । प्रकृतिके वैलक्षण्यसे भी विशेष कारण होजाता है ऐसा वैद्यकशास्त्रका सिद्धान्त है । यथा—वातप्रधान शरीरमें १२ वर्षमें और पित्तप्रधान शरीरमें १४ वर्षमें प्रायः रजोदर्शन हाता है । इसके सिवाय असमयमें रजोदर्शनके और भी कईएक कारण हैं । यथा—अस्वाभाविक बलप्रयोग, उत्तेजक औषधिसेवन, रतिविषयक चिन्ता और कार्य्य या कथोपकथन इत्यादि । अतः विवाहके पहिले पिता माताको सदा ही सावधानतापूर्वक देखना चाहिये जिससे ऊपर लिखे हुए दोष कभी कन्यामें न होने पावे । इस प्रकारसे पालनकी हुई कन्यामें जब स्वाभाविकरूपसे स्त्रीभाव विकाशकी सूचना होने लगजाय तब उसका विवाह योग्यप्राप्तमें करदेना चाहिये । विवाह करदेनेके बाद ही स्त्री पुरुषका सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । पातिव्रत्यकी सुरक्षाके लिये कन्याके चित्तको पतिरूप केन्द्रमें बांध दिया गया, इसका यह तात्पर्य्य नहीं है कि चाहे रजोदर्शन हुआ हो या नहीं, उस कन्याके साथ उसी समयसे पाशविक व्यवहार शुरू हो

जाय । शास्त्रमें रजोदर्शनसे पहिले स्त्रीगमनको ब्रह्महत्याके समान पापजनक कहा गया है । यथा—स्मृतिमेः—

प्राग्रजोदर्शनात्पत्नीं नेयाद्गत्वा पतत्यधः ।

व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्नुयात् ॥

रजोदर्शनसे पहिले स्त्रीके साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे पुरुषका अधःपतन होता है और इस प्रकार बुढ़्या शुक्लनाशसे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है । अतः विवाहके अनन्तर जबतक स्त्री रजस्वला न हो तबतक कभी उसके साथ सम्बन्ध पतिको नहीं करना चाहिये । कन्यापनमें जो कुछ अपने अधिकारके अलुसार शिक्षा कन्याको प्राप्त हुई थी उसके अनन्तरकी शिक्षा पति उसे दिया करे । पातिव्रत्यकी महिमा, स्त्रीके लिये अनन्य धर्म पातिव्रत्य है, श्री, लज्जा, आह्लाकारिणी होना, आलस्य त्याग और तपस्या आदि, स्त्रीके लिये आवश्यक शिक्षा-योग्य जो धर्म है सो सब वाते सिखाया करे । उसके साथ कामकी बातें कभी नहीं किया करे, परन्तु उसके चित्तमें विशुद्ध प्रेमका अकुर जमाया करे । इस प्रकार रजस्वला होनेके पहिले तक स्त्रीके साथ वचर्चाव होना चाहिये । पश्चात् रजस्वला होनेके बाद भी कुछ समय तक पतिपत्नीको ब्रह्मचर्य्य धारण करना चाहिये । यह बात सत्य है कि रजस्वला स्त्रीमें गमन न करना भ्रूणहत्याके पापके समान है ऐसा महर्षियोने वर्णन किया है । यथा—व्याससंहितामेंः—

भ्रूणहत्यामवाप्नोति ऋतौ भार्यापराङ्मुखः ।

सा त्ववाप्याज्यतो गर्भं त्याज्या भवति पापिनी ॥

ऋतुकालमे अपनी स्त्रीमें गमन न करनेसे पुरुषका भ्रूणहत्याका पाप होता है और यदि ऋतुमती स्त्री दूसरे पुरुषसे गर्भोत्पादन करावे तो वह पापिनी व त्याज्या होती है । स्त्रीका ऋतु होना सृष्टिविस्तारके लिये प्रकृति-की ओरसे प्रेरणा है क्योंकि उसी समय पुरुषका बीज मिलनेसे स्त्री सन्तान उत्पन्न कर सकती है । इसलिये ऋतुकालमें गमन न करनेसे स्वाभाविक सृष्टि-कार्यमें बाधा होनेके कारण पाप होता है, परन्तु यह धर्म साधारण है क्योंकि यह प्रकृतिक साधारण सृष्टिप्रवृत्तिका विषय है । विशेष धर्मको आश्रय करके, यदि स्त्री त पुरुष दोनों ही कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य रत सकें तो कोई

हानि नहीं है । गृहस्थाश्रममें स्त्री पुरुषका यह साधारण धर्म है कि ऋतुकालमें सम्बन्ध करके सृष्टि विस्तार करें, परन्तु यदि कोई गृहस्थ नरनारी निवृत्तिके विशेष अभ्यासके लिये ब्रह्मचर्य्य धारण करें तो उससे अधर्म नहीं होगा, अधिकन्तु धर्म ही होगा और ब्रह्मचर्य्य धारण होनेसे आगेकी सन्तति अच्छी होगी । इसी सिद्धान्तके अनुसार यदि प्रकृतिका वैचित्र्य, गर्भाधान संस्कारकी न्यूनता अथवा और किसी कारणसे जितनी आयुमें शरीरकी पूर्णता होनेसे अच्छी सन्तति होसकती है उससे पहिले ही किसी स्त्रीको रजोदर्शन होजाय तो जबतक शरीर पूर्ण व गर्भाधानके योग्य न हो तबतक दम्पतिके ब्रह्मचर्य्य धारण करनेमें कोई दोष नहीं होगा । सुश्रुतमें जो १२ वर्षमें रजोदर्शनकी सम्भावना बताकर १६ वर्षमें गर्भाधानकी आज्ञा दी गई है उसका यही तात्पर्य्य है और इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य्य रखनेकी आज्ञा अन्यान्य शास्त्रोंमें भी मिलती है ।
यथा—नातीय गृहसूत्र में :—

त्रिरात्रमक्षाराऽलवणाऽशिनौ स्यातामधः ।

शयीयातां संवत्सरं न मिथुनमुपेयाताम् ॥

तीन रात्रि तक लवण व किसी प्रकारका द्धार द्रव्य दम्पति नहीं खावें, भूमिशय्या पर सोवें और एक वर्ष तक ससर्ग न करे इत्यादि । इसी प्रकार संस्कारकौस्तुभमें शौनकने भी कहा है कि :—

अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं तौ द्वादशाऽहमथाऽपि वा ।

शक्तिं वीक्ष्य तथाऽदं वा चरन्तां दम्पतीं व्रतम् ॥

अक्षारलवणाऽऽहारौ भवेतां भूतले तथा ।

शयीयातां समावेशं न कुर्यातां वधूवरौ ॥

विवाहके अनन्तर ३ तीन रात्रि, १२ वारह दिन और यदि शक्ति हो तो वर्ष पर्यन्त दम्पति निम्नलिखित व्रतका पातन करें । द्धार द्रव्य व लवण नहीं खावें, भूमिशय्यापर सोवें और ससर्ग न करे । ब्रह्मपुराणमें भी लिखा है कि :—

कृते विवाहे वर्षैस्तु वस्तव्यं ब्रह्मचारिणा ।

विवाह होनेके बाद बहुत वर्ष तक दम्पतिको ब्रह्मचर्य्य धारण करना चाहिये । एतद्देशमें जो द्विरागमनकी प्रथा है उससे भी ऊपर लिखित भावोंका

आभास पाया जाता है; अर्थात् कन्याका विवाह रजस्वला होनेसे पहिले शास्त्रोक्त समय पर कर देने पर भी कन्याको पिता अपने घरमें ही रखें और कुछ समयके अनन्तर कन्याको पनिसङ्गके उद्योगी समझनेपर उसका द्विरागमन (गौना) कर दें। यह उत्तम रीति अब भी बहुत देशोंमें प्रचलित है। इस रीतिका सस्कार करने पर स्व औरका कल्याण होसकता है। पति पत्नीका एक जगहमें रहकर ब्रह्मचर्य्य रखना कलियुगमें कुछ कठिन है, परन्तु यह रीति सर्व तरहसे सुगम व सुफल देनेवाली है। अतः विवाह होने पर भी जयतक स्त्रीका शरीर पूर्ण न हो तब तक गर्भाधान करना ठीक नहीं है।

अब प्रश्न होसकता है कि यदि रजस्वलाके वाद भी कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य्यपालन होना ही ठीक है तो अविवाहिता अवस्थामें ही रजस्वला होने पर दो तीन वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य पालन कराकर तब कन्याका विवाह कर देनेमें हानि क्या है ? इसका यह उत्तर है कि जाति या वंशकी पवित्रता व शुद्ध सृष्टि विस्तारके साथ जिसका सम्बन्ध जितना अधिक है उसकी पवित्रता रक्षाके लिये भी उतनाही अधिक प्रयत्न होना चाहिये और जिस कार्य्यसे अपवित्रताकी थोड़ी भी सम्भावना हो उससे सदा ही दूर रहना चाहिये। पुरुषमें व्यभिचारदोष हो तो उसका फल पुरुषके अपने ही शरीर व मन पर पड़ता है, परन्तु स्त्रीके व्यभिचारदोषका प्रभाव समस्त कुल, समाज व जाति पर पड़ता है। उच्चकुलकी स्त्री यदि कदापि व्यभिचारसे नीच कुलका वीर्य्य अपने गर्भमें लावे अथवा आर्य्य स्त्री व्यभिचारसे अनार्य्य वीर्य्यको गर्भमें लावे तो उससे समस्त कुल, समाज व जाति कलङ्कित हो जाती है। इसलिये पुरुषसे भी स्त्रीकी रक्षा अधिक आवश्यक है। रजस्वला एक ऐसी दशा है जिसमें प्रकृतिकी ओरसे प्रेरणा होनेके कारण बहुत ही सावधान होनेकी दशा है। उसमें ब्रह्मचर्य्यकी रक्षा होसके तो अच्छी बात है परन्तु होनेकी अपेक्षा न होनेकी सम्भावना ही अधिक है। श्रीगीतामें कहा है कि:—

यततो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपरिचयः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

विज्ञान, विचारवान् और इन्द्रियनिग्रहमें यत्नशील पुरुषकी भी इन्द्रियाँ प्रमत्त होकर चित्तको विषयोंमें आसक्त कर देती हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार

साधारण दशामें भी जब इन्द्रियदमन कठिन है तो सन्तान-उत्पत्ति करनेके लिये स्वयं प्रकृतिकी ओरसे रजस्वलादशामें स्त्रीके चित्तमें कामकी इच्छा उत्पन्न होती है उसको रोककर ब्रह्मचर्य्य धारण करना साधारण स्त्रीके लिये कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें चाञ्चल्य, पुँश्चलावृत्ति, अनेक पुरुषोंमें चित्तकी आसक्ति और व्यभिचारदोषकी बहुत ही सम्भावना रहती है जिससे ससारमें घोर अनर्थ, वर्णसङ्कर व अनार्य्य प्रजा उत्पन्न होकर हिन्दुजाति नष्ट हो सकती है। इसीलिये पहिले ही से सावधान होनेके लिये महर्षियोंने रजस्वलासे पहिले निवाह करानेकी आज्ञा देकर पश्चात् पतिके साथ ब्रह्मचर्य्य-पालनकी आज्ञा दी है। इससे यदि पति धार्मिक व विचारवान् हो तो गर्भाधान न करके और तरहसे साधारण प्रीतिके साथ निवाह सकता है और यदि ब्रह्मचर्य्य धारण करना कभी असम्भव ही हो जाय तो पतिके मौजूद रहनेसे अन्य पुरुषोंमें चित्त जानेकी सम्भावना कम रहेगी। अतः निवाहसे पहिले ब्रह्मचर्य्य धारणकी अपेक्षा स्त्रीके लिये विवाहके बाद ही ब्रह्मचर्य्य धारण करना युक्तियुक्त है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदर्श सतीका लक्षण जो पहिले कहचुके है, रजस्वला होनेके अनन्तर विवाह होनेपर स्त्रीमें वह प्रकट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि रजस्वला होते ही स्त्री पुरुषदर्शनकी इच्छा करेगी। उस समय पतिरूप दुर्गद्वारा उसका अन्तःकरण सुरक्षित न रहनेसे उसके चित्त पर अनेक पुरुषोंकी छाया स्वतः ही पड़ेगी सो इस दशामें वह स्त्री आदर्श सती होनेके अयोग्य हो जायगी। इसलिये शास्त्रोंमें महर्षियोंने सर्वत्र रजस्वला होनेसे पहिले विवाहका आदेश किया है।

अब बाल्यावस्थामें स्त्री व पुरुषका विवाह होनेसे क्या लाभ और क्या हानि है इस पर विचार किया जाता है। विवाह संस्कारके प्रयोजन वर्णनके प्रसङ्गमें पहिले ही कहा गया है कि आर्य्यशास्त्रमें सभी कार्य्य आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात् मुक्तिको लक्ष्यीभूत रखकर अलुछित होनेके कारण विवाहविज्ञानके भीतर स्त्री व पुरुष दोनोंकी ही मुक्तिका गम्भीर तत्त्व निहित है इसमें कोई सन्देह नहीं है। स्त्रीकी मुक्ति पातिव्रत्यके पूर्ण अनुष्ठान द्वारा पतिमें तन्मय होकर अपनी सत्ताको पतिमें विलीन कर देनेसे और पुरुषकी मुक्ति प्रकृतिको देखकर और उससे अलग होकर अपने ज्ञानमय स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेसे सिद्ध होती है। विवाह संस्कारके द्वारा ये दोनों ही बातें सिद्ध होती हैं इसलिये विवाह संस्कार

पवित्र है । परन्तु यह पवित्रता और इसके द्वारा लक्ष्यसिद्धि तभी ठीक ठीक हो सकती है जब अवस्थाका ठीक विचार कर विवाह हो, अन्यथा लक्ष्यमें सिद्धिलाभ होना कठिन हो जाता है । जब अपनी सत्ताको पतिमें लय कर देना ही पातिव्रत्यका लक्ष्य है तो यह बात अवश्य माननी होगी कि अधिक आयुमें कन्याका विवाह होनेसे पातिव्रत्य धर्मका पूर्ण अनुष्ठान बहुत ही कठिन होजायगा । मायामय संसारमें समस्त मायिक सम्यन्ध अभ्यासके द्वारा बद्धमूल होते हैं । सतीके चित्तमें पतिके प्रति प्रेम, रस व उच्चापके संयोगसे कमलकी तरह रूपासक्ति गुणासक्ति आदिके द्वारा धीरे धीरे विकाशको प्राप्त होता है । इस प्रकारके विकाशकी सम्भावना बालिकावस्थाके प्रेममें जितनी है युवावस्थाके काममूलक प्रेममें उतनी कदापि नहीं हो सकती है । अच्छा देखेंगे, इस प्रकारकी इच्छा चित्तमें होनेसे ही अच्छा देखा जाता है । मायाकी लीला ऐसी ही है । नवदम्पतिको प्रेमसूत्रमें बंधनेके लिये पिता माता पुत्रके सामने वधुकी प्रशंसा करेंगे और श्वशुर व सास वधू (कन्या) के सामने जामाता (पुत्र) की प्रशंसा करेंगे । इस प्रकारसे दम्पतिके चित्तमें परस्परके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा । वधू अपने जीवनको पतिके लिये समर्पण करनेकी शिक्षा लाभ करेगी । अनुराग कल्पतरुकी तरह शाखा पल्लवसे सुशोभित होकर शान्तिरूपी अमृत फल प्रसव करेगा । इस प्रकारके दाम्पत्यप्रेमकी सम्भावना बालिका विवाहमें ही अधिक है । युवावस्थामें कन्याका विवाह होनेसे यह भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है क्योंकि उस समय कामभावकी वृद्धि होनेसे सात्त्विक प्रेमका प्रभाव चित्त परसे न्यून हो जाता है । उससमय चित्तकी कोमलता नष्ट हो जाती है, अभ्यास बंध जाता है, प्रकृति बहुपुरुषोंके भावमें भावित हो जानेसे एकमें स्थिरता अवलम्बन नहीं कर सकती है, पिताके गृहमें स्वतन्त्रता अधिक व लज्जा-शीलता कम होनेसे अधिक आयुमें पतिकी अधीनता व लज्जाशालिनी होना बहुत ही कठिन हो जाता है इत्यादि इत्यादि बहुत कारणोंसे अधिक आयुके विवाहमें पातिव्रत्यधर्मकी हानि होती है जिससे ससारमें नित्य अशान्ति, दम्पतीकलह, अनाचार आदि सभी दुर्गुण भर जाते हैं और इस प्रकार दाम्पत्यप्रेमकी न्यूनतासे पातिव्रत्यमें हानि होनेसे स्त्रीकी अयोग्यता होती है और विवाह सस्कारका लक्ष्य असिद्ध रहजाता है । इसलिये महर्षियोंने रजस्वलासे पहिले बालिकावस्थामें ही विवाहकी विधिको उत्तम मानी है । विचार करनेकी बात है कि जिस देशमें अधिकवयस्का स्त्रियोंकी विवाहविधि है, विवाहोच्छेद (divorce) का भी नियम उसी देशमें

अवश्य है । यदि अधिक आयुके विवाहमे शान्ति रहती तो इसप्रकार विवाहो-
च्छेदका नियम नहीं रहता । इससे ससारमे अशान्ति व दाम्पत्यप्रेममे न्यूनता
आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । अतः स्त्रीकी उन्नति व मुक्तिके लिये बालिका-
विवाहकी रीति ही उत्तम है और इस विषयको लक्ष्मीभूत रखते हुए किस
समय कन्याका विवाह होना चाहिये सो पहिले ही बहुत कुछ कहा गया है ।
परन्तु पुरुषके विवाहमें ऐसा कमी नहीं होना चाहिये । जब प्रकृतिकी त्रिगुण-
मयी लीलाको देखकर उससे अलग हो स्वरूपस्थित होना ही पुरुषके
लिये विवाहका लक्ष्य है तो इस प्रकार देखनेकी शक्ति उत्पन्न होनेके
पहिले विवाह करनेसे प्रकृतिके द्वारा बन्धन हो जानेकी बहुत सम्भावना
रहेगी । बालकपनके विवाहसे पुरुषमे निर्वीर्यता, दुर्बलता, कठिन रोग,
झैणता आदि बहुत दोष हो जाते हैं । ब्रह्मचर्य्य पुष्ट होनेसे पहिले ही ब्रह्म-
चर्य्य नष्ट होनेका कारण हो जानेसे पुरुषकी बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है ।
वे धातुदौर्बल्य, वीर्य्यतारल्य, स्नायविक तेजोहीनता, क्षयरोग, पक्षाघात,
अजीर्णता व उन्माद आदि बहुत रोगोंसे ग्रस्त हो जाते हैं । उस दशमे जो
सन्तति होती है सो भी रोगी अल्पायु व दुर्बल होती है । वीर्य्यके दुर्बल
होनेसे प्रायः कन्या उत्पन्न होती है और नपुंसकता आदि भी होकर कुलकलङ्क
की सम्भावना बढ़ती है । मन, बुद्धि व स्मृतिशक्ति आदि नष्ट होकर विद्या-
प्राप्ति व सांसारिक जीवनमें क्षति होती है । चित्तकी अपक्वदशामें वैष-
यिक वाते बढ़ जानेसे चित्तविक्षेप आदि दोष हो जाते हैं जिससे संसारमे
ऐसे मनुष्यसे किसी प्रकारकी उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती है इत्यादि
इत्यादि हज़ारों दोष बाल्यविवाहके द्वारा उत्पन्न होते हैं । निस्तेजमन व
निस्तेजवीर्य्य पुरुष प्रायः झैण हुआ करते हैं और उनकी आध्यात्मिक
उन्नति कुछ भी नहीं होती है जिससे दलदलमे फँसे हुए बूढ़े हाथीकी तरह
ससारपङ्कमें आजन्म वे निमग्न रहते हैं । वैराग्यबुद्धि, त्याग व वासनानाश
आदि कोई गुण ऐसे पुरुषमे देखनेमे नहीं आते हैं । इन सब कारणोंसे वान-
प्रस्थ या तुरीयाश्रमकी योग्यता उनमे कुछ भी नहीं होती है । मनुष्यजन्म मुक्ति-
का साधक होनेसे सदा ही मिलना दुर्लभ है परन्तु इस प्रकारके हतभाग्य पुरुषो-
का मनुष्यजन्म ही वृथा हो जाता है । वे जीवन्मुक्त न होकर जीवन्मृत होते हैं ।
ये ही सब दोष पुरुषके बाल्यविवाहसे उत्पन्न होते हैं । आजकल भारतवर्षमे
बाल्यविवाहकी तो बात ही क्या है, बहुत स्थानोंमे ऐसी कुरीतियाँ चल पड़ी हैं

कि वरसे कन्याकी उमर अधिक होती है । भोगशक्ति पुरुषसे स्त्रीमें अधिक होनेके कारण और भोग द्वारा स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषकी हानि अधिक होनेके कारण महर्षियोंने स्त्रीसे पुरुषकी आयु अधिक रखनेकी आज्ञा की है । वात्य-विवाहके द्वारा इस आज्ञाके 'अन्यथा होनेसे ऊपर लिखे हुए अनर्थ तो होते ही हैं परन्तु कन्याकी उमर वरसे अधिक होनेसे ऐसी कन्या सद्यः प्राणघातिनी हुआ करती है । सिंहिनीकी तरह ऐसी स्त्री पुरुषकी प्राणशक्तिको पीजाती है अतः इस प्रकारका विवाह कभी नहीं होना चाहिये । इसका अधिक वर्णन क्या किया जाय, इस प्रकारके विवाहसे पुरुषका सत्यानाश हो जाता है । इसीलिये महर्षि याज्ञवल्क्यने लिखा है कि :—

अनन्यपूर्विकां यवीयसीम् ।

अर्थात् कुमारी तथा कन्याके साथ विवाह करना चाहिये और कन्याकी अवस्था वरसे कम होनी चाहिये । मनुजीने तो कभी अढाईगुणी और कभी तीनगुणी अधिक उमर कन्यासे वरकी होनी चाहिये ऐसा बताया है इसका प्रमाण पहिले दिया जा चुका है । स्मृतियोंमें साधारण आज्ञा तो यह है कि :—

वर्षैरेकगुणां भार्यामुद्गृहेत्रिगुणः स्वयम् ।

कन्याकी आयुसे तीनगुणां आयु वरकी होनी चाहिये और कही कही दोगुणी आयु होना भी कहा है । और भी मनुजीने कहा है कि :—

धर्मं सीदति सत्वरः ।

धर्मनाशका भय होनेसे और भी शीघ्र विवाह हो सकता है । परन्तु इस प्रकारकी आज्ञा होने पर भी सुश्रुतके सिद्धान्तानुसार सोलह व पच्चीसका अनुपात तो अवश्य ही होना चाहिये कि जिससे पुरुषका वयः स्त्रीसे इतना अधिक रहे कि गर्भधानके कालमें शारीरिक मानसिक या ओर किसी प्रकारकी न्यूनताकी सम्भावना नहीं हो और सन्तति भी धार्मिक और तेजस्वी हो सके । यही श्रुतिस्मृतिसिद्धान्तित वरवधूके विवाहकालका वर्णन है । इसपर ध्यान रखकर पिता माताको पुत्र कन्याका विवाहसंस्कार करना चाहिये ।

विवाहकालके विषयमें आर्यशास्त्रसम्मत विचार बता कर अब पश्चिम देशके विद्वानोंकी राय मिलाकर और भी अधिक विवेचन किया जाता है । ऋतु-कालमें स्त्रियोंकी दशा कैसी होती है इस विषयमें हैम्ब्लूक इलीस साहबने कहा है—

“There is nature's compulsion involved in the sexual instinct and this is shown by the insistence of the sexual craving and is confirmed by the researches of biologists who have traced the germ of this instinct to the unicellular protoplasm ” (Havelock Ellis)

अर्थात् “प्राकृतिक प्रेरणासे ही कामेन्द्रियमे उत्तेजना होती है और स्त्री पुरुषोंमें परस्पर ससर्गकी इच्छा होती है । जीवनत्ववित् परिडर्तोंने खोजकर यह पता लगाया है कि उत्पत्तिके आदि कारणमें ही इस तृष्णाका बीज विद्यमान है” । पुरुषमे सात धातु हैं, किन्तु स्त्रीजातिमे आठ धातु हैं । उनका अष्टम धातु रज है । इस प्रकार एक धातु अधिक होनेसे और इसके साथ गर्भधारणका प्राकृतिक सम्बन्ध रहनेसे ऋतुकालमे स्त्रियोंके भीतर कामवेग अधिक होना स्वाभाविक है । मनुष्यके नीचेके पशुश्रोमे भी यही बात देखी जाती है । किस उमरमें ऋतुदर्शन होता है इस विषयमे कहा है—

The age when menstruation commences varies from twelve to seventeen years; it is earlier in hot climates and later in colder regions and in the country—

(Mrs S. Herbert)

मिस् एस् हर्वर्टका कहना है कि १२ वर्षसे १७ वर्षके भीतर स्त्रियोंके ऋतुमती होनेका काल है । ग्रीष्मप्रधान देशोमे कुछ शीघ्र और शीतप्रधान देशोमें कुछ देरमे रजोदर्शन होता है । इसीका हिसाब डाक्टर ई जे टिस्ट साहवने दिया है । यथा—बङ्गदेशमे १२ वर्षमें, दक्षिणदेशमे १३ वर्षमें, जमेकामे १५ वर्षमें, कर्णूमें १४ वर्षमें, मारखिलिसमे १५ वर्षमें, पेरिसमे १५ तथा १७ वर्षमें, लण्डनमें १४ और १५ वर्षमें, क्रिश्चियानियामे १६ वर्षमे स्त्रियोंका रजोदर्शन होता है । इस देशमें भी कहीं कहीं पर १६ वर्षतक रजोधर्मका विकास नहीं हुआ ऐसा भी प्रमाण मिलता है । यथा महाभारतमे—

त्रिंशद्द्वर्षः षोडशाब्दां भार्या विन्देत नग्निकाम् ।

अतोऽप्रवृत्ते रजसि कन्यां दधात् पिता सकृत् ॥

ऋतुमती होनेसे पहिले ही १६ वर्षकी कन्याको ३० वर्षका पुरुष ग्रहण करे । पिता कन्याको एक ही बार दान कर सकते हैं । यौवनकी प्रथम सूचना

किस अवस्थासे प्रारम्भ होती है इस विषयमें अनेक खोजकर प्राच्य प्रतीच्य दोनों देशोंके विद्वानोंने यह निर्णय किया है:—

Approximately we can state that at seven consciousness begins to build seriously and slender thoughts of shy sex begin to appear. Seven is also an important physiological unit, indicating the period time required for a complete turn of cells from old to new. (Huxley)

साधारणतः यह कहा जा सकता है कि सात वर्षकी अवस्था हो जाने पर कन्याको कुछ कुछ अपने विषयमें ज्ञान होने लगता है और वह यह समझने लगती है कि वह स्त्री है। इसके साहचर्ये भी कहा है कि प्रति सात सात वर्षमें शरीरके उपादानमें परिवर्तन हुआ करता है और शिशुकालका पुराना उपादान ७ वर्षमें बदलकर उसमें यौवनकालका नवीन उपादान आने लगता है। यही कारण है कि आर्यशास्त्रमें यौवनवेगको मूलमें ही रोकनेके अर्थ अष्टम वर्षमें बालकोके लिये उपनयनकाल और स्त्रियोंके लिये गौरीदानकाल विहित किया गया है और उत्तम प्राक्तन संस्कार सम्पन्ना ऐसी गौरीको कभी वैधव्य नहीं हो सकता है यह भी बताया गया है।

अब ऋतुकालके भीतर स्त्रियोंकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था किस प्रकारकी होती है सो क्रमशः बताया जाता है। श्रीभगवान् मनुने कहा है—

स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।

मासि मासि रजस्तस्या दुष्कृतान्यपकर्षति ॥

स्त्रीशरीरकी मलिनता प्रतिमास रजस्त्राव द्वारा निकल जाती है और वह पवित्रा होकर गर्भधारणयोग्या हो जाती है। वह मलिनता कैसी है इस विषयमें पराशरस्मृतिमें लिखा है:—

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ।

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ॥ (७-१८)

रजस्वला स्त्री प्रथम दिन डोमकी तरह अपवित्रा, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या-कारिणी तरह स्पर्शसे हानिकरनेवाली, और तृतीय दिन घोबीकी तरह अपवित्रा

रहती है। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। अब इस विषयमे पश्चिमी विद्वानोंने भी बहुत कुछ पता लगा लिया है। यथा:—

(From the American Journal of Clinical Medicine, May 1921). Medical Record for February, 1919 (p. 317) abstracts an article (Wien Klin Woch, May 20, 1920), in which Prof. Schiek expresses the opinion that a menstruating woman may be a veritable upastree. His attention was first attracted to the subject on the occasion of receiving ten fresh, long stemmed roses, which he had requested a female servant to place in water. On the very next morning the roses had largely withered, the petals having dropped on the table. Greatly surprised he summoned the servant to illuminate the mystery. She said that she had known that the roses would wither; for when she was unwell, this phenomenon was always in evidence. Greatly astounded, Scheik began to experiment. The woman, along with a non menstruating control, was sent to the author's garden who cut off for each an anemone, a white chrysanthemum and a yellow helianthus. The women simply held the flowers in their hands and went to the clinic. Upon their arrival, the flowers in the hands of the menstruating woman had begun to wither and were hanging their heads. The time elapsed was but ten minutes. The blighting process was complete at the end of twenty-four hours, the petals having fallen off at the end of eighteen hours. The flowers handled by the control subject were as fresh as ever at the end of forty-eight hours. The menstruation in this experiment was in its first day only. On the following day, the tests were repeated, and the flowers held in the hands of the menstruating woman

showed some alteration in three minutes after she had taken them. The change consisted of a progressive dying, followed in a few hours by disthoration. The anemones were especially sensitive, and the chrysanthemum showed the greatest resistance. On the third day of menstruation, the pernicious effects were but slight; on the fourth day they had vanished; and during the entire intermenstrual period the woman showed not a trace of this mysterious power.

Schiek next learned that there was a belief in certain states that menstruating women have the power of withering freshly cut flowers, although many refused to believe it and looked upon it a superstition. In vineries, menstruating women are forbidden to enter and this proscription even extends to orchards, for these women are not allowed to climb upon fruit trees when in bloom and even later, lest the fruit crop should spoil. A study of this problem through the ages brings out astounding facts and beliefs. The menstruating women in an orchard can cause the insects to drop from the trees; and even in classical times there were tales of the use of partially exposed women for expelling the cantharis beetle from the trees.

The author, after extended research, was able to show that the injurious substance, menotoxin, circulates in the blood but not in the serum, in all probability it is the blood corpuscles or adherents to them. It must be volatile and must escape from the skin or lungs. Schiek thinks that we are on the threshold of a great discovery, this potent volatile poison being a menace not only to the preservation of certain organic substances, but even to growing flowers.

It also seems toxic to insects. In regard to unicellular organisms, it can both inhibit and accelerate the proliferation of yeast. The menotoxin is regarded by Schiek as something which the female organism must get rid of, and this supports the prevalent view that menstruation is a depurative phenomenon

प्रोफेसर सीकके इस अनुसन्धानसे यही प्रमाणित हुआ कि ऋतुमती स्त्रीके शरीरमें ऐसा कोई प्रबल विष होता है जिससे इनके बगीचेमें घुसने पर बगीचेके फूल पत्ते आदि सब सूख जाते हैं, फूलके वृक्ष मर जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, इतना तक कि वृक्ष परके कीट आदि भी गिर पड़ते हैं, भाग जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। इस विषकी प्रबलता प्रथम दिन प्रारम्भ होकर द्वितीय दिन बहुत ही बढ़ जाती है और तृतीय दिन घट जाती है, चौथे दिन कुछ भी नहीं रहती है। अतः इस विषयमें दोनों देशके विद्वानोंके सिद्धान्त अभिन्न प्रमाणित हो गये। यही कारण है कि रजस्वलाके स्पर्श, दर्शन, ससर्ग आदिके लिये इतने निषेध वाक्य आर्यशास्त्रमें मिलते हैं। यथा :—

नोपगच्छेत् प्रमत्तोऽपि स्त्रियमात्तवदर्शने ।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥

रजसाभिभूतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिभूताम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्द्धते ॥ (मनु ४।४०—४२)

नितान्त मूर्खको भी रजस्वला स्त्रीके पास नहीं जाना चाहिये, उससे ससर्ग या उसके साथ शयन नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे बुद्धि, तेज बल, दृष्टिशक्ति और आयुकी हानि होती है और परहेज करने पर बल, तेज आदि बढ़ते हैं। और भी—

दिवाकीर्त्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।

शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति ॥ (मनु ५।८५)

चण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।

रजस्वला च षण्डश्च नक्षेत्रन्नश्नतो द्विजान् ॥ (मनु ३।२३६)

चाण्डाल, रजस्वला, पतित, सूतिका, शव और उसके छूनेवालेको स्पर्श करने पर स्नान द्वारा शुद्धि होती है। चाण्डाल, शकर, भुर्गा, कुत्ता, रजस्वला और झीव-भोजनके समय इनका दर्शन नहीं होना चाहिये। इसी कारण रजोदर्शन होते ही स्त्रीको क्या करना चाहिये सो शास्त्रमें आज्ञा है। यथा:—

रजोदर्शनतो दोषात् सर्वमेव परित्यजेत् ।

सर्वैरलक्षिता शीघ्रं लज्जितान्तष्टुं हे वसेत् ॥ व्यास सं० ३।३७

स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रन्तु स्वयुत्सं नैव दर्शयेत् ।

स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत् स्नानान्न शुध्यति ॥

(स्कन्दपुराण मदनपारिजात)

ऋतुमती होते ही दोषसंक्रमणकी आशंकासे स्त्रीको पाक आदि सब कर्म छोड़कर अलग बैठनी चाहिये और किसीके दृष्टिपथमें नहीं आनी चाहिये। चौथे दिन स्नानसे पवित्र होने तक किसीको अपना मुख दिखाना और किसीको अपना शब्द सुनाना उन्हे नहीं चाहिये। उनका भोजनादि कैसा होना चाहिये जिससे कन्या उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होसके इसके लिये महर्षि वेदव्यास कहते हैं:—

अशनीयात् केवलं भक्तं नक्तं मृण्मयभाजने ।

स्वपेद् भूमावप्रमत्ता क्षयेदेवमहत्रयम् ॥

स्नायीत च त्रिरात्रान्ते सचेत्सुदिते रवौ ।

क्षामालंकृदमाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम् ॥

और भी:—

‘आमिषप्रतिसंहारात् प्रजा ह्यायुष्मती भवेत्’ (महाभारत अन्त ५७।१७)

और भी महर्षि याज्ञवल्क्य:—

एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत् ।

सुस्थ इन्दौ सकृत् पुत्रं लक्षण्यं जनयेत् पुमान् ॥ (आचा. ८०)

और भी विष्णुधर्मोत्तरमें:—

आहारं गोरसानां च पुष्पालंकारधारणम् ।

अग्निंसस्पर्शनं चैव वर्जयेच्च दिनत्रयम् ॥

इन दिनों जितना सयम, लघु आहार, तथा विलासिताका अभाव रहेगा उतना ही रससञ्चार कम होगा, स्त्रीशोणितकी शक्ति कम होगी जिससे कन्या उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिये ऋतुमती स्त्रीको चाहिये कि तीन दिन केवल एकवार भोजन करे, भूमिशय्या पर सोवे, क्षीण तथा संयत रहे, घी, दूध, दहीका सेवन न करे, फूलमाला या अलंकार धारण न करे, अग्निस्पर्श न करे और चौथे दिन सूर्योदयके बाद सचैल स्नान करे। आमिष आहार न करनेसे सन्तानकी आयु बढ़ जाती है। मद्य और मूल नद्वत्रको छोड़कर तिथि विचारसे युग्म दिनमें नियमानुसार सयत स्त्रीमें गर्भाधान होने पर सुलक्षण-युक्त पुत्र सन्तानकी उत्पत्ति होती है।

अब ऋतुमती स्त्रीके चित्तकी क्या हालत उन दिनोंमें रहती है सो बताया जाता है। उनका चित्त उन दिनों ठीक फोटो लेने वाले कमेराकी तरह हो जाता है और जिसको वह ऋतुस्नाता होनेके बाद मनोयोग के साथ देखती है उसीकी तसवीर (impression) चित्त पर आ जाती है। यही कारण है कि स्नानके बाद उनके लिये सबसे पहिले पतिका मुख देखनेकी आज्ञा शास्त्रकारोंने दी है। किन्तु यदि विवाह ही न हुआ हो तो अनेक पुरुषोंके दर्शनसे अनेक तसवीरें चित्तमें आ जायंगी, उनका चित्त अनेकोमें चञ्चल होकर सतीधर्मको कमजोर बना देगा। इसी कारण जैसा कि पहिले बताया गया है, ऋतुकालसे पहिले ही विवाह होना मुक्तिप्रद सतीधर्मरक्षाके अर्थ नितान्त आवश्यक है। "He who thinketh of fornication hath already committed adultery" बाईबेलका यह उपदेश यथार्थ है। अर्थात् चित्तमें दूसरे पुरुषकी चिन्ता आनेसे ही आदर्श सतीका जीवन विताना उनके लिये असम्भव हो जाता है। क्योंकि आदर्श सती अपने पतिके सिवाय और किसीको पुरुष ही नहीं समझती अथवा पिता, माता, पुत्रकी तरह देखती है, सो ऋतुके बाद विवाहिता स्त्रीके लिये एकवारगी असम्भव है।

It is believed by our Shastras, which scientifically observed facts support well, that her womb or ovary gets at this time an impression by visual reception and love, of the configuration and character of the man whom she first beholds and retains it all through her catamenia period.

(The Sacrament of Marriage Ceremony)

आर्यशास्त्रमें लिखा है और वैज्ञानिक रीतिसे भी प्रमाणित हो चुका है, कि ऋतुज्ञानके वाद स्त्री प्रथम जिसको देखती है उसीका संस्कार उसके चित्तपर पड़ जाता है और इस संस्कारको वह बराबर अपने चित्तमें बनाये रहती है। चित्तका प्रभाव शरीरपर कैसा पड़ता है इस विषयमें प्रोफेसर इलिमार गेट्स (Prof Elmer Gates) साहबने कहा है:—

The Psycho-physiology shows that thoughts and feelings influence the complete physical body and can be demonstrated to characterise appropriately all the secretions and the excretion of the entire system

“मनोविज्ञान और शारीरविज्ञानके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि चिन्ताशक्ति और भावनाका इतना पूर्ण प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है कि स्थूल शरीरके अन्तर्गत रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य कोई भी वस्तु उस प्रभावसे बन नहीं सकती” । चरकसंहिता शारीर अष्टमाध्यायमें इसी वैज्ञानिक तथ्यके अनुसार सुपुत्र उत्पन्न करनेकी विधियां यथेष्टरूपसे बताई गई हैं । यथा— सत्त्ववैशिष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां माता पितृसत्त्वान्यन्तर्वत्याः श्रुतयश्चाभीक्षणं स्वोचितं च कर्मसत्त्वविशेषाभ्यासश्चेति । अर्थात् गर्भाधानके समय रजो-वीर्यके मिश्रणकालमें माता पिताके मनमें जो जो भाव रहता है, वही सब भाव पूर्व कर्मके सामञ्जस्यानुसार गर्भस्थ सन्तानमें प्रकट होता है । इसी विषयको और भी आगे बढ़ाकर महर्षि चरकने लिखा है कि जो स्त्री पुष्ट, बलिष्ठ, पराक्रमी पुत्र चाहें, उन्हें चाहिये कि ऋतुस्नानके वाद प्रत्यह प्रातःकाल श्वेतवर्ण, बृहत्, श्वेतचन्दनभूषित प्रचण्ड घृप और उत्तम बलवान् अश्वको मनोयोगके साथ देखती रहें और उत्तम आचारवान् स्त्री-पुरुषोका दर्शन करती रहें इत्यादि । केवल इतना ही नहीं इसी प्राकृतिक विज्ञान (Natural Science) के अनुसार पशुजातिमें आजकल भी नवीन नवीन विचित्र सृष्टि बनाई जाती है, जिसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है । दृष्टान्तरूपसे बताया जाता है कि देशी दुर्बल कुतियाके पेटसे बलवान् श्वान (hound) उत्पन्न करनेकी युक्ति यह है कि उसके अनुकूल दुर्बल कुत्तेके साथ उसका संयोग होते समय एक बलवान् भौंकता हुआ श्वान उसके सामने बांध दिया जाय । इसका फल यह होगा कि दुर्बल कुत्तेका वीर्य मिलने पर भी सामने भौंकते हुए बलवान् श्वानका भाव

उसके चित्त पर जम जानेसे वह बलवान पुत्र ही उत्पन्न करेगी । इसी प्रकार देशी घोड़ीके पेटसे भी बलवान् अश्व (Stallion) पैदा करनेकी विधि है इसमें घोड़ीकी आंखें पहिले बन्दकर दी जाती हैं और देशी घोड़ेके साथ संयोग होते समय अचानक आंखोंकी पट्टी खोल कर बलवान् अश्व (Stallion) उसे दिखा दिया जाता है, जिसका प्रभाव घोड़ीके चित्त पर पड़ जानेसे बलवान घोड़ा उत्पन्न होता है, इसी प्राकृतिक मायाचक्रसे यह भी देखा गया है कि गर्भाधानके समय एफ्रिकाके एक काले हाफ़्शी बालककी तसवीर देखकर साहय तथा मेमने कृष्णवर्ण पुत्र उत्पन्न कर डाला । और सद्गृहस्थनारीने ऋतुस्नानानन्तर एक दुश्चरित्र पठानको अचानक देखकर ऐसाही ब्राह्मणगुणहीन कदाचारी पठान प्रकृतिका पुत्र उत्पन्न किया । इसका कर्हातक वर्णन किया जाय इन्हीं दुर्दैवोंसे मनुष्यस्त्रीके उदरसे बकरे, भेड़िये आदि भी कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका हेतु अभी तक वैज्ञानिक जगत्के द्वारा निर्णीत न होने पर भी पूज्यपाद धानदण्डिसम्पन्न महर्षियोंके द्वारा निर्णीत हो चुका है । यथा सुश्रुत शारीरस्थान द्वितीय अध्यायमे—

ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मैथुनमाचरेत् ।

आर्त्तवं वायुरादाय कुक्षौ गर्भं करोति हि ॥

मासि मासि विवर्द्धेत गर्भिन्या गर्भलक्षणम् ।

कललं जायते तस्या वज्रितं पैतृकैर्गुणैः ॥

सर्पवृश्चिककुष्माण्ड—विकृताकृतयश्च ये ।

गर्भास्त्वेते स्त्रियाश्चैव ज्ञेयाः पापकृता भृशम् ॥

ऋतुस्नाता स्त्रीको पति न मिलने पर वह कभी कभी कामुका होकर स्वप्नमें पुरुष संयोग करती है, उस समय उसीका वीर्य निकल कर अपने ही रजसे मिल जाता है और इस प्रकारसे रजोवीर्य जब जरायु में पहुँचता है तो वह गर्भवती होजाती है । किन्तु उस गर्भमें पतिवीर्य से प्राप्य अस्थि आदि नहीं होते हैं, वह केवल मांसपिण्डमय कुष्माण्ड (कोहडा) जैसा होता है या सांप, विच्छु, भेड़िया आदिके आकार के विकृत जीव ऐसे गर्भसे उत्पन्न हो जाते हैं । ऋतुकी दशामें भेड़िये, कुत्ते, बकरे आदिके मैथुन देखने पर भी उसका भाव चित्तमें जम जाता है और ऐसा ही स्वप्न रात्रिको होकर ऐसे विकृत जीव गर्भमें उत्पन्न होजाते हैं । ऋतुधर्मसे पहिले विवाह होजाने पर इस

प्रकारकी आशका प्रायः नहीं रहती है। वह पतिकी मूर्ति चिन्तन करती हुई पति जैसी सन्तान उत्पन्न कर सकती है और अपने अमूल्य सतीधर्मकी भी यथारीति सुरक्षा कर सकती है। उनकी सन्तान, उनका दाम्पत्य प्रेम, उनका वंश सभी उनके पवित्र भावसे मधुमय हो जाता है। इन्हीं कारणोंसे ऋतुसे पहिले विवाह होना ही परम श्रेयस्कर है।

अब इस विषयमें पश्चिमी विद्वानोंका अनुभव कैसा हो रहा है सो बताया जाता है:—

It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is almost impossible without early marriage; for simply to refer the young to abstinence as the time solution of the problem, is a crime against the young and the race, a crime which makes the primitive force of nature, the fire of life, into a destructive element. The gradual but steady rise in the age for entering on legal marriage also points in the same direction, though it indicates not merely an increase of free unions but increase of all forms of normal and abnormal sexuality outside marriage. (Havelock Ellis.)

प्रत्येक चिन्ताशील मनुष्यको यह निश्चित हो चुका है कि यथोचित शीघ्र विवाहके बिना स्त्री पुरुषोंका चरित्र ठीक रहना एक प्रकारसे असम्भव ही है, क्योंकि जबरदस्ती इन्द्रियवेगको रोकनेको कहनेसे इस प्रश्नका समाधान नहीं होता है, बल्कि इससे प्राकृतिक वेग और भी बलवान् होकर नाशका ही कारण बन जाता है। आजकल विवाहकी उमर जो क्रमशः बढ़ाई जा रही है इसका केवल यही कुपरिणाम नहीं होगा, अधिकन्तु यथेच्छ इन्द्रिय संसर्ग और प्राकृतिक अप्राकृतिक सभी प्रकारका इन्द्रिय संसर्ग इससे बहुत ही बढ़ जायगा, जो कि नरनारियोंके नैतिक जीवनके लिये बहुत ही हानिकर है। (हैमलक इलीस)।

Dr. Marie Carmichael Stopes is regarded in the West as an authority on Sex. She writes in her book 'Enduring Passion':—

"It is not intended by nature for a man of full age to

continue unmarried year after year. Early marriage is the natural and still the right thing. Almost every day that passes increases my conviction that the race runs innumerable dangers from the habit of delaying marriage which is becoming so common. Late marriage is the source of innumerable physical and social evils and incalculable unhappiness and discontent ”

डाक्टर मेरी कारमाईकेल स्टोपस् अपनी पुस्तकमें लिखती हैं:—

“स्त्रीपुरुष अधिक उमर तक बिना विवाहके रहेंगे यह प्रकृतिका उद्देश्य नहीं है । यथाशास्त्र शीघ्र विवाह ही प्राकृतिक तथा उचित है । मेरा दिन पर दिन यही विश्वास बढ़ रहा है कि आजकलकी तरह विलम्बका विवाह जातिके लिये असौम्य विपत्तिका कारण है । इससे कितने ही प्रकारकी शारीरिक तथा सामाजिक बुराइयां तथा अनन्त दुःख और अशान्तिकी उत्पत्ति होती है” ।

It is not good for man or woman to live alone Our tendency of the times is the apparently increasing avoidance of marriage or its postponement until an age when the adaptation of one individual of the couple to the other is difficult; because habits have become fixed so firmly that their adjustment is a difficult or at least, an annoying process Obviously, therefore, it seems to me that early marriages should be encouraged (Thomas A Edison)

ग्रामोफोन यन्त्रके प्रसिद्ध आविष्कारक एडिसन साहबकी सम्मति है—

“स्त्री या पुरुषको अधिक दिन अविवाहित नहीं रहना चाहिये । जैसा कि आजकलकी नवीन रुचि होरही है कि विवाह किया ही न जाय, यथेच्छ विहार किया जाय या इतनी देरसे किया जाय कि घर बधुकी प्रकृति मेळ ही न कर सके, यह ठीक नहीं है । क्योंकि अभ्यासके एक जाने पर पीछेसे सामञ्जस्य होना कठिन और कष्टकर होजाता है । अतः मेरी रायमें यथोचित शीघ्र विवाहके लिये ही प्रोत्साहन देना चाहिये ।”

The 'tolerated house' is absolutely necessary at present

to protect women from diseases and immorality, by confining this kind of intercourse as far as possible in certain definite channels. Early marriage will greatly lessen the chances of this. (Ettie A Rout. Safe Marriage p. 20)

“There are” says Judge Lindsey “at last fifty thousand girls in New York living with men who are not their husbands, girls who should become mothers and don't care to have children because of the attitude, society would take towards them.”

“Judge Lindsey gives statistics of marriage and divorce in his own country. The figures are of remarkable reading. Five years ago, it was one to four; now two to four. The actual figures in Denver for 1922 were 1492 divorce cases filed against 2908 marriages. The divorces were therefore 49% of the marriages. Here are some statistics of marriage and of divorce for the year 1924. Allanta marriages 3350 and divorces 1845, Kansas city marriages 4821 and divorces 2400, State Ohio marriages 53300 and divorces 11885, Denver marriages 3000 and divorces 1500”

(Ibid 61. Hindu Tract Society)

पश्चिमदेशकी स्त्रियाँ जो अवैध पुरुषससर्गसे सिफिलिस आदि रोगोंसे ग्रस्त होती हैं और नैतिक जीवनको भी अधःपात में लाती है इसके रोकनेके लिये विवाहके बन्धनमें उन्हें अवश्य ही डालना चाहिये। यथोचित शीघ्र विवाहके द्वारा ऐसी आशंकायें बहुधा कम हो जायंगी। (एटी ए. रौट्)।

एमेरिकाके नामी जज लिण्डसे साहब कहते हैं:—

कमसे कम पचास हजार स्त्रियाँ न्यू यार्क में ऐसे पुरुषोंके साथ रहती हैं, जो उनके पति नहीं हैं, उनको विवाहिता होकर सन्तान प्रसूव करना चाहिये था, किन्तु समाज शासनके भयसे वे ऐसा नहीं करती हैं। जज साहबने अपने देशके विवाह तथा विवाहोच्छेदकी संख्या बतानेके प्रसङ्गमें कहा है कि पांच

वर्ष पहिले प्रति चार विवाहमें एक विवाहोच्छेदका केस आता था, अब प्रति चारमें दो हो गये है । सन् १९२२ में डेन्मार शहरमें २६०८ विवाहमें १४६१ विवाहोच्छेद हुए थे । सन् १९२४ में निम्नलिखितरूपसे हुए हैं, यथा—एड्लन्टामें ३३५० विवाह और १८४५ उच्छेद, कनसास शहरमें ४८२१ विवाह और २४०० उच्छेद, स्टेट ओहिओमें ५३३०० विवाह और ११८८५ उच्छेद, डेनमारमें ३००० विवाह और १५०० उच्छेद ।

Out of every thousand births (in 1900) 150 are illegitimate in Bavaria, 141 in Austria, 121 in Portugal, 113 in Sweden, 101 in Denmark, 90 in Germany, 88 in France, 80 in Belgium, 74 in Norway, 68 in Scotland, 49 in Italy, 41 in England, and 27 in Russia. In cities the percentage is considerably higher, in Berlin it is as high as 14 p c

(Review of Reviews 1931)

In some cities in Europe more than 50 % of the entire population and more than 75 p c. of the males suffer from gonorrhoeal infection. (Dr Allen)

In a single dispensary in New York, out of 86000 cases, 3000 were cases of venereal disease. A commission in the same city in 1903 reported 200000 syphilitic subjects and 800000 gonorrhoea cases.

Fournier 1-7th of the population of Paris is syphilitic. In some European countries, in villages, 25 p c of the population are syphilitic. In Russia the victims are mostly women and children

Dictionary of Statistics, Mulpall—In Europe 7 to 43 p.c. of the soldiers are infected, the average national percentage was found to be 14 %

Morrow —70 % of the syphilis in the women of New York is the result of conjugal infidelity!

In England (1880-90) 1742 males over five years of age died of syphilis. In Philadelphia 37 deaths were registered as due to this cause in 1904.

(Sylvanus Stall)

सन् १६०० में प्रतिसहस्र जारज सन्तानोंकी संख्या यह है—बैभेरियामें १५०, अस्ट्रियामें १४१, पचुंगालमें १२१, स्वीडनमें ११३, डेन्मार्कमें १०१, जर्मनीमें ६०, फ्रान्समें ८८, वेल्जियममें ८०, नारवेमें ७४, स्काटलैण्डमें ६८, इटालीमें ४६, इंग्लैण्डमें ४१ और रूसमें २७। गांवकी अपेक्षा शहरमें संख्या अधिक है जैसा कि बर्लिनमें १४ फीसदी है।

(रिभिऊ आफ रिभिऊज १६१३)

डाक्टर अलनकी सम्मतिमें यूरोपके अनेक शहरोंमें सौमें पचास व्यक्ति और सौमें ७५ पुरुष गनोरिया रोगग्रस्त होते हैं।

न्यू यार्कके एक ही दवाखानेमें ८६००० बीमारोंमेंसे ३००० घातु रोगग्रस्त देखे गये हैं। सन् १६०३ में कमिशनको रिपोर्ट है कि वहांपर दो लक्ष सिफिलिसके और आठ लक्ष गनोरियाके रोगी थे।

पेरिस नगरकी सप्तमांश जनता सिफिलिस रोगग्रस्त है। यूरोपके अनेक ग्रामोंमें सौमें २५ महुष्य सिफिलिस रोगग्रस्त है। रूसदेशमें स्त्रियाँ और बालकोंको यह रोग बहुत होता है।

यूरोपकी फौज विभागमें ७ से ४३ फी सदी महुष्य इस बीमारीसे ग्रस्त होते हैं। इसकी औसत सौमें १४ है।

न्यू यार्ककी स्त्रियाँ सौमें ७० सतीधर्म तोड़कर व्यभिचारद्वारा सिफिलिसकी बीमारी लाती हैं।

इंग्लैण्डमें सन् १८८०-९० में पांच वर्षसे ऊपर उमरवाले १७४२ पुरुष सिफिलिस रोग से मरे हैं। सन् १६०४ में फिलाडेल्फिया नगरमें ३७ महुष्य इस रोगसे मरे हैं। (सिलमैनस स्टाब्)।

“The first appearance of menstruation coincides with the establishment of puberty and the physical changes that accompany it indicate that the female is capable of conception and child-bearing.

“It is also generally stated that the difficulty of labour increases with the age of the patient, and that in elderly primipara it is likely to be unusually tedious, from the rigidity of the soft parts

“Labour taking place for the first time in women advanced in life is also apt to be tedious, especially in the first stage, it is probably more often referable to the rigidity and tightness of the parturient passages than to feebleness of the pains

“The articular cartilages of the coccyx become ossified, the enlargement of the pelvic outlet during labour may be prevented and considerable difficulty may thus arise This is most apt to happen in aged primipara ” (The Science and Practice of Midwifery by W S. Playfair M D LLD.)

डाक्टर मेकैर साहब अपनी पुस्तकमें लिखते हैं—ऋतुधर्मके द्वारा यही प्रमाणित होता है कि स्त्री युवती हो चली है और उसके शरीरमें इस प्रकारका परिवर्तन हो गया है जिससे वह गर्भधारण और सन्तान प्रसव कर सकती है ।

यह भी परीक्षा द्वारा निर्णीत हो चुका है कि अधिक उमरमें सन्तान प्रसव करनेमें स्त्रियोंको प्रसवकी वेदना बहुत ही कष्टकर होती है और यह व्यथा प्रथमवार प्रसवमें विशेषरूपसे हुआ करती है । प्रसवयन्त्रकी अधिक अवस्थाजनित कठिनता ही इसमें कारण बताया गया है ।

Out of 493 girls of high school age, who admitted to me that they had sex experiences with boys, 25 became pregnant. The others avoided pregnancy, some by luck, others because they had a knowledge of more or less effective contraceptive methods. I do not guess this, I know it. During the year 1920—21 the Juvenile Courts of Denver dealt with 769 delinquent girls of high school age They ranged in age from 14 to 17 years. I handled about a hundred

cases of illegitimate pregnancy last year (1924) taking care of most of the mothers and the babies and in most cases adopting the babies out. (A famous Judge of America in his revolt of youth.)

जज साहब पुनः अपने ग्रन्थमें कहते हैं—हार्ड स्कूलकी ४६३ लड़कियां जिनने मेरे पास स्वीकार किया था कि लड़कोंके साथ उनका काम-ससर्ग हुआ है, उनमेंसे २५ को गर्भ रह गया था। बाकी सब गर्भवती होनेसे बच गई—कुछ तो अपने भाग्यसे और कुछ गर्भनिवारक उपायोंके परिज्ञानसे। मैं यह बात आन्दाजसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसका पूरा पता है। सन् १९२०—२१ में डेनमर कोर्टमें ऐसी ७६६ अपराधिनी स्कूल-लड़कियोंके केस आये थे। उनकी उमर १४ से १७ वर्ष तककी थी। गत वर्ष अर्थात् १९२४ में प्रायः १०० केस धर्मविचारसे गर्भवती स्त्रियोंके मेरे कोर्टमें भी आये थे। इन स्त्रियोंकी तथा इनके बच्चोंकी सम्हाल भी मैंने की थी।

Mr. Licky in his History of European Morals:—

“The nearly universal practice of the custom of early marriages among the Irish peasantry has alone rendered possible that high standard of female chastity, that intense and jealous sensitiveness respecting female honour, for which among many failings and some vices the Irish poor have long been pre-eminent in Europe.”

लेकी साहब अपनी पुस्तकमें कहते हैं—आयरलैंडकी गरीब किसान जातिमें शीघ्र विवाहकी जो प्रथा है उसीसे वहांकी स्त्रियोंमें उच्चकोटिका पतिव्रत्य धर्म और उसके प्रति हार्दिक आदर भाव अब तक बना रहा। उनमें अनेक दोष होने पर भी इसी उत्तम धर्मके कारण वे यूरोपमें वर्षों तक सम्मानार्ह बने रहे।

The custom of child marriage is not merely due to the accident of Moslem conquest, when the rulers promised to protect all girls who were already affianced. But there is more in it. There is the difference of ideals, In Hindu

India, because the house-hold is the essential element in its social structure, marriage is almost compulsory like conscription in Europe To perform the duties of a householder is in fact looked upon as a special discipline

(Rev J. Tyssul Davis)

जे दिसल डेभिस् साहवकी यह सम्मति है—मुसलमानराज्यके समयसे बालविवाह प्रथा चली है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सगाई होजाने पर मुसलमान लोग हिन्दुकन्याओंकी रक्षा करते थे । इसका यथार्थ कारण आदर्श-भेद है । हिन्दुजातिमे गृहस्थजीवन सामाजिकजीवनका प्रधान अङ्गरूप है, इसलिये विवाह करना एक अवश्य कर्त्तव्य धर्मकार्य है । हिन्दुजातिमें गृहस्थाश्रमके कर्त्तव्योंको करते रहना एक प्रधान धर्म करके माना गया है ।

It is universally admitted that compromise and concession form the solid basis of matrimonial happiness , and the sense of destiny imparted by early marriages powerfully promotes a spirit of compromise We must also understand that the Hindu marriage contract is inviolable and the course of life is inevitable the minds of the parties are thus in the proper frame for making the best of things. These wise provisions have stood the test of centuries and by their results continue to proclaim their excellence. All parties are united in the opinion that Hindu married life is an exceptionally happy state and this is the clearest proof of the excellence of the system and the severest condemnation of those who are seeking to unsettle it,

(Frederic Pincott)

दाम्पत्यजीवनके सुखके मूलमें स्त्रीपुरुषके हृदयका मेल और परस्परका भाव सामञ्जस्य है । बालविवाहमें जो अदृष्टका सम्बन्ध रहता है उससे यह सामञ्जस्य विशेष पुष्ट होजाता है । हिन्दुओंका विवाहबन्धन टूटने के लिये नहीं होताहै, इसमें दम्पतिकी जीवनगति सदाके लिये नियत हो जाती है और इसी कारण

उनके मनमें भी हर हालतमें निवाहते रहनेका ही उत्तम भाव प्रतिष्ठित होजाता है । शत शत वर्षोंसे हिन्दुजातिमें यही व्यवस्था चली आती है और इसके उत्तम परिणामको देखकर इसे उत्तम ही कहा जाता है । दाम्पत्यजीवन हिन्दुजातिमें ही सर्वोत्तम सुखदायक है इसमें सभीको एक राय है । इसीसे प्रमाणित होता है कि हिन्दुजातिकी विवाहप्रथा सर्वोत्तम है और जो लोग इसे नष्ट करनेकी चेष्टा कर रहे हैं वे बड़ा ही अन्याय करते हैं ।

(फ्रेडरिक पिनकट)

Mr. Otto Rothfield in his 'Women of India' :—

“Moreover in practice child marriage has some clear advantages For it allows the wedded pair to be brought together as children only in their parents' houses, till in time they become habituated to each other's company and affection, which gradually they come to know and learn their place in these large households to which their future lives belong

“Real marriage, the consummation of their growth to men and women, comes much later, many years perhaps than their parents at last give their consent to the grown student and the healthy maiden who helps daily in the household tasks.

“In general it may be said that the Hindu rules of marriage are conducive to the happiness of the spouses and their happiness is less self centred and more altruistic. The worth of a nation's womanhood can best be estimated by the completeness with which they fulfil the inspirations of love and its devotion; and judged by this standard, the higher types in India need fear no comparison ”

अटो रथफिल्ड साहब अपनी पुस्तकमें लिखते हैं :—

“व्यवहार दृष्टिसे देखने पर शीघ्र विवाहमें बहुत कुछ सुविधाएं दृष्टि-

गोचर होती है । इसमें प्रधान सुविधा यह है कि विवाहित स्त्रीपुरुष अपने आत्मीयोंके गृहमें एक साथ प्रतिपालित होते रहने पर परस्परके सहवास तथा प्रेममें अभ्यस्त होजाते हैं और धीरे धीरे गृहस्थजीवनके भी कर्तव्य तथा दायित्वका ज्ञान लाभ कर लेते हैं ।

“उनका वैषयिक ससर्ग, जो द्विरागमनके अनन्तर होता है वह कई वर्षके बाद हुआ करता है । इसमें भी पिता माता जब दोनोंकी शारीरिक अवस्थाको योग्य समझें तभी आवा देते हैं ।

“सब ओर विचार करनेपर यही कहा जा सकता है कि हिन्दुओंकी विवाहपद्धति ही दाम्पत्यजीवनमें अधिक सुखदायिनी वस्तु है । और इस सुखमें स्वार्थगन्ध बहुत ही कम है तथा विश्वजनीन सार्वभौम भाव बहुत अधिक है । किसी जातिकी नारियोंमें उत्तमता उनके पतिप्रेम और पतिभक्तिकी पूर्णताके द्वारा जानी जाती है, यदि इसी आदर्शके अनुसार विचार किया जाय तो हिन्दुजातिकी उच्चकुल रमणियोंके साथ संसारकी और किसी जातिकी स्त्रियोंकी तुलना नहीं हो सकती है ।

अतः प्राच्य प्रतीच्य सभी प्रकार विचार द्वारा यही निश्चय हुआ कि आर्यशास्त्रसम्मत विवाहकाल निर्णय ही सर्वथा श्रेयस्कर है ।



वर्णविज्ञान और स्पृश्यास्पृश्य विचार ।

संस्कृतभाषाके ‘वर्ण’ शब्दका हिन्दीमें अर्थ ‘रङ्ग’ है । क्या चार वर्णका रङ्गके साथ भी कोई प्राकृतिक सम्बन्ध है, इस विषयमें अनेक पश्चिमी तथा पतद्देशीय विद्वानोंने विचारकर निम्नलिखित सत्यका पता लगा लिया है । यथाः—

“Has colour anything to do with matter ? We know on the face of things that colour or complexion of a people depends upon climatic conditions, But mysticism which concerns itself more with the inner man than with the outer, makes us aware of certain subtle facts One of them is the existence of a certain subtle, invisible yet material fluid that ever emanates from man, this is a kind of bodily fire

and is called the mysterious occult force, for it travels from man to man and effects him for good or evil. Mesmer, the founder of the well-known doctrine of mesmerism in the 18th century gave it the name of Animal Magnetism. Some eminent scientists of the west have given it the name of Aura, which is defined as a subtle fluid supposed to flow from a body. "Search where we may" says Professor William, "this force (Magnetism) has been universally acknowledged and used by all tribes and nations, and so far as this being but a science of yesterday it enjoys the double reputation of being very old and has stood the test of ages, indeed, we maintain that it is the oldest science extant and nothing was proclaimed as a science prior to it."

Another fact of mysticism founded on the existence of this force is that these auras, as they spread themselves in ether around us bear the impress of our thoughts, passions, and desires and evince appropriate forms, colours, smell and sounds, like all other emanations of the body, and that whenever set in motion by the human will, they assume such forms and colour as to render them capable of indicating the real character of the man. The predominance of 'gunas' likewise gives the corresponding colours to the auras and may by a process of action and reaction give corresponding shade of colours to the grosser bodies as well.

(The Varana System—Kalpaka 2-28)

रङ्गके साथ वस्तुका सम्बन्ध है ? साधारणतः यही विदित है कि शीत-प्रधान या गर्मीप्रधान जैसे देशमें मनुष्य रहता है, उसीके अनुसार काले, गोरे आदि रङ्ग हुआ करते हैं। किन्तु सूक्ष्म विद्यामें इससे अतिरिक्त कुछ भीतरी तर्कोंका भी पता लगाया गया है। प्रत्येक मनुष्यके शरीरसे अदृश्य वास्व

जैसी एक तैजस वस्तु निकलती है जो दूसरेके शरीर तथा मन पर प्रभाव डालकर उसे अच्छा या बुरा बना सकती है । मेस्पेरेरिजम् विद्याके प्रवर्तक मेसमेर साहब इसे जैव विद्युत्शक्ति कहते थे । पश्चिमदेशके कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकोंने इसको 'अरा' कहा है । प्रोफ़ेसर विलियम कहते हैं कि चाहे किसी तरहसे जांच की जाय इस सूक्ष्मशक्तिको कोई इन्कार नहीं कर सकता है, इसको सभी जातिके मनुष्योंने किसी न किसी प्रकारसे माना है और वर्षों परीक्षाके बाद यही तय हुआ है कि सबसे प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार यह 'अरा' ही है ।

'अरा' के विषयमें और एक चमत्कार यह विदित होगया है कि, मनुष्यकी चिन्ता, मनोवृत्ति और भीतरी वासनाओंके अनुसार ही 'इथर' में 'अरा' प्रकाशित होता है और उसका आकार, रङ्ग, गन्ध और शब्द भी उसी प्रकारका होता है । इसके सिवाय इच्छाशक्तिके द्वारा 'अरा' को प्रेरित करने पर उसका रूप रङ्ग ऐसा ही देखनेमें आता है जिससे प्रेरित करनेवालेके चरित्रका तथा मनोभावका पूरा पता लग सके । अनः यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मनुष्य-प्रकृतिमें सत्त्व, रज, तम जिल प्रकारका गुण होगा 'अरा' का रङ्ग भी उसी प्रकारका होगा और क्रिया प्रतिक्रियाके परिणाममें स्थूलशरीरका रङ्ग भी ऐसा ही हो जायगा । (कल्पक २ । २८)

इस वैज्ञानिक तथ्यसे निम्नलिखित विषय प्रमाणित होते हैं:—

(१) शास्त्रमें सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणका रङ्ग श्वेत, रजः सत्त्वप्रधान क्षत्रियका रङ्ग लाल, रजस्तमःप्रधान वैश्यका रङ्ग पीत और तमःप्रधान शूद्रका रङ्ग काला जो लिखा गया है, सो प्रकृतिभेदसे 'अरा' भेद और 'अरा' भेदका परिणाम स्थूलशरीरपर ऐसा ही होता है ।

(२) जिसमें 'अरा' देखनेकी शक्ति (Psychic sight) हो, वह चार वर्णमें इसी प्रकार चार रङ्गके 'अरा' अवश्य ही देख सकेगा ।

(३) जब जन्मसे ही ब्राह्मणशिशुका रङ्ग श्वेत, क्षत्रियशिशुका रङ्ग लाल, वैश्यशिशुका रङ्ग पीत और शूद्रशिशुका रङ्ग काला है तो पूर्वजन्मके कर्मके साथ वर्णधर्मका सम्बन्ध अवश्य है ।

(४) जहाँ पर वर्ण धर्मके अनुसार रङ्ग ठीक नहीं मिलता हो वहाँ किसी कारणसे प्रकृतिमें भेद पड गया है, जिससे 'अरा' का भी रङ्ग बदल गया है यही मानना होगा ।

(५) जब इच्छाशक्ति तथा वासनाके वेगसे 'अरा' का रङ्ग बदलता है तो असाधारण कारणसे असाधारणरूपसे 'अरा' का रङ्ग बदलना और उसका परिणाम स्थूल शरीरपर पड़ कर जन्मान्तर प्राप्ति होना भी सम्भव है जैसा कि विश्वामित्र आदिका हुआ था । असाधारण कारण तथा रङ्ग बदलनेका प्रमाण महाभारतके शान्तिपर्वमें मिलता है । यथा:—

असृजद्ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् ।
 आत्मतेजोऽभिनिर्वृत्तान् भास्कराऽग्निसमप्रभान् ॥
 न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।
 ब्रह्मणा पूर्व्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णताङ्गतम् ॥
 कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः ।
 त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥
 गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः ।
 स्वधर्मान्नाऽनुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥
 हिंसाऽनृतमिया लुब्धाः सर्व्वकर्मोपजीविनः ।
 कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥

ब्रह्माण्डप्रकृतिकी गति सत्त्वगुणसे तमोगुणकी ओर होती है, इसलिये प्रथम सृष्टिमें सत्ययुग और तदनन्तर त्रेता, द्वापर, कलिका क्रम रहता है । अर्थात् सत्ययुगमें सत्त्वगुणका प्राधान्य, त्रेतामें रजःसत्त्वका प्राधान्य, द्वापरमें रजस्तमका प्राधान्य और कलिमें तमका प्राधान्य होता है । इसीके अनुसार प्रथम सृष्टिमें सनक, सनन्दन आदि भगवान् ब्रह्माके जो चार मानस पुत्र हुए उनमें सत्त्वगुणकी पराकाष्ठा होनेसे सृष्टिकी इच्छा ही नहीं हुई । इसके बाद दूसरे अधिकारमें मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य आदि सात ऋषि उनके मानस पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए, उनमें सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, किन्तु मनोबल, योगबलकी विशेषताके कारण उन्होंने भी मानसी सृष्टि की । यह सृष्टि केवल ब्राह्मणोंकी हुई, क्योंकि उस समय भी ब्राह्मणप्रकृतिमें सत्त्वगुणका ही प्राधान्य था । वे सब ब्राह्मण आत्मबलसे पुष्ट तथा सूर्य और अग्निकी तरह तेजस्वी थे । उस समय वर्णोंकी विशेषता नहीं थी, सभी ब्राह्मण थे । किन्तु धीरे धीरे प्रकृतिकी गति नीचेकी ओर

होने लगी, जिससे रजोगुण, तमोगुणका भी विकाश होगया, और श्वेत वर्ण ब्राह्मणके स्थानमे कामभोगप्रिय, कठिन प्रकृति, क्रोधी, साहसी, रक्तवर्ण क्षत्रिय, कृषि-गोरक्षासे जीविका करनेवाले पीतवर्ण वैश्य और शौचाचारशून्य, हिंसादि-प्रिय, कृष्णवर्ण शूद्र उत्पन्न होगये । स्वधर्मत्यागका प्रभाव इन सबके मनपर पड़ जानेसे 'अरा' का रङ्ग भी बदल गया था, और तदनुसार शरीरका भी रङ्ग बदल गया था, जैसा कि इन श्लोकोंमे बताया गया है । इसी प्रकार प्रथम सृष्टिमे ब्राह्मण और तदनन्तर अन्य तीन वर्णोंकी उत्पत्तिका प्रमाण वेदमें भी मिलता है, यथा :—

‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् । तद्धैयोरूपमन्य-
सृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो
मृत्युरीशान इति.....स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । स नैव
व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमिमं वै पूषेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च ।’

(बृह उप ४ ब्राह्मण)

प्रथम सृष्टिके समय सब ब्राह्मण थे, अन्य वर्ण नहीं थे । इससे काम न चला, तब परमात्माने पालनादि कार्यके लिये क्षत्रियवर्णकी सृष्टिकी, जिनका नाम पृथिवीमे क्षत्रिय हुआ और स्वर्गमे इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, ईशान इत्यादि हुआ । इससे भी काम न चला, क्योंकि पालनके लिये अर्थकी आवश्यकता पड़ी । इस लिये परमात्माने वैश्यवर्णकी उत्पत्ति की, जो मनुष्य-लोकमें इसी नामसे और दैवलोकमें 'गण' नामसे कहे जाते हैं । देवताओंमें अष्ट-वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, त्रयोदश विश्वेदेवा और उनचास पवन इसी गणमें हैं । किन्तु जब इससे भी काम न चला तो सेवाके लिये परमात्माने शूद्र-वर्णकी सृष्टि की । दैवलोकमें पोषणकारिणी पृथिवी इस वर्णमे है और मनुष्य लोकमें शूद्रजाति है ।

असाधारण हेतुके द्वारा एक ही जन्ममें वर्ण बदलनेकी सम्भावना होने पर भी साधारणतः सात जन्ममें वर्ण बदल जाता है जैसा कि मनुसंहिताके अध्याय १० में लिखा है :—

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमात्कुलात् ॥

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥

अर्थात् शूद्रा स्त्रीमे ब्राह्मणसे उत्पन्न कन्याके साथ यदि और कोई ब्राह्मण विवाह करे और उस विवाहसे उत्पन्न कन्याका पाणिग्रहण और कोई ब्राह्मण करे, इस प्रकारसे ब्राह्मणका सम्बन्ध क्रमशः सात पुरुष तक हो तो सातवें जन्ममें वीर्य्य प्राधान्यके कारण वह वर्ण ब्राह्मण होजाता है। इस प्रकारसे शूद्र ब्राह्मण होनेको तरह, ब्राह्मण भी शूद्र होसकता है। क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी जातिपरिवर्तनका यही साधारण नियम है। किन्तु इस प्रकार असवर्ण विवाहका निषेध कलियुगमे महर्षियोने कर दिया है। सात जन्मके साथ सम्बन्धकी क्या विशेषता है इस विषयमें जैसा कि पूर्व अध्यायमे कहा गया है हग्सले साहवकी तरह और भी अनेक पश्चिमी विद्वानोने बहुत कुछ खोज निकाला है। यथा—

For many years it was believed that every 7 years there was a complete renewal of all outworn tissues in the human body. Dr. Herman Swoboda claims to have discovered that every seventh year, over and above the fact that it marks some change, either retrogressive or progressive in the life of the individual, the period has still greater importance attaching thereto

Every person embodies in his character and organism traits and resemblances derived from long generations of ancestors and it is the theory of Dr Swoboda that every seventh year we have the power to transmit these traits to offsprings

Bismarck is a brilliant example of the correctness of the Swoboda theory. The doctor claims that, along with other traits, the tendency to certain diseases can be trans-

mitted from parent to child only in yeais divisible by 7
(The Sacred Seven by Artie Mae Blackburn—Kalpaka-2|25)

बहुत वर्षों तक लोगोका यही विश्वास रहा कि, प्रति सात वर्षके बाद मनुष्यशरीरकी पुरानी पेशियां बदल जाती हैं। डाक्टर हर्मन स्वबोध कहते हैं कि, प्रत्येक सात वर्षमें मनुष्यजीवन पर अच्छा या बुरा कुछ परिवर्तन तो होता ही है, अधिकन्तु और भी आवश्यक बातोंका सम्बन्ध सातके साथ है।

प्रत्येक मनुष्यके चरित्र तथा अवयवोंमें अपने अनेक पितृपुरुषोंसे जन्म जन्मान्तर क्रम द्वारा प्राप्त चरित्र और अवयवोंका सादृश्य रहता है। डाक्टर स्वबोधका सिद्धान्त है कि, प्रत्येक सात वर्षमें हम लोग अपनी सन्तानोंके भीतर इन सब सादृश्योंके समावेश करनेमें समर्थ हो जाते हैं।

डाक्टर विस्मार्कके सिद्धान्तसे डाक्टर स्वबोधके सिद्धान्तकी सत्यता अच्छी तरह प्रमाणित हो जाती है। उनका कहना यह है कि अवयव और चरित्रके अतिरिक्त खास खास बीमारियोंके सस्कार भी सातके द्वारा विभक्त होनेवाले वर्षोंमें पिता मातासे सन्तानको प्राप्त हुआ करते हैं। (कल्पक २-२५)

उपदश, उन्माद, अर्श, अपस्मार आदि रोग सात सात पुरुष तक चलते हैं यह हमारे यहांके वैद्यशास्त्रका सिद्धान्त ही है।

वर्णविज्ञानके साथ 'धरा' और रङ्गका सम्बन्ध बताकर अब त्रिगुणमयी प्रकृतिका सम्बन्ध बताया जाता है।

वर्णधर्म क्या वस्तु है ? जातीय जीवन की सब प्रकारकी उन्नतिके साथ वर्णव्यवस्थाका किसी प्रकारका सम्बन्ध है वा नहीं ? वर्णव्यवस्था प्राचीन है या किसीकी कपोलकल्पना वा नवीन है ? इसको प्राचीन समझकर रखना चाहिये या नवीन तथा देशके लिये हानिजनक समझकर उडा देना चाहिये ? इत्यादि शङ्क्योंं आजकल प्रायः लोग करते हैं।

किसी वस्तुके रहने या न रहनेके विषयमें विचार तथा मतामत प्रकाशित करनेसे पहिले, विचारवान् पुरुषको देखना चाहिये कि उस वस्तुके अस्तित्वके साथ प्रकृतिका कुछ मौलिक सम्बन्ध है या नहीं ? क्योंकि जिस वस्तुका मौलिक सम्बन्ध प्रकृतिके साथ है, उसका प्रकृतिसे याचद्द्रव्यभावित्व सम्बन्ध रहता है, अर्थात् जबतक प्रकृति रहेगी तबतक वह वस्तु भी रहेगी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

वर्णधर्म किसी महुष्यका बनाया हुआ धर्म नहीं है, परन्तु प्रकृतिके त्रिगुणानुसार स्वभावसे उत्पन्न स्वाभाविक वस्तु है। प्रकृतिके सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं। जीव तमोगुणके राज्यमें उत्पन्न होकर रजोगुणके भीतरसे क्रमशः सत्त्वगुणकी ओर चलता है और अन्तमें सत्त्वगुणकी पराकाष्ठापर पहुँचकर गुणातीत ब्रह्ममें लीन हो जाता है। यह जो तीन गुणोंके भीतरसे जीवकी उन्नतिका क्रम है इसीको वर्णधर्म कहा गया है। जबतक जीव तमोगुणमें रहता है तबतक शूद्र कहलाता है, जब और कुछ अग्रसर होकर रजोमिश्रित तमोगुणके अधिकारको पाता है तब वैश्य कहलाता है, जब और भी उन्नत होकर रजोमिश्रित सत्त्वगुणकी अवस्थाको लाभ करता है तब क्षत्रियवर्ण होता है और तदनन्तर रजस्तमोहीन शुद्ध सत्त्वगुणकी जो अवस्था है वही ब्राह्मण वर्ण है। इस प्रकारसे संसारके सर्वत्र तीन गुणोंके अनुसार चार वर्ण स्पष्ट तथा अस्पष्टरूपसे देखनेमें आते हैं। जहाँ प्रकृतिकी पूर्णता है वहाँ प्राकृतिक तीन गुणकी भी पूर्णता है, इसलिये वहाँपर चार वर्ण स्पष्टरूपसे देखनेमें आते हैं और समाजकी प्रचलित व्यवस्थामें भी उसकी गणना होती है। जहाँपर प्रकृतिकी पूर्णता नहीं है, वहाँ जिस गुणकी या जिन गुणोंकी प्रधानता है उसी या उन्हींके अनुसार वर्णधर्मका अल्प प्रकाश देखनेमें आता है। इष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि, भारतवर्षकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों प्रकृति ही पूर्ण है। स्थूल प्रकृतिकी पूर्णता होनेसे यहाँपर षड्भ्रतुओंका पूर्ण विकास आदि अनेक लक्षण देखनेमें आते हैं, सूक्ष्म अर्थात् देवी प्रकृतिकी पूर्णता होनेसे यहाँपर देव पीठ तथा अनेक भगवद्वतारोंके आविर्भाव होते हैं और कारण अर्थात् आध्यात्मिक प्रकृतिकी पूर्णता होनेसे यहाँपर महर्षियोंकी शुद्ध बुद्धि द्वारा ज्ञानभण्डार वेद तथा ब्रह्मज्ञानका विकास हुआ है। इसलिये जब भारतवर्षमें प्रकृतिकी ही पूर्णता है तो तीनों गुणोंकी भी पूर्णता है और इसी कारण भारतीय हिन्दुसमाजमें चारवर्णकी स्वाभाविक व्यवस्था है। इस स्वभावके नष्ट करनेकी चेष्टा करनेपर हिन्दुजाति उन्नति नहीं कर सकेगी, परन्तु स्वभावके नाशसे नष्ट ही हो जायगी। पृथिवीके अन्यान्य देशोंमें प्राकृतिक पूर्णता न होनेके कारण तीन गुणोंकी पूर्णता नहीं है। इसलिये उन देशोंकी जातियोंमें भी वर्णधर्मकी स्वाभाविक समाजगत व्यवस्था नहीं है। और इसी कारण जन्मान्तरके तत्त्व, मृत्युके बाद जीवोंकी कर्मानुसार गति तथा पुनः प्राक्तन कर्मानुसार महुष्यलोकमें उत्तम अधम जातियोंमें जन्म इत्यादि तत्त्वोंका पता उन लोगों को नहीं लग सका है और उनके धर्मग्रन्थों-

में भी इन विषयोंका वर्णन नहीं देखनेमें आता है । वे जन्मको केवल accident of birth अर्थात् बिना कारण अचानक जन्म हो गया, यही कहते हैं । किन्तु पहिले ही हर्वर्ट स्पेन्सरका प्रमाण दिया गया है कि, यह विचारको अपूर्णता मात्र है । ससारमें बिना हेतुके कोई कार्य ही नहीं होता है । तथापि तीन गुणोंका आंशिक विकाश होनेके कारण वहांपर भी वर्णधर्मका अस्पष्ट विकाश है, जो सामाजिक व्यवस्थामे परिगणित न होनेपर भी विचारवान् सूक्ष्मदर्शी पुरुषके नेत्रमें परिदृष्ट होता है । केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु समस्त ससार त्रिगुणमयी प्रकृतिका विकाशरूप होनेके कारण अस्पष्टरूपसे मनुष्यके नीचेकी योनियोंमें भी वर्णधर्मकी व्यवस्था देखनेमें आती है, यथा तैत्तिरीय संहितामें— “ब्राह्मणो मनुष्याणां अजः पशूनां” “राजन्यो मनुष्याणामविः पशूनां” “वैश्यो मनुष्याणां गावः पशूनां” “शूद्रो मनुष्याणां अश्वः पशूनां” अर्थात् मनुष्यकी तरह पशुयोनियोंमें जग आदि ब्राह्मण पशु, भेड़ सिंह आदि क्षत्रिय पशु, गौ आदि वैश्य पशु और अश्व आदि शूद्र पशु हैं । पक्षियोंमें भी शुक क्यूतर आदि ब्राह्मण, वाज तीतर आदि क्षत्रिय, मोर आदि वैश्य और काक गीध आदि शूद्र पक्षी हैं तथा वृक्षोंमें भी घट अश्वत्थ आदि ब्राह्मण, शाल सागवन आदि क्षत्रिय, आम कटहर आदि वैश्य और वांस आदि शूद्र वृक्ष हैं, ऐसा कह सकते हैं । काष्ठके भीतर तो चार वर्णोंकी व्यवस्था शास्त्रमें बताई ही गई है । यथा— वृक्षायुर्वेदमें—

लघु यत् कोमलं काष्ठं सुघटं ब्रह्मजाति तत् ।

दृढाङ्गं लघु यत् काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत् ॥

कोमलं गुरु यत् काष्ठं वैश्यजाति तदुच्यते ।

दृढाङ्गं गुरु यत् काष्ठं शूद्रजाति तदुच्यते ॥

जो काष्ठ लघु, कोमल और दूसरे काष्ठसे सहज ही मिल सकता है वह ब्राह्मणजातीय है । जो काष्ठ लघु और दृढ है तथा अन्य काष्ठसे मिल नहीं सकता वह क्षत्रियजातीय है । कोमल और भारी काष्ठ वैश्यजातीय तथा दृढ और भारी काष्ठ शूद्रजातीय है । काष्ठकी तरह मिट्टीमें चार वर्ण देखे जाते हैं, यथा— श्वेतवर्णकी मिट्टी ब्राह्मण, लालवर्णकी मिट्टी क्षत्रिय, पीतवर्णकी मिट्टी वैश्य और कृष्णवर्णकी मिट्टी शूद्र है । मनुष्यके नीचेकी योनियोंकी तरह ऊपरकी देव-

योनियोंमें भी चार वर्ण हैं, यथा-तैत्तिरीय संहितामें-“अग्निर्देवता अन्वसृज्यन्त” “इन्द्रो देवता अन्वसृज्यन्त” “विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त” “भूविष्टा हि देवता अन्वसृज्यन्त” इत्यादि। देवताओंमें अग्नि आदि देवता ब्राह्मण हैं, इन्द्रादि लोकपालगण क्षत्रिय हैं, विश्वेदेवा वैश्य देवता हैं और अनेक श्रेणियोंके देवता शूद्र हैं। देवताओंके चार वर्णोंके लिये बृहदारण्यकका भी प्रमाण दिया जा चुका है। अतः यह सिद्धान्त हुआ कि त्रिगुणमयी प्रकृतिके सर्वत्र ही त्रिगुणानुसार चार वर्ण कहीं स्पष्टरूपसे और कहीं अस्पष्टरूपसे विद्यमान हैं। इसलिये इस प्रकार स्वभावसिद्ध वर्णधर्मके नाशसे जाति उन्नत न होकर नाशको ही प्राप्त हो जायगी। इसको नष्ट न करके इसका सुधार तथा देश काल पात्रानुसार सामञ्जस्य करना ही दूरदर्शिताका कार्य्य होगा।

वर्णधर्मका विस्तार वताकर अब उसको गभीरता बताते हैं। वर्ण जब प्रकृतिका स्वाभाविक धर्म है तो प्रकृतिके सकल अङ्ग तथा भावोंके साथ इसका अवश्य ही सम्बन्ध होना चाहिये, अर्थात् जहां तक प्रकृतिका प्रवेश है वहां तक वर्णधर्मका भी सम्बन्ध मानना चाहिये। मनुष्यके स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर त्रिगुणमयी प्रकृतिके उपादानसे ही उत्पन्न हुये हैं। अतः त्रिगुणानुसार वर्णधर्मका भी सम्बन्ध तीनों शरीरोंके अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीनों भावोंके साथ अवश्य होगा। बल्कि तीनोंकी पूर्णतासे ही वर्णधर्मकी पूर्णता समझी जायगी। जन्मका सम्बन्ध स्थूलशरीरके साथ, कर्मका सम्बन्ध सूक्ष्म शरीरके साथ और ज्ञानका सम्बन्ध कारण शरीरके साथ है, अर्थात् जन्मका सम्बन्ध आधिभौतिक, कर्मका सम्बन्ध आधिदैविक और ज्ञानका सम्बन्ध आध्यात्मिक है। अतः कोई भी वर्ण जयतक जन्म, कर्म तथा ज्ञानमें पूर्ण न हो तवतक पूर्ण वर्ण नहीं कहला सकता। पूर्ण ब्राह्मण वही होगा जो जन्मसे भी ब्राह्मण हो, कर्मसे भी ब्राह्मण हो और ज्ञान भी ब्राह्मणोच्चित हो। पूर्ण क्षत्रिय वही होगा जिसमें जन्म, कर्म तथा ज्ञान तीनों ही क्षत्रिय वर्णोच्चित होगा। इसी प्रकार और दो वर्णोंके विषयमें भी समझना चाहिये। इसीलिये महाभारतके अलुशासनपर्वमें कहा है—

तपः श्रुतञ्च योनिश्चाप्येतद्ब्राह्मणकारणम् ।

त्रिभिर्गुणैः समुदितस्ततो भवति वै द्विजः ॥

तपस्यादि कर्म, ज्ञान और जन्म तीनोंसे युक्त होनेपर तब ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण होंगे। और भी—

तपः श्रुतश्च योनिश्चोत्पेतद् ब्राह्मणकारकम् ।

तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ (महाभाष्य २।२।६)

त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणाग्रथस्य लक्षणम् ॥ ४।१।४८

कर्म, ज्ञान और जन्म इन तीनोंको पवित्रतासे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं । कर्मज्ञानहीन ब्राह्मण जाति ब्राह्मणमात्र है । यह महर्षि पतञ्जलिका मत है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णोंकी पूर्णताके लिये तीनों गुणोंकी अपेक्षा है । यदि इन तीनोंमेंसे किसीकी कमी रहे तो पूर्ण वर्ण नहीं कहला सकते, यथा यदि केवल जन्मसे ही ब्राह्मण हो किन्तु ब्राह्मणोचित कर्म न करे अथवा ज्ञानी न हो तो पूर्ण ब्राह्मण नहीं कहला सकता । इसी प्रकार क्षत्रियादिके विषयमें भी समझना उचित है । इसीलिये श्रीभगवान् मनुजीने कर्महीन और ज्ञानहीन ब्राह्मणोंके विषयमें कहा है—

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥

यथा षण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला ।

यथा चाज्ञोऽफलं दानं तथा विप्रोऽनुचोऽफलः ॥

(२५ अध्याय)

जिस प्रकार काठका हाथी और चर्मका मृग नकली है उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण भी नाममात्र ब्राह्मण है । जिस प्रकार स्त्रीके लिये नपुंसक, गौके लिये गौ और अज्ञको दान देना निष्फल है, उसी प्रकार अज्ञानी ब्राह्मण निष्फल है, अर्थात् ऐसे ब्राह्मण केवल शरीरसे ही ब्राह्मण हैं, कर्म और ज्ञानसे अब्राह्मण हैं । इसी प्रकार अन्य वर्णोंके विषयमें भी समझना चाहिये ।

यहाँपर यह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है कि जन्म, कर्म और ज्ञान इन तीनोंके साथ वर्णधर्मका सम्बन्ध रहनेपर भी जन्मके साथ वर्णधर्मका साक्षात् और अतिघनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि, पूर्वजन्ममें मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है, उसीके अनुसार ही ब्राह्मणादि वर्णोंमें उसका जन्म होता है । श्रीभगवान् पतञ्जलिनने योगदर्शनमें कहा है—

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः ।

प्रारब्ध कर्मके मूलमें रहनेसे उसके फलरूपसे जीवको जाति, आयु और भोग; ये तीन वस्तुएं मिलती हैं। जिसका पूर्वकर्म सत्त्वगुणप्रधान है उसका जन्म ब्राह्मण पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकर्म रजसत्त्वप्रधान है उसका जन्म क्षत्रिय पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकर्म रजस्तमःप्रधान है उसका जन्म वैश्य पिता मातासे होता है और जिसका पूर्वकर्म तमःप्रधान है उसका जन्म शूद्र पिता मातासे होता है। इस प्रकारसे सत्त्व आदि त्रिगुण तथा पूर्वकर्मानुसार जीवका ब्राह्मणादि वर्ण तथा आर्य, अनार्य आदि जातिमें जन्म होता है। इसीलिये श्रीभगवान्ने गीतामें भी कहा है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

सत्त्व, रजः, तम ये तीन गुण तथा तदनु रूप कर्मोंके विभागके अनुसार चार वर्णोंकी सृष्टि की गई है। मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र होनेसे एक वर्णका मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो अन्य वर्णके मनुष्यका कर्म थोड़ा बहुत कर सकता है, किन्तु पूर्वगुणोंके अनुसार जो स्थूल शरीर बन चुका है उसका परिवर्तन एकाएक नहीं हो सकता है। इसलिये एक वर्णका मनुष्य अपना कर्म उन्नत या अवनत करता हुआ दूसरे जन्ममें अन्य वर्ण बन सकता है, किन्तु उसी जन्ममें नहीं बन सकता है। हां, यदि विश्वामित्र, नन्दिकेश्वर आदिकी तरह असाधारण तप आदि कर्म करे और उसके फलसे स्थूल शरीरका उपादान तक बदलकर उच्च वर्णका बन जाय तो एक ही जन्ममें वर्ण बदल सकता है। परन्तु ऐसा असाधारण कर्मका अधिकार बहुत ही विरल है और इस तमःप्रधान कलियुगमें तो एक तरहसे असम्भव ही है।

जन्मके साथ वर्णधर्मका इतना सम्बन्ध होनेके कारण ही सन्तानकी उत्पत्तिके समय देवता तथा पितृगण जीवको इतनी सहायता करते हैं। सन्तानोत्पत्तिके निमित्त गर्भाधानके समय जीवोंके प्रति देवता तथा पितरोंकी सहायता बहुत ही रहस्यमयी है। जिस प्रकार प्राणशक्तिके आवर्त्तरूपी पीठमें देवता या अप्रदेवता तथा मूर्ति, यन्त्र आदि मन्त्रसिद्ध पीठोंमें देवता आकृष्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भाधानके समय स्त्रीशक्ति और पुरुषशक्तिके संघर्ष द्वारा उनके शरीरमें स्वभावतः ही पीठ उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उत्पन्न होने वाले अनेक जीव तथा उनकी सहायता देनेवाले देवता और पितृगण आकृष्ट होते हैं। जितने जीव उस पीठमें आकृष्ट होते हैं उनमेंसे जिसका कर्म उस प्रकार

पिता माताके द्वारा उत्पन्न होने योग्य होता है वह तो वहाँ रह जाता है और पिताके वीर्यके द्वारा माताके गर्भमें प्रविष्ट हो जाता है, बाकी जीव अन्यत्र चले जाते हैं । पितृगण उस जीवके योग्य स्थूलशरीरप्राप्तिमें सहायता करते हैं और देवतागण उसके प्राचीन कर्मको देखकर अनुरूप गर्भमें उसे स्थापन करते हैं इस प्रकारसे स्थूलसूक्ष्मशरीरयुक्त वह जीव कर्मानुसार जन्मको लाभ करता है, यथा श्रीमद्भागवतमें—

कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये ।

स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥

(भागवत ३।३१)

देवताओंके द्वारा सञ्चालित कर्मके अनुसार शरीर अर्थात् जन्म लाभके लिये जीव पिताके शुक्रको आश्रय करके माताके गर्भमें प्रवेश करता है । उसका पूर्वकर्म जिस वर्णमें जन्म देने योग्य होता है, उसी वर्णके माता पिताके द्वारा उसको स्थूल शरीरकी प्राप्ति होती है और स्थूल शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग भी पूर्वकर्मानुसार ही होता है । अतः सिद्ध हुआ कि, जन्मके साथ वर्णका सम्बन्ध अति घनिष्ठ है और पूर्व कर्मानुसार स्थूल शरीरके किसी वर्णमें वन चुकनेके कारण एकाएक वर्णका परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता है और इसी कारण मन्वादि स्मृतिकारोंने जन्मानुसार ही नामकरण, उपनयन आदि परवर्ती संस्कारोंका विधान किया है। यथा—

नामधेयं दशम्यान्तु द्वादश्यां वाऽथ कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्त्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥

माङ्गल्यं ब्राह्मणस्यस्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥

गर्भाष्टमेऽदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादिकादशे राज्ञो गर्भाचतुर्द्वादशे विशः ॥

(मनु० २थ अध्याय)

जात बालकका नामकरण जन्मसे दसवें दिन या बारहवें दिनमें करना चाहिये अथवा पुण्यतिथि, मुहूर्त्त या शुभ नक्षत्रमें करना चाहिये । ब्राह्मणका नाम मंगलवाचक, क्षत्रियका बलवाचक, वैश्यका धनवाचक और शूद्रका

दीनतावाचक होना चाहिये । गर्भके आरम्भकालसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मणका, एकादश वर्षमें क्षत्रियका और द्वादश वर्षमें वैश्यका उपनयन होना चाहिये । इन सब श्लोकोंके द्वारा जन्मके साथ चार वर्णका स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित होता है । अतः वर्णव्यवस्थामें जन्म ही मुख्य है यह सिद्धान्त निश्चित हुआ ।

जीवके जन्म तथा कर्मका रहस्य न जानकर आजकल कोई कोई मनुष्य केवल इस जन्मके कर्मसे ही वर्णकी व्यवस्थाको मानने लगते हैं और कहते हैं कि इस जन्ममें जो जैसा कर्म करेगा वैसी ही उसकी जाति कहलावेगी । इस प्रकारका सिद्धान्त सर्वथा भ्रमयुक्त है । प्रथमतः पूर्व कर्मानुसार देवता तथा पितरोंकी सहायता द्वारा किस प्रकारसे जीवको आगेका शरीर मिलता है इस रहस्यको जाननेपर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पूर्वकर्मके साथ जातिका कोई सम्बन्ध नहीं है । द्वितीयतः मनुस्मृतिका उपनयन आदिके विषयमें जो प्रमाण दिया गया है उससे भी जन्मसे जाति स्पष्ट सिद्ध होती है । अतः एकाएक इस प्रकार फल्पना कर डालना ठीक नहीं है । इस जन्मके कर्मानुसार जातिका विचार करना कितना भ्रमात्मक है सो साधारण विचारके द्वारा ही मालूम हो सकता है । शुभाशुभ संस्कारानुसार इस जन्ममें जीव किस किस तरहसे कार्य करता है इस विषयमें महाभारतके शान्ति पर्वमें लिखा है—

घालो युवा च वृद्धश्च यत्करोति शुभाशुभम् ।
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥

पूर्वजन्ममें बाल्य, यौवन या वार्द्धक्य जिस जिस अवस्थामें जीव जो जो शुभाशुभ कर्म संस्कार संग्रह करता है, आगेके जन्ममें ठीक उस उस अवस्थामें उन उन संस्कारोंका भोग होता है । इस शास्त्रोक्त सिद्धान्तके अनुसार कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि किसके जीवनमें किस समय कैसे कर्मका उदय होगा; क्योंकि जीवोंके प्राक्तन संस्कार प्रायः तीनों गुणोंके मिले जुले होते हैं; अर्थात् बाल्य, यौवन, वार्द्धक्यके बीचमें संग संस्कार आदिके वश होकर जीव नाना प्रकारके सात्त्विक, राजसिक, तामसिक, तीन गुणके कर्म करते हैं और उन उन अवस्थाओंमें उनके संस्कार फलोन्मुख भी होते हैं । पूर्वजन्मके बालकपनमें किये हुए सदसत् कर्मोंका फलभोग आगे जन्ममें बाल्यावस्थामें ही होता है, यौवनकालमें किये हुए सदसत् कर्मोंका फलभोग यौवनावस्थामें ही होता है इत्यादि । अतः इस बातको कोई नहीं कह सकता है कि मनुष्यके

जीवनमें किस समय कैसे कर्मका उद्भव होगा । ससारमें भी देखा जाता है कि घोर पाप कर्म करनेवाले भी अचानक परम महात्मा बन जाते हैं और सदाचारी महाशय व्यक्तिका भी पतन हो जाता है । अतः यदि इसी जन्मके कर्मानुसार वर्णव्यवस्था करनी हो तो एक ही मनुष्यके एक ही जीवनमें कई प्रकारके वर्ण बन सकते हैं, यथा—कोई ब्राह्मण देशकालके प्रभावसे ब्राह्मणवृत्तिके न चलनेके कारण यदि वाणिज्यादि कार्यमें लग जाय तो वह वैश्य हो जायगा, फौजमें भरती होनेपर क्षत्रिय हो जायगा, पुनः किसीकी नौकरी कर लेनेपर शूद्र हो जायगा इत्यादि इत्यादि । इस प्रकारसे एक ही घरमें कितने प्रकारके वर्ण बन जायेंगे इसका क्या ठिकाना है ? इसमें पिताके वर्णके साथ पुत्रके वर्णकी एकता अनेक समयपर नहीं हो सकेगी । क्योंकि दुकानदार अर्थात् वैश्य वर्णके पिताका पुत्र पढ लिखकर ब्राह्मण बन सकता है । एक पितासे उत्पन्न सहोदर भाइयोंमें भी कई प्रकारके वर्ण बन सकते हैं । स्त्री पुरुषके तथा माता पुत्रके वर्णमें भी प्रभेद हो सकता है । अतः इस दशामें घरकी कैसी व्यवस्था होगी और वैश्य पिताका ब्राह्मण पुत्र पितृ-मातृ-भक्ति किस प्रकारसे करेगा इन सब बातोंपर चिन्ता तथा विचार करनेसे इस जन्मके कर्मानुसार वर्णधर्मनिर्णयकी कल्पना संपूर्ण भ्रमयुक्त प्रमाणित हो जायगी । अतः केवल इस जन्मके कर्मानुसार वर्णधर्म मानना अशास्त्रीय, अदूरदर्शितापूर्ण तथा भ्रमात्मक है ।

वर्णधर्म आर्यजातिका प्राणस्वरूप है । इसके बिना आर्यजातिका संसारमें कदापि अस्तित्व नहीं रह सकता है । आर्यजातिके ऊपर हजारों वर्षोंसे विजातीय अत्याचार तथा आक्रमण होनेपर भी आजतक जो यह जाति जीवित है इसका भी मूलकारण वर्णधर्म ही है । अतः ऊपरी दृष्टिसे देखकर इसके प्रति अपेक्षा न करके, धीर होकर सूक्ष्मदृष्टि द्वारा वर्णधर्मकी महिमा तथा उपकारिताका तत्त्वान्वेषण करना चाहिये । तभी आर्यजातिका कल्याण होगा । नीचे सन्क्षेपसे वर्णधर्मकी उपकारिता तथा आवश्यकताके विषयमें कुछ विचार किया जाता है ।

मनुष्यके शरीरमें जितने अङ्ग हैं, प्रत्येक अङ्गोंके साथ विचार करनेपर उन सभीको चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । यथा—मुखमण्डल या मस्तक, हस्त, ऊरुदेश या उदर और चरण । मनुष्यशरीरकी रक्षाके लिये जिन जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है वे सब इन चारोंके द्वारा ही संगृहीत हुआ

करती है । दिमाग सोचकर शरीररक्षाका उपाय निर्यय करता है । हस्त उसका संग्रह तथा उसकी बाधाओंको दूर करता है, उदर संगृहीत वस्तुओंको पकाकर मस्तक, हस्त, पद सर्वत्र शक्ति पहुंचाता है और चरण सेवकरूपसे सारे शरीरको वस्तु संग्रहमें सहायता करता है । अनः सम्पूर्णा शरीरकी रक्षाके लिये इन चारों अङ्गोंकी विशेष आवश्यकता है । इनमेंसे एक अङ्ग दूसरे अंगका कार्य कदापि नहीं कर सकता है, यथा—मस्तकका जो चिन्ता करणरूप कार्य है वह हस्त, उदर या चरण किसीके द्वारा भी नहीं हो सकता है, और मस्तक भी हस्त, चरण आदिका कार्य नहीं कर सकता है । उदरका कार्य उदर ही कर सकता है, अन्य किसी अंगके द्वारा वह कार्य नहीं हो सकता है । इसलिये अपने अपने कार्यके विचारसे चारों ही अङ्ग आदर करने योग्य हैं और चारोंकी परस्पर प्रीति तथा समवेत सहायताके द्वारा ही सम्पूर्ण शरीरकी सुरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा होती है । जिस प्रकार व्यष्टि शरीरकी रक्षाके लिये ऊपर लिखित चार अंग हैं, ठीक उसी प्रकार समष्टि शरीररूपी समाजकी रक्षाके लिये चार वर्ण चार अंगरूप हैं । ब्राह्मण हिन्दुसमाजके विराट् शरीरका मुखरूप या मस्तकरूप है, क्षत्रिय उसकी भुजा है, वैश्य उदर है और शूद्र चरण है । सभी विराट् पुरुषके अंग हैं और समाजकी रक्षाके लिये सभीकी परम आवश्यकता है । इसीलिये श्रुतिमें चार वर्णोंकी उत्पत्ति विराट् पुरुषके चार अंगोंसे बताई गई है, यथा:—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

(यजु० अ० ३१ म० ११)

ब्राह्मण विराट् पुरुषका मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उरु है और शूद्र चरण है । इन चारोंकी शक्तियों परस्परकी सहायिका बनकर कार्य करे और अपने अपने कार्यमें अधिकारानुसार तरप्पर रहे तभी समाजमें शान्ति रह सकती है । इसीलिये महर्षियोंने इन चारो वर्णोंकी स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीरकी प्रकृति प्रवृत्ति तथा अधिकारको देखकर चारोंके लिये पृथक् पृथक् कर्त्तव्य निर्देश कर दिये हैं, यथा श्रीमद्भगवद्गीतामें—

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज्ज्वमेव च ।
 ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥
 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
 दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥
 कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

(१८ अध्याय)

पूर्वकर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोंके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारोंके कर्म निर्देश किये गये हैं । ब्राह्मणोंका स्वाभाविक कर्म शम, दम, तप, शौच, क्षान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्यमूलक है । क्षत्रियोंका स्वाभाविक कर्म वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धमेसे न भागना, दान और ईश्वरभाव मूलक है । वैश्योंका स्वाभाविक कर्म कृपिकार्य, गोरक्षा और वाणिज्यमूलक है । शूद्रोंका स्वाभाविक कार्य सेवामूलक है । आर्यशास्त्रका सिद्धान्त है कि चतुर्वर्णमेंसे शूद्रकी प्रकृति कामप्रधान, वैश्यकी अर्थप्रधान, क्षत्रियकी धर्मप्रधान और ब्राह्मणकी मोक्षप्रधान होती है । आजकल नाना कारणोंसे स्वभावका विपर्यय हो जानेके कारण चार वर्णोंमे प्रकृतिके अनुकूल कर्तव्यपालन अनेक स्थानमें नहीं देखा जाता है । उसमे वर्णधर्मका कोई दोष नहीं है, परन्तु धर्मोंके कर्मविपर्यय तथा जन्म विपर्ययका ही दोष है । वर्णधर्मकी व्यवस्था संपूर्णरूपसे प्राकृतिक है, इसमें अछुमात्र सन्देह नहीं है ।

प्रत्येक समाजकी शान्तिमयी स्थितिके लिये सदा ही चार वस्तुओंकी अपेक्षा रहती है । (१) जातिकी आत्माकी ओर उन्नत करनेके लिये ज्ञान तथा उच्चचिन्ता । (२) विदेशीय अत्याचारसे बचानेके लिये तथा भीतरी शान्तिरक्षाके लिये स्थूल बल तथा शासन शक्ति । (३) स्थूल कलेवरकी रक्षाके लिये श्रम तथा अर्थसंग्रह । (४) स्थूल आरामके लिये नाना प्रकारकी सेवा । इस प्रकार श्रमविभाग (Division of labour) के साथ जो समाज या जाति अग्रसर होती है तथा प्रकृति प्रवृत्तिके अनुसार चार प्रकारके मनुष्य इन चारों कर्मोंमें नियुक्त किये जाते हैं उस समाज तथा जातिमें कदापि कोई अवनति या विप्लवकी सम्भावना नहीं होती है और धीरे धीरे ऐसा समाज

अवश्य ही उन्नतिकी ओर अग्रसर होता है। महर्षियोंने इन चार वस्तुओंकी आवश्यकताको देखकर प्रकृति प्रवृत्तिके अनुसार आर्यजातिमें चार वर्णोंका कर्त्तव्यनिर्देश किया था। शूद्रमें तमोगुण अधिक है। तमोगुणयुक्त बुद्धिका लक्षण यह है कि अधर्ममें धर्म समझे तथा धर्ममें अधर्म समझे। जहाँ ऐसी विपरीत बुद्धि हो वहाँ स्वाधोनरूपसे कार्य करने पर प्रमाद अनर्थ आदि अवश्य ही उत्पन्न होंगे। इस कारण शूद्र वर्णके लिये महर्षियोंने यह आज्ञा की है कि वह स्वतन्त्र कार्य न करके त्रिवर्णके आज्ञानुसार उनकी सेवारूपसे कर्त्तव्य पालन करें। इस प्रकारसे कर्त्तव्य पालन करनेपर शूद्र शीघ्र ही जन्मान्तरमें वैश्यायोनि प्राप्त होंगे। वैश्यायोनिमें रजोगुण तथा तमोगुण दोनोंका आधिक्य है। रजोगुणका आधिक्य होनेसे धनलालसा वैश्यमें होना स्वाभाविक है। इसलिये उस धन लालसाके द्वारा जिससे अधोगति न हो इस कारण वैश्य जातिको गोरक्षा, चार वर्णोंका पालन आदि सत्कर्ममें उस धनको उपयोग करनेकी आज्ञा की गई जिससे धनके द्वारा कामका पोषण न होकर धर्मसेवा द्वारा वैश्यजाति उन्नत योनियोंको लाभ कर सके। वैश्यजाति इस प्रकारसे स्ववर्णोचित कर्त्तव्य पालन द्वारा अवश्य ही शीघ्र क्षत्रिय वर्ण प्राप्त करेगी। क्षत्रियवर्णमें रजोगुण सत्त्वगुणका प्राधान्य है। रजोगुणका प्राधान्य होनेसे राजशक्तिका उदय होना क्षत्रियमें स्वाभाविक है। किन्तु वह राजशक्ति धर्मानुकूल न चलनेपर प्रजा पीड़न, अन्यजाति तथा राज्यपर अत्याचार आदि अनर्थ उत्पन्न कर सकती है। इसलिये सत्त्वगुणके साथ मिलकर तदनुसार क्षत्रिय वर्णोंको धर्मानुकूल राज्य पालनकी, ब्राह्मण वर्णोंकी रक्षाकी तथा विजातीय अधार्मिक अत्याचारसे राज्यरक्षाकी आज्ञा की गई है। क्षत्रियवर्ण यदि इस प्रकारसे स्वधर्मानुष्ठान करे तो शीघ्र ही ब्राह्मण योनिमें उसका जन्म होगा। ब्राह्मणयोनि सत्त्वगुणप्रधान है। इसलिये तपस्या, साधना, जितेन्द्रियता, संयम, आत्मानुसन्धान, आत्मज्ञानलाभ—ये ही सब ब्राह्मण वर्णोंके स्वाभाविक कर्त्तव्य है। ब्राह्मण जाति अन्य तीन वर्णोंको ज्ञानधनसे धनी करेगी, अन्य वर्ण इसकी सेवा आसाच्छादन तथा रक्षा द्वारा इसको पुष्ट करेंगे यही ब्राह्मणोंके साथ त्रिवर्णका कर्त्तव्यविनिमय है। इस प्रकारसे चार वर्णों परस्पर सहायता द्वारा समाज रक्षाके लिये श्रमविभाग कर लेनेपर तथा अपनी अपनी प्रकृति-प्रवृत्तिके अनुसार स्वधर्मानुष्ठान करनेपर समाजमें अवश्य

ही विद्रोहका अभाव, अनधिकार चर्चाका अभाव और चिरशान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी प्राप्ति हो सकती है ।

पूज्यपाद महर्षियोंने इस प्रकारसे चार वर्णोंमें श्रमविभागकी विधि बताकर खानदान या रोटीवेटीके साथ भी वर्णधर्मका सम्बन्ध बताया है, क्योंकि अच्छी हो या बुरी हो खानदानी वस्तु बहुकालस्थायी होती है । खानदानी रोग उपद्रव, उन्माद, यन्मा आदि प्रपितामह, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्रादि क्रमसे कितने ही वंश तक लगे रहते हैं । खानदानी क्षत्रिय वीर क्षत्रिय होते हैं, खानदानी वैश्य व्यापारमें बड़े निपुण होते हैं । खानदानी गाने बजानेवाले गीत वाद्यकलामें बड़े कुशल होते हैं । इतना तक कि खानदानी सोनार लोहार आदि भी अपने अपने काममें पूरे योग्य होते हैं । इस लिये खानदान उपेक्षाके योग्य वस्तु नहीं है । खानदानके साथ जातिगत विशेष भावका सम्बन्ध होता है जिसकी खास विद्युत्शक्ति खूनके द्वारा वंशपरम्परा क्रमसे बहुत दूर तक अपनी जानिमें चली जाती है । खूनका सम्बन्ध रोटी वेटीसे है । इस कारण खानदान ठीक रखनेके लिये वर्णधर्मके साथ रोटीवेटीका सम्बन्ध ठीक रखना अत्यावश्यकीय है । नहीं तो किसी वर्णमें भी पूर्ण योग्यताके मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकते । दृष्टान्तपर ध्यान देनेसे यह रहस्य अच्छी तरहसे समझमें आ जायगा । एक खानदानी वैश्य है जिसके खूनमें रगरेशमें बुद्धिमें धन कमाना और अर्थोपार्जनको विद्युत् शक्ति भरी हुई है । एक ब्राह्मण है, जिसका धर्म यह है कि धनको कुछ न समझकर उसे त्यागे और तपस्याको तथा अध्यात्मज्ञानको ही धन समझकर उसे कमावे । अब इन दोनोंमें यदि रोटी वेटीका सम्बन्ध होगा तो इस सम्बन्धसे उत्पन्न सन्तानकी कैसी प्रकृति होगी ? क्योंकि धन कमानेवाली वैश्यप्रकृति और धन छोड़नेवाली ब्राह्मणप्रकृति दोनोंके मेलसे जो खिचड़ीसी प्रकृति उत्पन्न होगी उसमें न धन छोड़ना ही पूरा आवेगा और न धन कमाना ही पूरा आवेगा । अर्थात् इस प्रकार वर्णसङ्कर सन्तान न पूरी ब्राह्मण ही बनेगी और न पूरी वैश्य ही बनेगी । इसी प्रकार सहनशीलता, तितिक्षा आदि ब्राह्मणका धर्म है, किन्तु अपमानका बढला लेना क्षत्रियका धर्म है । अब इन दोनों वर्णोंके विवाह सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न सन्तानमें कौन प्रकृति उत्पन्न होगी ? ऐसी सन्तान क्षत्रियवीरकी तरह न तो लड़नेवाली ही बनेगी और न ब्राह्मणकी तरह सहनशील तपस्वी ही

बनेगी । फलतः इस प्रकार चार वर्षोंमें रोटी बेंदीके सम्बन्ध द्वारा कोई भी वर्षा ठीक नहीं रह सकेगा और ऐसा चलते चलते सौ दो सौ वर्षोंमें चारों वर्षोंका नाश होकर जाति ही नष्ट हो जायगी । यही कारण है कि पूज्यपाद दूरदर्शी महर्षियोंने आर्यजातिको वर्षासङ्करता दोषसे बचाया है और चार वर्षोंको आपस-में भोजन तथा विवाह सम्बन्ध करनेको मना किया है । श्रीभगवान् मनुजीने भी 'सवर्णाग्निं द्विजातीनां प्रशुता दारकर्मणि' इत्यादि तृतीयाध्यायके वचनोंके द्वारा अपने वर्षोंमें विवाहादिको ही उत्तम तथा वर्षासंकरकारी असवर्णा विवाहको अधम कहा है । अथर्ववेदमें भी 'ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः' (५-२७ ६) इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा ब्राह्मण स्त्रीका ब्राह्मण ही पति होना चाहिये, इस प्रकार कहकर सवर्णा विवाहकी ही पुष्टि की गई है ।

इस प्रकारसे गंभीर विज्ञानयुक्त वर्षाधर्मकी यदि रक्षा न हो तो संसारमें क्या अनर्थ उत्पन्न होता है इसके विषयमें भी आर्यशास्त्रमें अनेक विचार किये गये हैं । महावीर अर्जुन, औरवौका असह्य अत्याचार सहन करते हुए भी क्यों युद्धसे डरते थे इसके विषयमें कहा गया है । उनको प्रधान भय यही था कि युद्धमें पुरुषोंके मर जानेपर स्त्रियोंमें अधर्म फैल जायगा और इससे वर्षाधर्मका नाश होकर वर्षासङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति हो जायगी । वर्षासङ्कर प्रजाको उत्पत्तिसे कुलनाश, जातिनाश, नरक प्राप्ति तथा पितृपुरुषोंका पिएडलोप हो जायगा । महावीर अर्जुनकी यह आशंका अशास्त्रीय नहीं है । क्योंकि श्रीभगवान् मनु महाराजने स्पष्ट कहा है—

यत् त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्षादूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्ग्राहं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ (१०-६१)

वर्षाधर्मके नाशसे वर्षासङ्कर प्रजा जिस राज्यमें उत्पन्न होती है, वहाँ कुछ दिनोंमें ही प्रजा तथा राज्य दोनोंका ही नाश हो जाता है । केवल मनुष्य राज्यमें ही नहीं अधिकान्तु पशुराज्यमें भी देखा जाता है कि वर्षासङ्कर पशुका वंश नहीं चलता है । गध्रा तमोगुणी और घोड़ा सत्त्वगुणी है । इन दोनोंका वंश कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु इन दोनोंके सम्बन्धसे जो खच्चर (अध्वतर) की जाति बनाई जाती है उसका वंश कदापि नहीं चलता है । इस प्रकार अन्यान्य पशुपत्नी तथा वृक्ष तकमें भी देखा जाता है कि वर्षासङ्कर सृष्टिको प्रकृति स्वयं ही आगे चलनेसे रोक देती है । इसका कारण यह है कि प्रकृतिके

स्वाभाविक तीन गुणोंके अनुसार चार वर्षा हो सकते हैं और प्रकृतिकी समस्त शक्ति प्राकृतिकरूपसे इन तीनों गुणोंके द्वारा चार वर्षाकी चार धाराओंमें ही बँटी हुई है । अतः इन चार धाराओंमेंसे किसी भी धारामें जीव वह चले तो प्रकृतिमाता निजशक्ति द्वारा उसे उन्नत करती हुई ब्रह्मतक पहुँचा सकती है । परन्तु इन चारोंके बीचमें यदि कोई अप्राकृतिक पाँचवी धारा जवरदस्तों बनाई जाय तो उसे आगे बढ़ानेके लिये चारों धारोंमें बँटी हुई प्रकृतिकी चार शक्तियोंके सिवाय और कोई पाँचवी शक्ति है ही नहीं । यही कारण है कि वह अप्राकृतिक वर्षासङ्घरी पाँचवी धारा आगे नहीं चलती और चारोंके ही बीचमें लय हो जाती है । अतः विचारके द्वारा देखा गया कि मनुजीके कथनानुसार वर्षासङ्घर प्रजाको उत्पत्ति होनेपर राज्यनाश तथा प्रजा-नाश हो जाता है । प्रत्यक्षरूपसे देखा भी जाता है कि उष्णकुलोंमें वर्षासङ्घर वशका नाश हो जाता है । पितृगण ऐसे पापमय अप्राकृतिक वशोंको चलने नहीं देते । एक आद्य पुरुषके वाद ही जैसे वश नष्ट हो जाते हैं । इसलिये किसी जातिके चिरजीवनके लिये वर्षाधर्मका पालन होना एकान्त आवश्यक है । संसारमें शत शत जातियोंके नाश होने पर भी आर्यजाति केवल वर्षाधर्मके कारण ही इस दीन हीन दशामें भी जीवित है और जयतक इसका वर्षाधर्म अटूट रहेगा तवतक सहस्र चेष्टा करनेपर भी कोई इसको नष्ट नहीं कर सकेगा । वर्षासङ्घर प्रजाोत्पत्तिके द्वारा पितरोंका श्राद्ध नहीं होता है यह भी विषय पूर्णरूपसे विज्ञानमूलक है । क्योंकि मृत पितरोंके आत्माके साथ श्राद्धमें श्राद्धकर्त्ता पुत्रके आत्मा तथा मनका सम्बन्ध होता है और इसीसे पितृगण श्राद्धस्थानमें आकर श्राद्ध ग्रहण करते हैं । यह कार्य तभी सम्पन्न हो सकता है जब सन्तानका अन्तःकरण पिता माताके अन्तःकरणसे ठीक मिला हुआ हो किन्तु वर्षासङ्घर प्रजामें ऐसा हो नहीं सकता है । क्योंकि उसमें पिता एक वर्षाका तथा माता अन्य वर्षाकी होनेसे उन दोनोंके विलोम सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न सन्तानका मन न पितासे ही ठीक मिल सकता और न मातासे ही ठीक मिल सकता है । अतः उसके किये हुए श्राद्धसे पितरोंकी तृप्ति, प्रेत-योनिसे उनकी मुक्ति न होकर उनका पतन होता है । यही वैज्ञानिक सत्यता-युक्त भय अर्जुनको था और यही सकल शास्त्रोंमें वर्णित किया गया है । पितरोंकी असम्बद्धतासे देशमें स्वास्थ्यभंग, दुर्मिन्न, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नाना प्रकारके दुर्दैव उत्पन्न होकर देश रसातलको जाता है ।

अतः सकल विचार तथा प्रमाणों द्वारा यही सिद्ध हुआ कि इहलोकमें सुख-शान्ति, चिरजीवन, सकल प्रकारकी उन्नति, परलोकमें देवताओंसे सम्बन्ध, पितरोंकी सम्बर्द्धना तथा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ब्रह्मराज्यमें अग्रसर होने-के लिये वर्णधर्मका अस्तित्व और परिपालन आर्यजातिके लिये सदा सर्वथा कर्त्तव्य है ।

अब यह शका हो सकती है कि देशकी वर्त्तमान दुर्गति के समय इस प्रकार भेदभावके द्वारा एकता और हिन्दू जातिकी उन्नति कैसे हो सकेगी ? इस प्रकारकी शंकाओंका समाधान महर्षियोंने स्मृति शास्त्रमें अच्छे प्रकारसे कर दिया है । प्रथम तो व्यक्तिगत कर्मके साथ जातीय उन्नति अवन्तिका सम्बन्ध मिलाना ही युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि पूर्वलिखित योगदर्शनके सूत्रके अनुसार जाति जब पूर्व जन्मके कर्मानुसार ही मिलती है तो जिसका जैसा कर्म था उसकी जाति भी ऐसी ही बनी है और उसीके अनुसार खान पान आदिकी व्यवस्था भी रहनी चाहिये । इसलिये जबतक सब वर्ण तथा अछूत जाति एक साथ खानपान या विवाह सम्बन्ध न करेंगे तबतक देशका उद्धार न होगा ऐसी कल्पना करनेसे देशका उद्धार तो कभी भी नहीं हो सकेगा । क्योंकि सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंमें ही जब वैषम्य है और उसीके परिणामसे जब जातियाँ बनती हैं तो सब वर्ण या जाति एक तो कभी नहीं हो सकती है । एक पिताके अनेक प्रकार प्रारब्धवाले कई एक पुत्र होते हैं । कोई मैजिस्ट्रेट होना है, कोई सामान्य क्लर्क ही रहता है । इसमें यदि यह कहा जाय कि मैजिस्ट्रेट और क्लर्क दोनोंकी तनखा तथा इज्जत जबतक बराबर न होगी तब तक पिताकी सेवा दोनों मिलकर नहीं कर सकेंगे तो पिताकी सेवा कभी नहीं हो सकेगी । अतः प्राकृत व्यक्तिगत कर्मके साथ जातिगत समष्टि कर्मका मेल कभी नहीं करना चाहिये । अच्छे बुरे उच्च नीच सभी एक भारत माताकी सन्तानें हैं, इस कारण व्यक्तिगत भावसे पृथक्ता रहनेपर भी जाति भाई रूपसे सब मिलकर मातृ भूमिकी सेवा कर सकते हैं और करना चाहिये । वर्णधर्मकी मर्यादा रखते हुए इसी प्रकारसे एकता तथा देश सेवा हो सकती है और होनी चाहिये । इसके सिवाय आपत्कालके विचारसे तथा विशेष विशेष काल विचारसे शास्त्रमें उदारता भी बहुत कुछ की गई है जिसका विचार आगे किया जायगा ।

अब इन सब विषयों पर पश्चिमी विद्वानोंकी सम्मति बताई जाती है—

Mr. Sidney Low in his recent book, A VISION OF

INDIA, says — "There is no doubt that it is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian Society has been braced for centuries against the shocks of politics and the cataclysms of Nature. It provides every man with his place, his career, his occupation, his circle of friends. It makes him, at the outset, a member of a corporate body, it protects him through life from the cancer of social jealousy and unfulfilled aspirations, it ensures him companionship and a sense of community with others in like case with himself. The caste organisation is to the Hindu his club, his trade union, his benefit society, his philanthropic society. There are no work-houses in India and none are as yet needed. The obligation to provide for kinsfolk and friends in distress is universally acknowledged, nor can it be questioned that this is due to the recognition of the strength of family ties and of the bonds created by associations and common pursuits which is fostered by the caste principle. An India without caste, as things stand at present, it is not quite easy to imagine."

"The system of caste", says Sir Henry Cotton, "far from being the source of all troubles which can be traced in Hindu society, has rendered most important service in the past, and still continues to sustain order and solidarity."

"Caste in India cannot be either abolished or extinguished. The system will last for untold centuries, because it suits India on the whole. Hindu Society without caste is inconceivable. Reformers must be content to make the best of a system which cannot be destroyed..... The deep waters

of Hinduism are not easily stirred. Ripples on the surface have the depths unmoved ”

(V A Smith)

सिद्धने साहब अपने ग्रन्थमें कहते हैं कि अनेक आघात लगने पर भी हिन्दुजाति जो सहस्रां वर्षोंसे जीवित है और उनको जातीय भित्ति भङ्गवृत्त तथा उनमें शान्ति है इसका एकमात्र कारण वर्णव्यवस्था ही है । इसके द्वारा प्रारम्भसे ही प्रत्येक व्यक्तिकी सामाजिक स्थिति और सामाजिक जीवनकी सीमा निर्दिष्ट हो जाती है, जिससे पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष या अपूर्ण आशा-जनित दुःखका उदय समाजमें नहीं हो पाता है । भारतमें वर्णहीन हिन्दुजातिका अस्तित्व कल्पनामें नहीं आ सकता । इत्यादि । सर तेनरी काटन साहब कहते हैं—यह बात मिय्या है कि वर्णव्यवस्थाके द्वारा हिन्दुसामाजिक जीवनमें अनेक दुःखोंका उदय हुआ है, वल्कि प्राचीन समयमें इसने जातिकी बड़ी सेवा की है और अब भी इसीके द्वारा सामाजिक जीवनमें शृङ्खला तथा संगठन बना हुआ है । भी. ए. स्मिथ साहब कहते हैं—“भारतवर्षमें वर्णधर्मका नाश नहीं हो सकता और न यह उठा ही दिया जा सकता है । वर्णधर्म भारतवर्षमें अनन्तकाल तक रहेगा, क्योंकि यह भारतीय प्रकृतिके अस्तुकूल है । वर्णविहीन हिन्दुसमाज कल्पनामें नहीं आता । जब यह नष्ट नहीं हो सकता तो सुधारवादियोंका इस उद्यम प्रयत्नमें न पड़कर इससे जो कुछ फायदा होसके उसीका उपाय करना चाहिये । हिन्दुसमाजसिन्धुका गर्भार तलदेश शीघ्र चञ्चल नहीं होता है, ऊपरकी लहरोंका प्रभाव नीचेतक नहीं पहुँचता है ।”

खानदानके साथ वर्णके सम्बन्धको भी बहुतसे पश्चिमी विद्वानोंने अनुसन्धान कर जान लिया है, यथा—

The whole history of man as well as that of the organic world is simply the history of the evolution of new faculties one after the other. (p 308. Cosmic Consciousness.)

In the self-conscious human being as we know him today, we have the psychic germ of not one higher race only, but of several. (Ibid.)

We are all an omnibus on which our ancestors ride
The good and the bad traits of character inherited and developed by each person are shown in the face and head, these may be modified by changing the habits of thought and life,

(Dr Oliver Wendell Holmes - Kalpaka 1-23)

The law of heredity is far more important for the preservation of race character and its promotion in the possession of the race than that of variation simply

(W Cecil Dampier Weithem)

Every person embodies in his character and organism traits and resemblances derived from long generation of ancestors, and every seventh year we have the power to transmit these traits to offsprings

(Artic Mae Blackburn—Kalpaka)

All our ancestral doings are represented in our being and do in a real sense constitute in us a deeper and vaster order of consciousness than our own individual consciousness

(Ed Carpenter)

वके साहव अपने ग्रन्थमे कहते हैं—मनुष्य जाति नया व्यवस्थित विश्व-का यही इतिहास है कि इसमे परम्परासे नवीन गुणोंका विकास हुआ करता है और इन सब गुणोंके सङ्कार केवल एक पितृपुरुषसे नहीं, किन्तु कई एक पितृपुरुषसे प्राप्त होते हैं। डाक्टर अलिभर वेन्डेल साहव कहते हैं—गुणविकासमें हम सब अपने पितरोंके चाहनरूप हैं। पूर्वजोंसे प्राप्त अच्छे या बुरे गुणोंके अनुसार मुख और सिरकी आकृति बनती है। जीवन और चिन्ताके प्रकारको बदलनेसे इनमें भी परिवर्तन हो सकता है। सेसिल डैम्पियर विथेम साहवका कहना है कि—जातीय प्रकृति और जातीय चरित्रकी रक्षा तथा समुन्नतिके लिये वंशपरम्पराकी विशेषतया आवश्यकता होती है। केवल व्यक्तिगत अभ्यास बदलने-

से उतनी सफलता नहीं हो सकती है। आर्टि भी ब्लाकवर्न साहब कहते हैं—प्रत्येक मनुष्यके अवयव तथा स्वभावमें ऐसे अनेक गुण मिलते हैं जो जन्मजन्मान्तर-के पितृपुरुषोंके द्वारा उसे प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक सप्तम वर्षमें वह स्वयं भी अपनी सन्तानोंमें उन गुणोंका समावेश कर सकता है। कार्पेन्टर साहबकी उक्ति है कि—हमारे जीवनमें अपने पूर्वजोंके गुणकर्म स्वभाव विशेषरूपसे प्रकाशित होते हैं। ब्रानशक्तिकी स्फूर्तिमें अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थकी अपेक्षा पूर्वजोंसे प्राप्त गुणोंका ही अधिक प्रभाव रहना है।

वर्णव्यवस्थाको स्पष्ट माननेमें असमर्थ होने पर भी जीवजगत्में उन्नति-के क्रम चार ही होते हैं इस प्रकारकी चिन्ता कई एक प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों-ने की है, यथा—

Science has divided the human race into those branches, known as the deer, peasant and hunting types. To one of these categories every person belongs irrespective of race, colour, climatic conditions or environment. The peasant and hunting types are hard materialists who set goal for themselves and attain it by sheer hard work. The deer type comprises intellectual dreamers, poets and artists. The hunting type is lively and versatile. He or she has a sharp look and as a general rule an arched nose

(Prof Heinrich Hartwein—German Scientist.)

जर्मनदेशके वैज्ञानिक प्रोफेसर हिनरिच हारटुईन साहबका कथन है कि सायन्सने मनुष्यजातिको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया है। यथा—मृगश्रेणि, कृषक श्रेणि और शिकारी श्रेणि। इन्हीं तीन श्रेणियोंमें संसारके समस्त मनुष्य विभक्त किये जा सकते हैं। कृषक श्रेणिके लोग स्थूल परिश्रमके द्वारा उन्नत होते हैं। शिकारी श्रेणिके भी स्थूलशरीरसे पुष्ट होते हैं किन्तु उनकी प्रतिभा विशेष होती है। वे तीव्र नेत्र, तथा उत्तम नाकवाले होते हैं। मृगश्रेणिके मनुष्य बुद्धि-जीवी, विद्वान्, कवि और सूक्ष्मकलाप्रवीण होते हैं। इस प्रकारसे हिनरिच साहबने तीन विभाग करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णका ही आभास बनाया है।

इसी प्रकार अगस्ट कोम्टे साहबने भी मनुष्यजातिको राजक, शासक और वणिक इन तीन विभागोंमें विभक्त कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णके धर्मका ही आभास दिया है। वैज्ञानिक बके साहबने तीनसे आगे बढ़ कर मनुष्यजातिको चार श्रेणियोंमें विभक्त किया है, यथा—

Thus we have four distinct stages of intellect all abundantly illustrated in the animal and human worlds about us—all equally illustrated in the individual growth of the cosmic conscious mind and all four existing together in that mind as the first three exist together in the human mind,—the mind made up of precepts or sense-impressions, second, the mind made up of these and receipts—the so-called receptual mind or in other words, the mind of simple consciousness third, we have the mind made up of precepts, receipts and concepts, called sometimes the conceptional mind—or otherwise the self-conscious mind—the mind of self-consciousness, and fourth and last, we have the intuitional mind—the mind whose highest element is not a receipt or a concept, but an intuition This is the mind in which sensation, simple consciousness and self-consciousness are supplemented and crowned with cosmic consciousness

(Bucke's Cosmic Consciousness, p 13)

बके साहबके चार विभागके अनुसार अन्तःकरणका क्रमविकाश है। प्रथम दशामें अन्तःकरण केवल इन्द्रिय सम्बन्धी संस्कारोंको प्रकट करता है। द्वितीय दशामें उसमें इन्द्रियके ऊपरकी अवस्थाका साधारण ज्ञान प्रकट होता है। तृतीय दशामें आत्माका स्वरूपज्ञान प्रकट होता है और चतुर्थ दशामें आत्माका विशेष व्यापक ज्ञान प्रकट होता है। मनकी यह चार दशा क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णके अतुक्ल है।

अब इन चार विभागोंके न मानने पर क्या हानि है इस विषयमें पश्चिमीय विद्वानोंकी सम्मति बताई जाती है—

An eminent doctor by name, Leon Normet, a Director of the French Colonial Laboratory at Hue has been making elaborate experiments on human blood for the purpose of discovering a *serum* which may be manufactured to replace the transfusion of blood from one human body into another in cases of need

He found *four* different types of blood grouped as four separate varieties He stated that it was fatal to mix them wrongly in transfusion and that in selecting the donors of blood for transfusion, care must be taken that their groups should be ascertained beforehand. He definitely states that if blood is transfused to a patient from a donor of the wrong group, the two fluids, instead of blending, would clot and death would be instantaneous.

Elaborate arrangements are made in some hospitals in the continents where the donors of each type are listed and grouped separately to make adequate selections when cases arise; some instances have come in our view in this country also where such transfusion of wrong bloods has caused in some cases perpetual ailment, if not immediate death.

“फ्रान्सदेशीय औपनिवेशिक चिकित्सागारके डायरेक्टर सुप्रसिद्ध डाक्टर लिओ नॉर्मेट साहय आजकल मनुष्यशरीरके रुधिरके विषयमें पूर्ण अनुसन्धान कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि इन रुधिरोंमेंसे कोई जलौय पदार्थ निकाला जाय जिसके रक्तके बदले शरीरमें प्रवेश कराने पर रक्त प्रवेशका ही फल लाभ हो सके। इस अनुसन्धानमें उन्हें यह पता लग गया है कि सकल प्रकारके रक्त केवल चार प्रधान श्रेणियोंमें ही विभक्त किये जा सकते हैं और श्रेणीका विचार न रख कर यदि भिन्न श्रेणीके रक्त एकसाथ मिलाये जाय तो वे रक्त मिलते नहीं हैं, गांठ बँध जाते हैं और जिसके शरीरमें रक्त प्रवेश कराया जाता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिये किस श्रेणीके रक्तके

साथ किस श्रेणीको मिलाना चाहिये इस विषयमें पश्चिम देशके बहुतसे अस्प-
तालोंने आजकल विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इस देशमें भी ऐसी कई
एक घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें अनमेल खूनके जवरदस्ती मिलाने पर तात्का-
लिक मृत्यु तो हुई नहीं, किन्तु सदाके लिये, रोगी वीमार ही रह गया है।”
वर्ण चार ही हो सकते हैं और वर्णसंकरों सृष्टि चलती नहीं है, इस ऋषिवाक्यका
यह अकाट्य प्रमाण है ।

सन् १९२० से १९२६ तक एमेरिकाके Scientific American और
इङ्ग्लैण्डके Science Siftings नामक दोनों पत्रोंमें Dr. Ernest Albert
Abrams, Professor of Eugenics, Chicago University (डाक्टर
अर्नेस्ट अब्राम्स) के यन्त्रोंके विषयमें अनेक प्रबन्ध प्रकाशित हुए थे ।
उनके प्रधान पांच यन्त्रोंके नाम Oscilloscope, Oscillophone,
Oscillogram, Oscillograph और Oscillometre हैं । इन सबके द्वारा
विभिन्न श्रेणीकी रक्तपरीक्षा पूर्णरूपसे हो सकती है और इसी कारण
एमेरिकाकी अदालतोंमें मान्ययन्त्रोंमें इनकी गणना हो चुकी है । किसी
प्रतिष्ठित पुरुषको नीचा दिखानेके लिये यदि कोई उसका शत्रु किसी नीच
जातिकी स्त्रीको एक बच्चेके साथ अदालतमें पेश कर देता है तो इस
यन्त्रके द्वारा रक्त परीक्षा कर यह बताया जासकता है कि इस पुरुषका
यह बच्चा है कि नहीं इत्यादि । आजकल इन यन्त्रोंके द्वारा और विशेष
कर इनमेंसे ‘असीलोस्कोप’ यन्त्रद्वारा वर्णव्यवस्थाके सिद्धान्त विषयमें बड़ा ही
चमत्कार प्रकाशित हुआ है । इस यन्त्रमें घड़ीके पेंडुलमकी तरह दो पेंडुलम
होते हैं, जिनमें रक्तविन्दुके रखने पर वे हिलते हुए परस्पर मिलने लगते हैं ।
इसमें यह स्पष्ट देखा गया है कि अतिदूर जातिके पुरुष और स्त्रीके खून यदि
दो पेंडुलममें रख दिये जाय तो वे अतिवेगके साथ मिलते हैं, किन्तु इसमें
आश्चर्य यह देखा गया है कि इस अतिवेगवान् मिलनेमें उन खूनोमें जो खराब
मसाले होते हैं वे ही ऊपर प्रकट होते हैं, अच्छे मसाले नीचे छिप जाते हैं और
इनका मेल भी एक ही बार होता है, पीछे दोनों पेंडुलम अलग अलग होकर
पुनः मिलते ही नहीं । छितीयतः यह देखा गया है कि एक ही खानदानके
स्त्रीपुरुषके खून यदि मिलाये जाय तो वे बड़े धीरे धीरे मिलते हैं और एकही बार
मिलते हैं । तृतीयतः यह देखा गया है कि समान खानदान भी नहीं और अति-

दूरवर्ती भिन्न जाति भी नहीं इस प्रकारके स्त्रीपुरुषके रक्त यदि दोनों पेरडुलम् पर रख दिये जाय तो वे अति उत्तमताके साथ मिलते हैं और नियमितरूपसे बार बार मिलने लगते हैं। इन तीन परीक्षाओंके द्वारा चिन्मलिखित तीन सिद्धान्त निर्विवाद प्रकट हो जाते हैं, यथा :—

(१) दूरवर्ती भिन्न जातीय विवाह द्वारा उत्पन्न वर्णसंकर प्रजामें पितामाताके दुर्गुण प्रकट होते हैं और वह सृष्टि आगे चलती नहीं। श्रीमगवान् मनुने भी यही कहा है—

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।
 पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥
 पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा ।
 न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥
 कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद् योनिःसंकरः ।
 संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ १०।५८-५९-६०

वर्णसंकर प्रजामें विषयमलीन अनार्यभाव, निर्दयता, क्रूरता, जड़ता आदि दोष होते हैं। स्वभावतः सन्तानमें पिताके, माताके या दोनों ही के गुण प्रकट होते हैं, किन्तु वर्णसंकरमें ऐसा कभी नहीं होता है, उसमें वर्णसंकरी विरुद्ध प्रकृतिके अनुसार पिताके, माताके या दोनों ही के दुर्गुण प्रकट होते हैं। वर्णसंकर सन्तान अपने उत्पत्तिदोषको कभी छिपा नहीं सकती है। किसी उत्तम कुलमें भी यदि घटनाचक्रसे कोई वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होजाय तथापि वह प्रजा अपनी वर्णसंकरों दुर्बुद्धिको अर्थात् पितृदावको थोड़ा बहुत प्रकट किये बिना नहीं रहेगी।

(२) समान खानदान या एकही गोत्रमें विवाह होने पर सन्तान कमजोर और बुद्धिहीन होती है। इस प्रकारकी सृष्टि अधिक दिन चलती भी नहीं है। क्योंकि रक्तोंके उपकरणमें कुछ प्रभेद न रहने पर सृष्टिका वेग (motion) नहीं आ सकता है। महर्षि आपस्तम्बने कहा है :—

समानगोत्रप्रवरां समुद्वाहोपगम्य च ।
 तस्यामृत्पाद्य चाण्डालं ब्रह्मण्यादेव हीयते ॥

एकही गोत्र तथा प्रवरमें विवाह और सन्तान उत्पन्न करने पर सन्तान भी खराब होती है और पुरुषकी भी अथोगति होती है ।

(३) भिन्न गोत्र प्रवर किन्तु एकही वर्णमें विवाह होने पर सृष्टिकी धारा ठोक तौर पर चलती है । यथा मनुसंहितामें :—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥

जो कन्या माताको सपिण्डा और पिताकी लगोत्रा नहीं है, विवाह और प्रजोत्पत्तिके लिये वही ठोक है ।

इस प्रकारसे चार वर्णोंकी सत्यता और वर्णसङ्करकी निन्दाके विषयमें गवेषणापरायण पश्चिमी विद्वानोंने भी बहुत कुछ चिन्ता कर ली है, जिससे पश्चिमी शिक्षाप्रिय स्त्री पुरुषोको अवश्य ही लाभवान् होना चाहिये ।

अब अन्तमें यही विषय विचार करने योग्य रह गया कि यदि तीन गुणोंके अनुसार ही मनुष्यप्रकृति बनती है तो इससे विपरीत धर्म ब्राह्मणादि वर्णोंमें क्यों पाये जाते हैं। यह बात अवश्य सत्य है कि यदि ब्राह्मण अपने कर्मोंपर प्रतिष्ठित रहते, ब्राह्मण, नीच या शूद्रकी तरह आचरण न करते तो कदापि इस प्रकार सन्देह नहीं होता और न जन्मके उड़ानेकी इच्छा ही किसीमें होती । मनुष्य कर्मोंसे भ्रष्ट हो गये हैं, कोई वर्ण अपने कर्मोंनुसार आचरण नहीं करते तभी “जन्मसे जातिका सम्बन्ध है” इस विषयमें इतना रुन्देह उत्पन्न होगया है । प्राचीन कालमें जब चारों ही वर्ण अपने अपने कर्मोंपर प्रतिष्ठित थे तब इस प्रकारका सन्देह कभी नहीं उत्पन्न होता था । अब विचार करना चाहिये कि इस प्रकार चारों वर्णोंमें कर्मभ्रष्टता या विपरीतकर्मका कारण क्या है और विपरीत लक्षणोंके होनेसे वर्तमान देशकालमें वर्णव्यवस्थाका आदर्श किस प्रकारसे स्थिर रह सकता है ।

आजकल जो इतर वर्णोंमें भी उच्च वर्णोंके गुण कर्म स्वभाव पाये जाते हैं और ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण भी बहुधा अपने अपने आचरणसे गिर गये हैं जिससे इतना गड़बड़ मच गया है, विचार करनेपर पता लग जायगा कि इसमें तीन कारण हैं । यथा—वर्णसङ्करता, आरूढ़पतन और मिश्रसंस्कार । आगे तीनोंका विस्तृत वर्णन किया जाता है ।

कलियुग तमःप्रधान है, पापका स्रोत प्रबल वेगसे बह रहा है, स्त्रियोमें शिक्षाके अभावसे या दोषोंसे तथा अन्य अनेक कारणोंसे पातिव्रत्य धर्मका ह्रास हो गया है, पुरुषोंमें भी विषयबुद्धि बढ़नेसे परदारगमनप्रवृत्ति बहुधा देखनेमें आती है, इन सब कारणोंसे वर्णसङ्कर प्रजा बहुत उत्पन्न हो गई है और इसीसे कर्मसङ्करता भी फैल गई है। दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि कोई कुलस्त्री ब्राह्मणी छुपकर किसी शूद्र उपपत्तिसे सम्बन्ध कर पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र पूरे ब्राह्मणके गुण कर्म कैसे प्राप्त करेगा ? विषय गुप्त होनेसे किसीको पता नहीं लगा, वह सन्तान ब्राह्मण ही कहलाने लगी, परन्तु उसके बहुत कर्म ब्राह्मणकी तरह होंगे और अनेक कर्म शूद्रकी तरह होंगे। उसी प्रकार शूद्रमें भी ब्राह्मणके व्यभिचार द्वारा उत्पन्न सन्तान साधारण शूद्रसे और प्रकारका कर्म करेगा। उसमें कुछ ब्राह्मणका भी कर्म दिखाई देगा। कलिके प्रभावसे आजकल ऐसा बहुत हो गया है जिससे नीच ब्राह्मण भी मिलते हैं और अच्छे शूद्र भी मिलते हैं।

द्वितीय कारणका नाम आरूढपतन है। कर्मोंका भोग सस्कारोंकी प्रबलताके अनुसार होता है। मनुष्य अपने जीवनमें कई प्रकारके कर्म करते हैं। त्रिगुणमयी मायाके राज्यमें सात्त्विक, राजसिक, तामसिक ऐसे बहुत प्रकारके कर्म हो जाते हैं, उनमेंसे जो कर्म सबसे बलवान् होता है वही प्रारब्ध बनकर पहिले फल देता है। श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है :—

उद्धर्षं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

सात्त्विककर्मोंसे स्वर्गादिलोक-प्राप्ति, राजसिक कर्मोंसे पृथ्वीलोककर्म ही मनुष्यादिरूपसे जन्म और नीच तामसिक कर्मोंसे अधोलोककर्म जन्म या पशुवादि नीच योनि प्राप्ति होती है। इसी सिद्धान्तके अनुसार यदि कोई मनुष्य ऐसे अनेक कर्म करे जिनसे उसको स्वर्ग मिलना चाहिये, ऐसे अनेक कर्म करे जिनसे उसको पृथ्वीमें ही मनुष्यजन्म मिलना चाहिये और ऐसे अनेक कर्म करे जिनसे उसको नीच पशुयोनि प्राप्त होना चाहिये तो इन तीनों प्रकारके कर्मोंमेंसे जो कर्म सबसे बलवान् होंगे वे ही उसकी मृत्युके समय प्रारब्ध कर्म बनकर चित्ताकाशको आश्रय करेगे और उन्हींके अनुसार उसका जन्म होगा। गीतामें लिखा है :—

यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभाषितः ॥

मृत्युके समय साधारणतः सूक्ष्म शरीर दुर्बल हो जाता है, इसलिये दुर्बल सूक्ष्म शरीरको वे ही कर्म आश्रय करते हैं जो कि सबसे बलवान् होते हैं और जीव उसी भावमें भावित होकर वैसी ही योनिको प्राप्त करना है। इससे यह सिद्धान्त निकलेगा कि यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म अच्छे करनेपर भी कुछ कर्म मन्द करे और वे कर्म प्रबलतम हो तो उन मन्द कर्मोंका भोग पहिले होगा। यथा—किसी ब्राह्मणने ब्राह्मणोंके सदृश अच्छे कर्म अनेक किये, किन्तु मोहवशात् कुछ कर्म शूद्रोंके सदृश भी कर दिये और वे कर्म अन्य अच्छे कर्मोंसे प्रबल हुए तो मरते समय वे शूद्रोंके सदृश किये हुए कर्म ही उसका प्रारब्ध बनकर शूद्र शरीर उत्पन्न करेंगे। वह शूद्रके घरमें उत्पन्न होगा। इन शूद्र सदृश कर्मोंके भोगके बाद यदि ब्राह्मणसदृश कर्म जो पहिले किये थे वे ही प्रबल हों तो पुनर्जन्म ब्राह्मणका होगा, परन्तु इस प्रकार शूद्र माता पिताके द्वारा शूद्र शरीर मिलनेपर भी पूर्वजन्ममें किये हुए ब्राह्मणसदृश कर्मोंका सस्कार उसके कर्माश्रयमें रहनेके कारण वह साधारण शूद्रसे उन्नत होगा क्योंकि उसके कर्माश्रयमें स्थित ब्राह्मण कर्मका प्रभाव अवश्य ही उसके चित्तपर पड़ेगा। वह शरीरसे शूद्र होनेपर भी भाव तथा आचारसे ब्राह्मणके सदृश होगा। श्रीमद्भागवतमें जडभरतका जो पूर्वजन्मका वृत्तान्त लिखा है वह इसी प्रकार आरूढपतनके कारणसे हुआ था। महाराजा भरत बहुत तपस्या करनेपर भी मरनेसे कुछ दिन पहिले एक मृगमें इतने आसक्त हो गये थे कि उसीको स्मरण करते करते मरे और मृगयोनिको प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण मृगोंसे बहुत अच्छे थे क्योंकि तपस्याका सस्कार चित्तमें था। इसी प्रकार अन्यान्य जीवोंमें सम्यक् समयपर असाधारण बातें जो देखनेमें आती हैं और मनुष्योंमें भी जो इतर वर्णोंमें कभी कभी उच्चवर्णकी तरह शक्ति और गुण कर्म स्वभाव देखनेमें आते हैं उनका यही रहस्य है, अर्थात् ये ही सब आरूढपतनके दृष्टान्त हैं। वे सब पहिले जन्ममें उच्चवर्णके थे, परन्तु कुछ प्रबल कर्म नीच वर्णकी तरह कर दिया था जिसका प्रभाव स्थूल शरीरपर पड़नेसे स्थूल शरीर नीच मिला है, परन्तु चित्तमें उच्चसस्कार और प्रकारके रहनेसे आचार तथा कर्म उच्च वर्णकी तरह बहुतसा दिखाई देता है। जिस प्रकार भरत राजा मृगयोनिके

बाद ही पुनः पूर्व तपस्याके फलसे भरत ऋषि बन गये थे, उसी प्रकार वे लोग भी मन्द कर्मका भोग नीच योनिमें समाप्त होनेपर आगामी जन्ममें कर्माशय स्थित अन्य उच्च कर्मके कारण अच्छी योनि प्राप्त करेंगे। कलियुग तमःप्रधान है, देश काल और सङ्ग इसमें बहुत विरुद्ध है, इसलिये कलियुगमें अच्छे मनुष्योंसे भी बहुत बुरे कर्म होजाते हैं, अतः कलियुगमें इस प्रकार आरूढ़पतन होनेकी बहुत ही सम्भावना है। यही कर्मसङ्करताका दूसरा कारण है।

कर्मसङ्करताका तीसरा कारण मिश्रसंस्कार है। प्रकृतिके त्रिगुणमयी होनेसे मनुष्योंके सब कर्म सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन भागोंमें विभक्त होते हैं। अन्य युगोंमें जब भावकी गभीरता थी तब मनुष्योंमें प्रायः एक ही गुणके कर्म प्रबल होते थे, अन्य गुण दबे रहते थे इसलिये कर्मोंकी प्राकृतिक गति प्रायः एकसी होती थी और मनुष्य भी प्रायः एक ही ढंगकी प्रकृतिके होते थे, परन्तु कलियुगमें भावकी गम्भीरता कम होनेसे और देश-कालका प्रभाव मनुष्यप्रकृतिपर पड़नेसे कर्मसंस्कार कलियुगमें प्रायः तीनों गुणोंके मिलेजुले होते हैं। सात्त्विक संस्कारके साथ ही राजसिक तामसिक कर्मोंके संस्कार होते हैं। इसी प्रकार तामसिक मनुष्यमें भी और दो गुणोंके कर्म देखनेमें आते हैं, अर्थात् मिश्रसंस्कारयुक्त मनुष्य प्रायः इस युगमें उत्पन्न होते हैं। मनुष्य इन तीनों प्रकारके कर्मोंमेंसे प्रबलतम कर्मानुसार आगामी जन्मको पाते हैं, किन्तु अन्य गुणके कर्म भी साथ ही साथ रहनेसे प्रकृति मिली-जुली होती है जिससे अच्छे बुरे सभी संस्कार उनमें पाये जाते हैं। आजकल कलियुगके प्रभावसे मिश्रकर्मवाले लोग बहुत होते हैं इसलिये इतर वर्णोंमें भी नीच आचरण करनेवाले लोग मिलते हैं।

आजकल चारों वर्णोंमें कर्मसङ्करताके ये ही उपर्युक्त कारण हैं जिनके कारण इतना सन्देह तथा गड़बड़ मचगया है। अब इस प्रकार वर्णसङ्कर और कर्मसङ्करमय कलियुगमें एक ही उपाय है जिससे वर्णव्यवस्थाके आदर्शको पूर्ण रखते हुए भी देश कालानुसार व्यवस्था हो सकती है। आदर्श वर्णव्यवस्थाकी बीजरक्षा अवश्य ही करनी होगी क्योंकि बीजरक्षा न होनेसे अलुकूल देशकालमें पुनः वर्णधर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो सकेगी और ऐसा न होनेसे अर्थात् वर्णव्यवस्थाके नष्ट हो जानेसे आर्यजातिको किस प्रकार सत्ता नाश होगी सो पहिले कहा गया है और साथ ही साथ देश कालपर भी ध्यान रखना कर्तव्य

है क्योंकि ऐसा करना प्राकृतिक तथा धर्म्मालोकूल है । इसलिये यही उपाय अव होना चाहिये कि एक वर्णके साथ अन्य वर्णका द्वेष या घृणाभाव न रख कर जिस वर्णके मनुष्यमे जिस शरीरकी श्रेष्ठता देखी जाय उसीका योग्य सम्मान करना चाहिये और उसको ऐसा ही अधिकार देना चाहिये । जिसका स्थूलशरीर शुद्ध अर्थात् उच्च वर्णका है उससे स्थूलशरीरसम्बन्धीय कार्य उच्च वर्णसे लेने योग्य जो हो सो लेना चाहिये । ऐसा ही जिस किसीका सूक्ष्मशरीर उन्नत है उससे सूक्ष्मशरीर विषयक उन्नत कार्य कराना चाहिये । उसका स्थूलशरीर निकृष्ट होनेपर भी सूक्ष्मशरीरके विचारसे ऐसा ही करना चाहिये । दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि पूर्वकथित कारणोंके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण स्थूलशरीर सम्बन्धसे ब्राह्मण हो परन्तु उसका मन बुद्धि आदि सूक्ष्मशरीरका भाव साधारण हो अर्थात् वह निर्बुद्धि हो तो उसके साथ बैठकर ब्राह्मण भोजन कर सकता है या उससे भोजन वनवाकर खा सकता है क्योंकि भोजन करना या वनवाना स्थूलशरीरसे ही सम्बन्ध रखता है । किन्तु वह ब्राह्मण यदि कर्मसे बहुत ही हीन हो तो उसके हाथका भोजन भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मनुजीने अन्नशौचको ही प्रधान शौच कहा है, यथा :—

सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्मृतम् ।

योऽन्ने शुचिः स हि शुचिर्न मृदारिशुचिः शुचिः ॥ ५-१०६

और इसी कारण महर्षि अत्रिने ब्राह्मणके दस भेद बताकर नीचकर्म पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंके हाथका अन्न खाना निषिद्ध किया है, यथा :—

देवो मुनिर्द्विजो राजा वैश्यः शूद्रो निषादकः ।

पशुर्ल्लेच्छोऽपि चाण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥

सन्ध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम् ।

अतिथिं वैश्वदेवञ्च देवब्राह्मण उच्यते ॥

शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः ।

निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥

वेदान्तं पठते नित्यं सर्वसङ्गं परित्यजेत् ।

सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥

अस्त्राहताश्च धन्वानः संग्रामे सर्वसम्मुखे ।
 आरम्भे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥
 कृषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालकः ।
 वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥
 लाक्षा-लवण-संमिश्र-कुमुम्भ-क्षीर-सर्पिषाम् ।
 विक्रेता मधुमांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥
 चौरश्च तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा ।
 मत्स्यमांसे सदा लुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥
 ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः ।
 तेनैव च स पापेन विप्रः पशुरुदाहतः ॥
 वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु च ।
 निःशंकं रोधकश्चैव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥
 क्रियाहीनश्च मूर्खश्च सर्वधर्मविवर्जितः ।
 निर्दयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ (३६३-३७३)

देव, मुनि, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ और
 चाण्डाल—ये दसप्रकार ब्राह्मण होते हैं । सन्ध्या, स्नान, जप, होम, पूजन, अतिथि-
 सेवा, वैश्वदेवरत ब्राह्मण देवब्राह्मण कहलाते हैं । शाकफलमूलभोजी, वनवासी
 पितृश्राद्धपरायण ब्राह्मण मुनिब्राह्मण है । वेदान्तपाठी, निःसङ्ग, सांख्ययोग
 विचाररत ब्राह्मण द्विजब्राह्मण है । संग्राममें विजयी, शत्रुको अस्त्रद्वारा रोकने
 वाले क्षत्रियब्राह्मण हैं । कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य व्यवसायी वैश्यब्राह्मण है ।
 लाल, लवण, दूध, घी, मधु, मांस आदि बेचनेवाले शूद्रब्राह्मण है । चोरी
 डकैती करनेवाले, असूयापर, परपीड़क, मछलीमांसमें लोभी निषादब्राह्मण हैं ।
 ब्राह्मणपनको कुछ भी न जान कर केवल जनेऊके घमण्डमें मत्त पशुब्राह्मण
 कहलाते हैं । जो दूसरेको तालाब कूप आदिमें जल पीने न दें या बगीचेमें घूमने
 न दें ऐसे बूढ़ा दुःख देनेवाले म्लेच्छब्राह्मण है । क्रियाहीन, महामूर्ख, सब धर्मसे
 हीन, निष्ठुरब्राह्मण चाण्डालब्राह्मण कहलाते हैं । इन दसमेंसे पीछेके पांचके हाथका

अन्न भोजन नहीं करना चाहिये। यही कर्मानुसार शास्त्रव्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई शूद्र सूक्ष्मशरीरसे अच्छा हो तो उससे शास्त्र तथा विद्यासम्बन्धीय कार्य ले सकते हैं क्योंकि ऐसा विचार केवल सूक्ष्मशरीरसे ही सम्बन्ध रखता है। परन्तु उसके साथ एक पक्तिमें बैठकर द्विज लोग भोजन नहीं कर सकते हैं और न उसके हाथका अन्न ही खा सकते हैं क्योंकि उसका स्थूलशरीर पूर्व कहे हुए कारणोंसे किसीके द्वारा शूद्रका हो गया है। इसलिये स्थूलशरीरसे वह अपूर्ण है, अतः स्थूल स्पर्श-दोषका सम्बन्ध अवश्य है इस कारण स्थूल शरीरका कार्य उससे ब्राह्मण नहीं ले सकते। और वह स्थूलशरीरसे शूद्र परन्तु सूक्ष्मशरीरसे ज्ञानी पुरुष यदि यथार्थज्ञानी तथा विचारवान् होगा तो ऐसा करना भी नहीं चाहेगा क्योंकि जब कर्मके वैचित्र्यसे उसको यह इतर योनि प्राप्त हुई है जिससे प्रमाण होता है कि पूर्व जन्ममें और कर्म उन्नत होनेपर भी कुछ स्थूलशरीरसम्बन्धीय कर्म उसके खराब थे जिससे स्थूलशरीर शूद्र मानापितासे उत्पन्न हुआ है तो उसका कर्त्तव्य है कि पूर्वकर्मका भोग स्थूल अशमें ऐसा ही निभाया करे और सूक्ष्मशरीरसे उन्नत आचरण करे जिससे आगामी जन्ममें उसको स्थूल शरीर भी उन्नत वर्णका प्राप्त होजाय। उसको वर्णव्यवस्थाके प्राकृतिक सिद्धान्तपर धक्का नहीं देना चाहिये क्योंकि ऐसा करना अज्ञानका कार्य होगा, परञ्च यथावत् स्थूल सूक्ष्म शरीरके विचारसे जिस शरीरमें जितनी योग्यता है उस शरीरसे उसी प्रकारका कार्य करना चाहिये। प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंने इसी प्रकारके धर्मका पालन किया है। यथा—

ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च ।

तस्माच्छक्ती न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम् ॥ रा. वा. काण्ड

परशुरामके अनुचित आचरण पर भी ब्राह्मण होनेके कारण श्रीभगवान् क्षत्रियकुलोत्पन्न रामचन्द्रने उनपर अन्नप्रहार नहीं किया था। विदुरने ज्ञानी होने पर भी “शूद्रयोनावह जातो नाऽतोऽन्यद् वक्तुमुत्सहे (म भा प्रजा-गर पर्व) ऐसा कह कर शूद्रसन्तान होनेके कारण क्षत्रियराजा धृतराष्ट्रको ब्रह्मज्ञानका उपदेश नहीं दिया था। अन्य पक्षमें समस्त ऋषि शूद्रसूतके मुखसे पुराणोंको सुनते थे क्योंकि सूत शूद्र होनेपर भी ज्ञानी थे, परन्तु उनके साथ ऋषियोंने स्थूलशरीरका कोई व्यवहार नहीं किया था। मनुजीने भी नीच वर्णसे अपरा विद्या सीखनेको कहा है परन्तु उससे स्थूल व्यवहार करनेको नहीं कहा है।

यही सत्य सिद्धान्त है। कोई शूद्रशरीरधारी यदि ज्ञानी तथा सच्चरित्र हो तो ज्ञानका विषय सिखा सकता है परन्तु वेदके मन्त्रभाग पढ़ने पढ़ानेका उसको कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणके साथ स्थूलशरीरका सम्बन्ध है और वह यथार्थज्ञानी होगा तो ऐसा करेगा भी नहीं क्योंकि ऐसा करना अज्ञान है। यही सब वर्तमान देशकालमें वर्णव्यवस्थाके आदर्शको रखकर उन्नति करनेकी युक्ति है। किसी वर्णके प्रति घृणा न की जाय, किसीकी उन्नतिमें बाधा न दी जाय, जिसका जो शरीर जिस अधिकारका है उसके उस शरीरकी उन्नति उसी अधिकारके अनुसार की जाय, स्थूल शरीरकी उन्नति उसीके अधिकार तथा योग्यतानुसार और सूक्ष्मशरीरकी उन्नति उसीकी शक्तिके अनुसार की जाय एवं सबका सम्मान अधिकारानुसार किया जाय, तभी यथार्थमें भारत-वर्षकी उन्नति होगी और इस घोर कलियुगमें वर्णव्यवस्थाकी बीजरक्षा होगी।

अर्वाचीन पुरुषोंने वर्णव्यवस्था-प्रकरणमें अनेक श्रुतिमन्त्र तथा स्मृतिके श्लोकोंका गलत अर्थ करके जिज्ञासुओंके चित्तमें भ्रम उत्पन्न कर दिया है। इस लिये प्रसङ्गोपात्त शंका-समाधान रूपसे कुछ विषय कहे जाते हैं। प्रथमतः वर्णोंके साथ जन्मका सम्बन्ध नहीं है केवल इस जन्मके कर्मका ही सम्बन्ध है यह उनका कहना और दृष्टान्तमें जावालि ऋषि, विश्वामित्र तथा मतंगका नाम लेना सर्वथा असत्य है। जावालिका प्रकरण छान्दोग्य उपनिषद्के प्र० ४ खण्ड ४ में आता है। उसमें केवल इतना ही लिखा है कि सत्यकामकी माता जबालाने गृहकार्यमें अधिक व्यग्रताके कारण अपने पतिसे गोत्र कभी पूछा नहीं था, पश्चात् उनको मृत्यु हो गई, जिससे गोत्रका पता नहीं लगा। आचार्य गौतम-ऋषिने सत्यकामके मुखसे इस सरल उत्तरको सुनते ही समझ लिया कि सत्यकाम ब्राह्मणका बालक है। अतः सत्यकाम अज्ञातकुल थे विद्या पढ़कर ब्राह्मण हो गये, यह कहना मिथ्या है। विश्वामित्रकी कथा महाभारतके अतुशासनपर्व अध्याय ३ में स्पष्ट ही है, कि चरुपरिवर्तनसे पिताका अश ब्राह्मणका उन्हें पहिले ही मिला था और माताके क्षत्रियांशको बदलनेके लिये उन्होंने कितने ही वर्षों तक असाधारण तपस्या की थी, तब ब्रह्माजीने उन्हें ब्राह्मण स्वीकार किया था, यह असाधारण धर्म है, साधारण विधिमें प्रयुक्त नहीं हो सकता है। मतंगका उपाख्यान महाभारत अतुशासनपर्व अध्याय २७ से २६ तकमें है, उसमें यही लिखा है कि उसने ब्राह्मण होनेके निमित्त तपस्या तो की थी किन्तु इन्द्रदेवने उसे ब्राह्मण

होनेका चर नहीं दिया । अतः अर्वाचीन पुरुषोंके ये तीनों दृष्टान्त अप्रासङ्गिक तथा मिथ्या है । द्वितीयतः यजुर्वेदके 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इत्यादि मन्त्रके द्वारा भी इस जन्मके गुण-कर्म द्वारा वर्ण विचार करना सर्वथा असत्य है । थोड़ी बुद्धिवाले भी सोच सकते हैं कि इस मन्त्रमे जब 'अजायत' पद है तो जिन कर्मोंके द्वारा ब्राह्मणादि विराट् पुरुषके भिन्न भिन्न अङ्गोंसे प्रकट हुए थे वे कर्म प्राक्तन अर्थात् पूर्वकृत अवश्य हैं नहीं तो वे उत्पन्न ही कैसे हो सकते थे । अतः इस मन्त्रके द्वारा भी जन्मसे ही वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है, इस जन्मके गुण कर्मसे ही नहीं । इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् के वा० उप० प्र० ५ खण्ड १० में मन्त्र आता है । यथा—

यथा हि रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमाप-
थेरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापथेरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल-
योनिं वा ।

अर्थात् जिनके पूर्वकर्म अच्छे होते हैं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यकी अच्छी योनि मिलनी है और मन्द प्राक्तनवाले श्वान, शूकर, चाण्डालादि नीच योनियोंको पाते हैं । ये सभी वर्णन पूर्वकर्मानुसार आगामी जन्म पानेके विषयके हैं । इसके सिवाय मनु, आश्वलायन आदि स्मृतियोंमे जो त्रिवर्णका नामकरण, उपनयन आदि संस्कार भिन्न भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न उमरमें करनेकी आज्ञा मिलती है और यहां तक कि इनके जनेऊ, मेखला, दण्ड आदिमें भी वर्णानुसार भेद बताया गया है सो सब जन्मके साथ सम्बन्ध बिना तो बन ही नहीं सकते हैं । यदि विद्या पढ़नेके बाद कर्मानुसार वर्ण निर्णय करना होगा तो कितने मूर्ख ब्राह्मणको जनेऊ उतार देना होगा, उनके लिये पहिले किया हुआ संस्कार सब व्यर्थ हो जायगा, कितनेका कपासका जनेऊ तोड़ सनका या सनका तोड़ ऊनका बनाना होगा और सारा संस्कार बदल देना होगा इसका क्या ठिकाना लग सकता है । अतः विचारकी दृष्टिसे देखनेपर अर्वाचीन पुरुषोंके ये सभी सिद्धान्त भ्रममात्र दिखाई देते हैं । यदि केवल विद्या पढ़नेसे ही ब्राह्मण हो जाता तो विश्वामित्रके पढ़े लिखे होने पर भी इतने तप करनेका प्रयोजन क्या होता ? और विद्या तथा तपस्याहीन ब्राह्मणको मनुसहिना और महाभाष्यमें शूद्र न कहकर जातिब्राह्मण क्यों कहा जाता ? अतः ये सभी मिथ्या

कपोलकल्पित युक्तियां हैं। यदि इस जन्मके गुणकर्ममात्रसे जाति बनती तो इतनी लड़ाई करनेपर भी परशुराम तथा द्रोणाचार्य क्षत्रिय क्यों नहीं कहलाये और गीताके उपदेष्टा होनेपर भी श्रीकृष्ण ब्राह्मण क्यों नहीं कहलाये, इतने बड़े तपस्वी और ज्ञानी विदुर शूद्र ही क्यों बने रहे और इतने परिणत होनेपर भी कर्णको “भै ब्राह्मण हूँ” ऐसा झूठ बोलकर परशुरामके पास आकर सीखनेको क्यों जाना पड़ा ? ये सभी विचारनेकी बातें हैं।

इसके अतिरिक्त अर्वाचीन पुरुषोंने जो विद्यासभा और राजनियमके बलसे मूर्ख ब्राह्मणपुत्रको शूद्रके घरमें और पढ़े लिखे शूद्रपुत्रको ब्राह्मणके घरमें डाल देनेको कहा है, यह बड़ी विचित्र बात है। अदूरदर्शी होनेके कारण उन्हें यह नहीं सूझा कि ऐसा करनेसे गृहस्थाश्रममें कितना अनर्थ तथा विम्व उपपन्न होगा और स्नेह, वात्सल्य आदि भावोंका कैसा सत्यानाश होगा।

प्रथम तो—‘अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मासि पुत्र मामृथाः स जीव शरदः शतम् ॥’ सामवेदके ब्राह्मण भाग २ के इस मन्त्र द्वारा पिताके अङ्ग अङ्गसे निकला हुआ आत्मारूप पुत्र अन्यवर्णका हो ही नहीं सकता है और न अन्य वर्णका पुत्र अपना ही हो सकता है। आमके बीजसे आम ही होता है, चाहे उसका वृक्ष बहुत बड़े या न बड़े। द्वितीयतः श्राद्ध तर्पण पिण्डदानका अधिकार और पिताका सम्पत्तिपर अधिकार अपने वर्णके औरस पुत्रका ही होता है, दूसरे वर्णके पुत्रका नहीं होता है, यही प्राचीन-शास्त्र-निर्दिष्ट दायभागकी व्यवस्था है, यथा—

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पितृव्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तद्युपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ (अ० ९)

अर्थात् पिताके सब धनको औरस ज्येष्ठ पुत्र ही ग्रहण करे, बाकी और सब सन्तान उसमेंसे पिताके सामने जैसे खाते पीते रहें। ज्येष्ठ पुत्रके उत्पन्न होनेसे ही पिता पुत्रवान् कहलाता है क्योंकि श्राद्ध पिण्डदानका अधिकारी होनेसे उसीके द्वारा पिता पितृश्रृणसे मुक्त होता है, अतः पिताकी सम्पत्तिपर उसीका अधिकार है। यही दायभागकी व्यवस्था है। अर्वाचीन पुरुषोंका

सिद्धान्त मानने पर इन सब शास्त्रीय व्यवस्थाओंमें वड़ा ही गड़बड़ पड़ जायगा और गृहस्थाश्रमकी शान्ति तथा सुख एकवारगी नष्ट हो जायगा । अतः ऐसी कल्पना भ्रममात्र है ।

कही कहीं प्रायश्चित्त विवेकके श्लोकका पाठान्तर करके भी लोग गड़बड़ करते हैं । यथार्थ श्लोक यह है—

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते ।
वेदाभ्यासाच्च विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥

जन्मसे ब्राह्मण, उपनयनादि संस्कारोंसे द्विज, वेदाभ्याससे विप्र और इन तीनोंकी पूर्णतामें 'श्रोत्रिय' ब्राह्मण कहलाता है । इसमें जो—

'जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैर्द्विज उच्यते' इत्यादि पाठान्तर किया जाता है सो भूल है ।

अर्वाचीन पुरुषोंने मनुसहिताके अनेक श्लोकोसे केवल कर्मके द्वारा ही जातिनिर्णय करनेकी चेष्टा की है परन्तु उनकी यह चेष्टा सर्वथा भ्रमयुक्त है । क्योंकि मनुजीने ऐसा कही नहीं लिखा है किन्तु उन्हीं सब श्लोकोंके द्वारा मनुजीने वीर्यका या जन्मका प्राधान्य बताया है । यथा—

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।
अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात् ॥
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ (अ० १०)

शूद्रा स्त्रीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न कन्याको यदि और कोई ब्राह्मण विवाह करे और उस विवाहसे उत्पन्न कन्याको दूसरा ब्राह्मण विवाह करे, इस प्रकारसे ब्राह्मण सम्बन्ध क्रमशः सात पुरुष (जन्म) पर्यन्त होवे तो सातवें जन्ममें वीर्यके प्राधान्यके हेतु वह वर्ण ब्राह्मण हो जाता है । इस प्रकारसे जैसा कि शूद्र ब्राह्मण होता है ऐसा ही ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है और क्षत्रिय और वैश्यके विषयमें भी यही नियम जानना चाहिये । इन श्लोकोंमें स्पष्टरूपसे जन्मसे जाति और वीर्यका प्राधान्य वर्णव्यवस्थाके साथ दिखाया गया है । इसमें और किसी प्रकारकी व्याख्याका अवसर नहीं है । मनुजीने ऐसा ही और भी कहा है किः—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (२५ अध्याय)

इससे पहिले और भी दो श्लोक इसी विषयके हैं, यथा:—

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥

गामैर्होमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥

इन तीनों श्लोकोंका क्रमशः अर्थ यह होता है कि वैदिक पुण्य कार्य्य द्वारा द्विजगणका गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये । ये सब वैदिक संस्कार इहलोक व परलोकमें पवित्र करते हैं । गर्भाधान, जातकर्म, चूडाकरण व उपनयनादि संस्कारोंके द्वारा द्विजोंके योज व गर्भजन्य दोष नष्ट होते हैं । स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रैविद्य व्रत, ब्रह्मचर्यदशामें देवर्षिपितृ तर्पण, गृहस्थमें सन्तानोत्पादन, पञ्चमहायज्ञ और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ द्वारा मनुष्योंका शरीर ब्रह्मपदप्राप्तिके योग्य होता है । इसमें पहिले दो श्लोकोंसे रजोवीर्यसे उत्पन्न स्थूल शरीर-शुद्धि और तीसरे श्लोकसे सूक्ष्म व कारण शरीरकी शुद्धि बताई गई है । क्योंकि जीवको ब्रह्मपदप्राप्ति तीनों शरीरोंकी शुद्धिसे ही हुआ करती है । द्विजातिगण इस प्रकार त्रिविध शुद्धि द्वारा ही मुक्तिपद प्राप्त कर सकते हैं । अर्वाचीन पुरुषोंने पहिले दो श्लोकोंका अर्थ छोड़कर और तीसरेका अर्थ विगाड़कर जन्मके उड़ानेकी चेष्टा की है सो सर्वथा मिथ्या है । इसी प्रकार आपस्तम्बके सूत्रके विषयमें भी अर्वाचीन लोगोंने भ्रान्तिसे कहा है कि “उसमें केवल कर्मसे ही जन्मकी व्याख्या की गई है” । उसका अर्थ ऐसा नहीं है । वह सूत्र यह है:—

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।

धर्माचरणसे नीच वर्ण पूर्व पूर्व उच्च वर्णको प्राप्त होता है और ऐसा ही अधर्माचरणसे उच्च वर्ण भी नीच वर्णको प्राप्त होता है । यहाँ धर्म व

अधर्म सस्कारका प्रभाव बताया गया है, परन्तु इसमें एक ही जन्ममें वर्ण बदलता है ऐसा नहीं कहा गया है । क्योंकि, 'जातिपरिवृत्तौ' शब्दके द्वारा जन्म बदलनेसे आगेके जन्मोंमें क्रमशः उच्च नीच वर्णका होना बताया है । इस कारण—चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः । तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान् (१।१।१) आपस्तम्बके ये भी दो सूत्र हैं जिनमें 'जन्मतः' श्रेष्ठता बता कर अपने ही मतकी पुष्टि की गई है । अतः इसमें अन्यथा अर्थ करना भ्रम-मूलक है ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकारसे जातिके साथ जन्म व कर्म दोनोंका ही सम्बन्ध रक्खा गया है और जब आर्य्योंमें ही नीच वर्ण, सात वशपर्यन्त उच्चवर्णका वीर्य्यसम्बन्ध पाने पर, तब उच्चवर्ण बन सकता है तो अनार्य्यको शुद्ध करके आर्य्य बनाना कैसा उन्माद व अज्ञानका कार्य्य है, इसको विचारवान् पुरुष सोच सकते हैं । भगवान् मनुने कहा है कि :—

जातो नार्य्यामनार्य्यायामार्य्यादार्य्यो भवेद्गुणैः ।

जातोऽप्यनार्य्यादार्य्यायामनार्य्य इति निश्चयः ॥ (१०)

अनार्य्य स्त्रीमें आर्य्य पुरुषसे उत्पन्न पुत्र गुणसे आर्य्य होते हैं और आर्य्य स्त्रीमें अनार्य्य पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अनार्य्य होते हैं । इसमें पहिले प्रकारके पुत्र आर्य्य-वीर्य्यके कारण आर्य्यका गुण प्राप्त करेंगे, परन्तु आर्य्यकी जाति उनकी नहीं होगी और दूसरे प्रकारके पुत्र जो अनार्य्य पुरुषसे उत्पन्न होंगे उनमें वीर्य्यका भी प्राधान्य न रहनेसे वे जाति और गुण दोनोंहीसे अनार्य्य होंगे, यही शास्त्रका सिद्धान्त है । इसलिये अनार्य्यको शुद्ध करके आर्य्य बनाना सर्वथा शास्त्रविरुद्ध और अन्याय है । हाँ, यदि कोई अनार्य्य आर्य्यधर्मके महत्त्वको जानकर इसके अन्तर्गत होना चाहे तो होसकता है, किन्तु चतुर्वर्णमें उसकी गिनती नहीं होगी । ऐसे ही यदि कोई आर्य्यधर्मावलम्बी जो भूलसे अन्य धर्ममें चले गये थे, पुनः आर्य्यधर्ममें आना चाहे, यदि उनका ऐसा कोई उत्कट दोष नहीं हुआ हो जिसका प्रभाव स्थूल शरीरपर भी पड़ गया हो और स्थूल शरीरको अनार्य्यभावोंसे ग्रस्त कर दिया हो, तो उनको प्रायश्चित्त आदि शास्त्रीय विधानोंसे शुद्ध करके पुनः चतुर्वर्णमें ले सकते हैं । अथवा कोई चतुर्वर्णसे ही कर्म द्वारा पतित होकर अवान्तर वर्ण बन गया हो और उसका कर्म अब शुद्ध व उन्नत वर्णका जिससे कि वह गिर गया था होगया हो तो उसको भी, यदि ठीक ठीक प्रमाण मिल जाय तो अपने वर्णमें,

शुद्ध करके ले सकते हैं, परन्तु ये सब कार्य बहुत ही विचार और शास्त्रीय आवां व अनुसन्धानके साथ होने चाहिये जिससे एक वर्णके साथ दूसरा वर्ण मिलनेसे कहीं, वर्णसङ्करता न फैल जाय । आजकल स्वदेशहितैषिता और हिन्दुओंकी संख्यावृद्धिके वहानेसे कोई कोई लोग अनाथोंको शुद्ध कर, आर्य बनाने, लग पड़े है और वे लोग नीच वर्णको और धर्ममें चले जानेके डरसे उच्च वर्ण बना देते हैं । आर्योंकी संख्यावृद्धि और देशका हित हो यह सबका प्रार्थनीय विषय है, परन्तु ये सब कार्य आर्यत्वको स्थायी रखकर करना चाहिये । आर्योंकी भलाई व उन्नति आर्य रहकर ही हो सकती है, आर्यत्वको नष्ट करके अनाथ्य बनकर नहीं हो सकती है । यही यथार्थ स्वदेशहितचिन्ता है । धर्म व आर्यत्वको छोड़कर स्वदेशहितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं है, परन्तु अज्ञानकृत अहितचिन्ता है । आर्य यदि आर्य ही न रहे तो उसकी उन्नति किस कामकी होगी, इस प्रकार अनाथोंको आर्य बनाकर संख्यावृद्धि करनेसे आर्यत्व भ्रष्ट हो जायगा, हिन्दुजाति अहिन्दु हो जायगी । इसलिये इस प्रकारकी शुद्धि व संख्यावृद्धिका विचार सर्वथा भ्रमयुक्त है और अन्य धर्ममें चले जानेके डरसे नीच वर्णको उच्च वर्ण बना देना भी इसी प्रकार शास्त्र व जातीयतासे विरुद्ध है । इससे वर्णसङ्करता वृद्धि होकर आर्यजाति नष्ट हो जायगी । संख्यावृद्धि अच्छी वस्तु है, परन्तु धर्मको छोड़कर संख्यावृद्धि ठीक नहीं है । आर्यजातिकी जातीयता व उन्नति धर्ममूलक होनी चाहिये, अन्यथा उन्नति कभी नहीं हो सकती है । पूर्व विज्ञानसे सिद्ध किया गया है कि, एक जाति थोड़ीसी शुद्धिसे ही अन्य जाति नहीं बन सकती है, कर्मके अच्छे-होनेसे अगले जन्ममें जाकर बन सकती है । इसी सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर इन जातियोंको शिक्षा देनी चाहिये, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिये, उनको विद्या पढ़ानी चाहिये, वे दरिद्रता या लोभसे दूसरे धर्ममें जाते हैं, इसलिये उनकी गरीबी, हटानी चाहिये और उनके अधिकारके अनुसार उनको सत्शिक्षा देकर उन्नत करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे उन्नत और शिक्षित भी होंगे और सिद्ध धर्मोंमें नहीं जायेंगे- इस प्रकारसे धर्मकी भी रक्षा होगी और हिन्दुजातिकी संख्या नहीं घटेगी, यही शास्त्रीय सिद्धान्त है । शुद्धिके विषयमें स्थानान्तरमें और भी विचार किया जायगा ।

वर्णव्यवस्थाके विषयमें कही कही यह भी शंका की जाती है कि इसने

स्त्री तथा शूद्र वर्णोंको बहुत नीचा दिखाया है और उनको उन्नतिके पथपर जाने-से रोक दिया है, क्योंकि स्मृतिकारोंने उनके लिये वेदपाठ, वैदिक संस्कार आदि सब कुछ निषेध कर दिया है । यह कटाक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि स्त्री तथा शूद्रके लिये वेदपाठका निषेध महर्षियोने पक्षपात या निष्ठुरतासे नहीं किया है, किन्तु कृपानिमित्त दूरदर्शनाके साथ किया है । महाभाष्यमे लिखा है :—

दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

वेदमन्त्रके उच्चारणमे जो उदात्त अनुदात्त, लाघव गौरव, स्वर तथा वर्ण आदिका विचार रखना होता है, उसके बिना यदि कोई वेदमन्त्रका अशुद्ध उच्चारण करे तो उससे उसकी तथा उसके कुलकी हानि होती है । सभी लोग जानते हैं कि, स्त्रियोंके कण्ठसे सब स्वर ठीक ठीक उच्चारित नहीं हो सकते और तमोभावके आधिक्यके कारण असम्पूर्ण शरीर तथा अपूर्णकण्ठ शूद्रके द्वारा भी मन्त्रोंका यथार्थ उच्चारण हो ही नहीं सकता है । अतः इनके द्वारा अशुद्ध वेदोच्चारणसे इन्हींकी तथा इनके वंशकी हानि हो सकती है, ऐसा जान कर दूरदर्शी दयालु महर्षियोने मन्त्रभागको छोड़कर इन्हे और सब शास्त्र पढ़ने कहा है और महाभारतादि ग्रन्थ जो कि पञ्चम वेद कहाता है, इन्हींको लक्ष्य करके बना दिया है, यथा भागवतपुराणमे—

स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।

कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ।

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

स्त्री, शूद्र और अत्रम ब्राह्मणोंको वेद पढ़ना या सुनना नहीं चाहिये, इसी लिये महामुनि व्यासदेवने इनके कल्याणके अर्थ पञ्चमवेदरूपी महाभारतकी रचना कर दी । इसमे शूद्रोंको तरह नीच ब्राह्मणोंको भी वेद पढ़नेका निषेध किया गया है । इसीसे महर्षियोका पक्षपातरहित उदार समदर्शी भाव विदित हो सकता है । अर्वाचीन पुरुषोंने इस रहस्यको न जानकर कही तो सुश्रुतके प्रमाणसे शूद्रोंके लिये जनेऊ और वेदपाठका निषेध कर दिया है और कही पर वेदमन्त्रका उलटा अर्थ करके वेदका पढ़ना भी कह दिया है । यथा “शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमभ्यापयेत्” सुश्रुतके सूत्रस्थान-

के दूसरे अध्यायका यह वचन है। इसमें कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्रको वेदके मन्त्रभागको छोड़कर शास्त्रपाठकी आज्ञा दी गई है, सो ठीक ही है। किन्तु 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः' इत्यादि यजुः अ० २६।२ के मन्त्रका गलत अर्थ करके स्त्री शूद्र सभीको जो वेद पढ़नेके लिये कहा गया है, यह भूल है। मन्त्र निर्मूलखितरूप है, जिसको उन लोगोंने पूरा कहा ही नहीं है :—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै
दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुपमादो नमतु ॥

हे जनाः ! जनेभ्यः अहं राजा ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय आर्याय
स्वाय अरणाय च यथा इमां कल्याणीं वाचं आवदानि, देवानां
दक्षिणायै दातुः यथा च प्रियो भूयासं यथा च अयं मे कामः
समृद्धयतां यथा च उप, मा, अदः, नमतु, तथा मद्राज्यस्थिता
भवन्तः कुर्वन्तु । जनेषु इभ्यः पूज्यः राजा इति भावः ।

इस मन्त्रमें राजा अपनी समस्त प्रजाओंको एकत्रित कर कहता है—हे मनुष्यो ! जिस प्रकार मैं राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य अरण इन सबके प्रति इनके कल्याण करनेवाली वाणीका उपदेश कर सकूँ, जिस प्रकार देवताओं पर दक्षिणा चढ़ानेवालोंके लिये मैं प्यारा बनूँ, जिस प्रकार यह मेरी कामना पूर्ण हो और जिस प्रकार परोक्ष सुख मुझको प्राप्त हो उस प्रकार तुम काम करो । इसमें केवल राजा प्रजाका संवादमात्र है, इसमें ईश्वर या वेद पढ़ने पढ़ानेका नाम भी नहीं है । क्योंकि ईश्वरके लिये 'कामना पूर्ण हो', 'सुख प्राप्त हो' आदि शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकता है । इसमें अर्वाचीन लोगोंने नीरे गलत अर्थ करके अपना पक्षपात पूरा करना चाहा है, शूद्रवर्णके लिये वेदनिषेधका मन्त्र अथर्ववेद १६।७१।१ में भी मिलता है, यथा—

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयतां पावमानी द्विजानाम् ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्त्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम् ॥

मैंने घर देनेवाली वेदमाता गायत्रीकी स्तुति की है, वह मुझे शुभकार्यमें प्रेरित करे । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यरूपी द्विजोंको पवित्रकरनेवाली वह मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्मतेज देकर ब्रह्मलोकको चली जावे । इसमें वेदका अधिकार द्विजको ही बताया गया है, शूद्रको नहीं । अतः उपनयन तथा वेदका अधिकार शूद्रको नहीं हो सकता । इसी कारण मनुजीने भी कहा है:—

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात् प्रतिषेधनम्

धर्मेऽसवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः ।

मंत्रवर्जं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥

यथा यथा हि सद्ब्रह्मत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ (१०५ अध्याय)

हीन जाति होनेके कारण पाप शूद्रोंको नहीं लगता है, उनके लिये उपनयनादि संस्कार नहीं है, उनका उच्च धर्ममें अधिकार भी नहीं है और सामान्य धर्ममें निषेध भी नहीं है । धर्मज्ञ, सद्ब्रह्मत्तिसम्पन्न शूद्र धर्मकी इच्छा करके यदि पञ्चमहायज्ञादिक अष्टप्राण वैदिक मन्त्र छोड़कर करें तो प्रशंसाके ही पात्र होते हैं और इस तरहसे उत्तम आचरणमें रहनेपर इहलोक एव परलोकमें उन्हें कल्याण प्राप्त होता है । इन वचनोंसे यही प्रमाणित होता है कि, उपनयन तथा वेदादिका अधिकार न होनेपर भी अच्छे आचरणमें रहकर शूद्रजाति विशेष उन्नतिको प्राप्त कर सकती है । श्रीभगवान् वेदव्यासने भी वेदान्तसूत्रमें शूद्रोंको वेदाध्ययनादिका निषेध किया है, यथा—

संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलाषाच्च । अ. १ पा. ३ सूत्र ३६

श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्स्मृतेश्च । ” ” ” ३८

उपनयन संस्कार बिना वेदाधिकार नहीं होता है, शूद्रका उपनयन नहीं है, अतः वेदाधिकार भी नहीं है । शूद्रको वेदका श्रवण तथा अध्ययन इन दोनोंका निषेध है और स्मृति भी इसी बातका समर्थन करती है । कात्यायन श्रौतसूत्र १।१।१ में भी—‘अङ्गहीनाश्रोत्रियपण्डशूद्रवर्जम्’ अर्थात् अङ्गहीन,

अश्रोत्रिय, नपुंसक और शूद्रका यज्ञमें अनधिकार बताया गया है । इसके सिवाय 'वेदाक्षरविचारेण शूद्रश्चाण्डालतां ब्रजेत्' इत्यादि कितने ही स्मृतिवचनोंके द्वारा ऊपर लिखित विज्ञानके अनुसार पूज्यचरण महर्षियोंने शूद्रवर्णको वेद न पढ़ाकर अन्यान्य शास्त्रोंके पठनपाठन द्वारा उन्नति करनेकी जो आज्ञा दी है, सो उनके कल्याण-विचारसे ही है इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । यही अर्वाचीन पुरुषोंके द्वारा उपन्यस्त शंकाओंका यथाशास्त्र समाधान है । स्त्रीजातिके वेदपाठ तथा वैदिक संस्कारादिके विषयमें पूर्व प्रकरणमें पहिले ही चर्चा की जा चुकी है । अब प्रश्नोत्तररूपसे स्पृश्यास्पृश्यादि कुछ आवश्यक विषयों पर विचार किया जाता है ।

प्र०—अस्पृश्य जातियां कौन कौन हैं और कैसे हैं ?

उ०—प्रतिलोम संकरतासे उत्पन्न कई एक जातियां 'अस्पृश्य' कहाती हैं । संकरता अत्रुलोम और प्रतिलोम दो प्रकारकी होती है । उच्चवर्णके पुरुष और निम्नवर्णकी स्त्रीके द्वारा उत्पन्न सन्तान अत्रुलोमसंकर कहाती है और उच्च वर्णकी स्त्रियां विगड़ कर निम्नवर्णके पुरुषोंसे जो सन्तान उत्पन्न करती है, वह प्रतिलोम-संकर कहाती है । सतीधर्मप्रधान आर्यशास्त्रमें स्त्रियोंका व्यभिचार अति निन्दनीय बताया गया है । इस कारण ऐसी सन्तान भी—अति अधम तथा अस्पृश्य कहाती है । इनके शरीरकी बिजली (Magnetism) बहुत खराब होनेसे उच्च वर्णके स्त्रीपुरुष अपने शरीरकी उत्तम बिजलीकी रक्षाके लिये इन्हें स्पर्श करना अनुचित समझते हैं । वेदमें भी इस विषयका मन्त्र मिलता है जैसा कि पहिले बताया गया है, यथा—

“य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापधेरज श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा” । अर्थात् निन्दित पापकर्मों जन श्वान, शूकर, चाण्डालादि निकृष्ट योनियोंमें जन्मलाभ करते है । अतः वेदमतानुसार चाण्डालादि योनि नीच योनि सिद्ध हुई । किस प्रकार प्रतिलोम सम्बन्धसे ऐसी जातियां उत्पन्न होनी है इस विषयमें मन्वादि स्मृतियोंमें अनेक प्रमाण मिलते है, यथा—

शूद्रादायोगवः क्षता चाण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

वैश्यराजन्यविप्रामु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ म० १०-१२

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ।

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ १०-११

ब्राह्मणाद् वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारश्व उच्यते ॥ १०-८

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते । १०-३६

शूद्र पुरुषसे वैश्य स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान 'आयोगव', क्षत्रिय स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान 'क्षत्ता' और ब्राह्मण स्त्रीमे उत्पन्न नराधम सन्तान 'चाण्डाल' कहलाती है। क्षत्रिय पुरुषसे ब्राह्मण स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान 'सूत', वैश्य पुरुषसे क्षत्रिय स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान 'मागध' और ब्राह्मण स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान 'वैदेह' कहलाती है। ब्राह्मणपतिसे वैश्यकन्यामें उत्पन्न सन्तान 'अम्बष्ठ' और शूद्रकन्यामे उत्पन्न सन्तान 'निषाद' या 'पारश्व' कहलाती है। ऐसे निषाद पुरुषसे वैदेह स्त्रीमें उत्पन्न सन्तान 'चर्मकार' या 'चमार' कहलाती है। 'डोम भङ्गी' ये सब चाण्डालके ही भेदमात्र हैं। चमार, डोम, भङ्गी, चाण्डाल ये सभी प्रतिभोमसंकर जातियां ऊपर लिखित कारणसे 'अस्पृश्य' कहलाती हैं।

प्र०—क्या इन जातियोंके उच्च जातियोंके साथ लौकिक वर्तावके विषयमें शास्त्रोंमें कुछ प्रमाण मिलते हैं ?

उ०—उद्धृत प्रमाण मिलते हैं। मनुसंहिताके ४र्थ अध्यायका २२३वां श्लोक है—

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः ।

आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥

विद्वान् ब्राह्मणको शूद्रके हाथका बनाया हुआ पक्वान्न भोजन नहीं करना चाहिये। कदाचित् भोजन न मिलनेकी हालतमें एक दिनके निर्वाहमात्रके लिये शूद्रसे कच्चा सीधा ले सकते हैं। आपस्तम्बके प्र० २, पटल २, खं० २, सूत्र ४ में जो 'आर्या अधिष्ठिता वा शूद्राः सस्कर्तारः स्युः' लिखा है इसका अर्थ यह नहीं है कि शूद्र जाति ब्राह्मणोंके यहां रसोई करे, जैसा कि अर्वाचीन लोगोंने लिखा है किन्तु केवल संस्कार करना अर्थात् घरमें भाड़ लगाना, वर्तन साफ करना आदि कार्य ही इसके द्वारा सूचित होते हैं। और जब शूद्रके हाथका खाना

शास्त्रमें मना है तो अस्पृश्य जातियोंके साथ सहभोजन तो कदापि शास्त्र-सम्मत नहीं हो सकता है । अतः इन जातियोंको जनेऊ देना, इन्हें वेद पढाना, इनके हाथका जल पीना या इनके साथ सहभोज करना सर्वथा निषिद्ध है । पराशरसंहितामें लिखा है—

चाण्डालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत् ।

चाण्डालस्पर्शने चैव सचैलं स्नानमाचरेत् ॥

चाण्डाल कही दृष्टिपथमें आजाय तो सूर्यदेवको देखकर पवित्र होना चाहिये । चाण्डालसे स्पर्श होजानेपर सचैल स्नान कर शुद्ध होना चाहिये । मनुसंहितामें लिखा है—

चाण्डालश्वपचानां तु वहिर्ग्रांमात् प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्त्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ १०-५१

न तैः समयमन्विच्छेत् पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ १०-५३

चाण्डाल और श्वपचोंको ग्रामके बाहर निवासस्थान देना चाहिये इनका भोजन किया पात्र जलाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता है, कुत्ता और गधा इनका धन है । किसी धर्मकार्यके समय इन्हें सामने नहीं आने देना चाहिये । इनका लौकिक व्यवहार तथा विवाहादि आपसमें ही होना कर्त्तव्य है । इत्यादि इत्यादि अनेक प्रमाण शास्त्रमें मिलते हैं ।

प्र०—क्या यह सब अस्पृश्य जातियोंके प्रति शास्त्रोंका अनुचित आदेश नहीं है ?

उ०—प्रथम दृष्टिमें अनुचितसा प्रतीत होने पर भी धीर होकर विचार करनेसे महर्षियोंकी दूरदर्शिता ही इसमें झलकती है । आजकलके डाक्टर-सायन्समें संक्रामक रोगों [Contagious diseases] के विषयमें कैसे कैसे विज्ञान निकले हैं यह सभी लोग जानते हैं । चेचक, प्लेग, इनफ्लुएन्जा, हैजा, मलेरिया आदि सभी रोग आजकल संक्रामक बताये जाते हैं और ऐसे रोगियोंके स्पर्शसे बचे रहनेको डाक्टर लोग कहा करते हैं । आर्यशास्त्रमें भी इस विषयमें स्थूल सूत्रम बहुत कुछ विचार किया गया है । यथा सुश्रुत निदानस्थानके १म अध्यायमें—

प्रसङ्गाद् गात्रसंस्पर्शाग्निःश्वासात् सहभोजनात् ।
सहशय्यासनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिस्यन्द एव च ।
औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्तरम् ॥

एकसाथ आलाप, शारीरिक स्पर्श, श्वास, एकसाथ खाना, सोना या बैठना, पहननेका कपडा या माला—इन सबके द्वारा कुष्ठ, ज्वर, शोष, आंखों-का आना, चेचक, हैजा, प्लेग आदि संक्रामक रोग एक शरीरसे अन्य शरीरमें जाते हैं । कूर्मपुराणमें महर्षि बृहस्पतिने नौ प्रकारके संसर्गदोष बताये हैं—

एकशय्यासनं पंक्तिर्भाण्डपकान्नमिश्रणम् ।
याजनाध्यापनं योनिस्तथा च सहभोजनम् ॥
नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्त्तव्योऽधमैः सह ।
समीपे चाप्यवस्थानात् पापं संक्रमते नृणाम् ॥

(कूर्म० १५)

एक शय्यापर सोना, एक आसनपर बैठना, एक पक्तिमें भोजन, भोजन-पात्र या अन्नका मिलाना, याजन, अध्यापन, योनिससर्ग और सहभोजन ये नौ प्रकारके संसर्ग कहलाते हैं । नीचे जनोंके साथ ऐसे संसर्ग नहीं होने चाहिये । समीप रहनेसे एकका पाप दूसरेमें जाता है । महर्षि पराशरने कहा है—

आसनाच्छयनाद् यानाद् भाषणात् सहभोजनात् ।
संक्रामन्ति हि पापानि तैलविन्दुरिचाम्भसि ॥

जिस प्रकार जलमें तेल फैल जाता है ऐसा ही एक साथ बैठने, सोने, जाने, बोलने और भोजन करनेसे एकका पाप दूसरेमें फैलता है । महर्षि देवलने कहा है—

संलापस्पर्शनिःश्वाससहशय्यासनाशनात् ।
याजनाध्यापनाद् यौनात् पापं संक्रमते नृणाम् ॥

परस्पर आलाप, स्पर्श, निःश्वास, एकत्र शयन, बैठना, भोजन, याजन, अध्यापन और योनिसम्बन्ध द्वारा एक शरीरसे दूसरेमें पाप जाता है । महर्षि छागलेयने कहा है—

आलापाद् गात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात् सहभोजनात् ।

सहशय्यासनाध्यायात् पार्प संक्रमते नृणाम् ॥

आलाप, गात्रस्पर्श, निःश्वास, एकत्र भोजन-शयन-उपवेशन तथा अध्ययनसे एकका पाप दूसरेमें प्रवेश करता है । श्रीभगवान् वेदव्यासने आह्निक आचारतत्त्वमे कहा है—

अप्येकपंक्तौ नाशनीयात् संवृतः स्वजनैरपि ।

को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं महत् ॥

भस्म-स्तम्भ-जल द्वारमार्गैः पंक्ति च भेदयेत् ॥

अन्यकी तो बात ही क्या, अपने जनोंसे भी एक पंक्तिमें भोजनके समय भस्म, तृण या जलसे पक्तिभेद कर लेना चाहिये । क्योंकि कौन जाने किसके भीतर कौन पाप छिपा हुआ है ।

इन सब पुष्ट प्रमाणोंसे शंका समाधान अच्छा हो जायगा । अस्पृश्य जातियोंके शरीर मलिन होनेसे उनके द्वारा स्थूल रोगादिका और जन्म पाप मूलक होनेसे उनके सस्पर्श द्वारा अनेक सूक्ष्म रोगोंका फैलना बहुत सम्भव है । संसारमे अच्छे बननेकी अपेक्षा बुरे बननेकी आशङ्का ही अधिक रहती है । इसी कारण इन जातियोंके विषयमे इस प्रकारकी आज्ञाएं आर्यशास्त्रमें मिलती हैं ।

अब स्पृश्यास्पृश्यके विषयमें पश्चिमी चिन्तानोंके अनुभवके कुछ प्रमाण दिये जाते हैं, यथा :—

Lately in "The Indian Thinker" there was an article reporting the experiments of a great European scientist, which demonstrated that every man according to his culture and race carries an etheric envelop about him, which is a centre of peculiar emanations, peculiar to the individual. Another who may come within his range of that emanation may be affected even psychically. In a previous number of this very Journal, a note about the menstruating woman appeared, which showed that apart from medical consideration there is in that woman a sort of magnetic disturbance,

capable of affecting even plants in her contact. The psychic researches amply prove that contracts should be forbidden on spiritual grounds, in order to safeguard and to grow the integrity and virtues of a particular individual or caste. This idea of segregation on spiritual or psychic basis, of caste and individual, was so nicely carried by our ancient Rishis, who were perfect masters of knowledge, that it was adopted in their science of engineering and town planning.

(Sanatanist 11-3-29)

‘इण्डियन थिङ्कर’ नामक पत्रिकामें एक पश्चिमी वैज्ञानिकका अनुभव प्रकाशित हुआ था । उन्होंने यन्त्रके द्वारा यह विषय प्रमाणित कर दिया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति तथा शिक्षाके अनुसार अपने शरीरमें एक प्रकारकी वैद्युतिक शक्ति धारण करता है, जो कि उसके शरीरके चारों ओर फैली हुई रहती है और जो महत्त्व उस शक्तिके दायरेके भीतर आजाता है उसपर उस शक्तिका प्रभाव अवश्य ही होता है । ऋतुमती स्त्रीके भीतरसे कैसी बुरी विद्युत्शक्ति निकलती है, जिससे वृक्षके फूल, फल, पत्ते तक नष्ट हो जाते हैं इसका प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है । पूज्य महर्षियोंको इन सब वैज्ञानिक तथ्योंका पूरा अनुभव था, इसी कारण सभी व्यवहारोंमें वे इन सबका प्रयोग करते थे ।

एक शरीरसे अन्य शरीरमें स्पर्श द्वारा दोष जानेके विषयमें अति स्पष्ट प्रमाण पराशर भाष्य सप्तम अध्यायमें मिलता है, यथा :—

ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता ।
 कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात् केन कर्मणा ॥
 चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम् ।
 सा सचेलावगाहापः स्नात्वा चैव पुनः स्पृशेत् ॥
 दशद्वादशकृत्वो वा आचामेव पुनः पुनः ।
 अन्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥

(महर्षि उशना)

ज्वरग्रस्ता ऋतुमती स्त्री बिना स्नान किये कैसे शुद्ध हो सकती है इसका उपाय यह है कि कोई दूसरी स्त्री उसको स्पर्श करती रहे और सचेला स्नान

करती रहे तथा हाथ, पांव, मुख धोती रहे, इस प्रकारसे दस बारह बार करनेपर रजस्वलाके सब दोषको स्पर्श द्वारा दूसरी स्त्री ले लेगी और उस दोषको स्नान तथा हस्तपद प्रक्षालन आचमन द्वारा वह जलमें छोड़ देगी। इस प्रकारसे एकका दोष दूसरीमें और दूसरीसे जलमें जाकर लय होगा। स्पृश्यास्पृश्य विज्ञानकी सत्यताका यह अकाट्य दृष्टान्त है।

Miss Helen M. Mathews of the University of British Columbia demonstrated that bacilli were readily transferred from one to another by even hand-shaking or, shake-hand

केवल हाथके साथ हाथ मिलानेसे हज़ारों कीटाणु एक शरीरसे दूसरे शरीरमें चले जाते हैं, इस सत्यको कलम्बिया विश्वविद्यालयकी मिस हेलेन साहेबाने यन्त्रके द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है। अभी हालमें ही किसी दूसरे वैज्ञानिकने प्रमाणित किया था कि मुखमें मुख लगाने पर भी हज़ारों कीटाणु एकसे दूसरेके शरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं।

How true it is that one's personality is not cribbed, cabined and confined within the limits of the visible flesh. To come in contact with, to touch another it is not necessary to handle him. Even to shake hands may at times be inconvenient or possibly objectionable.

Perhaps, as you have learnt by sad experience, he has a grasp as of the 'mailed fist' or going to the other extreme he merely extends an open 'paw'. So you just 'wrap yourself in his aura' and if you are at all sensitive, there is a very real spiritual communion.

To get en rapport with our affinities is to draw upon a larger reservoir of energy. And some are so magnetic, advanced far beyond the primitive personal consciousness, that they make friends everywhere, with every one, and so have at command a stupendous force which is every

irradiating into the auras, the ethers, the atmospheres that surround everything in creation and particularly in the Kingdom of Mankind

(Frederic. W Burry—Kalpaka 12-1928)

यह ठीक सत्य है कि मनुष्यकी सत्ता केवल उसीके रक्तमांसकी सीमाके भीतर व्याप्त नहीं रहती है। किन्तु अपनी शक्तिको मनुष्य बहुत दूरतक फैला सकता है। केवल स्पर्श करने या हाथ मिलानेमें ही कभी कभी बड़ी अनुविधा होने लगती है। यह अनुभवसिद्ध सत्य है कि किसी किसीमें अच्छी बुरी ऐसी शक्ति होती है कि वह 'शेक हैण्ड' नहीं बल्कि अपने चहुँलमें दूसरेको फँसा ही लेता है। और जिसको वह स्पर्श करता है, वह निःसन्देह उसकी 'अरा' के आवरणके भीतर आ ही जाता है। ऐसे उत्तम शक्तिमान् पुरुष जहाँ जाते हैं वहाँ सबके सब उनके मित्र बन जाते हैं, उनकी असीम शक्ति अपनी अरामे, उससे बाहरके 'इथर' में और सर्वत्र वायुमण्डल तथा आकाशमण्डलमें व्याप्त होती रहती है। इस प्रकारसे समस्त सृष्टि और विशेष कर मनुष्यजगत्में उनकी उत्तम शक्ति व्याप्त हो जाती है।

(फ्रेड्रिक. बरे—कल्पक)

ऋक् संहितामें इसी सत्यका प्रमापक मन्त्र मिलता है, यथा :—

'यन्मनसा मनुते तद् वातमपि गच्छति' जो कुछ मनमें चिन्ता होती है उसकी शक्ति वायुमण्डलमें व्याप्त होती है और उसका प्रभाव दूसरेके ऊपर पड़ता है। 'Thought exists in a sense in the vibrations of the air' चिन्ताका तरङ्ग पवनके स्पन्दनमें बह जाता है ऐसा अलिभार लज साहबने भी कहा है।

"This is the magnetism you are developing for the purpose of healing. This development will require several months of earnest practice. This will give you the psychic force to heal at a mere touch, and the muscles all through your body will vibrate with this power when you treat the sick and cure disease in a very short period of time. You will feel the streams of psychic currents leaving

your finger tips like a flow of water and you will be enabled to heal any disease, even at touch

(Prof. R. E. Dutton—Kalpaka 7-1924)

प्रोफेसर आर. ई. डटन साहबने रोग आराम करनेके लिये शक्ति लाभ करनेके बाद क्या होता है सो ही कहा है । आप कहते हैं कि कई महीने तक अभ्यास द्वारा जब अपने भीतर विद्युत् शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो केवल स्पर्श द्वारा कठिन रोगोंसे मनुष्यको आराम किया जा सकता है । उस समय अपने शरीरके भीतर उस शक्तिका अनुभव होने लगता है और जलकी धाराकी तरह शक्तिकी धारा हाथोंकी अङ्गुलियोंसे निकल रही है ऐसा मालूम पड़ने लगता है । और भी—

Both disease and health are catching. If you mingle with unhealthy people and thoughts you will become unhealthy. If you mingle with persons of great health and strength and live in such thoughts you become likewise

(Ibid Kalpaka 6-24).

रोग और स्वास्थ्य दोनों ही स्पर्शसे सम्बन्ध रखते हैं । खराब शरीर तथा अन्तःकरणवाले मनुष्यके साथ मिलनेसे शरीर तथा मन दोनों ही खराब होते हैं और अच्छेके साथ अच्छे होते हैं । (कल्पक ६-२४) ।

इस प्रकारसे पश्चिमी विद्वानोंने स्पृश्यास्पृश्य रहस्यको प्रमाणित कर दिखाया है । अतः अस्पृश्य जातिके मनुष्योंके विषयमें उनकी आज्ञाएँ सब ठीक तथा वैज्ञानिक सत्यता पर प्रतिष्ठित हैं ।

प्र०—क्या देश, काल और मनुष्यकल्याण विचारसे इन आज्ञाओंमें कुछ शिथिलता नहीं की जा सकती है ?

उ०—अवश्य की जा सकती है और आर्यशास्त्रमें इसीके लिये अनुकल्प तथा आपत्कल्पका विधान किया गया है ।

प्र०—अनुकल्प, आपत्कल्प या आपद्धर्मका लक्षण क्या है और इसके विषयमें आर्यशास्त्रमें कौन कौन विचार किया गया है ?

उ०—पूज्यपाद महर्षियोंने धर्मके चार भेद किये हैं, यथा—साधारण, विशेष, असाधारण और आपद्धर्म । धर्मके २४ अङ्ग तथा ७२ अङ्गरूपसे यह,

तप, दानादिका जो वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है और भृति, क्षमा आदि जो दस लक्षणामक धर्म मनुसहितामें लिखा है यह सब साधारण धर्म है । इसमें पृथिवीके सब मनुष्योंका अधिकार है, इस कारण भी वे साधारण धर्म कहते हैं । पुरुषधर्म, नारीधर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, प्रवृत्तिधर्म, निवृत्तिधर्म, आर्यधर्म, अनार्य-धर्म इत्यादि सब विशेष धर्म हैं । इनमें विशेष विशेष व्यक्तिका अधिकार रहता है । तीसरा असाधारण धर्म कुछ विलक्षण ही है । जैसा विश्वामित्रका ब्राह्मण होना, द्रौपदीका पञ्चपति होना, नन्दिकेश्वरका देवता होना इत्यादि । यह धर्म असाधारण शक्तिसे सम्बन्ध रखता है । इसका वर्णन वेद तथा पुराणोंमें कहीं कहीं आता है । चतुर्थ—अर्थात् आपद्धर्म सबसे विलक्षण है । देश, काल, पात्र तथा भावके अनुसार इसका निर्णय हुआ करता है । आपत्तिमूलक सिद्धान्त इस धर्मनिर्णयके विज्ञानमें सम्मिलित रहता है । इस कारण इसको आपद्धर्म कहते हैं । तात्पर्य यह है कि आपत्तिकी अनुविधाओंको सम्मुख रखकर देश, काल तथा पात्रके विचारानुसार सद्भावके अवलम्बनसे जो धर्म-निर्णय होता है उसीको आपद्धर्म कहते हैं । कलियुगमें जीवोंकी प्रकृति प्रवृत्ति साधारणतः वहुत ही निम्नाधिकारकी है और कलियुगका देशकाल भी धर्माचरणमें प्रायः प्रतिकूल है । इसलिये मुख्य कल्पके बदले इस युगमें प्रायः अनुकल्पका विधान तथा मुख्य धर्मके स्थानपर आपद्धर्मका ही पालन सम्भवपर होता है ।

आपद्धर्मपालनमें भावकी मुख्यता है । अर्थात् आपत्कालमें यदि कोई साधारणतः गर्हित कर्म भी करना पड़े तो अन्तःकरणमें भावकी शुद्धि रहनेसे असत्कर्म भी सत्कर्म बन जाता है । अतः उससे पतन न होकर उन्नति ही होती है । भाव-शुद्धिके दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि, कामादि पाशविक क्रिया अत्यन्त नीच होनेपर भी देश तथा वश समुज्ज्वलकारी सुसन्तानोत्पत्तिके सद्भावको लेकर अनुष्ठित होनेके कारण सत्कर्ममें परिणत हो जाती है । इसी प्रकार जीवहिंसा महापाप होनेपर भी राज्यरक्षा या अधिक जीवकी कल्याण-कामनासे आचरित जीवहिंसा धर्मरूपमें परिणत हो जाती है, नीचका अन्नग्रहण महापाप होनेपर भी जीवित रहकर जगत्की सेवा करेंगे, इस शुद्ध भावसे दुर्मिज्ञादि आपत्कालमें गृहीत नीचका अन्न भी आत्माकी अवनतिका कारण नहीं बनता है । येही सब आपद्धर्म-पालनमें भावकी मुख्यताके दृष्टान्त हैं ।

महाभारतके शान्तिपर्वमें आपत्कालमें जीवनोपाय वर्णन करते समय श्रीभगवान् भीष्म पितामहने कहा है—

एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः ।

सर्वोपायैरुपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत् ॥

एतां बुद्धिं समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत् ।

जीवन् पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ॥

विद्वान् व्यक्ति आपद्ग्रस्त होनेपर सभी प्रकारके उपायोंसे अपनेको आपत्से मुक्त करे क्योंकि प्राणकी रक्षा होनेपर मनुष्य पुण्य-सञ्चय द्वारा आपत्कालीन अवैध-कर्म-जनित समस्त दोषको दूर करके कल्याणके अधिकारी हो सकते हैं। इसके अनन्तर धर्माधिकारीको सावधान करनेके लिये उन्होंने कहा है—

विश्वेदे वैश्वे साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाङ्गीतैर्विधिः प्रतिनिधीकृतः ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न साम्प्रयायिकं तस्य दुर्गतिर्विद्यते फलम् ॥

देवता, विश्वेदेवा, साध्य, ब्राह्मण व महर्षिगण आपत्कालमें मृत्यु-भयसे भीत होकर मुख्य कल्पके स्थानपर अनुकल्प द्वारा जीविका-निर्वाह कर सकते हैं। परन्तु मुख्य कल्प-पालनमें समर्थ होनेपर भी जो अनुकल्पके द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहते हैं उनको परलोकमें कोई भी सुफल नहीं प्राप्त होता। श्रीभगवान् मन्त्रने भी कहा है—

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।

स नाऽऽप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥

जो द्विज अनापत्कालमें भी आपद्धर्मका अनुष्ठान करते हैं वे परलोकमें उस कर्मका फल नहीं पाते हैं। इसलिये सब श्रौर विचार करके महर्षि याज्ञवल्क्यजीने कहा है :—

क्षेत्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः ।

निस्तीर्थं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥

ब्राह्मण आपत्कालमें क्षत्रिय अथवा वैश्यजनोचित कर्माह्वयान द्वारा जीवनमात्र निर्वाह करेंगे । परन्तु आपम्भुक्त होते ही अनुकल्प वृत्तिको परित्याग करके उस दीनदशासे अपने आत्माको मुक्त करेंगे । पात्रके विचारसे आपत्कालीन कर्त्तव्यनिर्णय प्रसङ्गमें श्रीमद्भगवान् मनुने कहा है —

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।
 जीवेत् क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥
 उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।
 कृपिगोरक्षमास्थाय जीवेद् वैश्यस्य जीविकाम् ॥
 जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।
 न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित् ॥
 यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।
 तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥
 वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।
 परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥
 वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्त्तयेत् ।
 अनाचरन्नकार्याणि निवर्तत च शक्तिमान् ।
 अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।
 पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत् कारुककर्मभिः ॥
 यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।
 तानि कारुककर्मणि शिल्पानि विविधानि च ॥ (१० अ०)

यदि ब्राह्मण अपने स्वाधिकारानुकूल कर्म द्वारा जीविकाका निर्वाह करनेमें असमर्थ हों तो क्षत्रिय वृत्तिके द्वारा जीविका निर्वाह करे, क्योंकि यही उनकी आसन्नवृत्ति है । यदि स्ववृत्ति व क्षत्रियवृत्ति दोनोंहीके द्वारा जीविका निर्वाह असम्भव हो जाय तो इस दशामें कृपि गोरक्षा आदि वैश्यवृत्तिके द्वारा जीवन धारण कर सकते हैं । ब्राह्मणकी तरह क्षत्रिय भी आपत्कालमें कृपि, वाणिज्य आदि वैश्यवृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह कर सकते हैं । परन्तु कभी

ब्राह्मणवृत्ति नहीं कर सकते । यदि कोई अधम जाति उत्तम जातिकी वृत्तिसे जीविका निर्वाह करना चाहे तो राजाका कर्त्तव्य है कि उसका सर्वस्व हरण करके उसे देशसे निर्वासित कर दे । अपना धर्म, निकृष्ट होनेपर भी अनुष्ठेय है और परधर्म उत्कृष्ट होनेपर भी अनुष्ठेय नहीं है, क्योंकि उच्च जातिके धर्म द्वारा जीवन धारण करनेसे मनुष्य शीघ्र ही अपनी जानिसे पतित हो जाता है । वैश्य अपने धर्म द्वारा जीवन धारणमें असमर्थ होनेपर अनाचार परित्याग करके द्विजशूद्रादि शूद्रवृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु आपन्मुख होते ही शूद्रवृत्ति परित्याग करना होगा । शूद्र यदि निज वृत्ति द्वारा परिवार प्रतिपालनमें असमर्थ हो तो कारु कार्य आदि द्वारा जीवन धारण कर सकता है । जिस कार्यके द्वारा द्विजसेवा हो सकती है, इस प्रकारके कार्य व शिल्पकार्य इस दशमें शूद्रको करने होंगे । इस प्रकारसे प्रत्येक वर्णके लिये आपत्कालमें जीवनोपाय निर्धारित करके श्रीभगवान् मनुजीने सभी वर्णोंके लिये कुछ साधारण रूपसे आपत्कालीन वृत्तियोंका निर्णय कर दिया है, यथा :—

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः ।

धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ (१०—११६)

विद्या, शिल्पकार्य, नौकरी, सेवा, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि, धृति (जो अवस्था हो उसीमें सन्तोष) भिक्षा व सूदग्रहण ये दस प्रकारके जीवनोपाय आपत्कालमें सुविधा व शक्तिके अनुसार सभी वर्णोंके लिये विहित हैं ।

देश व कालके अनुसार आपद्धर्मका विचार करते हुए महर्षि पराशर-जीने अपने संहितामें कहा है :—

देशभङ्गं प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि ।

रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत् ॥

येनूकेन च धर्मेण मृदुना दारुणेन च ।

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ॥

आपत्काले तु सम्प्राप्ते शौचाचारं न चिन्तयेत् ।

स्वयं समुद्धरेत् पश्चात् स्वस्थो धर्मं समाचरेत् ॥

देशमें विप्लव या दुर्भिक्ष आदि उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी आदिका भय होनेसे पहिले शरीरकी रक्षा करके पश्चात् धर्मात्तुष्टान करें । आपत्कालमें

मृदु या दारुण किसी भी उपायसे दीन आत्माकी रक्षा करनी चाहिये । तदनन्तर जब सामर्थ्य हो तब धर्मानुष्ठान करना चाहिये । पहिले विपत्तिले अपनेको बचाकर पश्चात् शौचाचारानुकूल धर्माहुष्ठान करना चाहिये । आपत्कालमें भोजनादिके विषयमें लिखा है—

आपद्गतः सम्प्रगृह्णन् भुञ्जानो वा यतस्ततः ।

न लिप्यतैनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥

(मितान्नरा)

आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ।

मनस्तापेन शुध्येत्तु द्रुपदां वा शतं जपेत् ॥

(पराशरः)

आपत्तिमें पडकर ब्राह्मण यदि जहां कहीसे अन्न ग्रहण करें या भोजन कर लें तो अग्नि और सूर्यके समान होनेके कारण वे पापभागी नहीं होंगे । आपत्कालमें ब्राह्मण यदि शूद्रके घरका अन्न खा लें तो पश्चात्तापसे या सौ गायत्री जप करनेसे शुद्ध होंगे । केवल इतना ही नहीं, इस विषयमें वेदमें भी अनेक प्रसङ्ग आते हैं यथा छान्दोग्योपनिषद्के प्रथम अध्यायके दशम खण्डमें—

मट्चीहतेषु कुरुष्वाटिकया सह जाययोषस्ति ह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ।

स हेभ्यं कुम्भापान् खादन्तं विभिसे, तं होवाच नेर्तोऽप्ये विद्यन्ते, यच्च ये म इम उपनिहिता इति ।

एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मै प्रददौ हन्तानुपानमिति, उच्छिष्टं वैमे पीतं स्यादिति होवाच ।

न स्वित्तेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमान्खादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ।

स ह खादित्वातिशेषाञ्जायाया आजहार, साग एव मुभिसा वभूव, तान् प्रतिगृह्य निदधौ ।

स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच-यद् वतान्नस्य लभेमहि, लभेमहि धनमात्रां राजासौ यक्ष्यते, स मा सर्वैरात्विज्यैर्षणीतेति ।

तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति, तान् खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ।

इन मन्त्रोंका तात्पर्य यह है कि कुरुदेशके वज्राग्निदग्ध होनेपर उपस्ति नामक एक ब्राह्मण दुर्दशाग्रस्त होकर सखीक इभ्यग्राममें निवासार्थ जाने लगे । रास्तेमें उन्होंने देखा कि एक सुनिर्मल प्रस्रवण (भरना) की धारा बह रही है और उसके पास बैठकर एक हस्तीपक (हथवान) मसूरकी दाल खा रहा है । कई दिनोंके उपवासी ऋषिने प्राणधारणके लिये और कोई भी उपाय न देखकर उस नीच जाति हस्तीपकसे ही उसको उच्छिष्ट दाल भिन्ना मांगी और उसका आधा स्वयं खाकर आधा पत्नीको दे दिया । उच्छिष्ट दाल खानेके बाद उसने जब उच्छिष्ट जल देना चाहा तो ऋषिने उसे ग्रहण करना अस्वीकार किया और कहा—“मैं तुम्हारा उच्छिष्ट जल नहीं पिऊंगा ।” हस्तीपकने थोड़ा हंसकर कहा—“आपने उच्छिष्ट दाल तो खा ली उससे आप पतित नहीं हुए और उच्छिष्ट जल पीनेसे ही पतित हो जायगे ?” इस बातको सुनकर ऋषिने उत्तर दिया—“मैं अनाहारसे मर रहा था इसलिये आपत्कालमें प्राणरक्षार्थं तुम्हारी उच्छिष्ट दाल भी खाया है, परन्तु जल तो सामने ही भरनेसे आरहा है इसलिये जलका क्लेश नहीं है । इस कारण उच्छिष्ट जल पीनेका प्रयोजन नहीं है ।” इस प्रकारसे उस दिनके लिये प्राणधारणका उपाय हो जानेपर फिर आगे भिन्नाके लिये पतिपत्नी चले । परन्तु दूसरे दिन वही कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ । उस समय अनाहार पतिको मृत्युमुखमें अग्रसर देखकर ऋषिपत्नीने अपने कपड़ेमें बधी हुई पहिले दिनकी दाल निकालकर उन्हें दे दी । ऋषिने चकित होकर कहा “क्या तुमने कलकी दाल नहीं खाई थी ?” इसपर ऋषिपत्नीने उत्तर दिया “आपने तो कहा था कि अनाहारसे मृतप्राय होनेपर ही आपने हस्तीपकका उच्छिष्ट अन्न खा लिया था, मैं कल मृतप्राय नहीं थी, इसलिये उस उच्छिष्ट अन्नको नहीं खाया था । मैं और एक दिन बिना खाने बच सकती हूँ, परन्तु आपका प्राण जारहा है इसलिये आप इस उच्छिष्ट दालको खाइये ।” इस कथाके द्वारा आपत्कालमें कर्त्तव्यनिर्णयका दृष्टान्त अच्छी तरहसे सिद्ध हो जाता है और स्वधर्मसे नीचेका धर्म तथा शौचाचारसे विरोधी व्यवहार भी आपत्कालमें विहित आचाररूपसे परिगणित हो सकता है इस विज्ञानकी सम्यक् सिद्धि हो जाती है ।

प्र०—छुआछूतके विषयमे इस समय बहुत प्रकारके मतभेद है इस सम्बन्धमें शास्त्रोके क्या क्या सिद्धान्त हैं ?

उ०—देशकालानुसार अनेक कारणोसे छुआछूत जैसे आचारोमें तार-तम्य हुआ करता है इस सम्बन्धमें शास्त्रोमे स्पष्ट आज्ञा विद्यमान है । यथा:—

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविस्रवे ।
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति ॥

(बृहस्पति)

अर्थात् तीर्थस्थानमे, विवाहोत्सवकालमे, रेल आदिकी यात्राओमे, युद्धक्षेत्रमें, राष्ट्रविप्लवमे, नगर या ग्राममें जव आग लगे उस समयमे, छुआछूतका दोष नहीं लगता ।

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ।
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न विद्यते ॥

प्राकाररोधे विपमप्रदेशे, सेनानिवेशे भवनस्य दाहे ।
आरव्ययज्ञेषु महोत्सवेषु, तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥

(अत्रिस्मृति)

देवताओंकी शोभायात्रा (सवारी) मे, विवाहोत्सवकालमे, यज्ञोत्सवके समय और सब प्रकारके उत्सवोके समय छुआछूतका दोष नहीं हुआ करता है ।

किला धिर जानेपर, देशमे उपद्रव उठनेपर, सेनाओंसे घेर लिये जानेपर, घरमे आग लग जानेके समय, यज्ञके समय और किसी बड़े उत्सवके समय छुआछूतका दोष नहीं लगता ।

इसलिये इस समय आपद्धर्म और राजनैतिक परिस्थितिके विचारसे सनातनधर्मावलम्बिग्रगण नीचवर्ण और आचारभ्रष्ट या अन्त्यज अथवा विधर्मियोंके साथ सभासमितिके, रेल बगैरहमे, उत्सवकार्योमें, युद्ध, राष्ट्रविप्लव अथवा ऐसे ही अन्य किसी कार्यमें यदि छुआछूतका पूरा विचार न करे तो वे प्रायश्चित्ती न होंगे । किन्तु चह समय यथार्थमे आपत्काल है या नहीं और राजनैतिक परिस्थितिको देखते हुए बिना ऐसा किये काम चल सकता है या नहीं, इसका खूब विचार करके तब अमुकल्प या आपद्धर्मका आश्रय

लेना चाहिये, नही तो अवश्य पातित्यशेष होगा । समुद्रयात्राके विषयमें भी यही विचार समझना चाहिये ।

प्र०—जिन जातियोंमें विधवाविवाह प्रचलित नहीं है, एकदशीव्रत वगैरह किया जाता है, देवता और ब्राह्मणोंकी भक्ति और विधिपूर्वक पितृश्राद्ध इत्यादि किया जाता है, सविधि नामकरण और विवाह होना है, जिनके यहां अनेक शताब्दियोंसे सदाचार प्रचलित है, ऐसी जातियोंका जलग्रहण किया जा सकता है कि नहीं ?

उ०—ऐसी सदाचारसम्पन्न जाति और जिनके यहां अनेक शताब्दियोंसे सदाचार विद्यमान है, अवश्य ही उनका जल ग्रहण किया जा सकता है । पंजाब, राजपूताना, उत्तरभारत और विहार आदि प्रान्तोंमें अनेक ऐसी जातियां हैं, जिनके यहां सधवाविवाह, विधवाविवाह दोनों ही साधारणतः प्रचलित हैं, यहांतक कि उनके यहाँ सर्प और चूहेका अवाद्य मांसभक्षण भी किया जाता है, तथापि वे सब जातियां इन सब देशोंमें सर्वसाधारणमें जलाचरणीय समझी जाती हैं । ऐसी कदाचारसम्पन्न जातियां काशी आदि स्थानोंमें जब जलाचरणीय समझी जा सकती हैं, तो पहिली जैसी सदाचारसम्पन्न जातियां अवश्य जलाचरणीय होंगी । ऐसी जाति यदि भारतके किसी स्थानमें हो, तो इस समय वह जलाचरणीय समझी जा सकती है ।

प्र०—जलाचरणीय जाति किन जातियोंको कहा जा सकता है ?

उ०—सत्शूद्र मात्र ही जलाचरणीय है । समाजमें जो लोग असत् शूद्र कहे जाते हैं, उनमेंसे अनेक शताब्दियोंसे जिनके यहां सदाचारका पालन होता है, उन लोगोंको भी जलाचरणीय कहा जा सकता है । जिन जातियोंमें पहिले लिखे हुए प्रश्नोत्तरोके अनुसार सदाचार विद्यमान है, सामयिक आपद्ध-मार्नुसार यदि उन लोगोंको भी जलाचरणीय माना जाय तो धर्मविरुद्ध न होगा ।

प्र०—राजपूतानेमें चमड़ेके डोलका जल और काश्मीरमें मुसलमानोंका हुआ हुआ जल सदाचारसम्पन्न विद्वान् ब्राह्मणोंके यहां भी चलता है, क्या यह प्रथा निन्दनीय नहीं है ?

उ०—देश कालके अनुसार आचार विचार भी हुआ करता है, यह स्वभावसिद्ध है । काश्मीर देशमें केवल दो ही जातियां विद्यमान हैं, ब्राह्मण और

मुसलमान, तीसरी कोई जाति नहीं है, इसलिये मुसलमानोंको ही वहांपर हिन्दुओंने शूद्र जाति मान ली है । मुसलमानोंका जल वहां व्यवहारमें आनेपर भी मुसलमान लोग वहांपर जलपान छू नहीं सकते और खुली जगहमें जलको वायुसे शुद्ध करके सदाचारसम्पन्न हिन्दू लोग उस जलका व्यवहार करते हैं । (वायुशुद्ध अर्थात् चमड़ेके मशरूमने लाया हुआ जल दूसरे ताम्बे या मिट्टीके बर्तनोंमें डाल दिया जाता है ।) वहांके ब्राह्मणोंने जलाचरणके सम्बन्धमें यही मीमांसा की है कि वायुसे जल शुद्ध हो जाता है । उसी प्रकार राजपूतानेमें जलशुद्धिके सम्बन्धमें यही रीति प्रचलित है कि स्रोत द्वारा जल शुद्ध हुआ करता है । इस प्रान्तके अनेक स्थानोंमें जहां जलकी कमी है, अस्पृश्य जातिके लोग ऊटोंकी सहायतासे चमड़ेके डोलसे कूओमेंसे जल निकालते हैं और एक कुण्डमें जल भरते हैं, उस कुण्डमेंसे बहकर जल दूसरे कुण्डमें जाता है और इस प्रकार प्रवाहित होते ही वह शुद्ध माना जाता है । आपद्धर्मांतुसार इन सब सदाचारोंकी सार्थकता मानी जा सकती है । भारतके अन्य स्थानोंमें नलके जलके सम्बन्धमें भी यही नियम माना जा सकता है ।

प्र०—अनुन्नत जातिके लोग आक्षेप किया करते हैं कि “सदाचार और कदाचारके द्वारा जाति स्पृश्य अथवा अस्पृश्य होती है । हमारे पूर्वजलोग कदाचार करके पतित हुए थे किन्तु इस समय हिन्दुओंमें उन्नतलोग कदाचार करके भी क्यों पतित नहीं होते ? और हम भी सदाचारी होनेपर अस्पृश्य क्यों रहेंगे ?”

उ०—उन्नत लोगोको भी कदाचार करनेसे पतित होना चाहिये किन्तु ऐसे पातित्यको स्थिर करनेके लिये समाजबल और सशक्तिकी आवश्यकता होती है । जो लोग किसी समय वास्तवमें सदाचारसम्पन्न जातिके अन्तर्गत थे और सदाचारविरुद्ध आचरण करके पतित हो गये हैं, ऐसी जाति सदाचारसम्पन्न होकर अवश्य ही सदाचारसम्पन्न जानिमें परिणत हो सकती है । किन्तु वह जाति किस प्रकारके कदाचारसे पतित हुई थी इस बातकी विवेचना अवश्य करनी होगी । अनार्य जातिके लोगोंके साथ योनि सम्बन्ध हुआ था या नहीं इसकी विवेचना भी करनी चाहिये ।

प्र०—दक्षिण देश (मद्रास आदि प्रान्तों) में जिन जातियोके प्रति ब्राह्मण लोग घृणादृष्टिसे देखते हैं उन जातियोंके प्रति क्या व्यवहार होना उचित है ?

उ०—उन लोगोंका आचार देखकर उनसे व्यवहार करना उचित है । दाक्षिणात्यमें ब्राह्मणसे अनिरीक्त कोई जाति जलाचरणीय नहीं है यह भी न्याय-सङ्गत नहीं है । उस प्रान्तमें क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थादि जो लोग अपने अपने सदाचारकी छद्म दिनोंसे रक्त, करने चले आते हैं, उनके साथ उधरके ब्राह्मणोंका इधरके ब्राह्मण जैसा वर्ताव होना चाहिये । सर्वमत्यन्त गहिँतम् । उस प्रान्तमें जो शूद्रादि जातियाँ हैं, साधारणतः उनका जल ग्रहण नहीं होना चाहिये, किन्तु उस प्रान्तमें यदि ऐसे शूद्र हो जिनमें विधवाविवाह प्रचलित नहीं है और जो लोग देवता तथा ब्राह्मणमें भक्ति रखते हैं, पितृश्राद्धादि करते हैं और खाद्याखाद्यका विचार रखते हैं, तो ऐसे सदाचारी जातिका जल अवश्य ग्रहण करना उचित है ।

प्र०—दक्षिण देशमें। कही कही ऐसी प्रथा प्रचलित है कि वहाँकी शूद्र कन्याये विवाहिता होनेपर स्वसे पहिले ब्राह्मणोंकी भोग्या होती हैं यह बात शास्त्र और युक्ति-सङ्गत है कि नहीं ?

उ०—ऐसी कुप्रथायें अत्याचार-मूलक और अशास्त्रीय हैं तथा इनका संशोधन होना अत्यावश्यक है, क्योंकि ऐसी प्रथाओंसे केवल शूद्रोंकी ही हानि नहीं है, बल्कि ब्राह्मण लोग भी इससे पतित होते हैं ।

प्र०—आजकल अनेक स्थानोंमें हिन्दू स्त्री और पुरुषोंको जबरदस्ती अथवा धोखा देकर धर्मच्युत किया जाता है, क्या ऐसे लोग फिर हिन्दुसमाजमें लिये जा सकते हैं ?

उ०—शान्तिप्रिय उदार हिन्दु जातियोंपर अनेकवार ऐसे अत्याचार किये जा चुके हैं, इस समय भी हो रहे हैं और भविष्यत्में भी होना सम्भव है । दक्षिण देशमें मोपला नामक मुसलमान जातिने राजद्रोहके समय बहुतसे हिन्दुओंको जबरदस्ती मुसलमान बना डाला था, इस सम्बन्धमें यही आह्ला दी गई थी कि यथायोग्य प्रायश्चित्त करके ऐसे धर्मच्युत हिन्दुओंको हिन्दुसमाजमें पुनः ले लेना चाहिये । ऐसी आपत्ति उपस्थित होनेपर केवल इसी व्यवस्थाका अवलम्बन करना चाहिये । म्लेच्छोंने यदि जबरदस्ती धर्मच्युत कर दिया हो तो सनातनधर्मावलम्बी लोग निम्नलिखित प्रायश्चित्त करके फिरसे अपने समाजमें ग्रहण करने योग्य हो सकते हैं । ऐसे लोग जिनका यज्ञोपवीत-संस्कार हा चुका

हो, उनका यज्ञोपवीत सस्कार फिरसे होना विशेष आवश्यक होगा । महर्षि देवलने कहा है:—

बलाहासीकृता ये तु म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः ।
 अशुभं कारिता कर्म गवादिप्राणहिसनम् ॥
 उच्छिष्टमार्जनं चैव तथोच्छिष्टस्थ भोजनम् ।
 खरोष्ट्रविड्वराहाणामामिपस्य च भक्षणम् ॥
 तत् स्त्रीणां च तथा संगस्ताभिश्च सह भोजनम् ।
 मासोपिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम् ॥
 चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथवा भवेत् ।
 चान्द्रायणं पराकम्वा चरेत् सम्बत्सरोपितः ॥
 सम्बत्सरोपितः शूद्रः कृच्छ्रपादेन शुद्ध्यति ।
 उर्ध्वं सम्बत्सरात् कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥
 सम्बत्सरैश्चतुर्भिश्च तद्भावं स निगच्छति ॥

म्लेच्छ, चाण्डाल, डाकू आदि जो दुष्ट जानियां हैं वे यदि बलपूर्वक सनातनधर्मियोंको अपने वशमें रखकर उन लोगोंसे ऐसे अविहित कार्य करावें जैसे गोहत्या, जूठे धर्नन मात्रना, जूठा खाना, गधा, ऊँट आदिका मांस खाना, उनको स्त्रियोंसे सग या सहभोजन ऐसी हालतमें एक मास तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्राजापत्य व्रत करनेसे शुद्ध होंगे। यदि ऐसे ही अत्याचार अग्निहोत्री ब्राह्मणोंपर हों तो उन्हें चान्द्रायण अथवा पराक व्रत करना होगा। यदि ऐसे ही अत्याचार एक वर्ष तक होने रहें तो उस अवस्थामें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा अग्निहोत्री सबको ही चान्द्रायण अथवा पराक व्रत करना होगा। यदि शूद्र वर्षोंपर एक वर्ष पर्यन्त ऐसे अत्याचार होने रहें तो वह कृच्छ्रपादके द्वारा शुद्ध हो सकेगा। एक वर्षसे अधिक दिन धीत जानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्णके लोगोंका प्रायश्चित्त हो सकता है, किन्तु चार वर्ष धीत जानेपर प्रायश्चित्त नहीं हो सकता क्योंकि तब वे लोग तद्भाव प्राप्त हो जाते हैं। टेवलादि स्मृतियोंमें सामान्य दोषोंके विषयमें कहीं कहीं इससे भी अधिक उदारता पाई जाती है, यथा—

शुहीतो यो बलान्मलेच्छैः पञ्चषट्सप्त वा समाः ।

दशादिविंशति यावत् तस्य शुद्धिर्विधीयते ॥

प्राजापत्यद्वयं तस्य शुद्धिरेषा विधीयते ॥

अर्थात् कोई म्लेच्छ यदि बलपूर्वक किसी आर्यको अपने पास रख ले और वह म्लेच्छके साथ सामान्य संस्पर्शादि सम्बन्ध करे तो पांच, छ, सात या दश वर्षसे लेकर बीस वर्ष पर्यन्त उसको शुद्धि हो सकती है । उसको दो प्राजापत्य व्रत करने पड़ेगे ।

प्र०—वर्णाधर्मकी मूल भित्ति क्या है ? किस विज्ञानके अनुसार हम वर्णाधर्मके सम्बन्धमें कर्तव्याकर्तव्य निश्चय कर सकते हैं ?

उ०—वर्णाधर्मकी मूल भित्ति रजोवीर्यकी शुद्धि है । ज्ञानके द्वारा अध्यात्मशुद्धि, कर्मके द्वारा अधिदैव शुद्धि और रजोवीर्यके द्वारा अधिभूत शुद्धि हुआ करती है । यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मफलानुसार ऊपर कही हुई तीनों प्रकारकी योग्यता मनुष्यको प्राप्त हुआ करती है, तथापि पहिले कही हुई दो प्रकारकी योग्यताएं पुरुषार्थसाध्य हैं, किन्तु रजोवीर्यकी शुद्धि साधारण पुरुषार्थसे साध्य नहीं हो सकती । श्रीगीतोपनिषद्में भगवान्ने कहा है—

“चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः”

गुण और कर्म-विभागके अनुसार मैंने चार वर्णोंकी सृष्टि की है । इस भगवत् वाक्यके अनुसार कर्म पुरुषार्थसाध्य हो सकता है, किन्तु त्रिगुणका आधारस्वरूप स्थूल शरीर पुरुषार्थसाध्य नहीं हो सकता है, वह पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके अनुसार हुआ करता है । महर्षि पतञ्जलिने भी कहा हैः—

“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः”

जन्मजन्मान्तरमें जैसे संस्कार मनुष्योंके होते हैं उन संस्कारोंके फलस्वरूप ही जाति, आयु और भोगोत्पत्ति हुआ करती है । अतएव वर्णाधर्म सम्बन्धीय कर्तव्याकर्तव्यनिर्णय भी ऊपर लिखे हुए विज्ञानके अनुसार ही समझना चाहिये ।

प्र०—खाद्याखाद्यके सम्बन्धमें हिन्दू शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके बन्धन हैं । वर्तमान आपत्कालमें ऐसी आज्ञाओंका यथानियम पालन होना सम्भव नहीं है, इस विषयमें धर्मशास्त्रोंमें किस प्रकारके प्रमाण मिलते हैं ?

३०—आपद्धर्मके विचारसे सद्भावके सहारेसे पापकर्म भी कर्तव्यकर्ममें परिणत हो सकता है, वेदशास्त्रोंमें इसके अनेक प्रमाण हैं । आपद्ग्रस्त महर्षि विश्वामित्रने चाण्डालके घरमें जाकर कुत्तेके मांस खानेकी इच्छा की थी, महाभारतमें ऐसा लिखा हुआ है ।

भगवान् मनुने कहा है :—

जीवितास्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।

आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥

श्वमांसमिच्छन्नातोऽत्तुं धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥

क्षुधार्त्तश्चात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ।

चाण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥

(अ० १०)

यदि प्राण जानेकी आशंकासे कोई व्यक्ति जहाँ तहाँ भोजन करे, तो पंकेके बीचमें आकाशकी तरह वह कदापि पापलित नहीं होता है । धर्माधर्मके ज्ञाता वामदेवने क्षुधाके वशीभूत होकर कुत्तेके मांस खानेकी इच्छा की थी, परन्तु उससे वे पापके भागी नहीं हुए थे । उसी तरह धर्माधर्मके ज्ञाता महर्षि विश्वामित्र क्षुधासे पीड़ित होकर चाण्डालके घरमें कुत्तेके जघास्थलके मांस खानेके लिये प्रस्तुत हुए थे ।

परन्तु जहाँ उत्तम कल्प अथवा अनुकल्पकी सहायतासे धर्माचरणकी सम्भावना हो, वहाँपर आपत्कालकी कल्पना नहीं करनी चाहिये ।

प्र०—यग देशमें नाई अर्थात् हजाम लोग मुसलमानोंका क्षौर बनाते हैं, किन्तु “नमः शूद्रों” का नहीं बनाते, क्या यह चाल धर्मसंगत है ?

३०—कदापि नहीं । यह अत्याचारमूलक कुप्रथा है । ऐसी चाल भारतके अनेक प्रान्तोंमें है । दक्षिण भारतमें ऐसी चाल है कि मुसलमान या ईसाइयोंको ब्राह्मणोंके ग्रामोंके रास्तेपर चलनेकी आज्ञा दी जाती है और शूद्रोंको उस राहसे चलनेकी आज्ञा नहीं दी जाती । इन सब कुप्रथाओंका समाजके नेतागण द्वारा दूर कराना अवश्य कर्तव्य है । हमलोग विधर्मियोंसे स्पर्शादिके सम्बन्धमें जैसा आचार रखते हैं, अनुन्नत जानियोंके साथ उससे

कम रखना किसी प्रकारसे उचित नहीं है । क्योंकि ऐसा करना प्रकारान्तरसे अनुन्नत जानियोंको विधर्मों बननेके लिये प्रोत्साहित करना है जो कि हिन्दु समाजके लिये अवश्य ही हानिजनक है । अवश्य पदमर्यादाको ओर दृष्टि रखना भी युक्तियुक्त है इसमें सन्देह नहीं ।

प्र०—वर्तमान अछूतोद्धार या अन्त्यजोद्धार कार्यमें शास्त्रमर्यादाको अटूट रखते हुए हमे कहांतक अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये ?

उ०—कोई जाति चाहे कितनी ही हीन क्यों न हो समाजके विराट् शरीरका एक अङ्ग अवश्य है । इस कारण उच्च नीच सभी जातियोंके प्रति हमारा बहुत कुछ कर्तव्य है । आजकल देखा जाता है कि अनेक स्थानोंमें उच्चवर्णके हिन्दुओंके अनुदार निष्ठुर वर्तावके कारण अनुन्नत जातिके लोग प्रायः विधर्मियोंके भुलावेमें आ जाते हैं, जिससे दिन पर दिन हिन्दुजातिकी संख्या घटकर यह जाति दुर्बल होती जा रही है । हिन्दुजातिको इस दुर्बलतासे अवश्य वचाना चाहिये । भङ्गो, डोम, चमार, घोवो आदि अनुन्नत जातियोंके साथ एक पंक्तिमें भोजन करना, उनके हाथका खाना या जल ग्रहण करना, उन्हें जनेऊ देना, वेद पढ़ाना आदि कार्य अवश्य ही निन्दनीय तथा अशास्त्रोप हैं । किन्तु अन्य धर्मके लोगोंके प्रति हम जितनी उदारता दिखाते हैं उससे कम उदारता इन जातियोंके प्रति हमे कदापि नहीं दिखाना चाहिये । इनके लिये देवदर्शन, विद्यालयमें साधारण शिक्षा प्राप्ति, कुएँसे जल ग्रहण आदिकी सुविधा शास्त्रमर्यादा रखते हुए हमें अवश्य कर देनी चाहिये । इनके भीतर रामायण, महाभारत, पुराणोंकी कथाका प्रचार, व्याख्यानदि द्वारा सनातनधर्मकी जागृति अवश्य करते रहनी चाहिये । प्रयोजन होनेपर पृथक् विद्यालयादि खोलकर इनके लिये हिन्दी आदि भाषा शिक्षा, इनके अधिकारानुसार धर्मशिक्षा, सदाचार शिक्षा, नैतिकशिक्षा, जातीयशिक्षा और राजनैतिक शिक्षाका प्रबन्ध अवश्य करा देना चाहिये, जिससे राम, कृष्णादिकी महिमा, सनातनधर्मकी महिमा और भगवान्के प्रति भक्ति इनके भीतर बढ जाय और अपने चरित्र, सदाचार आदिकी सुरक्षा कर विधर्मियोंके प्रलोभनसे ये जातियां बच सकें । यदि सनातनधर्मकी सकल श्रेणिकी सभा समितियां तथा उच्च वर्णके सनातन-धर्मिण इस आवश्यक कर्तव्यकी ओर उदारताके साथ अग्रसर होंगे तो इस जातीय दुर्दशाके दिनोंमें हिन्दुजातिको विशेष लाभ पहुँचा सकेंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है ।

प्र०—क्या शुद्धि आन्दोलन शास्त्रानुकूल है ?

उ०—अशुद्धको पवित्र बनानेके लिये पुरुषार्थ करना अवश्य ही शास्त्र तथा लौकिक प्रथाके भी अनुकूल है । मलिन वस्त्रको लोग शुद्ध करते ही हैं । किन्तु मलिनताके तारतम्यानुसार शुद्धिमें भी कई भेद होते हैं । सामान्य धूलि आदिसे वस्त्र मलिन हो तो झाड़कर ही उसे शुद्ध किया जाता है । कोचड़ आदिके लग जाने पर जलसे धोकर शुद्ध किया जाता है, अधिक मलिनता, दाग आदि आजाने पर धोबीके घर भेजकर उसे धुल्लके शुद्ध किया जाता है । कहीं कहीं ऐसी भी मलिनता आ जाती है कि इन लौकिक उपायोंसे वस्त्र शुद्ध होता ही नहीं । उस समय वस्त्रको फेंक ही देना होता है । अथवा ऐसा भी यदि मौका हो कि सूतके वस्त्रको रेशमी वस्त्र बनाना पड़े तो इसके लिये जबतक वस्त्रका उपादान 'सूत्र' पूरा न बदला जाय तबतक वस्त्रकी शुद्धि नहीं हो सकती है । इसी दृष्टान्तपर शुद्धिविज्ञानको समझ सकते हैं । और इसी कारण मन्वादि स्मृति शास्त्रमें शुद्धिके अर्थ तरह तरहके प्रायश्चित्त बताये गये हैं । महापातक, संसर्गज पातक, उपपातक आदि सभीके पृथक् पृथक् प्रायश्चित्त होते हैं और कहीं कहीं पर मरणान्त प्रायश्चित्त भी बताये गये हैं । बलसे, छलसे, प्रलोभनसे यदि विधर्मिगणने किसी हिन्दुको अपने धर्ममें फसा लिया हो तो संसर्गके न्यूनाधिक्यके अनुसार वीस वर्षतक ऐसे हिन्दु उचित प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके अपने धर्ममें लिये जा सकते हैं, इसका देवलादि स्मृतिका प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है । इसी प्रकार कोई विधर्मी भी यदि आर्यधर्मकी उत्तमताको अनुभवकर 'हिन्दु' बनना चाहे तो वह हिन्दु बन सकता है, किन्तु आर्यजातिके साथ एकाएक उनका 'रोटी बेटा' का सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । ऐसी धर्मपूत जातिका एक पृथक् 'पन्थ' बन सकता है, जिसको हम हिन्दु अवश्य कहेंगे और उनके लिये एक पञ्चम वर्णका विधान हो सकेगा । यदि वर्तमान अनेक पथोंसे कोई एक पन्थ इस कार्यको हाथमें ले ले तो इस आपत्कालमें बड़ा ही लाभ होगा ।

प्र०—इन विषयोंके सिवाय हिन्दुसमाज तथा हिन्दुजातिकी उन्नतिके लिये और किन किन सुधारोंकी आवश्यकता है ?

उ०—हिन्दु समाजमें विवाहादिके सम्बन्धमें जो बड़ी बड़ी कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनको और हिन्दुनेताओंको सबसे पहिले ध्यान देना उचित है ।

आर्य जातिकी पवित्रता भ्रष्ट करनेवाली तथा उसको बड़ा भारी धक्का देनेवाली कुरीतियोंमेंसे सबसे बड़ी कुरीति वरसे कन्याकी आयुका अधिक होना है । अनेक स्थानोंमें देखनेमें आता है कि कुलमर्यादा तथा अर्थकामके विचारसे कन्याकी आयु वरसे अधिक होने पर भी माता पिता ऐसे विवाहके करनेमें पाप नहीं समझते हैं । दर्शनशास्त्र तथा स्मृतिशास्त्र दोनोंका ही यह सिद्धान्त है कि इस प्रकारका विवाह केवल पापजनक ही नहीं है किन्तु आर्यजातिको नष्ट भ्रष्ट और लोप करनेवाला है । इस कारण सबसे प्रथम सनातनधर्म नेता-श्रीको इस कुरीतिको एकदम रोक देनेका प्रयत्न करना चाहिये । बहुत स्थानोंमें ऋषिगोत्रके भूल जानेसे लौकिक गोत्रके प्रचार होनेसे प्रमादसे अथवा अर्थकामके लोभसे स्वगोत्रमें विवाह करना भी पापजनक नहीं समझा जाता । दर्शन-शास्त्रद्वारा यह स्पष्ट रूपसे प्रमाणित है कि सगोत्र विवाह द्वारा जाति और वंश अवश्य ही नष्ट हो जाता है । स्मृतिशास्त्र हाथ उठाकर कहता है कि सगोत्रा कन्या मनाके तुल्य है । अतः आर्यजातिके नेतृवर्गको जहाँ तक होसके आर्ष गोत्रोंके प्रचार कराने तथा सगोत्र विवाहके बन्द करनेके विषयमें सदा प्रयत्न करना उचित है । कन्या विक्रयका पाप गोहत्याके तुल्य स्मृतिशास्त्रमें समझा गया है । अतः कन्याविक्रयको सनातनधर्म समाज पतित समझे ऐसा प्रयत्न सदा होना उचित है । और ऊपर लिखित सब पापोंके लिये गुरुनर समाजदण्डविधान हांन उचित है । कालप्रभावसे आर्य जातिकी अर्थदृष्टि इननी बढ़ गई है कि ब्राह्मणत्वत्रियादि उच्च वर्णोंमें तिलक और पण आदिके नामसे वरपक्षवाले कन्या पक्षसे इतना धन बलपूर्वक वसूल करते हैं कि जिससे हिन्दुसमाजकी बड़ी भारी क्षति और निन्दा देखनेमें आ रही है । वस्तुतः यह प्रथा भी अराष्ट्रीय, अनीतिकर और शृणित है । इस प्रथाके द्वारा दिनदिन सद्गृहस्थगण दरिद्र और नाच बनते जाते हैं, तथा विवाहके पवित्र लक्ष्यको एक वार ही भूलते जाते हैं और कुटुम्बोंमें आत्मोपता नाश और अशान्ति कलहकी वृद्धि होती जाती है । अतः सब वर्णके नेतृवर्गको दृढ़व्रत होकर इस सामाजिक कुप्रथाके दूर करनेमें पुरुषार्थ करना चाहिये और साथ ही साथ अपने इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण चाहनेवाले स्वधर्मनिरत स्वदेशहितैषी युवकोंको विवाह करते समय स्वयं इस प्रथाको सामने न आने देना चाहिये । धार्मिक युवकगण यदि चाहें तो स्वतः ही प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस कुप्रथाको अति सुगमरीतिसे दूर कर सकते हैं । एक अच्छी प्रथा जो

इस समय कुप्रथामें परिणत हुई है उसका उल्लेख इस स्थानपर अवश्य ही करना उचित है । ब्राह्मणजातिमें एक कौलिन्य प्रथा प्रचलित है जैसा कि बङ्गाल तथा उत्तर-पश्चिम देशके कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा मैथिल ब्राह्मणोंमें अब भी प्रबल रूपसे देखनेमें आती है । प्राचीन कालमें कौलिन्य मर्यादा तप, विद्या, विनय और सदाचार आदि गुणावलीके अवलम्बनसे चलाई गई थी । अब उन गुणावलीयोंके ऊपर विचार न करके केवल लकीर पीटी जाती है जिससे अब भी समाजमें अनेक अनर्थ होते हैं । अतः शास्त्र, युक्ति और न्याय पर ध्यान देकर इस प्रथाको उठा देना उचित होगा और जिससे गुणकी पूजा समाजमें अधिक बढ़ जाय उसके लिये प्रयत्न करना उचित होगा । उत्तर-भारत और राजपूतानेमें विवाहके समय अति घृणित गाली बकना आदि जो घृणित कुरीतियां प्रचलित हैं इस प्रकारकी कुरीतियोंको बलपूर्वक दृढ शासनके साथ बन्द करना उचित है । इस विषयको सब श्रेणिके लोग ही स्वीकार करेंगे । बलव्य यह है कि सबसे प्रथम सामाजिक कुरीतियोंको दूर करके तब अन्यान्य गुरुतर विषयोंमें ध्यान देना उचित होगा । कुरीतियोंके दूर करनेसे समाजमें आत्मबलकी प्राप्ति होगी और तब अन्यान्य गुरुतर समाज संस्कार सम्बन्धीय विषयोंमें सफलता हो सकेगी ।



उपासनातत्त्व और मन्त्रशास्त्र ।

धर्मके विविध विषय तथा प्रधान धर्माङ्कुरूपी कर्मकाण्डके अनेक विषयों पर प्रचुर विवेचन करके अब उपासनाकाण्डके कुछ आवश्यक विषयों पर विवेचन किया जाता है ।

अभावकी पूर्ति करनेके लिये मनुष्योंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाकर धनाभावकी पूर्ति करना चाहता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह ज्ञानी बनकर ज्ञानाभावको मिटाना चाहता है इत्यादि । यही जब जीवका स्वभाव है, तो अल्पायु जीव चिरायु बनना अवश्य ही चाहेगा, अज्ञानी जीव ज्ञानी बनना अवश्य ही चाहेगा, शक्तिहीन जीव शक्तिमान् बनना अवश्य ही चाहेगा और दुःखी जीव आनन्दी बनना

अवश्य ही चाहेगा । जीवमें इन सभी वस्तुओंका असाव है, परमात्मामें ये सभी वस्तुयें पूर्णरूपसे विद्यमान् हैं । परमात्माकी आयु अनन्त है, शक्ति अनन्त है, ज्ञान अनन्त है और आनन्द अनन्त है । इस कारण परमात्मासे मिलकर, उनके पास पहुँच कर इन वस्तुओंके लाभ करनेकी लालसा मनुष्योंको लगती है । यह जो उनके पास पहुँचनेकी लालसा है इसीको उपासना कहते हैं । 'उप' अर्थात् समीप, और 'आस्' धातुका अर्थ प्राप्त होना है । अर्थात् परमात्माके समीप जाने या उनके सामीप्य लाभ करनेके उपायोंका नाम उपासना या साधना है ।

इस उपासनाको भिन्न भिन्न जाति, अधिकार तथा धर्मके मनुष्य अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार ही कर सकते हैं । यही कारण है कि भिन्न भिन्न धर्ममतोंमें तथा भिन्न भिन्न अधिकारके मनुष्योंमें उपासनाकी अलग अलग रीतियां प्रचलित हैं । ये सभी सत्य हैं, क्योंकि साक्षात् या परोक्षरूपसे इन सबकी गति अद्वितीय महासमुद्रकी ओर शत शत नदियोंकी भिन्न भिन्न पथत्राहिनी गतियोंकी तरह अद्वितीय परमात्माकी ओर ही है । महिम्नस्तोत्रमें यही लिखा है—

रचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् ।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

अर्थात् प्रकृति प्रवृत्तिके अनुसार रुचिके भेदसे किसी धर्ममतका पथ कुछ सरल और किसीका कुछ कठिन है । किन्तु जिसप्रकार सकल नदियोंकी एकमात्र गति समुद्र ही है, वैसे ही सब साधनाओंका अन्तिम लक्ष्य परमात्मा ही है । श्रीभगवान्ने गीतामें भी यही कहा है—

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातर्ह्यवन्ति ते ॥

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ (९)

और भी—

कामैस्तैस्तैर्ह तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
 तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥
 यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥
 स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
 लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥
 अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
 देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ (७)

किसी देवता, उपदेवता या अपदेवताकी पूजा करो, परोक्षरूपसे परमात्माकी ही पूजा होती है, क्योंकि ये सभी सात्विक, राजसिक या तामसिक रूपसे परमात्माकी ही भिन्न भिन्न विभूतियां हैं, केवल पूजाकी विधिमें उच्च या नीच प्रकार भेदमात्र है। इन सभी यज्ञोंके भोक्ता साक्षात् या परम्परारूपसे परमात्मा ही होते हैं, इस रहस्यको जो उपासक नहीं समझता है वही मतवादके चक्र तथा सङ्कीर्णतामें पडकर हीनगतिको पाता है। देवोपासक देवलोकको, पितरोंका उपासक पितृलोकको, प्रेतोपासक प्रेतलोकको पाता है, और जो साक्षात् रूपसे परमात्माकी उपासना करना है उसे ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार उन्होंने और भी कहा है, यथा—अपनी प्रकृतिके वशमें होकर वासनावद्ध जीव छोटी छोटी देवताओंकी पूजा करता है। परमात्मा जीवकी रुचिके अनुसार उसी पूजामें उसके चित्तको लगा देते हैं और इस प्रकार पूजासे जीवको जो कुछ सकाम फल मिला करता है, सो परमात्माका ही परोक्षरूपसे दिया हुआ फल है। किन्तु इस प्रकारके सब सकाम फल थोड़े दिनोंके लिये होते हैं, इस कारण अल्पबुद्धि मानव ही सकाम फलके लिये सामान्य देवताओंकी पूजा करना है और दूरदर्शी साधक मोक्षफलके लक्ष्यसे परमात्माकी साक्षात् रूपसे उपासना करते हैं। अतः यही सिद्धान्त निश्चित हुआ कि, सभी पूजा, सभी धर्ममतकी सभी साधना ठीक है, केवल अधिकार भेदानुसार उच्च नीच कोटिका तारतम्यमात्र है। इन्हीं बातों पर विचार कर चिन्ताशील मैक्समूलर साहबने भी कहा है—

“There never was a false god, nor was there ever really a false religion, unless you call a child a false man ! We are in different classes of the great life-school and we are happiest when we associate with those in our own class or consciousness.”

(Graphology—Kalpaka 12-1924)

“जिस प्रकार किसी बालकको चाहे वह कितना ही छोटा हो मनुष्य न कहना असत्य है, इसी प्रकार किसी धर्ममत या उसके इष्टदेवताको चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो धर्म या देवता न कहना असत्य और अनुचित है । संसारमें मिथ्या देवता और मिथ्या धर्म कोई भी नहीं है । जीवोंके अधिकारानुसार सभी धर्मोंकी कही न कही पर स्थिति अवश्य है । जीवनके महान् विद्यालयमें हम लोग अलग अलग श्रेणियोंके विद्यार्थी हैं और जो श्रेणी हमारे लायक अर्थात् हमारी शक्तिके अनुकूल है उसीमें रहना ही हमारे लिये उचित तथा सुखदायक है ।” अब नीचे क्रमशः इन उपासना श्रेणियोंका विचार किया जाता है ।

श्रीभगवान्को सबसे निकृष्ट विभूति भूत प्रेत योनि है । इसलिये भील, कोल आदि असभ्य जातिके लोग प्रेतोपासक होते हैं । उनके पिता मरनेके बाद प्रेत हुए हैं, उनमें बड़ी शक्ति आ गई है, वे पूजित होकर उन्हें उन शक्तियों द्वारा मदद दे सकते हैं, ऐसा समझकर वे अपने मकानोंके निकटवर्ती किसी वृक्ष पर उन प्रेतोंका स्थान निर्देश कर रखते हैं और बलिदान, गाना बजाना, स्तुति, प्रार्थना आदि द्वारा उनकी पूजा किया करते हैं । वे कभी कभी किसी स्त्री या पुरुष पर उन प्रेतोंके आवेश करानेका प्रयत्न करते हैं और आवेश होगया है ऐसा जब मालूम होता है तो प्रेताविष्ट नर नारीसे कई प्रकारकी प्रार्थनाएं करते हैं । प्रोफेसर आर. ई. डटन साहबने इस प्रकारसे ‘स्पिरिट’ बुलानेकी एक विधि बताया है, यथा—

Make your body as passive as you can at certain times, corresponding to each day of the week and hour of the day. Before this practice give yourself in prayer to spirits in earnest ; you can never develop psychesin without spirit

aid and they will always aid any mortal and heed his prayers if made in true faith

You are to magnetise a black cloth large enough to cover you You must always use this cloth, covering it over your head when offering your prayer because it acts as the conductor of magnetism The prayer and mental force sent will thoroughly magnetise the article and the spirit can come closer to you when using it

This magnetised cloth method is a powerful method for the developing of mediumship The prayer must be given in strong faith and the strength of the method depends upon your belief and strength of faith In this way you develop stronger than by the ordinary method and if you sit in total darkness you will finally have the cloth lifted from your head by a spirit who will stand revealed in a luminous light.

(Duttonism—Kalpaka 8-1924)

“प्रति सप्ताहके भीतर किसी दिन और उसमे भी किसी नियत समय पर अपनेको निष्क्रिय उदासीन भावमे रखनेका अभ्यास करो । और इस अभ्याससे पहिले कुछ दिनो तक स्पिरिट अर्थात् किसी परलोकगत आत्माकी पूजा करने रहो । इस प्रकार पूजाके विना सूक्ष्म शक्ति आती नही और यह भी निश्चय है कि सच्ची श्रद्धा विश्वासके साथ पूजा करनेपर परलोकगत आत्मा उपासककी सहायता अवश्य ही करते है ।

“पूजा पर बैठते समय तुम्हें एक बडा काला कपड़ा अपने सिरसे नीचे तक डाल रखना होगा । तुम अपनी मानसिक शक्ति तथा पूजा शक्तिका जितना ही प्रयोग करोगे उतना ही वह कपड़ा मोगनितिज अर्थात् सूक्ष्म विजती शक्तिसे भरपूर होता जायगा । इसी कपड़ेसे उपासनाके समय तुम्हें सदा ही अपनेको ढाकना पड़ेगा । और ज्यों ज्यो वह कपड़ा विजलीसे पूर्ण होता जायगा त्यों त्यों स्पिरिट तुम्हारे निकटवर्ती होते जायेंगे ।

“विजलीभरा यह वस्त्र स्पिरिट बुलानेमें बड़ा ही सहायक होता है । साथ ही साथ श्रद्धा विश्वासकी गभीरता भी परलोकगत आत्माको पास बुलानेमें परम सहायक बनती है । इस प्रकार अभ्यास करते करते किसी दिन जब अन्धकारपूर्ण स्थानमें अपनेको वस्त्रावृत करके तुम उपासना करोगे तो अकस्मात् परलोकगत एक आत्मा आकर तुम्हारे वस्त्रको उठावेंगे और अपने ज्योतिर्मय शरीरसे तुम्हें दर्शन देंगे ।” यह प्रेत पूजाकी उत्तम विधि है ।

इससे उन्नत सभ्यताकी दशामे पितर सब मर कर प्रेत ही होते हैं और वृक्षपर निवास करते हैं, इस प्रकार जुद्धभाव मनुष्यमे नहीं रहता है । वे उन्हें चन्द्रलोकवासी उत्तम शरीर नैमित्तिक पितृगण कह कर उनकी उपासना बड़े प्रेमके साथ करने लगते हैं । जापान, चीन आदि देशवासिगण इस पितृपूजा (Ancestral worship) को बड़े प्रेमके साथ करते हैं और इन्हींकी कृपासे उन्हें सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति होती है यह भी उनका विश्वास है । आर्यशास्त्रमें श्राद्ध तर्पण विधिके द्वारा इन नैमित्तिक पितरोंकी पूजा होती है जिसका वर्णन पहिले ही किया जा चुका है । प्राचीन ग्रीस तथा रोममें वीरपूजा (Hero worship) के नामसे इसी पूजाका प्रचार था । कारलाइल साहबने अपने (Hero and Hero-worship) ग्रन्थमे इसी उपासनाका बहुत कुछ वर्णन किया है ।

इसके बादकी उन्नत सभ्यता-दशामे नैमित्तिकके स्थान पर नित्य पितर, नित्य देवता और नित्य ऋषियोंकी उपासना होने लगती है । उन्नत भावके मनुष्यगण यह विचार करने लगते हैं कि पृथिवी, जल, वायु, अग्नि आदि जड़ वस्तुओंकी जो नियमित गति देखनेमें आती है, किसी नियामिक (Regulator) के बिना यह नियमित गति (Regular movement) कैसे बन सकती है ? जड़ इन्जिनमे गाड़ी खींचनेकी शक्ति तो है, किन्तु चेतन सञ्चालक (Driver) के बिना, गाड़ी ठीक नियम से चल नहीं सकती । स्टेशनमे ठहरना, भयके स्थान पर मन्द गतिसे चलना, कहीं कम कहीं द्रुत वेगसे चलना इत्यादि कोई भी कार्य जड़, अचेतन गाड़ी चेतन ड्राइवरके बिना नहीं कर सकती । और जब इतना साधारण कार्य भी—बिना चेतनकी सहायताके जड़ वस्तु नहीं कर सकती तो समस्त विश्वव्यापी जल, वायु, अग्नि आदि जड़ वस्तु अपने अपने नियमित कार्यको किसी न किसी चेतन नियामकके बिना कैसे कर सकेंगी ?

इसप्रकारसे चिन्ताका तरङ्ग उठते उठते अन्तमें यही सिद्धान्त निश्चिन हो जाता है कि समस्त विश्वके सञ्चालनके मूलमें तीन चेतन शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनमें परमात्माकी ही तीन शक्तियाँ व्याप्त रह कर कार्य कर रही हैं । यथा—अध्यात्मज्ञान राज्यके सञ्चालक ऋषिगण, अधिदैव कर्मराज्यके सञ्चालक देवतागण और अधिभूत स्थूल राज्यके सञ्चालक पितृगण हैं । मनुष्य केवल स्थूलराज्यपर अधिपत्य कर सकता है । परन्तु जो स्थूल और सूक्ष्मराज्य—दोनोपर समान-रूपसे अधिपत्य कर सके वही देवता है । ऋषि, देवता और पितृमें यही दैवी शक्ति विद्यमान है । इसी कारण वे दैव जगत्के तीन विभागोंके चालक हैं । जिस प्रकार स्थूल जगत्में भी साम्राज्यके अधिपति सम्राट सबके ऊपर होने पर भी उनके अधीनस्थ भिन्न भिन्न विभागोंके सञ्चालक उन्हींकी शक्तिको लेकर कितने ही काम करनेवाले होते हैं ऐसे ही ईश्वरकी विभूतियोंसे युक्त देवता, ऋषि, पितरोंके विप्रयमे समझना चाहिये । दैवी-शक्तिका पूरा पता न लगने पर भी जो कुछ लग सका है उसीके अनुसार पारसी लोग समुद्र, अग्नि आदिकी अधिष्ठात्री देवताकी पूजा करते हैं जिसका विधान उनके जोरोष्ट्रियन धर्ममें है । इसी प्रकार रोमन कैथलिक लोग भी एञ्जेल (Angel) की पूजा करते हैं जो एक प्रकारकी दैवी-विभूति ही है ।

आर्यशास्त्रमें इस विषयपर पूर्ण विवेचन करके कहा गया है कि, प्रत्येक ब्रह्माण्डके नायक ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वररूपी त्रिमूर्ति ही उस ब्रह्माण्डके सगुण ईश्वर है, इस कारण ये तीनों, देवता होनेपर भी, अन्यान्य देवताओंकी श्रेणीमें इनकी गणना नहीं हो सकती । प्रधान देवता तैतीस हैं । यथा—आठ वसु, द्वादशादित्य, एकादश रुद्र और इन्द्र प्रजापति ।

यजुर्वेद (अ० १४ म० २०) में भी :—“वसवो देवताः रुद्रा देवताः ।

आदित्या देवताः त्रयस्त्रिंशः सुराः ॥”

आदि कहकर तैतीस देवताओंका वर्णन किया गया है । इनके नाम यथा महाभारतमें :—

“भर्गोऽशरचार्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा ।

सविता चैव धाता च विवस्वार्च महाबलः ॥

त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ।

इत्येते द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसम्भवाः ॥”

भग, अश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाना, विवस्वान्, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु—ये द्वादश आदित्य हैं। वसुओंके नाम महाभारतमें :—

धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवानिलोऽनलः ।

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात् स्मृताः ॥

धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये अष्टवसु हैं। एकादश रुद्रके नाम श्रीमद्भागवतमें :—

“अजैकपादहिम्रध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः ।

जयन्तो बहुरूपश्च त्र्यम्बकोऽप्यपराजितः ॥

वैवस्वतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इमे स्मृताः ॥”

अजैकपाद, अहिम्रध्न, विरूपाक्ष, सुरेश्वर, जयन्त, वहरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वैवस्वत, सावित्र और हरु—ये एकादश रुद्र हैं।

ये ही तैत्तिरीय देवता प्रत्येक ब्रह्माण्डके रत्नकरूप प्रधान देवता हैं। इनके अधीन अनेक देवता हैं, वे सब देवता सात श्रेणियों और चार वर्णोंमें विभक्त हैं। इनके चार वर्ण—यथा—महाभारतके शान्तिपर्वमें :—

आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विश्वश्च मरुतस्तथा ।

अश्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युश्च समास्थितौ ॥

स्मृतास्त्वङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः ।

इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम् ॥

आदित्यगण क्षत्रियदेवता, मरुद्गण वैश्यदेवता, अश्विनीगण शूद्रदेवता और अङ्गिरस देवतागण ब्राह्मणदेवता—इस प्रकारसे देवताओंके चार वर्ण हैं।

शास्त्रोंमें कहीं कहीं तैत्तिरीय करोड़ देवता हैं ऐसा भी कहा गया है। ‘प्रत्येक ब्रह्माण्डमें देवताओंकी संख्या क्या तैत्तिरीय करोड़ ही नियमित है ? इस प्रश्नके उत्तरमें सिद्धान्त यही हो सकता है कि, विज्ञानवित् शास्त्रकारोंने प्रकृतिके परिणामके क्रमके अनुसार और कर्मोंकी गतिके साधारण भेदके अनुसार देवताओंकी संख्या अधिकसे अधिक तैत्तिरीय करोड़का होना अनुमान किया है। इससे यह नहीं समझा जा सकता कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें तैत्तिरीय करोड़ ही देवता होते हैं।

वेदादि शास्त्रोंमें देवताओंकी संख्या तथा स्वरूपके विषयमें अनेक वर्णन मिलते हैं । यजुर्वेद (अ० १४ म० २०) में वर्णन है :—

“अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता ।”

इस मन्त्रमें देवताओंकी अनेक श्रेणियोंका नामोल्लेख है ।

पुनश्च—“त्रयो देवा एकादशत्रयस्त्रिंशताः सुराधसः बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तु मा ।” (य० म० ११ अ० २०)

“समिद्ध इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पूर्व कृद्धावृधानः त्रिभिर्देवैस्त्रिंशताः वज्रवाहुर्जघान वृत्रं विदुरो ववार ।” (अ० २, म० ३६)

प्रधान तीन देवता, एकादश रुद्र या तैत्तीस देवता सुरगुरु बृहस्पतिको आगे करके अपनी दैवशक्तिके प्रभावसे सूर्यप्रेरणासे यज्ञानुष्ठानमें प्रवृत्त मेरी रक्षा करे । तेजस्वी यज्ञधारी इन्द्रने सूर्यको तरह प्रकाशवान् तैत्तीस देवताओंके साथ मिलकर वृत्रका हनन किया । देवताओंकी संख्याके विषयमें उसी वेदमें लिखा है :—

त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राप्यग्निन् त्रिंशच्च देवानवचासपर्यन्”

(अ० ७ म० ३३)

तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवता अग्निकी परिचर्या करते हैं ।
शाकल्य ब्राह्मणमें—

“त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रैति महिमा न एवैषामेते त्रयस्त्रिंशदेव देवाः ।”

इस प्रकार कहकर तैत्तीस देवता ही प्रधान है, बाकी शत सहस्र देवता-गण सब इनकी विभूतिरूप हैं—ऐसा ही वर्णन किया गया है । अन्यत्र यह भी वर्णन है —

“तिस्रः कोट्यस्तु रुद्राणामादित्यानां दश स्मृताः ।

अग्नीनां पुत्रपौत्रं तु संख्यातुं नैव शक्यते ॥”

एकादश रुद्रोंकी विभूति तीन कोटि देवता हैं, द्वादश आदित्योंकी विभूति दस कोटि देवता है । अग्नि देवताके पुत्र पौत्रोंकी तो संख्या ही नहीं हो सकती । तदनन्तर अक्षपादने कहा है—

“त्रयस्त्रिंशद् यानि तान्येव शतानि विन्दुत्रययुक्तानि, पुनस्तान्येव त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि च विन्दुचतुष्टययुतानि तथा त्रयस्त्रिंशत्कोटय इत्यर्थः” ।

इस प्रकारसे तैंतीस करोड़का हिसाब बन सकता है । महाभारतके आदिपर्वके प्रथम अध्यायमे लिखा है—

“त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च ।
त्रयस्त्रिंशच्च देवानां सृष्टिः संक्षेपलक्षणा ॥”

सक्षेपसे देवताओंकी संख्या तैंतीस हजार तैंतीस सौ तैंतीस होती है । निरुक्तके देवताकाण्डमे देवताओंकी संख्याके विषयमें वर्णन है । यथाः—

“तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः ।”

“अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः ।”

“तासां महाभाग्यादेकं कस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति ।”

“अपि वा कर्मपृथक्त्वाद् यथा होताध्वर्युर्ब्रह्मोद्गातातेत्यप्येकस्य सतः ॥”

“अपि वा पृथगेव स्युः पृथग्वि स्तुतयो भवन्ति ।”

‘ तथाभिधानानि ।’

देवता तीन हैं । यथा—अग्नि, वायु या इंद्र और सूर्य । अग्निका स्थान पृथ्वी है, वायु या इंद्रका स्थान अंतरिक्ष है और सूर्यका स्थान द्युलोकमे है । इन तीन प्रधान देवताओंके ऐश्वर्ययोगसे अनेक देवता होते हैं, जिनके नाम अनेक प्रकारके हैं । कर्मकी पृथकताके कारण भी अनेक भेद होते हैं । यथा—होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता इत्यादि । इसके सिवाय और प्रकारसे भी पृथक्सत्ता देवताओंकी होती है, जिस कारण पृथक् पृथक् देवताओंकी पृथक् पृथक् स्तुतियां भी होती हैं । इस प्रकार पृथक्सत्ताके अनुसार देवताओंके पृथक् पृथक् नाम भी होते हैं ।

यजुर्वेदके (अ० ३६ मं० ६) प्रायश्चित्ताहुति प्रकरणमे लिखा है —

“सविता प्रथमेहन्यग्निर्द्वितीये वायुस्तृतीय आदित्यश्चतुर्थे
चन्द्रमाः पञ्चम ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे
वरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे ।”

प्रथम दिनका सविता देवता है, दूसरे दिनका अग्नि, तीसरे दिनका वायु, चौथे दिनका आदित्य, पञ्चमका चन्द्र, षष्ठका ऋतु, सप्तमका मरुत, अष्टमका बृहस्पति, नवमका मित्र, दशमका वरुण, एकादशका इन्द्र, द्वादशका विश्वेदेवा । इन देवताओंके निमित्त १२ दिनोंतक प्रायश्चित्तके लिये आहुति दी जाती है । इन देवताओंके स्वरूप तथा वासस्थान कहां होते हैं, इसके विषयमें ऋग्वेद (म० १ सू० ६३ अ० ५) में लिखा है:—

नृचक्षसो अनमिपंतो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ।

ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोवर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥

कर्मके नियन्ता, अनिमेषनेत्र द्वारा जीवोंके प्रति दृष्टियुक्त, देवताओंने जीवकी परिचर्याके निमित्त अमरत्वको प्राप्त किया है। दीप्तिमान् रथसे युक्त, स्थिरबुद्धि, पापरहित देवतागण स्वर्गलोकके उन्नत देशमें निवास करते हैं। और भी:—

“सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृता दधिरे दिविक्षयम् ॥”

प्रभुतायुक्त, अतिबृद्धिशाली देवतागण जो यज्ञमें आते हैं उनका निवास दिव्यलोकमें है । देवताओंके प्रभावके विषयमें निरुक्तके दैवतकाण्डमें लिखा है—

“आत्मैवैषां रथो भवत्यात्मारश्च आत्मायुध आत्मेषव आत्मा
सर्व देवस्य देवस्य ।”

आत्मा ही देवताओंका श्रव, रथ, आयुध, वाण और सब कुछ होता है । इनके रूपके विषयमें ऋग्वेद (म० ३ अ० ४ सू० ५३ म० ८) में लिखा है:—

“रूपं रूपं मघवावो भवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परिस्वान् ।

त्रियर्दिवः परिमृहूर्तमागात् स्वैर्मत्रैरनृतुवाञ्चतावा ॥”

मघवा (इन्द्रदेव) जिस जिस रूपके धारण करनेकी इच्छा करते हैं वही रूप उनका हो जाता है, उनमें अनेक रूप धारण करनेकी शक्ति है । इन्द्रको मन्त्र द्वारा स्तुति करते ही इन्द्रदेव स्वर्गलोकसे एक ही समय

अनेकरूप धारण करके अनेक यज्ञमें उपस्थित हो सकते हैं । देवताओंके अनेक रूप धारण करके एक ही समय अनेक यज्ञमें उपस्थित होनेके विषयमें वेदान्त-दर्शनका भी सूत्र है । यथा:—

“विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ।”

यदि कर्मके विषयमें इस प्रकारसे विरोध माना जाय कि, एक समयपर एक देवता अनेक स्थानोंमें कैसे उपस्थित रह सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि, देवताओंमें ऐसी शक्ति है कि एक ही समय पर अनेक रूप धारण करके अनेक यज्ञोंमें वे दर्शन दे सकते हैं । देवताओंके रूप कैसे होते हैं, इसके विषयमें निरुक्तके दैचनकाण्डमें लिखा है:—

“अथाकारचिन्तनं देवतानाम् ।”

“पुरुषविधाः स्युरित्येकम् ।”

“अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् ।”

“अपि बोभयविधाः स्युः ।”

देवताओंके रूप कैसे होते हैं अर्थात् किस रूपमें वे दर्शन देते हैं, इसके विषयमें यह कथन है कि कोई उनको पुरुषके रूपमें दर्शन देनेवाले, कोई उनको स्त्रीके रूपमें या और किसी रूपमें दर्शन देनेवाले और कोई उनको इन दोनों ही रूपोंमें दर्शन देनेवाले कहते हैं । इन्द्रके कार्यके विषयमें निरुक्तमें लिखा है:—

“अथास्य कर्म रसानुप्रदानं वृत्रवधो या च का च बलकृति-
रिन्द्रकर्मैव तत् ।”

वर्षादि कराना, वृत्रवध और बलसम्बन्धीय अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेवका है; क्योंकि, वे देवताओंके राजा हैं । इन सब प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट सिद्धान्त होता है कि विद्वानको ही देवता कहनेकी और चतुर्वेदज्ञाताको ही ब्रह्मा कहनेकी जो स्पष्टी अर्वाचीन पुरुषोंने की है वह उनका भ्रान्तियुक्त उन्मत्त प्रलापमात्र है ।

“विद्वांसो हि देवाः ।” (शतपथ ब्राह्मण ३।७-३।१०)

इस मन्त्रका अर्थ अर्वाचीन पुरुषोंने ठीक नहीं किया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्वान् ही देवताहोते हैं; परन्तु यजुर्वेद (अ० ६, सं० ७) में:—

“देवान् दैवीर्विशः प्रागुरुशिजो वह्नितमान् ।”

इस मन्त्रके अर्थमें “दिव्यगुणयुक्त” यह पशु अग्नीषोमादि देवताओंके पास गमन करे, जो देवता विद्वान् और अग्नि द्वारा हविकी इच्छा करनेवाले होते हैं, यह जो मन्त्र है, इसपर ही शनपथ ब्राह्मणकी श्रुति है :—

“विद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजो वह्नितमानिति ।”

देवता विद्वान् हैं, इसीलिये उनको उशिज और वह्नितमान् कहा गया है । विद्वान्का नाम ही देवता है, यह उस श्रुति अथवा ब्राह्मणका अर्थ नहीं है । वकरीकी चार टाँग होती है इसलिये जिस पशुकी चार टाँग हा वह वकरी है ऐसा कहना जिस प्रकार मिथ्या है ऐसा ही विद्वान् होते ही उसे देवता कहना मिथ्या है । और चार वेदके ज्ञाता ही ब्रह्मा हैं ऐसा कहना और भी भ्रान्तियुक्त है । ऐसा होनेपर वेदव्यास वशिष्ठ आदि वेदवेत्ता सभी ऋषियोंको ब्रह्मा कहना पड़ेगा ।

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । (मुण्डक)
हिरण्यगर्भः समवर्चताग्रे । यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् । (श्वेताश्वतर)
तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । (मनु)

इत्यादि प्रमाणों द्वारा ब्रह्माकी पृथक् स्थिति सिद्ध होती है ।

शास्त्रमें नित्य देवता ओर नैमित्तिक देवता दो प्रकारके देवता कहे गये हैं ।

नित्य देवता वे हैं, कि जिनका पद नित्य स्थायी है । वसुपद, रुद्रपद, आदित्यपद, इन्द्रपद, वरुणपद आदि पद नित्य हैं । ये पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्डमें ही नित्यस्थायी नहीं हैं, किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें इन पदोंका नित्यरूपसे रहना अवश्य सम्भव है । ये पद नित्य होते हैं तथा कल्प और मन्वन्तरादिभेदसे इनमें योग्य व्यक्तियां जाकर अधिकार प्राप्त करती हैं । ओर वे ही देवता क्रमशः उन्नत अधिकारोंको भी प्राप्त करते रहते हैं । कभी कभी इन पदधारी देवताओंका पतन भी होता है । जैसा महाभारतके शान्तिपर्वमें कहा गया है :—

“हित्वा सुखं मनसरच प्रियाणि देवः शक्रः कर्मणा रचैष्ट्यमाप ।

सस्यं धर्मं पाळ्यन्नममत्तो दमं तितिक्षां समतां प्रियञ्च ॥

एतानि सर्वाण्युपसेवमानः स देवराज्यं मघवान् प्राप मुत्स्यम् ॥

ऋतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च ।

त्रैलोक्यैश्वर्यमव्यग्रं प्राप्तोऽहं विक्रमेण च ॥”

मनके प्रिय सुखीको त्याग करके, सत्य, धर्म, दम, तितिक्षा और सम-
ताके आश्रयसे इन्द्रको मनुष्यशरीरसे इन्द्रपद प्राप्त हुआ था । यज्ञ, तप,
स्वाध्याय और दमके द्वारा इन्द्रने त्रिलोकका ऐश्वर्य प्राप्त किया था ।
नारायणोपनिषद्में लिखा है:—

“यज्ञेन हि देवा दिवं गताः”

“यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्रद्युम्नितमो मदः” (सा. वे. ३।१।३२)

यज्ञसे ही देवताओंको देवत्वपद मिला है और शतक्रत होनेसे ही
इन्द्रपद इन्द्रको प्राप्त हुआ है । ऋग्वेद १।११।१२ में लिखा है:—

“तसन् रथं सुकृतं विन्न नापसस्तसन् । हरीं इन्द्रवाहा वृषण्वसू ॥”

आंगिरसके तीन पुत्र रथनिर्माणके कौशलसे देवताओंको तुष्ट कर देवत्व-
को प्राप्त हो गये थे ।

पुनः महाभारतके अलुशासनपर्वमें लिखा है—

“नहुषो हि महाराज राजर्षिः सुमहातपाः ।

देवराज्यमनुप्राप्तः सुकृतेनेह कर्मणा ॥

अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत् ।

स ऋषीन् वाहयामास वरदानमदान्वितः ॥

अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो वामेनाभ्यहनच्छिरः ।

तस्मिन् शिरस्यभिहते स जटान्तर्गतो भृगुः ॥

शशाप वलवत् क्रुद्धो नहुषं पापचेतसम् ।

यस्मात् पदाहतः क्रोधाच्छिरसीमं महामुनिम् ॥

तस्मादाशु महीं गच्छ सर्पो भूत्वा सुदुर्मते ।

इत्युक्तः स तदा तेन सर्पो भूत्वा पपात ह ॥”

राजर्षि नहुषने पुण्यकर्मके फलसे इन्द्रत्व प्राप्त किया था । इन्द्रत्व पाने-
पर उनको अत्यन्त अहंकार हो गया था और उन्होंने ऋषियोंसे अपना शिषिका

(पालकी) वाहन प्रारम्भ कर दिया था । एक बार अगस्त्य ऋषि शिविका-
वहन कर रहे थे, नहुषने उनके सिरपर लात मार दिया । इस पर भृगु ऋषिने
नहुषको अभिसम्पात (शाप) किया कि सर्प हो जाओ और नहुष सर्प होकर
स्वर्गसे गिर पड़ा ।

नैमित्तिक देवता वे कहाते हैं, जिनका पद किसी निमित्तसे कायम
किया जाता है । और उस निमित्तके नष्ट होनेपर वह पद भी उठ जाता है ।
नैमित्तिक देवताओंके उदाहरणके लिये कुछ प्रमाणोंका विचार किया जाता है ।
प्रथम उदाहरण यह है कि ग्रामदेवता, गृहदेवता, वनदेवता आदिका पद ।
ग्रामके स्थापन होनेके समयसे लेकर जबतक ग्राम नष्ट न हो जाय तबतक
ग्रामदेवताका पद बना रहता है । एक वनस्थलीके स्थापन होनेके समयसे लेकर
जबतक उस स्थानमें वनका अधिकार पूर्णरूपसे बना रहता है तबतक वनदेवता-
का पद बना रहता है और उसके बाद वह पद नष्ट हो जाता है । गृहदेवताको
भी ऐसा ही समझना उचित है । एक गृहके प्रस्तुत होनेपर यदि
गृहपति उस गृहमें शास्त्रविधिके अनुसार गृहदेवताकी स्थापना करे तो उस
गृहदेवताके पीठकी स्थापनाके समयसे लेकर जबतक वह गृह बना रहता है
और जबतक गृहस्थकी श्रद्धा पीठपर बनी रहती है तबतक उस गृहदेवताका
पद बना रहता है और तदनन्तर वह पद नष्ट हो जाता है । नैमित्तिक देवताओंके
उदाहरणमें और भी प्रमाण दिये जाते हैं । उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और
जरायुज—इन चार प्रकारके भूतोंकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, यथा—
जरायुजमें गो, महिष, अश्व, सिंह, बानरादि, अण्डजमें कपोत, मयूर, सर्प
आदि, स्वेदजमें जीवरक्षाके विशेष विशेष कृमि तथा रोगोत्पादक विशेष विशेष
कृमि और उद्भिज्जमें अश्वत्थ, वट, बिल्व आदि, इस प्रकारसे चार प्रकारके
जीवोंमें जिस ब्रह्माण्डमें जिस प्रकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती हैं, अथवा जिस
देशमें जिस प्रकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती हैं उनकी रक्षाके लिये एक एक
स्वतन्त्र-स्वतन्त्र देवताका पद दिया जाता है और जबतक वे श्रेणियां बनी रहती
हैं तबतक वह देवताका पद भी बना रहता है । उसके अन्यथा होनेपर वह
पद उठा दिया जाता है । नैमित्तिक देवताके सम्बन्धमें और भी उदाहरण
दिया जाता है । स्थावर पदार्थ—पर्वत, नदी आदि—तथा नाना प्रकारके
धातु और उपधातु आदि खनिज पदार्थोंके चालक और रक्षक स्वतन्त्र स्वतन्त्र

देवता होते हैं। वे पद भी नैमित्तिक हैं। जिस ब्रह्माण्डमें अथवा जिस देश विदेशमें जबतक ये स्थावर पदार्थ अपनी पूर्ण सत्तामें विद्यमान रहते हैं तबतक वे नैमित्तिक देवताओंके पद भी विद्यमान रहते हैं और उसके अन्यथा होनेपर वे पद उठा दिये जाते हैं। यही सब नैमित्तिक देवताओंके उदाहरण हैं।

नैमित्तिक देवताओंके विषयमें शास्त्रमें भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। मत्स्यपुराणमें गृहदेवताओं अर्थात् वास्तुदेवताओंका नामोल्लेख तथा पूजाका वर्णन किया गया है। यथा:—

“सर्ववास्तुविभागेषु विज्ञेया नवका नव ।
एकाशीतिपदं कृत्वा वास्तुवित् सर्ववास्तुषु ॥
पदस्थान् पूजयेद्देवांस्त्रिंशत्पञ्चदशैव तु ।
द्वात्रिंशद्वाह्यतः पूज्याः पूज्याश्चान्तस्त्रयोदश ॥
नामतस्तान् प्रवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत ।
ईशानकोणादिषु तान् पूजयेद्विषा नरः ॥
शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः ।
सूर्यसत्यौ भृशश्चैव आकाशो वायुरेव च ॥
पूषा च वितथश्चैव गृहक्षतमयातुभौ ।
गन्धर्वो भृङ्गराजश्च मृगः पितृगणस्तथा ॥”

इत्यादि इत्यादि। समस्त वास्तुविभागमें दोनों ओर नौके हिसाबसे एकाशीति (८२) वास्तु पद जानना चाहिये। इन पदोंमें स्थित बत्तीस और पंद्रह तथा बहिर्दिशमें बत्तीस और बीचमें तेरह—इस प्रकारसे समस्त वास्तु देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। शिखी, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृश, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, गृहक्षत, मय, गन्धर्व, भृङ्गराज, मृग, पितृगण इत्यादि वास्तु देवतागण हैं, जिनकी पूजा ईशानकोणमें होती है। महाभारतके अत्रुशासनपर्वमें मतङ्गमुनिका इस प्रकार इतिहास मिलता है कि मतङ्गमुनि अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करनेपर भी ब्राह्मण जन्म नहीं प्राप्त कर सके और पश्चात् इन्द्रके वरसे छन्द नामक नैमित्तिक देवता बन गये। यथा:—

“छन्दो देव इति ख्यातः स्त्रीणां पूज्यो भविष्यसि ।
कीर्तिश्च तेऽतुला वत्स ! त्रिषु लोकेषु यास्यति ॥
एवं तस्मै वरं दत्त्वा वासवोऽन्तरधीयत ।
प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्प्राप्तः स्थानशुचमम् ॥”

इन्द्रदेवने मतङ्गको वर दिया “तुम छन्द नामक देवता बनोगे और स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी । त्रिलोकमें तुम्हारी अत्यन्त कीर्ति होगी ।” इतना कहकर इन्द्रदेव अन्तर्धान हो गये और शरीरत्यागानन्तर मतङ्ग छन्द देवता नामक उत्तम नैमित्तिक देवताका स्थान प्राप्त हो गये । यही सब देवताओंके विषयमें आर्यशास्त्रीय विवेचन है ।

नित्य पितृगण भी एक प्रकारके देवता है, उनका वासस्थान पितृलोक है । उनका कार्य आधिभौतिक जगत्का सरक्षण, आधिभौतिक जगत्के परमाणुओंका नियोजन और आधिभौतिक जगत्की क्रियाओंका यथावत् परिचालन है । ससारमें ऋतुओंके ठीक ठीक होनेसे ही आधिभौतिक शरीररसस्वन्धीय परमाणु तथा शक्तियोंका सुप्रबन्ध रहता है । अतः ऋतुओं तककी सम्हाल क्रममें पितरोंका अधिकार माना गया है । यथा वेदमें :—

“ॐ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्, अग्निष्वात्ताः पितरतृप्यन्ताम्, वहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्, आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्” इत्यादि ।

“नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय
नमो वः पितरो ऋतवे, नमो वः पितरो जीवाय
नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय ॥”

सोमसद नामक नित्य पितृगण तृप्त होवें, अग्निष्वात्ता नामक पितृगण तृप्त होवें, वहिषद नामक पितृगण तृप्त होवें, सोमपा नामक पितृगण तृप्त होवें, हविर्भुज नामक पितृगण तृप्त होवें, आज्यपा नामक पितृगण तृप्त होवें, इत्यादि । वर्षाधिपति पितरोंको नमस्कार, शीष्माधिपति पितरोंको नमस्कार, ऋतुके अधिपति पितरोंको नमस्कार, इत्यादि ।

ऋतुओंमें विपर्यय न होने देना अथवा मनुष्योंके कर्मोंके उपयोगी ऋतुओंके स्वरूपमें विपर्यय उत्पन्न करना, ससारमें स्वास्थ्यविधान करना,

संसारके स्वास्थ्यमें विपर्यय उत्पन्न करना, मनुष्यका स्थूलशरीर मातृगर्भमें उत्पन्न करना, मनुष्यके स्थूलशरीरका स्वास्थ्यविधान करना, मनुष्यके शरीरके स्वास्थ्यमें विपर्यय करना इत्यादि सब कार्य्य पितृगणकी कृपासे हुंआ करते हैं। सुतरां, पितृगण ही जीवके कर्मभोगके उपयोगी उसके। उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट अधिभारके अनुसार स्थूलशरीर बनानेमें जैसी आवश्यकता हो उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट तत्त्वोंको चन्द्रलोक अर्थात् पितृलोकसे पर्जन्यादिके द्वारा सुसज्जित करते हुए यथाक्रम मातृपितृशरीरमें होकर रजवीर्यमें परिणत करते हुए मातृगर्भमें पहुँचा देते हैं। यही पितृगणके द्वारा मनुष्यके स्थूलशरीरकी गतिका वैज्ञानिक रहस्य है। दूसरी ओर जिस प्रकार पितृगण प्रत्येक जीवके कर्मानुसार तथा उस जीवके मातापिताके कर्मानुसार जैसी सन्ततिके उपयोगी स्थूलशरीरका मसाला मातृगर्भमें इकट्ठा करते हैं वैसे ही यथायोग्य आत्मा अपने सूक्ष्मशरीरके सहित अन्य सूक्ष्मलोकोंसे देवताओंकी सहायताके द्वारा मातृगर्भमें यथासमय पहुँचाया जाता है। यही जीवके सूक्ष्मशरीरके जन्मान्तर होनेके सम्बन्धका वैज्ञानिक रहस्य है। इन दोनों कार्य्योंमेंसे एक कार्य्य पितरोंका है दूसरा देवताओंका है।

ऋषि, देवता और पितर—ये तीनों श्रेणियां श्रीभगवान्के कार्य्यकर्ता प्रतिनिधि देवता ही हैं। भेद इतना ही है कि ऋषियोंमें अध्यात्मशक्तिकी प्रधानता, देवताओंमें अधिदैवशक्तिकी प्रधानता और पितरोंमें अधिभूतशक्तिकी प्रधानता रहती है। नित्य पितरोंके एकत्रिंशत् गण और चार वर्षके विषयमें शास्त्रमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। यथा मार्कण्डेय पुराण अ० ६६ में—

विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः ।

भूतिदो भूतिकृत् भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥

कल्याणः कल्याणकर्त्ता क्रत्यः कल्यतराश्रयः ।

कल्यताहेतुरवधः षडिमे ते गणाः स्मृताः ॥

वरो वरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा ।

विश्वपाता तथा घाता सप्तवैते तथा गणाः ॥

महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः ।

गणाः पञ्च तथैवैते पितृणां पापनाशनाः ॥

सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः ।
 पितृणां कथयते चैतत् तथा गणचतुष्टयम् ॥
 एकत्रिंशत् पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् ।
 ते मेऽनुत्तृप्तास्तुप्यन्तु यच्चञ्चन्तु च सदा हितम् ।

विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धन्य, शुमानन, भूतिद, भूतिकृत् और भूति नामक पितरोंके नवविध गण, कल्याण, कल्याणकर्त्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यताहेतु और भवध नामक पितरोंके षड्विध गण, वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता और धाता नामक पितरोंके सप्तविध गण, महान्, महात्मा, महित, महिमावान् और महाबल नामक पितरोंके पञ्चविध गण और सुखद, धनद, धर्मद तथा भूतिद नामक पितरोंके चतुर्विध गण यही एकत्रिंशत् पितृगण, जो जगत्में व्याप्त है, तृप्त होकर सत्यका कल्याण करे। पितरोंके चार वर्षोंके विषयमें महाभारतके आदिपर्वमें लिखा है:—

“सोमपा नाम विभ्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।

वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणान्तु सुकालिनः ॥

सोमपा नामक पितृगण ब्राह्मणजातीय है, हविर्भुक् नामक पितृगण क्षत्रियजातीय है, आज्यप नामक पितृगण वैश्यजातीय है और सुरकालीन नामक पितृगण शूद्रजातीय हैं ।

पितरोंका कार्य जिस प्रकार आधिभौतिक सृष्टिकी रक्षा आदिके सम्बन्धसे माना गया है उसी प्रकार ज्ञानमयी सृष्टिके सरक्षणका पूर्ण भार ऋषियोंपर रक्खा गया है। नित्य पितरों और नित्य देवताओंके सदृश नित्य ऋषियोंका पद भी प्रत्येक ब्रह्माण्डमें नियत ही रहता है। हां, इसमें सन्देह नहीं कि मन्वन्तर और कल्पादिके भेदसे जिस प्रकार अनेक पितर और अनेक देवताके पदधारी व्यक्तियोंका परिवर्तन होता है उसी प्रकार ऋषियोंके पदधारी व्यक्तियोंका भी परिवर्तन यथानियम हुआ करना है। कार्यशैलीके विचारसे इतना अवश्य जानने योग्य है कि पितरोंके अवतार नहीं होते। जब पितरोंको अपना कोई विशेष कार्य सुसम्पन्न करना होता है, तो मातापिताके शरीरमें आविर्भूत होकर उन्हींको अपना अवतार बनाकर पितृगण अपना विशेष कार्य सुसम्पन्न करते हैं। परन्तु भगवद्रवतारकी नाई देवताओं और ऋषियोंके सब प्रकारके

अवतार हुआ करते हैं। ऋषियोंके विभाग सात प्रकारके हैं। यथा:—महर्षि, परमर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि और काण्डर्षि। व्यासादि महर्षि हैं, भेलादि परमर्षि हैं, कण्वादि देवर्षि हैं, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि हैं, सुश्रुतादि श्रुतर्षि हैं, ऋतुपर्णादि राजर्षि हैं और जैमिनि आदि काण्डर्षि हैं। प्रत्येक मन्वन्तरमें पृथक् पृथक् सप्तर्षि होते हैं। यथा:—स्वायम्भुव मन्वन्तरमें मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। स्वारोचिष मन्वन्तरमें ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर और चार्ववीर। उत्तम मन्वन्तरमें—प्रमदादि सप्त वशिष्ठके पुत्रगण। तामस मन्वन्तरमें—ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीरव। रैवत मन्वन्तरमें—हिरण्यरोमा, वेदश्रो, ऊर्ध्वबाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्जन्य और वशिष्ठ। चानुप मन्वन्तरमें—सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उन्नत, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। इत्यादि ये सब नित्य ऋषिगण हैं। वेदोंके मन्त्रद्रष्टा इस संसारके नैमित्तिक ऋषिगण इन्हीं ऋषियोंके अवतार-रूपसे समझे जा सकते हैं, यथा निरुक्तके दैवतकाण्डमें—‘एवमुच्चावचैरभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रद्रष्टयो भवन्ति’ अर्थात् उन्नत अवनत अधिकारमें ऋषियोंकी मन्त्र-द्रष्टि होती है। इसी दृष्टिसे युग युगमें वेद प्रकट होता है। अतः इस प्रकार कर्म तथा ज्ञानके सञ्चालक नित्यनैमित्तिक ऋषि, देव, पितरोंकी उपासना करना उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंका अवश्य कर्त्तव्य है।

इसके अनन्तर उन्नतिके और भी उच्च स्तरमें यह चिन्ता स्वयं ही आने लगती है कि विश्वका सञ्चालन अलग अलग प्राकृतिक जड़ वस्तु पर अधिष्ठान करनेवाले अलग अलग दैवी विभूतियोंके ही अधीन है, अथवा समस्त विश्वके मूलमें कोई अद्वितीय चेतन सत्ता है जिसकी ही थोड़ी थोड़ी शक्तिको लेकर इस प्रकार देवता, ऋषि और पितृगण कार्य किया करते हैं। और यदि कोई इस प्रकार अद्वितीय विश्वव्यापी चेतनसत्ता है तो उसका अनुभव हो सकता है कि नहीं। हर्वर्ट स्पेन्सरप्रमुख पश्चिमीय परिदितोंने इस प्रश्नके उत्तर देनेमें असमर्थ होकर यही कह दिया कि it is beyond the range of comprehension अर्थात् सर्वव्यापक कोई चेतन शक्ति अवश्य है किन्तु उसको जानना असम्भव है। आत्मिकी बात यह है कि where their philosophy ends ours begins अर्थात् जहाँ उस देशके दार्शनिकगण असमर्थ होकर परमात्मा अनुभवसे परे हैं वैसे कह कर छोड़ देते हैं वहीसे हमारे देशके पूज्य महर्षियोंकी विचारधारा

प्रारम्भ होती है और शतमुखी गङ्गाकी तरह वह धारा प्रचण्ड गम्भीर वेगसे बहकर अन्तमे सच्चिदानन्द समुद्रमें ही जा मिलती है । उन्नतिके उच्च स्वरमे पहुँच कर ज्ञानपिपासु जीवको यह पता लग जाता है कि कोई अद्वितीय चेतनसत्ता अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमें सर्वत्र व्याप्त है, देवता ऋषि आदिकी शक्ति उसीकी शक्ति है और वह तीन प्रकारसे साधकोंकी दृष्टि या अनुभवके मार्गमें आ सकती है । एक माया पर अधिष्ठान करके स्थूल रूप धारण द्वारा यथा श्रीगीतामें—

अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृक्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

जन्मरहित, अव्यय तथा जीवोंका अधीश्वर होने पर भी प्रकृतिको अपने वशमें करके मायाके आश्रयसे परमात्मा शरीरधारी बनते हैं । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोंके नाशके लिये और युगानुसार धर्मधाराको व्यवस्थित करनेके लिये इस प्रकारसे प्रति युगमें उनका अवतार होता है । और भी श्रीमद्भागवतमे—

कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं चाखिलात्मनाम् ।
 जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥

कृष्ण भगवान् सकल जीवोंके भीतर व्याप्त परमात्मा है, जगत्के कल्याणके लिये मायाका आवरण ऊपर डालकर शरीरधारीकी तरह दीखते हैं । उनका दूसरा रूप सगुण ब्रह्म ईश्वरका है जो तत्त्वभेदानुसार विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपति इन पाँच मूर्त्तियोंमे प्रकट होता है और उनका तीसरा रूप निर्गुण, निराकार अव्यक्त अचिन्त्य परब्रह्म है जो कि योगियोंको निर्विकल्प समाधि दशामें अनुभवमें आता है । अवतारके मावको लेकर बौद्धधर्मवालोंने उपासनाका मार्ग निकाला है और जैनधर्मवालोंने भी तीर्थङ्कर आदि विभूतियोंकी और उनके आदिपुरुष ऋषभदेवकी पूजाकी प्रतिष्ठा की है । अन्य धर्ममतोंमें कही पर परमात्माके पुत्र और कही पर परमात्माके दूत रूपसे इसी भावका ही इक्षित किया गया है । और सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्मका यथार्थ तत्त्व आर्यशास्त्रमे ही पूर्ण रूपसे वर्णित तथा योगबलसे अनुभवगम्य सिद्ध किया गया है । इस प्रकारसे उपासनाके क्रमोन्नत सप्त अधिकारोंमें परमात्मासे शक्तिलाभ

करनेकी, ज्ञानलाभ करनेकी और शाश्वत सुखलाभ करनेकी विधियाँ वर्णित की गई हैं और इन्हीं विधियोंके भीतर ही जैसा कि ऊपर बताया गया है, संसारके समस्त सम्प्रदाय, समस्त पन्थ और समस्त मजहब या धर्ममत समाविष्ट किये जा सकते हैं। अवतारके रहस्यके विषयमें आगेके प्रकरणमें विस्तृत वर्णन किया जायगा ।

पहिले ही कहा गया है कि अभावकी पूर्तिके लिये मनुष्योंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हम लोग अपने ही दोषसे नित्य नवीन अभावोंकी सृष्टि करते हैं। योगशास्त्रमें लिखा है—

देहाद् वहिर्गतो वायुः स्वभावाद् द्वादशाङ्गुलिः ।
 गायने षोडशाङ्गुल्यो भोजने विंशतिस्तथा ॥
 चतुर्विंशाङ्गुलिः पान्थे निद्रायां त्रिंशदङ्गुलिः ।
 मैथुने षट्त्रिंशदुक्तं व्यायामे च ततोधिकम् ॥
 आयुक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चान्तराद्गते ।
 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत् ॥

मनुष्योका स्वाभाविक श्वास १२ अंगुल है। जिसके हिसाबसे दिनरात भरमें २१६०० बार श्वास चलता है। श्वासके साथ प्राणका सम्बन्ध रहनेसे श्वासका परिमाण जितना घटता है आयु उतनी बढ़ती है और श्वासका परिमाण जितना अधिक होता है आयु उतनी घटती है। प्राणायामादि द्वारा कुम्भक अभ्यास करनेसे श्वास घटता है, १२ अंगुलसे ११, १०, ९, ८ इत्यादि हो जाता है, जिससे योगीकी आयु तथा शक्ति बढ़ती है। किन्तु शरीरमें किसी प्रकारका वेग उत्पन्न होते ही श्वासका परिमाण बढ़ जाता है। इसी कारण काम, क्रोध, लोभ, मोहादि वृत्तियोंके वशीभूत स्त्री पुरुष रोगी तथा अल्पायु होते हैं। हम लोग वृत्तियोंके वशमें होकर रातदिन इस तरह आयु तथा शक्तिको खोते हैं, किंतु इसकी पुष्टि तथा पुनः प्राप्तिका भी क्या कोई उपाय है ? इसी उपायके खोजमें ही सगुण ब्रह्मोपासनाका रहस्य है।

केनोपनिषदमें एक मन्त्र आता है, यथा:—

इह त्रैदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।
 भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान्नोकादमृता भवन्ति ॥

मनुष्यजन्म पाकर यदि परमात्माको उपलब्धि हुई तभी जन्म सार्थक हुआ, नहीं तो सभी कुछ नष्ट हुआ जानना चाहिये, इसलिये धीरे पुरुषगण साधना द्वारा सकल भूतोंमें ब्रह्मका अनुभव करने अमृतत्व लाभ करने है । श्रीभगवान् शंकराचार्यने भी कहा है—

लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभं

तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् ।

यः स्वात्ममुक्त्यै न यतेत मूढधीः

स आत्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात् ॥

नीचेकी अनेक योनियोंमें घूमनेके बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म हुआ, पुरुष-योनियों भी जन्म मिला, शास्त्रमें भी प्रवेशलाभ हुआ, फिर भी जो मन्त्रमति जीव मोक्षलाभके लिये, परमात्माके साक्षात्कारके लिये यत्न नहीं करता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है । इसी आत्महत्यारूपी महापापसे जीवको बचाकर परमानन्दमय अमृतपदका आस्वादन करानेके लिये सगुणब्रह्मोपासनाके अन्तर्गत मूर्त्तिपूजा ही प्रथम सोपानरूप है । अज्ञानो जीवको ज्ञानकी पिपासा स्वाभाविक है, दुर्बल जीवको बलियान् बननेकी लालसा स्वाभाविक है, दुःखी जीवको सुखकी लालसा स्वाभाविक है, अज्ञायु जीवको चिरायुः बननेकी इच्छा स्वाभाविक है । अतः जिस प्रकार अग्निके समीप जानेसे शरीरमें स्वभावतः ही उत्तापका सञ्चार होता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप, आनन्दरूप, सर्वशक्तिमान्, चिर अमर परमात्माके समीपस्थ होकर ज्ञान-सुख-शक्ति-शान्ति तथा चिर अमरता लाभ करके मनुष्यजन्मको सार्थक करनेके लिये ही मूर्त्तिपूजाका विधान किया गया है । इसी सत्यको प्रमाणित करनेके लिये विसचफ साहब लिखते हैं, यथा—

Man is the greater radio and is able to connect himself with the Higher Force. When this is once rightly demonstrated and understood, it will turn him from slave to Master. Then man comes to himself and comprehends the fact that he is the Son of Man and knows that in himself lies all force. He is a Master Force and all the elements will hear his voice (Fred, F, Bischoff—Kalpaka 1-1928)

मनुष्यके भीतर यह योग्यता है कि सर्वशक्तिमान् परमात्माके साथ अपने आत्माका सम्बन्ध जोड़ ले । इस तत्त्वके ठीक समझने और कर लेने पर मनुष्य देवता बन सकता है । उस समय मनुष्यको यह अनुभवमें आ जाता है कि वह दिव्यशक्तिका केन्द्र बन गया है, वह स्वयं महान् शक्तिमान् है और तभी प्राकृतिक समस्त पदार्थ उसको आह्लासे कार्य करेगे ।

श्रीभगवान् मनुने कहा है—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि सम्प्रवर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोबलम् ॥ (मनु. द्वि. अ १२१)

वृद्धों तथा पूज्योंके चरणस्पर्श तथा नित्य प्रणाम सेवा करने-वालोंमें उनकी चार शक्ति-आयु-विद्या-यश-बलकी प्रवेश करती है । जब लौकिक गुरुओंको पूजा करनेसे आयु, ज्ञान, यश, बल मिलते हैं तो जगद्गुरु परमात्माकी पूजा करनेसे ये शक्तियाँ अवश्य ही प्राप्त होंगी और भक्त भगवान्-की पूजा करके आनन्दमय मोक्षलाभ अनायास ही कर सकेंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है ।

किन्तु परमात्मा दीखते नहीं, बहुत दूर है, प्रकृतिसे परे है, उनके पास एकाएक कैसे जाया जाय, उपासना किस तरह की जाय, ऐसे प्रश्नोंके उत्तरमें ही श्रीभगवान्ने अर्जुनको गीताके द्वादशाध्यायमें साकार निराकार उपासनाका रहस्य बताया था, यथा—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे भक्ततमा मताः ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥

जो लोग मेरी साकार मूर्तिमें मन बांधकर एकान्तरति हो प्रेम भक्तिके

साथ पूजा करते हैं वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं । मन, वचन, बुद्धि तथा प्रकृतिसे परे, सर्वव्यापी, अक्षर, निर्गुण, निराकार परमात्माको जो उपासना करता है, वह तभी उनको पा सकता है, जबकि उसकी समस्त इन्द्रियां पूरे वशमें आ जायं, सर्वत्र समबुद्धि प्राप्त हो और सकल जीवोंके हितमें चित्त मग्न हो जाय । इतना होने पर भी निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति बहुत ही क्लेशसे होती है । क्योंकि 'मेरा शरीर, मेरी इन्द्रियां' इस प्रकार देहके प्रति अभिमानसे युक्त जीव निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति बहुत ही दुःखसे कर सकता है । श्रीमद्भगवान्के इन वचनोसे निश्चय होता है कि जबतक इन्द्रियां पूरी वशमें न आ जाय और देहाभिमान नष्ट होकर पूर्ण वैराग्यकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक निराकारकी उपासना असम्भव है । इसी कारण मध्यम अधिकारीको सुविधाके लिये महर्षियोंने साकार मूर्त्तिपूजा बतलाई है । जिस प्रकार यदि कोई मनुष्य सूर्यका अधिक उत्ताप लेना चाहे तो उसके लिये कर्त्तव्य होगा कि दोनों हाथोंमे पख बांध कर सूर्यके समीप उड़ कर जानेकी कोशिश करे और यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो सीधा उपाय यह है कि एक आनशी सीसा (medium) लेकर सूर्यके सामने धरे और जहां उसका उत्ताप केन्द्रीभूत (focus) हो वहांसे उत्तापको लेवे, ठीक उसी प्रकार जिस साधकमें ज्ञान और वैराग्यका पख जम गया है वही सीधा निराकारके पास उड़कर जा सकता है । नहीं तो मूर्त्तिरूपी केन्द्र या आश्रय (medium) के द्वारा ही परमात्माकी शक्तिको प्रकट करके उपासना करना ही युक्तियुक्त होगा । यही मध्यम अधिकारीके लिये मूर्त्तिपूजा बतानेका हेतु है ।

मूर्त्ति तो पत्थर, लकड़ी, लोहे आदिकी होती है । उसकी पूजासे भगवान्की पूजा कैसे होगी ? यह प्रश्न हो सकता है । इसका उत्तर यह है कि हम मूर्त्ति 'की' पूजा नहीं करते हैं किन्तु मूर्त्ति 'में' पूजा करते हैं । हम प्रतिमाके मसाले पत्थर, लकड़ी आदिकी पूजा या स्तुति नहीं करते हैं, किन्तु इन मसालोंसे प्रतिमा बनाकर उसमे परमात्माकी शक्तिको प्रकट कर उस दिव्य शक्तिकी पूजा स्तुति करते हैं । श्रीमद्भगवन्में आठ प्रकारकी प्रतिमा बतलाई गई है, यथा:—

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती ।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥

पत्थरकी प्रतिमा, काष्ठनिर्मित प्रतिमा, लोहेकी प्रतिमा, लेपन द्वारा बनाई हुई प्रतिमा, चित्राङ्कित प्रतिमा, बालूकी प्रतिमा, मानसी प्रतिमा और मणिकी प्रतिमा—ये आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ हैं। इनमें वैदिक प्राणप्रतिष्ठाकी प्रक्रियासे परमात्माकी शक्ति आकर्षित की जाती है। कापिल तन्त्रमें लिखा है:—

गवां सर्वाङ्गं क्षीरं सवेत् स्तनमुखाद् यथा ।

तथा सर्वाग्रतो देवः प्रतिमादिषु राजते ।

जिस प्रकार गऊ माताके समस्त शरीरमें उत्पन्न हुआ दूध स्तनके द्वारा निकलता है, उसी प्रकार परमात्माकी सर्वव्यापक शक्ति प्रतिमामें अधिष्ठान करती है। यह शक्ति आनी किस विधिसे है इस विषयमें लिखा है:—

आभिरूप्याच्च विम्बस्य पूजायाश्च विशेषतः ।

साधकस्य च विश्वासाद् देवतासन्निधिर्भवेत् ॥

प्रतिमाके ध्यानानुसार सुन्दर तथा ठीक ठीक बननेसे, प्राणप्रतिष्ठा और पूजा विशेषरूपसे होनेसे तथा भक्तोंमें श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा होनेसे प्रतिमामें दिव्यशक्ति आ जाती है। प्रह्लादमें विश्वास और भक्तिकी शक्ति थी इसीसे उन्होंने भगवान्की दिव्य शक्तिको नृसिंहरूपसे स्तम्भके द्वारा प्रकट करा दिया था। भगीरथमें तपस्याकी शक्ति थी, तभी उन्होंने स्वर्ग से गङ्गादेवीकी दिव्य शक्तिको मृत्युलोकमें आकर्षण किया था। इसी प्रकार पूजाकी शक्ति, भक्तोंकी विश्वास-भक्तिरूपी विपम (negative) शक्ति भगवान्की सम (positive) शक्तिको प्रतिमारूपी आधार (medium) द्वारा आकर्षण करती है। Negative positive का इस प्रकार परस्पर आकर्षण सायन्समें प्रसिद्ध है। इस प्रकार ठीक ठीक आकर्षण होनेपर प्रतिमा चमकने लगती है और उसमें अनेक चमत्कार भी देखनेमें आते हैं, यथा—सामवेदके ३६३वें ब्राह्मणमें लिखा है:—

देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति
स्विद्यन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति ।

देवताओंके स्थान कांपते हैं, देव प्रतिमा हंसती है, रोती है, नाचती है, किसी अङ्गमें स्फुटित हो जाती है, पसीजती है, नेत्र खोलती है, बन्द करती है। और भी अथर्ववेदमें—(२—१३—४)

एहि अश्मानमातिष्ठ अश्मा भवतु ते तनु ।

हे भगवन् ! आश्रो इस पाषाणनिर्मित प्रतिमामें अधिष्ठान करो, तुरहारा शरीर यह पाषाणमयी प्रतिमा हो जाय ।

इन सब प्रमाण तथा विचारोंसे सिद्ध हुआ कि हम लोग मूर्त्तिकी पूजा नहीं करते हैं, हम 'बुनपरसन' नहीं हैं, किन्तु मूर्त्तिमें भगवान्की दिव्य शक्तिको प्राण प्रतिष्ठा द्वारा आकर्षित करके उस शक्तिकी पूजा करते हैं और इस प्रकार मूर्त्तिरूपी आधारके द्वारा परमात्माके समीप पहुँचनेपर हमें आयु, ज्ञान, विद्या, शक्ति तथा आनन्द प्राप्त होता है और अन्तमें मोक्ष मिलता है ।

प्राणप्रतिष्ठाके प्रमाणमें 'आभिरूप्याच्च विम्बस्य' यह जो शब्द कहा गया है इसका भावार्थ विचार करने योग्य है । इसका भावार्थ यह है कि प्रतिमा यदि सुन्दर तथा ध्यानके अनुसार हो तभी उसमें प्राणप्रतिष्ठा द्वारा भगवान्की शक्ति आती है । विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश आदिके जो कुछ ध्यान शास्त्रमें मिलते हैं वे किसीकी कपोलकल्पना नहीं हैं, किन्तु प्रकृतिके साथ उन देवताओंका जिस प्रकार सम्बन्ध है उसीके अनुसार ही उनके ध्यानानुकूल मूर्त्तियां बनाई जाती हैं । दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी जो मूर्त्तियां बनाई जाती हैं वे उनके सृष्टि स्थिति प्रलय कार्यके अनुसार ही हैं । ईश्वर प्रकृतिके रजोगुणके साथ मिलकर ब्रह्मारूपसे संसारकी सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुणके साथ मिलकर विष्णुरूपसे संसारकी स्थिति करते हैं और तमोगुणके साथ मिलकर रुद्ररूपसे संसारका प्रलय करते हैं । इन्हीं क्रियाओंके अनुसार ही ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी मूर्त्तियां बनी हुई हैं । सृष्टि रजोगुणसे होनी है, रजोगुणका रङ्ग लाल है इसलिये ब्रह्माजीका रङ्ग भी लाल है । सृष्टि अन्तःकरणकी शक्तिसे होती है, अन्तःकरणके मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ये चार श्रद्ध हैं, इसी लिये ब्रह्माजीके भी चार मुख हैं । बिना ज्ञानकी सहायताके कर्म ठोक ठोक नहीं हो सकता है, कर्ममें गलती हो सकती है, इस कारण ज्ञानशक्तिरूपिणी सरस्वतीकी हृदयमें धारण करके तथा ज्ञानके सूचक वाहनरूपी हंसकी सहायतासे ब्रह्माजीने सृष्टि की । यही हंसवाहन तथा सरस्वती देवीके साथ उनके सम्बन्ध बतानेका हेतु है । सृष्टिकार्यमें नाभि मुख्य स्थान है, नाभिके बलसे ही सृष्टि होती है इसलिये परमात्माकी नाभिले सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माकी उत्पत्ति बतलाई गई है । इस प्रकारसे ब्रह्माजीकी मूर्त्ति

उनकी क्रियाके अनुसार बनाई जाती है। विष्णु स्थितिके देवता और रुद्र लयके देवता है। स्थिति विश्वकी यौवन दशा और लय वृद्ध दशा है। इस कारण विष्णु मूर्ति यौवनमयी तथा महेशमूर्ति वृद्ध बनाई जाती है। जो समस्त संसारको नष्ट करके श्मशान बनाते हैं उनका निवास घरमें न होकर श्मशानमें ही होना चाहिये, इस कारण शिव श्मशानवासी है। जीव तथा ससार प्रलयमें जलकर भस्म हो जाता है। इस कारण शिवजीके वदनमें भस्म लिपा हुआ है। शिव नाशकर्त्ता है इस कारण नाशकारी कालसर्प उनका भूषण है। चाहे कोई कितना ही बलवान् हो काल सभीका घध करता है, इस कारण सबसे बलवान् जन्तु शेरकी भी खाल खींचकर शिवजी पहने हुए हैं। अन्य पक्षमें स्थितिके देवता विष्णु पर्यङ्कपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनकी पदसेवा कर रही है, उनके सारे शरीरमें रत्नमय अलङ्कार हैं, वे सब स्थिति दशाकी शोभाके ही सूचक है। उनके चार हाथमें धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष प्रदानके लिये चक्र, गदा, पद्म और शङ्ख है। चक्रयुक्त हाथ धर्मका, गदायुक्त हाथ अर्थका, पद्मयुक्त हाथ कामका और शङ्खयुक्त हाथ मोक्षका सूचक है। उनके गलेमे माला इस लिये है कि—

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय !

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ (गीता)

जिस प्रकार एक ही सूत्रमें मालाके सव दाने रहते हैं, उसी प्रकार अद्वितीय भगवान् विष्णु सूत्ररूपसे सर्वत्र व्याप्त है और प्राकृतिक जीव उन्हीके ऊपर गूँथे हुए हैं। यही सब ध्यानानुसार विष्णुमूर्ति और शिवमूर्तिका तात्पर्य है। इसी प्रकार दुर्गामूर्तिमें भी अपूर्व भाव भरा हुआ है। दुर्गा परमात्माकी शक्ति है। परमात्मा सर्वव्यापक है इस कारण उनकी महाशक्ति भी दशोदिशामें व्याप्त है। इसीको सूचित करनेके लिये देवीके दस हाथ हैं। शक्ति धन, बल, विद्या और बुद्धि इन चार वस्तुओके बिना पूर्ण नहीं होती है, इस कारण महाशक्तिके एक और धनकी देवी लक्ष्मी और बलके देवता कार्तिकेय और दूसरी ओर- विद्याकी देवी सरस्वती तथा बुद्धिके देवता गणपति स्थित हैं। इस प्रकार पूर्णशक्तिसे सम्पन्न होकर ही देवी महिषासुरको मार रही है। महिषासुर तमोगुणका रूप है, तमोगुण रजोगुणके द्वारा ही दबाया जाता है। इस कारण रजोगुणरूपी सिंहके द्वारा महिषासुरको दबाकर सत्त्वगुणमयी देवी उसे मार रही है। यही देवी मूर्तिका भाव है। गणेश बुद्धिके अधिष्ठाता है

